

सचित्र  
श्रीमद्वाल्मीकि-रामायण

[ हिन्दीभाषानुवाद संहिता ]

अयोध्याकाण्ड-३

उत्तराखण्ड

अनुवादक

चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, प.म. द्वारका, प.म. प्रसाद,

प्रकाशक

रामनारायण लाल

पब्लिशर और बुकसेलर  
इलाहाबाद

१९२७

प्रथम संस्करण २००० ]

[ मूल्य २ ]



# अयोध्याकाण्ड के उत्तरार्द्ध

की

## विषय-सूची

चौवनवाँ सर्ग

५६३-५७३

गङ्गा-यमुना के सङ्गम-स्थल पर भरद्वाज के आश्रम में श्रीरामचन्द्रादि का पहुँचना । भरद्वाज को श्रीरामचन्द्र जी का अपने आगमन की सूचना दिलाना । भरद्वाज जी का आतिथ्य ग्रहण कर, श्रीरामचन्द्र जी का उनसे रहने के लिये किसी एकान्त स्थल के विषय में प्रश्न करना । उत्तर में भरद्वाज का चित्रकूटपर्वत पर रहने की मम्मति देना ।

पचपनवाँ सर्ग

५७४-५८२

भरद्वाज जी के वतलाये हुए मार्ग से श्रीरामचन्द्रादि का चित्रकूट की ओर प्रस्थान । यमुना के दक्षिणतट पर वटवृक्ष के नीचे सीता लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी का टिकना ।

छप्पनवाँ सर्ग

५८२-५९३

सीता सहित श्रीरामलक्ष्मण का चित्रकूट पहुँचना, वहाँ वाल्मीकि मुनि से भेंट और उनसे वार्तालाप । चित्रकूट पर लक्ष्मण जी का पर्णकुटी बनाना ।

सत्तावनवाँ सर्ग

५९३-६०१

श्रीरामचन्द्रादि को विदा कर और गुह से विदा माँग सुमंत्र का अयोध्या की ओर प्रयाण । राजमार्ग में पुर-

वासियों का आर्तनाद सुनते हुए दशरथ-सदन में उनका प्रवेश । श्रीरामचन्द्र जी के बिना तुमंत्र को आया देख, महाराज दशरथ और उनकी स्त्रियों का पुनः विलाप ।

अष्टावन्तवाँ सर्ग

६०२-६११

पुत्रों के वनप्रवेश का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ का मूर्च्छित होना । तदनन्तर किसी प्रकार सचेत होने पर महाराज दशरथ की तुमंत्र के साथ वावर्चात । तुमंत्र द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का संदेश महाराज दशरथ को सुनाया जाना ।

उनसठवाँ सर्ग

६११-६२०

श्रीरामचन्द्र जी के विश्व में अपने राज्य में बसने वालों के विश्वास का वृत्तान्त सुन, महाराज दशरथ का मूर्च्छित होना ।

साठवाँ सर्ग

६२०-६२६

पुत्रवासित्य के कारण पुत्र के वियोग का दृश्य दुःख सहने में असमर्थ कौशल्या जी को बत जाने का आग्रह करते देख, तुमंत्र जी का उनको समझाना ।

इकसठवाँ सर्ग

६२६-६३३

महाराज के सामने कौशल्या का विलाप ।

बासठवाँ सर्ग

६३३-६३८

सचेत होने पर महाराज दशरथ का कौशल्या जी से, अपने पूर्वद्वेष कर्मों का क्षरण करते हुए, वातालाप ।

तिरसठवाँ सर्ग ६३९-६५२

अन्ध-मुनि-पुत्र-वध सम्बन्धी अपनी पापकथा का कौशल्या जी से दशरथ जी का निरूपण करना ।

चौसठवाँ सर्ग ६५३-६७२

अन्धमुनि से महाराज दशरथ का अपने हाथ से मारे गये मुनिकुमार के वध का वृत्तान्त निवेदन करना । अपने सुत के मरण का दुस्संवाद सुन और दुःखी हो अन्धमुनि का महाराज दशरथ को शाप देना । महाराज दशरथ की मरणावस्था का वर्णन । महाराज के जीवन का अन्त ।

पैंसठवाँ सर्ग ६७२-६८०

महाराज के मर जाने पर उनको पत्नियों का रोनाधोना ।

छ्याछठवाँ सर्ग ६८०-६८८

कैकेयो की निन्दा कर के कौशल्या जी का विलाप । अमात्यों द्वारा महाराज के शव की रक्षा ।

सरसठवाँ सर्ग ६८८-६९९

मार्कण्डेयादि द्वारा सार्वजनिक सभा का बुलाया जाना और उसमें अराजक राज्य के दोषों का वर्णन ।

अड़सठवाँ सर्ग ६९९-७०५

वशिष्ठ जी की सम्मति से राजदूतों का भरत जी के बुलाने को भेजा जाना ।

उनसठवाँ सर्ग ७०५-७१०

ननिहाल में उदास भरत जी का अपने सुहृदों से पिड़ली रात के दुःस्वप्न का वर्णन करना ।

## सत्तरवाँ सर्ग

७११-७१९

इतने ही में अयोध्या के दूतों का भरत जी के सामने पहुँचना । दूतों ने भरत जी द्वारा कुशलप्रश्न पूँछा जाना । दूतों के साथ भरत गन्धुन का अयोध्या की ओर प्रस्थान ।

## इकहत्तरवाँ सर्ग

७१९-७३१

कैकय देश से बड़ी हड़बड़ी में प्रस्थान कर, भरत जी का उदास अयोध्या में पहुँच वहाँ की शोष्य निरानन्दमयी दशा को देखना ।

## बहत्तरवाँ सर्ग

७३२-७४५

पिता के भवन में पिता के दर्शन न पाकर भरत का कैकेयी के भवन में जाना और वहाँ अपनी जननी के मुख से अपने पिता की मृत्यु का संवाद एवं अपने को राज्य दिलाने के लिये, श्रीरामचन्द्र जी के निर्वासन का वृत्तान्त सुनना ।

## तिहत्तरवाँ सर्ग

७४५-७५२

माता के वचनों को सुन शोकसन्तप्त भरत जी शोका-वस्था का वर्णन ।

## चौहत्तरवाँ सर्ग

७५२-७६२

भरत द्वारा कैकेयी का फटकारा जाना ।

## पचहत्तरवाँ सर्ग

७६२-७८१

विलाप करते हुए भरत का कण्ठस्वर पहचान, कौशल्या का सुमित्रा जी को भेज कर, भरत को अपने निकट बुल-

वाना । कौशल्या जी के सामने भरत जी का अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये शपथ खाना । -

छिहत्तरवाँ सर्ग

७८१-७८७

वशिष्ठ जी के समझाने बुझाने पर भरत जी का पिता जी के शव का दाहकर्म करने को प्रवृत्त होना ।

सत्तरवाँ सर्ग

७८७-७९३

महाराज दशरथ के शव का प्रतिकर्म पिता के गुणों को स्मरण कर, भरत शत्रुघ्न का विलाप करना ।

अठत्तरवाँ सर्ग

७९३-८००

पूर्वद्वार पर खड़े हुए और आपस में बातचीत करते हुए भरत शत्रुघ्न का कुञ्जा को देखना और भरत द्वारा शत्रुघ्न का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाना, तब रोप में भर शत्रुघ्न का मन्थरा को धिँसीटना ।

उन्नासीवाँ सर्ग

८००-८०४

राजकर्मचारियों द्वारा राजगद्दी पर बैठने की प्रार्थना किये जाने पर, भरत जी का उसे अस्वीकार करना और श्रीरामचन्द्र जी को वन से लाने के लिये वन जाने को इच्छा प्रकट करना और मार्ग ठीक करने को कारीगरों को भेजने की आज्ञा देना ।

अस्सीवाँ सर्ग

८०५-८११

भूप्रदेश-विशेषज्ञों द्वारा मार्ग की मरम्मत ।

इक्यासीवाँ सर्ग

८११-८१५

प्रातःकाल होने पर मागधवन्दीजनों द्वारा अपनी स्तुति सुन, भरत जी का उनको वर्जना और स्वयं विलाप करना ।

## व्यासीवाँ सर्ग

८१५-८२४

सभा में बैठे हुए मध्यस्थों द्वारा भरत जी से अभिप्रेक कराने का अनुरोध किया जाना । उनके वचन को अस्वीकार कर, भरत का पास बैठे हुए सुमंत्र से वन जाने के लिये सेना तैयार करने की आज्ञा देना ।

## तिरासीवाँ सर्ग

८२५-८३१

अपने अनुयायियों के साथ भरत जी का गङ्गातट पर पहुँचना ।

## चौरासीवाँ सर्ग

८३२-८३६

गङ्गातट पर पड़ी हुई भरत की सेना को देख और यह सोच कि भरत, श्रीरामचन्द्र जी को मारने जाते हैं, गुह का अपने अनुयायियों को एकत्र करना । तदनन्तर गुह का भरत जी को फल फूलों की भेंट देना ।

## पचासीवाँ सर्ग

८३६-८४२

भरद्वाजाश्रम का मार्ग जानने के लिये भरत का गुह से प्रश्न । भरत और गुह का वार्तालाप ।

## छ्यासीवाँ सर्ग

८४३-८४९

भरत के प्रति गुह का लक्ष्मण जी के गुणों का वर्णन करना ।

## सत्तासीवाँ सर्ग

८४९-८५६

गुह की बातें सुन झुंझित भरत जी का कौशल्या जी को समझाना । भरत को गङ्गातट पर गुह द्वारा श्रीरामलक्ष्मण के टिकने का स्थान दिखलाया जाना ।



## अट्ठासीवाँ सर्ग

८५६-८६४

इङ्गुदी वृक्ष के नीचे गुह की दिखलायी श्रीरामचन्द्र जी की साथरी देख, भरत जी का विलाप करना ।

## नवासीवाँ सर्ग

८६५-८७१

सोकर उठने पर भरत का शत्रुघ्न जी से गुह द्वारा नावें मँगवाने की कहना और गुह का भरत के समीप आना । भरतादि का गङ्गा के पार होना ।

## नव्वेवाँ सर्ग

८७२-८७८

वशिष्ठ जी को आगे कर भरत का भरद्वाजाश्रम में प्रवेश । भरत और भरद्वाज जी का संवाद । भरद्वाज द्वारा भरत को श्रीरामचन्द्र जी के वसने का स्थान बतलाया जाना ।

## इक्यानवेवाँ सर्ग

८७८-८९८

अपने तपःप्रभाव से भरद्वाज द्वारा भरत और उनके लश्कर का आतिथ्य किये जाने के वृत्तान्त का वर्णन ।

## बानवेवाँ सर्ग

८९९-९०८

आतिथ्य ग्रहण करने के बाद भरत जी का भरद्वाज जी से विदा माँगना । मुनि का भरत जी को चित्रकूट का मार्ग बतलाना । भरद्वाज जी के पूँछने पर भरत जी का अपनी माताओं का परिचय देते हुए अपनी जननी कैकेयी की निन्दा करना । तब भरद्वाज जी का श्रीरामचन्द्र जी की वनयात्रा का प्रयोजन बतलाना । भरत जी का वहाँ से प्रस्थान ।

तिरानवेंवाँ सर्ग

९०८-९१५

दूर ही से भरत द्वारा चित्रकूट पर्वत पर श्रीरामचन्द्र जी का देखा जाना ।

चौरानवेंवाँ सर्ग

९१५-९२१

श्रीरामचन्द्र जी का सीता के प्रति चित्रकूट के वन की शोभा का वर्णन करना ।

पञ्चानवेंवाँ सर्ग

९२२-९२७

चित्रकूट के निकट बहने वाली मन्दाकिनी के तट की शोभा का वर्णन ।

छ्यानवेंवाँ सर्ग

९२७-९३४

भरत जी के सैन्य-चालन का शब्द सुन बनवासी पशु-पक्षियों का भयभीत हो इधर उधर भागना । यह देख श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को बुझाना । साज के वृक्ष पर चढ़ लक्ष्मण जी का भरत जी की सेना को देखना । ससैन्य भरत को आया हुआ देख, सशङ्कित हो लक्ष्मण जी का भरत के वध के लिये श्रीरामचन्द्र जी से अनुरोध करना ।

सत्तानवेंवाँ सर्ग

९३५-९४२

श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी को उनकी भूल बतलाना । लक्ष्मण जी का अपनी भूल पर लज्जित होना । श्रीरामाश्रम से दूर भरत जी का अपनी सेना को टहराना ।

अट्ठानवेंवाँ सर्ग

९४२-९४६

श्रीरामाश्रम की ओर गुह के साथ भरत जी का पैदल प्रस्थान करना ।

निन्यानवेंवाँ सर्ग १४६-१५७

पर्याशाजा में श्रीरामचन्द्र जी को देख भरत जी का  
उनको प्रणाम करना ।

सौवाँ सर्ग १५७-१७९

भरत के प्रति कुशल प्रश्न पूँढ़ने के मिस श्रीरामचन्द्र जी  
का राजनीति का उपदेश ।

एक सौ पहला सर्ग १८०-१८२

भरत का श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ के स्वर्ग-  
वासी होने का संवाद सुनाना ।

एक सौ दूसरा सर्ग १८२-१९४

पिता के मरने का दुस्संवाद सुन, श्रीरामचन्द्र जी का  
विलाप करना और जलाञ्जलि देने के लिये सब भाइयों का  
मन्दाकिनो के तट पर जाना ।

एक सौ तीसरा सर्ग १९४-१००२

वशिष्ठ जी को आने कर, महाराज दशरथ की रानियों  
का मन्दाकिनी के तट पर जाना । कौशल्या जी का सीता  
जी को धीरज वँधाना ।

एक सौ चौथा सर्ग १००३-१००९

श्रीरामचन्द्र जी का भरत जी से उनके वहाँ आने का  
कारण पूँढ़ना । इस पर वन से लौट कर अयोध्या में जा,  
राज्य करने के लिये भरत जी को श्रीरामचन्द्र जी  
से प्रार्थना । उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी का पिता के वचन  
का गौरव रखने तथा उनके सत्य की रक्षा करने के लिये  
अयोध्या जाना अस्वीकार करना ।

एक सौ पाँचवाँ सर्ग १००९-१०२१

“ पितृशोक को दूर कर तुम स्वयं राज्य करो ”—यह  
उपदेश श्रीरामचन्द्र जी का भरत को देना ।

एक सौ छठवाँ सर्ग १०२१-१०३०

श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिये भरत जी का प्रयत्न  
करना ।

एक सौ सातवाँ सर्ग १०३१-१०३६

विरादरी वालों के बीच बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी का  
भरत के गुणों की प्रशंसा करना ।

एक सौ आठवाँ सर्ग १०३७-१०४२

ब्राह्मणोत्तम जाचालि का नास्तिकवाद के सहारे श्रीरा-  
चन्द्र जी को लौटाने का प्रयास करना ।

एक सौ नवाँ सर्ग १०४२-१०५४

जाचालि की बातों का श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उत्तर ।

एक सौ दसवाँ सर्ग १०५४-१०६२

इत्थाकुकुल में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजगद्दी पर बैठते आये  
हैं, यह समझाने के लिये वंशानुचरित कथनपूर्वक वशिष्ठ  
जी का श्रीरामचन्द्र को कुलधर्मोपदेश ।

एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग १०६२-१०७१

वशिष्ठ के समझाने पर भी श्रीरामचन्द्र जी को लौटने  
के लिये तैयार न देख, भरत जी का अनशनव्रत धारण  
करने की तैयारी करना । तब श्रीरामचन्द्र जी का भरत को  
सान्त्वना प्रदान करना ।

एक सौ बारहवाँ सर्ग १०७१-१०७९

दशग्रीव-वधैषी महर्षि का भरत जी को समझाना कि,  
वे श्रीरामचन्द्र जी का कहना मान लें और अयोध्या में जा  
राज्य करें। इतने बड़े भारी राज्य का शासन करने के  
विचार से भयभीत भरत का श्रीरामचन्द्र जी की  
पादुकाओं का उनसे मांगना।

एक सौ तेरहवाँ सर्ग १०७९-१०८१

पादुका ग्रहण कर भरत जी को पुत्र भरद्वाजाश्रम में  
घराना। भरद्वाज जी का भरत के आवागमन की प्रशंसा  
करना। भरत जी का शृङ्गवेरपुर में पहुँचना।

एक सौ चौदहवाँ सर्ग १०८५-१०९२

भरत को अयोध्या में जाने पर वहाँ की दुर्दशा देख, भरत  
जी का विलाप करना।

एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग १०९२-१०९९

पुरोहित, मंत्री और पुरवासियों सहित भरत का  
नन्दिग्राम में प्रवेश और वहाँ पर पादुकाओं का पट्टा-  
भिषेक।

एक सौ सोलहवाँ सर्ग १०९९-११०६

अपने अपने आवासस्थानों को छोड़ कर भागे हुए  
ऋषियों का श्रीरामचन्द्र जी के सामने खर की दुष्टता का  
वर्णन करना।

एक सौ सत्रहवाँ सर्ग ११०६-१११३

श्रीरामचन्द्र जी का महर्षि अत्रि के आश्रम में गमन।  
अनुसूया को सीता जी का प्रणाम करना और अनुसूया जी  
का सीता को आशीर्वाद देना।

एक सौ अट्ठारहवाँ सर्ग

१११४-११२६

पातिव्रत्य धर्म के विषय में सीता और अनुसूया जी का परस्पर कथोपकथन । अग्निपत्नी अनुसूया का सीता को प्रीतिपुरस्कार । सीता का अनुसूया जी को अपने स्वयंवर का समस्त वृत्तान्त सुनाना ।

एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग

११२६-११३२

रात भर अग्निबाध्रम में रह कर, दूसरे दिन श्रीरामादि का मुनि से विदा माँग, दण्डकवन में प्रवेश करना ।

अयोध्याकाण्ड के उत्तरार्द्ध की विषय-सूची समाप्त हुई ।

---

॥ श्रीः ॥

## श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः

[नोट—सनातनधर्म के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायों में श्रीमद्रामायण का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ]

### श्रीवैष्णवसम्प्रदायः



कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।  
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकौकिलम् ॥ १ ॥  
वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।  
शृण्वन् रामकथानादं की न याति परां गतिम् ॥ २ ॥  
यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।  
अमृतस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ ३ ॥  
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।  
रामायणमडामाजारलं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ ४ ॥  
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।  
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ ५ ॥  
मनोजवं माखततुल्यवेगं  
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिष्ठम् ।  
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं  
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलोलं  
यः शोकवर्हि जनकात्मजायाः ।  
प्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां  
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ ७ ॥

प्राञ्जनेयमतिपाटलाननं  
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।  
पारिजाततरुमूलवासिनं  
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ ८ ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं  
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।  
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं  
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ ९ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।  
वेदः प्राचेतसादासीत्सान्नाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥

तद्रुपगतसमाससन्धियोगं  
सममधुरोपनतार्यवाक्यवद्धम् ।  
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं  
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥ ११ ॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं  
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् ।  
प्राजानुवाहुमरविन्दत्लायतानं  
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे  
मध्येषुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।



अग्रे वाचयति प्रभञ्जनस्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं  
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥१३॥

—:—

### माध्वसम्पदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।  
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥  
जङ्गमीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः ।  
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमास्यहम् ॥ २ ॥

षेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।  
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥

सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् ।  
सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम् ॥ ४ ॥

सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् ।  
जानकीजानिप्रनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् ॥ ५ ॥

अस्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा ।  
आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् ॥ ६ ॥

भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी  
जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः ।  
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा  
मम वचसि विश्रुतां सन्निधिं मानसे च ॥ ७ ॥

मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तत्रिध्वंसनविचक्षणः ।  
जयतीर्थाख्यत्राणिर्मासतां नो हृद्भ्वरे ॥ ८ ॥

चिद्वैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखाण्डितैः ।

गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्यवाक् ॥ ९ ॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षतम् ।

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ १० ॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।

शृयवन्रामकथानादं के त याति परां गतिम् ॥ ११ ॥

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।

अमृतसतं मुनिं वन्दे प्राचेत्समकरमवम् ॥ १२ ॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकांकुतराक्षसम्

रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १३ ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।

कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ १४ ॥

मनोजवं मादृततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्

वातात्मजं वानरयुधमुख्यं

श्रीरामकृतं शरसा नमामि ॥ १५ ॥

वल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं

यः शक्तिवर्हि जनकात्मजायाः ।

प्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ १६ ॥

प्राञ्जनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।

पारिजाततरुमूलवासिनं

भावयामि षवमाननन्दनम् ॥ १७ ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ १८ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १९ ॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ २० ॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयस्वम् ॥ २१ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥२२॥

वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः

व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च ।

धूतावधं सुखचित्तिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः

सानाथ्यं नो विदधदधिकं ब्रह्म नारायणाख्यम् ॥२३॥

भूषारत्नं भुवनवल्लयस्याखिलाश्चर्यरत्नं

लीलारत्नं जलाधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नम् ।

( ६ )

चत्वारलं जगति भजतां सत्सरोजधुरलं  
कौसल्याया लसतु मन हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् ॥ २४ ॥

महाव्याकरणाभ्योधिन्म्यमानसमन्दरम् ।  
कवयन्तं रामकीर्त्या हनुनन्तमुपात्महे ॥ २५ ॥

मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम् ।  
नानावीरसुवर्णानां निरुपाशमायिनं वमौ ॥ २६ ॥

स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे ।  
उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मन्त्रदुग्धाश्रये नमः ॥ २७ ॥

वाल्मीकैर्गौः पुनीयात्रो नहीधरपद्मभ्रया।  
यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्त्पर्णका इव ॥ २८ ॥

सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूत्ररामायणार्णवे ।  
विहरन्तो महीयांतः प्रीयन्तां गुरवो मन ॥ २९ ॥

हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् ।  
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत् ॥ ३० ॥

—\*—

स्मार्तसम्प्रदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।  
सन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥

वागोशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे ।  
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं ननानि गजाननम् ॥ २ ॥

श्रीर्भिर्यत्का चतुर्भिः स्फुटिकमणिमयीमङ्गमालां दधाना  
हस्तेनैकेन पद्मं सितनपि च शुक्रं पुस्तकं चापरेण ।

भासा कुन्देन्दुशङ्खफटिकमणिभिः । भासमानासमाना  
सा मे वाग्देवतेर्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।  
आरूढा कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ ४ ॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।  
शृण्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ ५ ॥

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।  
अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ ६ ॥

गोपदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।  
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ ७ ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।  
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ ८ ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं  
यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।  
आदाय तेनेव ददाह लङ्कां  
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ ९ ॥

प्राञ्जनेयमतिपाटजाननं  
काञ्चनाद्रिकमनोयविग्रहम् ।  
पारिजाततरुमूलवासिनं  
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ १० ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं  
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ ११ ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२ ॥

यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक्पिवत्यादरात्

वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु ।

जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं

संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥१३॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयच्चम् ॥ १४ ॥

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी ।

पुनातु भुवनं पुराया रामायणमहानदी ॥ १५ ॥

श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कलम् ।

काण्डप्राहमहामोर्न वन्दे रामायणार्णवम् ॥ १६ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनस्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम् ॥१८॥

( ६ )

वामे भूमिसुता पुण्ड्रश्च हनुमान्पश्चात्सुमिश्रास्तुतः  
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाद्यादिकोणेषु च ।  
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारास्तुतो जाम्बवान्  
मध्ये नीलसरोजकोमलखर्चिं रामं भजे श्यामलम् ॥११॥

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय  
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।  
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो  
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेश्यः ॥ २० ॥

—\*—









आसाय नगरी दिव्यामभिपिक्ताय सीतया ।  
 राजधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम् ॥

# श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्

—: \* :—

## अयोध्याकाण्डः

( उत्तरार्द्ध )

चतुःपञ्चाशः सर्गः

—: \* :—

ते तु तस्मिन्महावृक्ष उपित्वा रजनीं शिवाम् ।

विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद्देशात्प्रतस्थिरे ॥ १ ॥

इस प्रकार वे तीनों उस बड़े वटवृक्ष के नीचे रात बिता कर, प्रातःकाल विमल सूर्योदय होने पर वहाँ से रवाना हुए ॥ १ ॥

यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाऽभिप्रवर्तते ।

जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद्वनम् ॥ २ ॥

जहाँ पर श्रीगङ्गा और श्रीयमुना का सङ्गम होता था, वहाँ अर्थात् उस देश की ओर, उस महावन में हो कर वे चले जाते थे ॥ २ ॥

ते भूमिभागान्विविधान्देशांश्चापि मनोरमान् ।

अदृष्टपूर्वान्पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥ ३ ॥

वे यशस्वी दोनों भाई रास्ते में अनेक वन प्रदेशों और अनेक पहिले न देखे हुए और रमणीक देशों को देखते हुए चले जाते थे ॥३॥

---

१ भूमिभागान्—वनप्रदेशान् । ( गो०

यथा क्षेमेण<sup>१</sup> गच्छन्स पश्यंश्च विविधान्दृमान् ।

निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमव्रवीत् ॥ ४ ॥

इस प्रकार सुखपूर्वक रास्ते में उठते बैठते तथा अनेक प्रकार के फूले हुए वृक्षों की शोभा निरखते हुए, जब दिन थोड़ा रह गया तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा ॥ ४ ॥

प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुद्गतम्\* ।

अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः ॥ ५ ॥

हे लक्ष्मण ! देखो प्रयाग तीर्थ की ओर जो धुआ उठ रहा है, वह मानों भगवान् अग्नि देव की पताका फहरा रही है । इससे जान पड़ता है कि, भरद्वाज जी का आश्रम भी यहीं कहीं पास ही है ॥ ५ ॥

नूनं प्राप्ताः स्म सम्भेदं<sup>२</sup> गङ्गायमुनयोर्वयम् ।

तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिघट्टजः† ॥ ६ ॥

हम लोग गङ्गा यमुना के संगम के समीप निश्चय ही आ पहुँचे हैं, क्योंकि दोनों नदियों के जलों की टक्कर से उत्पन्न शब्द साफ सुनाई दे रहा है ॥ ६ ॥

दारुणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः ।

भरद्वाजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥

यहाँ के वन में से लकड़ी इत्यादि काट कर बेचने वालों ने लकड़ियाँ काटी हैं । देखो भरद्वाज जी के आश्रम में ये नाना प्रकार के वृक्ष कटे हुए देव पड़ते हैं ॥ ७ ॥

१ क्षेमेण—उपविश्योत्थायच शनैः शनैः त्वेच्छानुरोधेन सम्पश्यन् सम्पश्यन् । ( रा० ) २ सम्भेदं—संगमं । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ धूम-मुद्गतम् ” † पाठान्तरे—“ वारिघट्टतः ” ।

ध्रन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे ।

गङ्गायमुनयोः सङ्घौ<sup>१</sup> प्रापतुर्निलयं मुनेः ॥ ८ ॥

इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए दोनों धनुर्धारी भाई ; सूर्य के द्विपते द्विपते सङ्गम पर स्थित भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचे ॥ ८ ॥

रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन्मृगपक्षिणः ।

गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ॥ ९ ॥

आश्रम में दो धनुर्धरों को आते देख, आश्रमवासी पशुपत्नी भयभीत हुए । इतने ही में श्रीरामचन्द्र जी एक मुहूर्त चल कर, भरद्वाज जी की ( कुटी के ) पास पहुँच गये ॥ ९ ॥

ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनेर्दर्शनकाङ्क्षिणौ ।

सीतयाऽनुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः ॥ १० ॥

तदनन्तर सीता सहित दोनों वीर भरद्वाज जी के दर्शन करने की अभिलाषा से, कुटी से कुछ दूर रुक गये । ( रुकने का कारण भूषण टीकाकार ने यह बतलाया है कि सन्ध्या का समय था । अतः उस समय ऋषिप्रवर अग्निहोत्र कर रहे-थे । कहीं उनके कार्य में विघ्न न पड़े, अतः कुछ देर वे ठहर गये, किन्तु जब अनुमति मिल गयी तब) ॥ १० ॥

स प्रविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणैर्दृतम् ।

२संशितव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषम् ॥ ११ ॥

१ सन्धौ—सङ्गमेवर्तमानं । २ संशितव्रतं—तीक्ष्णव्रतं । ( गो० )

फिर श्रीरामचन्द्र ( आदि ) आश्रम में गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने शिष्यों से घिरे, उग्र व्रतधारी एवं तपद्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान प्राप्त किये हुए, भरद्वाज जी को देखा ॥ १२ ॥

हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागं कृताञ्जलिः ।

रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया चाभ्यवादयत् ॥ १२ ॥

महाभाग ऋषि को अग्निहोत्र करते हुए देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण और सीता सहित हाथ जोड़ कर, प्रणाम किया ॥ १२ ॥

न्यवेदयत् चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः ।

पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् रामलक्ष्मणौ ॥ १३ ॥

और यह कह कर श्रीरामचन्द्र जी ने अपना परिचय दिया—  
हे भगवन् ! हम दोनों श्रीराम और श्रीलक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं ॥ १३ ॥

भार्या ममेयं वैदेही कल्याणी जनकात्मजा ।

मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता ॥ १४ ॥

और यह कल्याणी जानकी मेरी स्त्री और राजा जनक की पुत्री है और यह अनिन्दिता जानकी मेरे साथ विजन तपोवन में जाने के लिये आयी है ॥ १४ ॥

पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः प्रियः ।

अयमन्वगमद्भ्राता वनमेव दृढव्रतः ॥ १५ ॥

पिता ने मुझे वनवास दिया है और सुमित्रा देवी के पुत्र तथा—  
मेरे प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण दृढव्रत धारण किये हुए, मेरे पीछे हो लिये हैं ॥ १५ ॥

पित्रा नियुक्ता भगवन्प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम् ।

धर्ममेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ १६ ॥

हे भगवन् ! हम लोग पिता के आदेशानुसार तपोवन में प्रवेश करेंगे और वहाँ फलमूल खा कर धर्माचरण करेंगे ॥ १६ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ।

उपानयत<sup>१</sup> धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः ॥ १७ ॥

धर्मात्मा भरद्वाज ने धीमान् राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन कर, उनको मधुपर्क, अर्घ्य और चरण धोने को जल रखा ॥ १७ ॥

[ श्रीरामचन्द्र जी को राजकुमार का विशेषण आदिकवि ने इसलिये दिया है कि, भरद्वाज ने उनको मधुपर्क दिया था मधुपर्क देने का विधान स्मृत्यानुसार राजा को भी है । यथा—

गो मधुपर्काहो वेदाध्याय्याचार्यं ऋत्विक् स्नातको राजा वा धर्मयुक्तः  
इति । ]

नानाविधान<sup>२</sup>न्नरसान्वन्यमूलफलाश्रयान् ।

तेभ्यो ददौ तप्तपा वासं चैवान्वकल्पयत्\* ॥ १८ ॥

नाना प्रकार के वन के कन्दमूल, फल अन्न तथा रसीले पदार्थ उनके भोजन के लिये दिये और टिकने के लिये स्थान बतलाया । ( रसीले पदार्थ से अग्निप्राय शरवत से जान पड़ता है ) ॥ १८ ॥

मृगपक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः ।

राममागतमभ्यर्च्य स्वागतेनाह तं मुनिः ॥ १९ ॥

१ उपानयत—रामसमीपं प्रापयत । ( शि० ) २ अन्नरसान्—रस प्रधानान्वदार्थविक्षेवानित्यर्थः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“चैवाभ्यकल्पयत् ।”

सृग, पत्नी और मुनियों के बीच में बैठे हुए महर्षि भरद्वाज ने श्रीरामचन्द्र जी का स्वागत किया और उनसे कुशल पूँछी ॥ १९ ॥

प्रतिगृह्य च तामर्चामुपविष्टं स राघवम् ।

भरद्वाजोऽब्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ २० ॥

तदनन्तर, इस प्रकार महर्षि की पूजा ग्रहण कर के, आसीन श्रीरामचन्द्र जी से, भरद्वाज जी ने ये धर्मयुक्त वचन कहे ॥ २० ॥

चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागतम् ।

श्रुतं तव मया चेदं त्रिवासनमकारणम् ॥ २१ ॥

हे काकुत्स्थ ! बहुत दिनों बाद आज मैं तुम्हें पुनः इस आश्रम में आया हुआ देखता हूँ । मैंने सुना है कि, तुमको अकारण वन-वास हुआ है ॥ २१ ॥

अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे ।

पुण्यश्च रमणोयश्च वसत्विह भवान्सुखम् ॥ २२ ॥

अतः इन दोनों महानदियों के सङ्गम पर, इस एकान्त, पवित्र एवं रम्य स्थान पर आप सुखपूर्वक वास करें ॥ २२ ॥

एवमुक्तः स वचनं भरद्वाजेन राघवः ।

प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः ॥ २३ ॥

भरद्वाज के इन वचनों को सुन, सर्वहितैषी श्रीरामचन्द्र जी ने ये शुभ वचन कहे ॥ २३ ॥

भगवन्वित आसन्नः पौरजानपदो जनः ।

सुदर्शामिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम् ॥ २४ ॥

! सुदर्श—सुखेनदृष्टुंवाक्यं । ( गो० )



आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः ।

अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥ २५ ॥

हे भगवन् ! यह वासस्थान पुरवामियों को अत्यन्त निकट पड़ेगा । अतः मुझे और सीता जी को देखने के लिये लोग यहाँ आसानी से चले आया करेंगे । अतः मुझे यहाँ का रहना उचित नहीं जान पड़ता ॥ २४ ॥ २५ ॥

एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम् ।

रमेत यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा ॥ २६ ॥

हे भगवन् ! अतः मेरे रहने के लिये कोई ऐसा एकान्त और उत्तम स्थान आश्रम के लिये बतला दीजिये, जहाँ जानकी जी का मन लगे और ( यह ) सुखपूर्वक रह सके ॥ २६ ॥

एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो माहाशुनिः ।

राघवस्य ततो वाक्यमर्थग्राहक<sup>१</sup>मब्रवीत् ॥ २७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के इन शुभ वचनों को सुन, महर्षि भरद्वाज उनसे यह अर्थबोधक वचन बोले ॥ २७ ॥

दशक्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन्निवत्स्यसि ।

महर्षिसेवितः पुण्यः सर्वतः सुखदर्शनः ॥ २८ ॥

हे वत्स ! यहाँ से दस कोस पर तुम्हारे रहने योग्य एक पहाड़ है, जो महर्षियों से सेवित होने के कारण पवित्र है और उसके चारों ओर नयनाभिराम दृश्य है ॥ २८ ॥

१ अर्थग्राहक—अर्थबोधक । ( गो० )

१. अनुसूची के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत

जहाँ जहाँ यह प्रावधान लागू नहीं हो पाएगा वहाँ जहाँ प्रावधान लागू हो पाएगा

अनुसूची के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत

जहाँ जहाँ यह प्रावधान लागू नहीं हो पाएगा वहाँ जहाँ प्रावधान लागू हो पाएगा

अनुसूची के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत

जहाँ जहाँ यह प्रावधान लागू नहीं हो पाएगा वहाँ जहाँ प्रावधान लागू हो पाएगा

अनुसूची के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत

१. अनुसूची के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत

वह स्थान विल्कुल एकान्त है । मेरी समझ में तो आप वहाँ आराम से रहेंगे । अथवा हे राम ! वनवास की अवधि पूरी होने तक आप मेरे साथ मेरे आश्रम ही में रहिये ॥ ३२ ॥

स रामं <sup>१</sup>सर्वकामैस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम् ।

सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह धर्मवित् ॥ ३३ ॥

महर्षि भरद्वाज जो ने सीता और लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी का, अतिथि योग्य सत्कार कर, उनको अपने वश में कर लिया ॥ ३३ ॥

तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः ।

प्रपन्ना<sup>२</sup> रजनीं पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी का प्रयागक्षेत्र में महर्षि भरद्वाज जी के साथ समागम होने पर अनेक प्रकार की कथा वार्त्ता होते होते पुण्यमयी रात्रि हो गयी ॥ ३४ ॥

<sup>३</sup>सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः ।

भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम् ॥ ३५ ॥

सुख से रहने योग्य श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और तीसरी सीता अर्थात् तीनों मार्ग चलने की थकावट से कातर हो, रमणीक भरद्वाज के आश्रम में उस रात सुखपूर्वक वास करते हुए ॥ ३५ ॥

प्रभातायां रजन्यां तु भरद्वाजमुपागमत् ।

उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलिततेजसम् ॥ ३६ ॥

१ सर्वकामैः प्रतिजग्राह—अतिथियोग्यसत्कारैर्वशीकृतवान् । प्रतिजग्राह—उपचार । ( गो० ) २ प्रपन्ना—प्राप्ता । ( गो० ) ३ सीतातृतीयायत्यसः । ( शि० )

जब रात व्यतीत हुई और सवेरा हुआ, तब श्रीरामचन्द्र जी तपस्या के तेज से जाज्वल्यमान महर्षि भरद्वाज के पास गये और यह बोले ॥ ३६ ॥

शर्वरीं भवगन्ध सत्यशील तवाश्रमे ।

उषिताः स्मेह वसतिमनुजानातु<sup>१</sup> नो भवान् ॥ ३७ ॥

हे सत्यशील भगवन ! आज हमने आपके इस आश्रम में वस कर, रात ( बड़े आराम से ) बितायी । अब आप कृपा कर, हमें उस स्थान पर, जिसे आपने बतलाया है, जाने को आज्ञा दीजिये ॥ ३७ ॥

रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽब्रवीदिदम् ।

मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति ह ॥ ३८ ॥

उस रात के वीत जाने पर भरद्वाज जी ने यह कहा—अब आप मधु, मूल, फलयुक्त चित्रकूट पर्वत पर जाइये ॥ ३८ ॥

वासमौषयिकं मन्ये तव राम महाबल ।

नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३९ ॥

हे महाबली राम ! मेरी समझ में चित्रकूट ही आपके रहने योग्य ठीक स्थान है । क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, वहाँ किन्नर और नाग बसते हैं ॥ ३९ ॥

मयूरनादाभिरुतो गजराजनिपेवितः ।

गन्धतां भवता शैलश्चित्रकूटः स विश्रुतः ॥ ४० ॥

वहाँ मेरु बोला करते हैं और बड़े बड़े हाथी घूमा करते हैं, अतः आप उस प्रसिद्ध चित्रकूट पर्वत पर जाइये ॥ ४० ॥

१ अनुजानातु—आज्ञापयतु । (गो०)

पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः ।

तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चाभितः ॥ ४१ ॥

वह स्थान अति पवित्र, रमणीय और नाना प्रकार के फूल फलों से परिपूर्ण है। वहाँ कुजरो और मृगों के झुण्ड चरा करते हैं। उन्हें आप वहाँ देखेंगे ॥ ४१ ॥

विचरन्ति वनान्तेऽस्मिस्तानि द्रक्ष्यसि राघव ।

सरित्प्रस्रवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिर्दारान् ।

चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२ ॥

वहाँ की नदियों, झरनों, पर्वतशिखरों और कन्दराओं को देखते हुए, विचरण करने पर, तुम्हारा और सीता का मन बहुत प्रसन्न होगा ॥ ४२ ॥

प्रहृष्टकोयष्टि<sup>१</sup>ककोकिलस्वनै-

र्विनादितं तं वसुधाधरं शिवम् ।

मृगैश्च मत्तैर्वहुभिश्च कुञ्जरैः

सुरम्यमासाद्य समावसाश्रमम् ॥ ४३ ॥

इति चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥

उस पवित्र पर्वत पर टिटहरी और कोयलें प्रसन्न हो बोला करती हैं। उस पर अनेक मृग और बहुत से मत्त गज घूमा करते हैं। इस प्रकार के उस बड़े रमणीक पर्वत पर आप जा कर वास कीजिये ॥ ४३ ॥

अयोध्याकाण्ड का चौवनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



## पञ्चपञ्चाशः सर्गः

—:०:—

उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमौ ।

महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ ॥

शत्रुओं के दमन करने वाले श्रीराम और लक्ष्मण प्रयाग में उस रात रह कर, प्रातःकाल होते ही मुनि को प्रणाम कर, चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थानित हुए ॥ १ ॥

तेषां चैव स्वस्त्ययनं महर्षिः स चकार ह ।

प्रस्थितांश्चैव तान्प्रेक्ष्य पिता पुत्रानिवान्वगात् ॥२॥

उनको वहाँ से यात्रा करते देख, महर्षि भरद्वाज ने उसी प्रकार उनका स्वस्त्यवाचन किया जैसे पिता अपने निज पुत्र का करता हो ॥ २ ॥

ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः ।

भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ३ ॥

तदनन्तर महातेजस्वी महर्षि भरद्वाज सत्यपराक्रमी श्रीराम-चन्द्र जी से कहने लगे ॥ ३ ॥

गङ्गायमुनयोः सन्धिमासाद्य मनुजर्षभौ ।

कालिन्दीमनुगच्छेतां<sup>१</sup> नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्<sup>२</sup> ॥ ४ ॥

---

१ अनुगच्छेतां—अनुसृत्यगच्छेतां । (गो०) २ पश्चान्मुखाश्रिताम्—पश्चिमाभिमुखौभूत्वागच्छेतां । ( गो० )

हे मनुजश्रेष्ठ ! इस गङ्गा यमुना के सङ्गम से, पश्चिम की ओर यमुना के किनारे किनारे आप जाइये ॥ ४ ॥

अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतसमापगाम् ।

तस्यास्तीर्थं<sup>१</sup> प्रचरितं<sup>२</sup> पुराणं प्रेक्ष्य राघवौ ॥ ५ ॥

आप लोग शीघ्र बहने वाली गङ्गा में मिलने वाली यमुना के किनारे किनारे चल कर, एक घाट देखेंगे, जो बहुत पुराना होने से टूटा फूटा है ॥ ५ ॥

तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतीं<sup>३</sup> नदीम् ।

ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम् ॥ ६ ॥

वहाँ पर घरनई बना कर तुम यमुना पार करना । तदनन्तर उस पार जाने पर एक बड़ा वरगद् का वृक्ष मिलेगा, जिसके हरे हरे पत्ते हैं ॥ ६ ॥

विवृद्धं बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम् ।

तस्मै सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिपः<sup>४</sup> शिवाः ॥७॥

वह बट वृक्ष अनेक वृक्षों के बीच में हैं, उसके पत्तों का रंग श्यामता लिये हुए हरा है और सिद्धों द्वारा वह सेवित है । वहाँ पहुँच कर, जानकी जी हाथ जोड़ कर, अपने शुभ मनोरथों के सफल होने के लिये प्रार्थना करें ॥ ७ ॥

समासाद्य तु तं वृक्षं वसेद्वाऽतिक्रमेत वा ।

क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं द्रक्ष्यथ काननम् ॥ ८ ॥

१ तीर्थ—अवतरणप्रदेश । ( गो० ) २ प्रचरितं—गमनागमनाभ्यामिति ह्युपणमित्यर्थः । ( गो० ) ३ आंशुमती—अंशुमतः सूर्यस्यापत्यभूता । ( गो० ) ४ प्रयुञ्जीता—प्रार्थयेत् । ( गो० ) ५ आशिपः—मनोरथान् । ( गो० )

या तो उस पेड़ के नीचे कुछ देर तक ठहर कर विश्राम कर लेना अथवा आगे को चले जाना । वहाँ से एक कोस आगे जाने पर नीलवन देख पड़ेगा ॥ ८ ॥

पलाशवदरीमिश्रं रम्यं वंशैश्च यामुनैः ।

स पन्याश्चित्रकूटस्य गतः सुवहुशो मया ॥ ९ ॥

उस वन में साल, जामुन और वेरी के अनेक वृक्ष हैं । वही मार्ग चित्रकूट को जाता है और उस मार्ग से मैं कितनी ही बार चित्रकूट गया हूँ ॥ ९ ॥

रम्यो भार्दवयुक्तश्च वनदार्वर्विवर्जितः ।

इति पन्थानमावेद्य महर्षिः संन्यवर्तत ॥ १० ॥

यह मार्ग रमणोक, कोमल ( अर्थात् कांटों कंकड़ों से रहित अथवा रतीला होने से कोमल ) है । उस वन में दावानल का भी भय नहीं है । इस प्रकार ( कुछ दूर साथ जा कर ) रास्ता बतला महर्षि भरद्वाज लौट आये ॥ १० ॥

अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ।

उपावृत्ते मुनौ तस्मिन्नरामो लक्ष्मणमब्रवीत् ॥ ११ ॥

और श्रीरामचन्द्र जी ने भी प्रणाम कर उनके विदा किया । जब भरद्वाज लौट गये, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा ॥ ११ ॥

कृतपुण्याः स्म सौमित्रे मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते ।

इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ ॥ १२ ॥



हे लक्ष्मण ! वास्तव में हम लोग 'बड़े पुण्यवान' हैं, तभी तो महर्षि भरद्वाज हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, दोनों मनस्वी पुरुषसिंह राजकुमार इस प्रकार बातचीत करते ॥ १२ ॥

सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम् ।

अथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्रोतोवहां नदीम् ॥१३॥

और सीता को आगे कर यमुना की ओर चले और शीघ्र वहने वाली यमुना के पास पहुँचे ॥ १३ ॥

चिन्तामापेदिरे सर्वे नदीजलतितीर्षवः ।

तौ काष्ठसङ्घाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् ॥ १४ ॥

वे सब उसको पार करने के लिये चिन्ता करने लगे । उन दोनों राजकुमारों ने बहुत सी लकड़ियाँ एकत्र कर एक बड़ा बेट्टा बनाया ॥ १४ ॥

शुष्कैर्वशैः समास्तीर्णमुशीरैश्च समावृतम् ।

ततो वेतसशाखाश्च जम्बूशाखाश्च वीर्यवान् ॥ १५ ॥

चकार लक्ष्मणश्छित्त्वा सीतायाः सुखमासनम् ।

तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां<sup>१</sup> रामो दाशरथिः प्रियाम् ॥१६॥

( वह बेट्टा किस प्रकार बनाया गया—यह बतलाते हैं । ) उन वीर्यवान् राजकुमारों ने प्रथम तो सूखे वाँसों को पास पास बाँध कर बेट्टा बनाया । फिर वाँसों की सन्धियाँ भरने को संघों में खस भरा । तदनन्तर लक्ष्मण जी ने उस पर वेत तथा जामुन की डालियाँ काट कर और बिछा कर सीता जी के आराम से बैठने के

१ अचिन्त्यां—अचिन्त्य सौन्दर्यां । ( गी० )

लिये आसन बना दिया । तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मी की तरह  
अचिन्त्य सौन्दर्यवती प्यारी सीता को ॥ १५ ॥ १६ ॥

ईषत्संलज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम् ।

पार्श्वे च तत्र वैदेह्या वसने भूपणानि च ॥ १७ ॥

जो ( पति के हाथ का सहारा पाने से ) कुञ्ज कुञ्ज लज्जायुक्त  
थीं, हाथ पकड़ कर उस वेड़े पर बैठाया । उनके पास ही उनके  
गहने कपड़े रख दिये ॥ १७ ॥

प्लवे कठिनकाजं<sup>१</sup> च रामश्चक्रे सहायुधैः ।

आरोप्य प्रथमं सीतां सङ्घाटं परिगृह्य तौ ॥ १८ ॥

फिर श्रीरामचन्द्र जी ने काठ के वेट की कुदाली और मृग-  
चर्म से मढ़ा हुआ पिटारा तथा अपने आयुध रखे । प्रथम सीता  
को उस पर बिठा दोनों भाइयों ने वेड़ा पकड़ कर चलाया ॥ १८ ॥

[ नोट—इससे स्पष्ट है कि, उस वेड़े पर केवल सीता जी बैठी थीं और  
साथ का सारा सामान रखा था । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण उस वेड़े को  
दोनों ओर से पकड़ कर जल पर तैरते हुए उस पार हुए थे । आगे के श्लोक  
में “ प्रतेरतुर्युक्तौ ” से यह बात समर्थित होती है । ]

ततः प्रतेरतुर्युक्तौ वीरौ दशरथात्मजौ ।

कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत ॥ १९ ॥

तदनन्तर दोनों वीर दशरथनन्दनों ने उस वेड़े में युक्त अर्थात्  
लग कर यमुना पार की । जब वेड़ा बीचोबीच धार में पहुँचा,  
तब सीता जी ने यमुना जी को प्रणाम किया ॥ १९ ॥

१ कठिनकाजं—कठिनकं कन्दमूलखननसाधनं भायसाप्रंदाह । काजं—  
अज्जचर्मपिनद्धं पिटकं । ( गो० )

स्वस्ति देवि तरामि त्वां १ पारयेन्मे पतिव्रतम् २ ।

यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च ॥ २० ॥

हे देवि ! हम लोग आपके पार जा रहे हैं। यदि मेरे पति का व्रत अर्थात् ( वनवास का सङ्कल्प ) निर्विघ्न पूरा हो गया, तो आपकी प्रसन्नता के लिये मैं एक हजार गायें दान कर तथा सौ घड़े सुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करूँगे ॥ २० ॥

स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् ।

कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः ॥ २१ ॥

सीता जी यमुना से हाथ जोड़ कर यह वर मांगती हुई कि, श्रीरामचन्द्रजी सकुशल इक्ष्वाकुपालित-अयोध्या में लौट आवें ॥ २१ ॥

तीरमेवाभि सम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी ।

ततः प्लवेनांशुमतीं शीघ्रगामूर्मिमालिनीम् ॥ २२ ॥

शीघ्रगामिनो और तरङ्गवती सूर्यपुत्रो यमुना को पार कर, उसके दक्षिण तट पर सीता जी पहुँची ॥ २२ ॥

तीरजैर्बहुभिर्वृक्षैः सन्तेरुयमुनां नदीम् ।

ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्यं प्रस्थाय यमुनावनात् ३ ॥ २३ ॥

वे यमुना के पार हो, उस बेड़े को त्याग कर, यमुना के तीर-वर्ती अनेक वृक्षों से युक्त वन में हो कर चले ॥ २३ ॥

श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम् ।

न्यग्रोधं तमुपागम्य वैदेही वाक्यमब्रवीत् ॥ २४ ॥

१ पारयेत्—समापयेत् । ( गो० ) २ मेपतिः व्रतं—वनवाससङ्कल्पं ।

( गो० ) ३ यमुनावनात्—यमुनातीरवनात् । ( गो० )

वे श्यामवर्ण और हरितपत्तों से युक्त, गीतज झाया वाले वरगद वृक्ष के नीचे पहुँचे। वटवृक्ष के पास पहुँच, जानकी जी कहने लगी ॥ २४ ॥

नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिर्ग्रतम् ।

कौसल्यां चैव पश्येयं सुमित्रां च यशस्विनीम् ॥२५॥

हे महावृक्ष ! मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति का व्रत पूरा कीजिये, जिससे मैं अपनी यशस्विनी कौशल्या और सुमित्रा के फिर दर्शन कर सकूँ ॥ २५ ॥

इति सीताऽञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छत्<sup>१</sup>वनस्पतिम् ।

अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम् ॥२६॥

दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमब्रवीत् ।

सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरताग्रज<sup>२</sup> ॥ २७ ॥

यह प्रार्थना कर और हाथ जोड़े हुए सीता जी ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। तब अनिन्दिता, प्राणप्यारी एवं अनुकूलवर्तिनी जानकी को इस प्रकार वर मांगते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भरत के छोटे भाई ! तुम सीता को अपने साथ ले आगे चलो ॥ २६ ॥ २७ ॥

पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सायुधो द्विपदांवर ।

यद्यत्फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा ॥ २८ ॥

हे नरैःत्तम ! मैं शस्त्र लिये पीछे पीछे आता हूँ। सीता जी जिस फल और जिस फूल को मांगे ॥ २८ ॥

१ पर्यगच्छत्—प्रदक्षिणं चकार। (गो०) २ भरताग्रजेतिबहुव्रीहिः। (गो०)

तत्तत्प्रदद्या वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः ।

गच्छतोऽनु तयोर्मध्ये\* वधौ च जनकात्मजा ॥ २९ ॥

वह फूल और फल जानकी को दे दिया करना, जिससे इसका मन वहला रहे । जानकी जी उन दोनों के बीच में वैसे चलने लगी ॥ २९ ॥

मातङ्गयोर्मध्यगता शुभा नागवधूरिव ।

एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम् ॥ ३० ॥

अदृष्टपूर्वां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ साऽवला ।

रमणीयान्वहुविधान्पादपान्कुसुमोत्कटान् ॥ ३१ ॥

सीतावचनसन्बन्ध आनयामास लक्ष्मणः ।

विचित्रवाल्मुकजलां हंससारसनादिताम् ।

रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम् ॥ ३२ ॥

जैसे हाथियों के बीच हथिनी चले । सीता प्रत्येक वृक्ष गुल्म और पुष्पित लता के बारे में जिन्हें सीता जी ने कभी नहीं देखा था, श्रीरामचन्द्र जी से पूँछती जाती थी । वहाँ पर तरह तरह के रमणीय वृक्ष और फूल लगे थे, जिनमें से जिसे सीता जी पसंद करतीं, लक्ष्मण जी उसे ला दिया करते थे । उस नदी को, जिसका वालुकामय तट और निर्मल जल था तथा जिसके तट पर हंस सारस मधुर शब्द कर रहे थे, देख कर, सीता जी प्रसन्न होती जाती थीं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

वहून्मेध्यान्<sup>१</sup>भृगान्हत्वा चेरतु<sup>२</sup>र्यमुनावने ॥ ३३ ॥

१ मेध्यान्—शुचीन् भक्ष्यागितियावत् । ( गो० ) २ चेरतुः भक्षितवन्तौ ।

चरगतिभक्षणयोः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—<sup>१</sup>वभूव । ॥

देनों भाइयों ने एक कोस चल कर तथा यमुना तीरवर्ती वन में  
अनेक पवित्र मृगों को मार कर, खाया ॥ ३३ ॥

विहृत्य ते वह्निणपूगना<sup>१</sup>दिते

शुभे वने वानरवारणायुते ।

२समं ३नदीवप्रमुपेत्य सम्मतं<sup>४</sup>

निवासमाजग्मुर्दीनदर्शनाः ॥ ३४ ॥

इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥

इस प्रकार देनों वीर भाइयों ने सीता सहित उस मनोहर  
वन में, जहाँ मोरों के झुंड के झुंड बोल रहे थे, तथा हाथी  
और बंदर घूम रहे थे; विहार कर, नदीतट पर एक सुन्दर  
समथर स्थान पर, जिसे सीता जी ने भी पसंद किया, निर्भय हो,  
वास किया ॥ ३४ ॥

अयोध्याकाण्ड का पचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

षट्पञ्चाशः सर्गः

—:०:—

अथ रात्र्यां व्यतीतायामवसुप्त<sup>१</sup>भनन्तरम्<sup>२</sup> ।

प्रवोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १ ॥

१ पृगः—समूहः । (गो०) २ समं—अनिद्रान्तं । (गो०) ३ नदीवप्रं—  
नदीतीरं । (गो०) ४ सम्मतं—निवासं सीताभिमतंवासस्थानं । (गो०)  
५ अवसुप्तं—ईपत् सुप्तं । (गो०) ६ अनन्तरम्—स्वप्नवोधानन्तरं । (गो०)

जब रात बीत गयी तब श्रीरामचन्द्र जी ने स्वयं जाग कर, अघोषते हुए लक्ष्मण को धीरे धीरे चैतन्य किया ॥ १ ॥

सौमित्रे शृणु वन्यानां<sup>१</sup> वल्गु<sup>२</sup> व्याहरतां स्वनम् ।  
सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप ॥ २ ॥

( श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ) हे लक्ष्मण ! देखो तो ये वन के तोंते, कोयल मीना आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर से चहक रहे हैं । हे परन्तप ! मार्ग चलने के लिये यही समय (अच्छा) है । अतः अब हमको यहाँ से चल देना चाहिये ॥ २ ॥

स सुप्तः समये भ्रात्रा लक्ष्मणः प्रतिवोधितः ।  
जहौ निद्रां च तन्द्रीं च प्रसक्तं च पथि श्रमम् ॥ ३ ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने जागने के समय लक्ष्मण जी को जगाया, तब वे, निद्रा जनित आलस्य को त्याग और रास्ता चलने की थकावट को दूर कर उठ खड़े हुए ॥ ३ ॥

तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा<sup>३</sup> नद्याः<sup>४</sup> शिवं जलम् ।  
पन्थानं<sup>५</sup> शृषिणाऽऽदिष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ४ ॥

तदनन्तर सब जनों ने उठ कर पवित्र यमुना जल में स्नानादि क्रिया पूरी की । फिर उन सब ने महर्षि भरद्वाज के वतलाये हुए पलाशवन में हो कर, चित्रकूट का रास्ता पकड़ा ॥ ४ ॥

ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह ।  
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमब्रवीत् ॥ ५ ॥

१ वन्यानां—शुकपिककारिकादीनां । ( गो० ) २ वल्गु—सुन्दरं । ( गो० ) ३ स्पृष्ट्वा—स्पृष्टेत्युपलक्षणं प्रातःकालिकस्नानादिकृत्यानां । ( गो० ) ४ नद्याः—कालिन्याः । ( गो० ) ५ पन्थानम्—पलाशवनरूपं । ( गो० )

लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी कमल के समान नेत्र वाली सीता जी से यह वचन बोले ॥ १ ॥

आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्नगान् ।

स्वैः पुष्पैः किंशुकान्पश्य मालिनः<sup>१</sup> विशिरात्यये ॥६॥

हे वैदेही ! वसन्त के आगमन से देखो पलाश कैसा फूला है । पलाश के लाल फूलों को देख ऐसा जान पड़ता है, मानों पलाश के वृक्षों में आग लग गयी है । फूलों से सब वृक्षों की पेंची शोभा हो रही है, मानों सब वृक्ष पुष्पों की मालाएँ धारण किये हुए हों ॥ ६ ॥

पश्य भ्रष्टातकान्फुल्लान्नरैरनुपसेवितान् ।

७ फलपत्रैरवनतान्नूनं वक्ष्यामि जीवितुम् ॥ ७ ॥

देखो, मिलावे के वृक्ष कैसे फूले हैं । अगम्य होने के कारण मनुष्य की उनमें गुज़र नहीं । मैं तो फल और पत्ते खा कर ही अपना गुज़ारा कर सकता हूँ अथवा जीवित रह सकता हूँ ॥ ७ ॥

पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण ।

मधूनि<sup>२</sup> मधुकारीभिः सम्भृतानि<sup>३</sup> नगो<sup>४</sup> नगो ॥ ८ ॥

हे लक्ष्मण ! देखो हरेक वृक्ष में शहद की मक्खियों के लगाये शहद से भरे ढ़चे लटक रहे हैं । इनमें ३२ सेर से कम शहद न था ॥ ८ ॥

१ मालिनः—मालावत् इत्येतान् (गो०) । २ द्रोणं—आइन्द्रियं । (गो०)  
३ मधूनिःसर्वन्तीति नद्युद्धर्यः कर्मगुणं लीप् । (गो०) ४ सम्भृतानि—निर्मि-  
तानि । (गो०) ५ नगो नगो—वृक्षे वृक्षे । (गो०)



एष क्रोशति नत्स्यूहस्तं<sup>१</sup> शिखी प्रतिकूजति ।

रमणीये वनोद्देशे<sup>२</sup> पुष्पसन्स्तरसङ्घटे ॥ ९ ॥

देखो यह जलकौवा कैसा बोल रहा है । इसका बोलना सुन मोर भी शोर करता है । इस रमणीय वन प्रदेश की भूमि फूलों से ढक गयी है ॥ ९ ॥

मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसङ्घानुनादितम् ।

चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्धशिखरं<sup>५</sup> गिरिम् ॥ १० ॥

देखो यह चित्रकूट पर्वत का उच्चशिखर देख पड़ता है, जहाँ पर हाथियों के झुंड घूम रहे हैं और पक्षियों के झुंड बोल रहे हैं ॥ १० ॥

समभूमितले रम्ये द्रुमैर्वहुभिरावृते ।

पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११ ॥

हम लोग इस चित्रकूट के वन में (कहीं) समतल भूमि, सुन्दर वृक्षों का झुरमुट तथा साफ सुथरा रमणीक स्थल देख, रमंगे ॥ ११ ॥

ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया ।

रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम् ॥ १२ ॥

इस प्रकार सीता को साथ लिये हुए दोनों भाई बातचीत करते पैदल चल कर, मनोरम और रम्य चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे ॥ १२ ॥

१ नत्स्यूहः—द्रास्यूहः । (गो०) २ वनोद्देशे—वनप्रदेशे । (गो०) ३ पुष्प-संस्तर सङ्घटे—पुष्पमथास्तरणेननिविडे । (गो०) ४ मातङ्गयूथानुसृतं—गजकुलैः ज्यैष्ठं । (गो०) ५ प्रवृद्धशिखरं—उन्नतशिखरं । (गो०)

तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम् ।

बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नं सरसोदकम्<sup>१</sup> ॥ १३ ॥

उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे, बहुत से फल व मूल थे तथा अनेक स्वादिष्ट जल के कुण्ड थे ॥ १३ ॥

मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः ।

बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः<sup>२</sup> प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥

तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा—हे सौम्य ! यह पर्वत कैसा मनोहर है । यह अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और वक्रुत से फलों तथा मूलों से परिपूर्ण होने के कारण कैसा रमणीक देख पड़ता है । यहाँ बड़ी सरलता से हम लोगों का निर्वाह हो जायगा ॥ १४ ॥

मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्चिलोच्चये<sup>३</sup> ।

अयं वासो भवेत्तावदत्र सौम्य रमेमहि ॥ १५ ॥

इस पर्वत पर महात्मा और मुनि लोग भी निवास करते हैं । अतएव यही हमारे रहने योग्य है और हम यहीं रहेंगे ॥ १५ ॥

इति<sup>४</sup> सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः ।

अभिगम्याश्रमं<sup>५</sup> सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन् ॥ १६ ॥

इस प्रकार निश्चय कर, श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता (तीनों जन) वाल्मीकि जी के आश्रम में गये और हाथ जोड़ कर, उनको प्रणाम किया ॥ १६ ॥

१ सरसोदकं—स्वादूदकम् । ( गो० ) २ स्वाजीवः—शोभनः जीविका यस्मिन् । ( गो० ) ३ चिलोच्चये—पर्वते । ( गो० ) ४ इति—इतिनिश्चित्य । ( गो० ) ५ आश्रमं—वाल्मीकियं । ( गो० )

तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् ।

आस्यतामिति चावाच स्वागतं तु निवेद्य च ॥१७॥

तब धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि ने इनको देख और प्रसन्न हो, इनका पूजन किया और बैठने का आसन दे और यह कह कर कि, पधारिये स्वागत किया ॥ १७ ॥

ततोऽब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः ।

सन्निवेद्य यथान्यायमात्मानमृपये<sup>१</sup> प्रभुः ॥ १८ ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जो महर्षि को अपना, लक्ष्मण का तथा सीता का परिचय दे और वनवासादि का कारण बतला—लक्ष्मण से बोले ॥ १८ ॥

लक्ष्मणानय दारुणि दृढानि च वराणि च ।

कुरुध्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥ १९ ॥

हे लक्ष्मण ! अस्त्री और मजबूत लकड़ियाँ एकत्र कर कुटी बनाओ । क्योंकि हे सौम्य ! यहीं बसने की मेरी इच्छा है ॥ १९ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान्दुमान् ।

आजहारं ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः ॥ २० ॥

यह सुन, लक्ष्मण जी अनेक प्रकार के वृत्तों की छोटो छोटो डालें काट कर लाये और उनसे पर्णकुटी बना दी ॥ २० ॥

१ यथान्यायं—यथाक्रमं । ( गो० ) २ आत्मानं ऋपये सन्निवेद्य—अमुकस्य पुत्रोऽहं अयं मद्भ्राता इत्यादि । ( गो० )

तां निष्ठितां<sup>१</sup> वद्धकर्ता<sup>२</sup> दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम् ।

शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं<sup>३</sup> वचनमब्रवीत् ॥ २१ ॥

उस अचल और किवाड़ेदार और देखने में भी सुन्दर कुटी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने सेवाकार्य में निरत लक्ष्मण जी से कहा ॥ २१ ॥

ऐणेयं मांसमाहृत्य शालां<sup>४</sup> यक्ष्यामहे वयम् ।

कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरवासिभिः\* ॥ २२ ॥

हे लक्ष्मण ! हिरन का मांस ले आओ, जिससे हम दोनों पर्ण-शालाधिष्ठात्री देवता की पूजा करें । क्योंकि यदि बहुत दिनों ( किसी नवीन बने हुए घर में ) रहना चाहे, तो उसे वास्तुशान्ति ( गृहप्रवेश कर्म ) करनी चाहिये ॥ २२ ॥

[ महाण्डपुराण में वास्तुशान्ति की फलस्तुति के सम्बन्ध में यह एक श्लोक दिया है :—

“ न च न्याधिभयं तस्य न च वन्धुजनक्षयः

जीवेद्वर्षशतं स्वर्गकल्पमेवंवसेन्नरः ॥ ”

अर्थात् जो नवीन गृह में वास्तुशान्ति कर के रहता है उसको न तो किसी प्रकार की व्याधि का भय होता और न उसके वन्धुबान्धवों का वंशलोप होता है । उस घर का मालिक बहुत दिनों तक इस लोक में जीवित रह कर मरने पर एक कल्प भर स्वर्ग में रहता है । ]

मृगं हत्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण ।

कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्म<sup>५</sup>भनुस्मर<sup>६</sup> ॥ २३ ॥

१ निष्ठितां—निश्चलां । ( गो० ) २ वद्धकर्ता—वद्धवाह्यावरणां वा । ( गो० )

३ एकाग्रं लक्ष्मणं । ( रा० ) ४ शालां—शालाधिष्ठात्रीः तत्तद्दिव्यासिनीः देवताः ।

( गो० ) ५ धर्मं—तद्ब्रह्मधर्मशास्त्रं । ( गो० ) ६ अनुस्मर—अवधेहि । ( गो० )

\* पादान्तरे—“ चिरजीविभिः ” ।

हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र एक काला हिरण मार कर ले आओ । क्योंकि भली भाँति विचार कर, इस विषय की धर्मशास्त्र द्वारा निर्णीत विधि को यथारीति करना उचित है ॥ २३ ॥

भ्रातुर्यचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा ।

चकार स यथोक्तं च तं रामः पुनरब्रवीत् ॥ २४ ॥

महाबलवान लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण काला मृग मार कर ले आये । फिर श्रीरामचन्द्र जी के कथनानुसार कार्य कर चुकने पर श्रीरामचन्द्रजी ने पुनः उनसे कहा ॥ २४ ॥

ऐणेयं<sup>१</sup> श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम् ।

त्वर सौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च<sup>२</sup> दिवसोऽप्ययम् ॥२५॥

अच्छा अब इस मांस को रांधो, जिससे हम हवन करें । हे सौम्य ! शीघ्रता करो । क्योंकि यह मुहूर्त्त भी स्थिर है और दिन भी अच्छा है ॥ २५ ॥

स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान् ।

अथ चिक्षेप<sup>३</sup> सौमित्रिः समिद्धे<sup>४</sup> जातवेदसि<sup>५</sup> ॥ २६ ॥

तब प्रतापो लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञीय काले मृग को अच्छी तरह जलती हुई आग में डाल कर भूना ॥ २६ ॥

तं तु पकं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्नशोणितम् ।

लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राघवमब्रवीत् ॥ २७ ॥

और जब वह भुन गया और उसका सधिर जल गया, तब लक्ष्मण जी ने पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ २७ ॥

१ श्रपयस्व—पच । (गो०) २ ध्रुवः—स्थिरइत्यर्थः । (गो०) ३ चिक्षेप—पपाच । (गो०) ४ समिद्धे—सम्यग्दीप्ते । (गो०) ५ जातवेदसि—भग्नौ । (गो०)

अयं कृष्णः समाप्ताङ्गः शृतः कृष्णमृगो यथा ।

देवतां देवसङ्काश यजस्व कुशलो<sup>१</sup> ह्यसि ॥ २८ ॥

हे देवतुल्य ! मैंने इस सम्पूर्ण अंगोंयुक्त कृष्ण मृग को रांध कर तैयार कर, दिया । आप यज्ञकर्म करने में समर्थ हैं, अतः वास्तुदेवता की प्रसन्नता के लिये यज्ञ कीजिये ॥ २८ ॥

रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्छप्यकोविदः ।

संग्रहेणा<sup>२</sup>करोत्सर्वान्मन्त्रान्सत्रावसानिकान्<sup>३</sup> ॥ २९ ॥

तव अमित तेजधारी, गुणवान एवं जप करने में चतुर श्रीराम-चन्द्र जी ने नियमपूर्वक स्नान किये और संक्षेप से वास्तुयज्ञ समाप्त करने के लिये, समाप्ति के सब मंत्रों को पढ़ा ॥ २९ ॥

इष्ट्वा देवगणान्<sup>४</sup>सर्वान्निवेशः\* सदनं शुचि ।

वभूव च मनाह्लादो रामस्यामिततेजसः ॥ ३० ॥

सब वास्तु देवताओं का पूजन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उस पवित्र घर में प्रवेश किया । उस समय अपरमित तेजसम्पन्न श्रीराम जी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥

वैश्वदेववलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च ।

\*वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि<sup>६</sup> प्रवर्तयन् ॥ ३१ ॥

१ कुशलोसि—समर्थोसि । ( गो० ) २ संग्रहेण—संक्षेपेण । ३ सत्रावसानिकान् सत्रं वास्तुयागः यैर्मंत्रैरवसोयतेपरिसमाप्यतेतेसत्रावसानाः सत्रावसाना एव सत्रावसानिकाः । ( गो० ) ४ देवगणान्—वास्तुदेवताः । ( गो० ) ५ वास्तुसंशमनीयानि—गृहारिष्टशामकानि । ( गो० ) ६ मङ्गलानि—मंगलकराणि-पुण्याहवाचन शान्तिजपदीनि । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“सर्वान्निवेशावसथं-शुचिः ।”

अनन्तर उन्होंने वैश्वदेव के लिये रुद्र और विष्णु के निमित्त वलिदान किया । फिर उन्होंने गृह के अरिष्ठादि दूर करने के लिये, पुण्याहवाचन, शान्ति, जप आदि क्रिये ॥ ३१ ॥

जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि ।

पापसंशमनं रामञ्चकार वलिमुत्तमम् ॥ ३२ ॥

फिर यथोचित जप कर तथा यथाविधि फिर नदी में स्नान कर, पाप की शान्ति के लिये उत्तम वलिदान किया ॥ ३२ ॥

वेदिस्थलविधानानि चैत्यान्याय<sup>१</sup>तनानि<sup>२</sup> च ।

आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः ॥ ३३ ॥

फिर आठों दिशाओं में वलिहरणार्थ, वेदियाँ और गन्धर्वों के वासस्थानों की तथा विष्णु आदि देवताओं के वासस्थानों का आश्रम के अनुरूप स्थापन किया ॥ ३३ ॥

वन्यैर्माल्यैः फलैर्मूलैः पक्षैर्मासैर्यथाविधि ।

अद्भिर्जपैश्च वेदोक्तैर्दभैश्च ससमित्कुशैः ॥ ३४ ॥

तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सह सीतया ।

तदा विविशतुः शालां सुशुभां शुभलक्षणौ ॥ ३५ ॥

फिर यथाविधि फूल मालाओं, फलों, मूलों और रंधे हुए मांस से, तथा कुश की पवित्रियाँ धारण कर, कुश मिले हुए जल से, वैदिक मंत्रों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी ने भूतों को तृप्त कर, सीता सहित उस मनाहर और शुभलक्षण वाली ( अर्थात् हवा

<sup>१</sup> चैत्यानि—गन्धर्वोंकावासस्थानानि । (गो०) <sup>२</sup> आयतनानि—विष्णुवधावास स्थलानि । ( गो० )

रोशनी जाने आने के लिये पर्याप्त माधनों से युक्त ) शाला में प्रवेश करने की इच्छा की ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां

यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम् ।

वासाय सर्वे विविशुः समेताः

सभां यथा देवगणाः सुधर्मां ॥ ३६ ॥

देवतागण जिस प्रकार सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और सीता ) तीनों जनों ने एक साथ, उस वृक्षों के पत्तों से ढायी हुई, उचित स्थान में प्रतिष्ठित, मनोहर एवं वायु रहित पर्णशाला में रहने के लिये, उसमें प्रवेश किया ॥ ३६ ॥

अनेकनानामृगपक्षिसङ्कुले

विचित्रपत्रस्तवकैर्द्रुमैर्युतं ।

वनोत्तमे व्यालमृगानुनादिते

तदा विजहुः सुसुखं जितेन्द्रियाः ॥ ३७ ॥

अनेक पशु पक्षियों से पूर्ण, तरह तरह के पत्र पुष्पों से शोभित, वृक्षों से युक्त उत्तम उत्तम वन में, जिसमें हाथी और अन्य जङ्गली जानवर बोलते थे, जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जो सुखपूर्वक विहार करने लगे ॥ ३७ ॥

सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं

नदीं च तां? माल्यवतीं सुतीर्याम्? ।

१ व्यालाः—सर्पाः गजा वा । ( गो० ) १ तां—प्रसिद्धां । ( गो० )  
२ सुतीर्याम्—शैलमन्जलावतरणप्रदेशां । ( गो० )



ननन्द रामोः\* मृगपक्षिजुष्टं

जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात् ॥ ३८ ॥

इति षट्पञ्चाशः सर्गः ॥

इस प्रकार सुन्दर और रमणीय तथा मृग पक्षियों से युक्त चित्रकूट पर्वत पर, स्वच्छ मीठे जल वाली प्रसिद्ध माल्यवती नदी को पा कर, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए और अयोध्या त्यागने का दुःख त्याग दिया अर्थात् भूल गये ॥ ३८ ॥

[ नोट—इस सर्ग तक महर्षि ने श्रीरामचन्द्र जी की अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया। अब आगे फिर अयोध्या का वर्णन आरम्भ होता है। स्मरण रखना चाहिये कि, श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या से चित्रकूट पाँच दिन में आये थे। रास्ते में तीन दिन तो केवल जल पी कर ही रह गये थे, चौथे दिन माँस खाया था और पाँचवे दिन चित्रकूट में नियमित रूप से भोजन किये थे। ]

अयोध्याकाण्ड का छपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

—:~:—

सप्तपञ्चाशः सर्गः

—:~:—

कथयित्वा सुदुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह ।

रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः ॥ १ ॥

गुह अत्यन्त दुःखी हो, सुमन्त्र के साथ बहुत देर तक बातचीत करता रहा और जब श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा के दक्षिणतट पर पहुँच गये, तब गुह अपने घर को चला गया ॥ १ ॥

\* पाठान्तरे—“ हृष्टो । ”

भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सहासनम् ।

आगिरेर्गमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम् ॥ २ ॥

सुमंत्र, शृङ्गवेरपुर के चरों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में जाना, उनके यहाँ ठहरना, तथा वहाँ से चित्रकूट पर्वत पर जाने आदि का पता लेते रहे ॥ २ ॥

अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा ह्येतत्तमान् ।

अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥

तदनन्तर गुह से विदा हो, सुमंत्र रथ में उत्तम घोड़े जोत अत्यन्त उदास हो अयोध्या को और चल दिये ॥ ३ ॥

स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च ।

पश्यन्नतिययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च ॥ ४ ॥

सुमंत्र जी सुगन्धित पुष्पों से पूर्ण वनों, नदियों, सरोवरों, ग्रामों और नगरों को देखते हुए बड़ी तेज़ी से चले जाते थे ॥ ४ ॥

ततः सायाहसमये तृतीयेऽहनि सारथिः ।

अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्श ह ॥ ५ ॥

शृङ्गवेरपुर से खाना होने के तीसरे दिन सायंकाल को सुमंत्र अयोध्या में पहुँचे और पुरो को उदास देखा ॥ ५ ॥

स शून्यामिव निःशब्दां दृष्ट्वा परमदुर्मनाः ।

सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः ॥ ६ ॥

जनशून्य जैसी नगरी अयोध्या में खाली झाया हुआ देख, सुमंत्र बहुत उदास हुए और शाकाकुल हो सोचने लगे ॥ ६ ॥

कच्चिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा ।

रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७ ॥

कि कहीं यह नगरी हाथियों, घोड़ों, नगरनिवासियों और महाराज सहित; श्रीरामचन्द्र के विद्योगजन्य सन्ताप एवं दुःख से उत्पन्न, शोकरूपी आग से भस्म तो नहीं हो गयी ॥ ७ ॥

इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः ।

नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश ह ॥ ८ ॥

इस प्रकार सोचते हुए सुमंत्र शीघ्रगामो घोड़ों के रथ पर सवार, नगरद्वार पर पहुँच, तुरन्त नगर में प्रवेश करते हुए ॥ ८ ॥

सुमन्त्रमभियान्तं तं शतशोऽथ सहस्रशः ।

क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ९ ॥

सुमंत्र को नगर में आया हुआ देख, सैकड़ों हज़ारों पुरी-वासी जनों ने दौड़ कर, उन्हें घेर लिया और यह पूँछने लगे कि, श्रीरामचन्द्र जी कहाँ हैं ? ॥ ९ ॥

तेषां शशंस गङ्गायामहमापृच्छथ राघवम् ।

अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १० ॥

उन सब को सुमंत्र ने यही उत्तर दिया कि, गङ्गा जी के तट पर पहुँच, धार्मिक श्रीरामचन्द्र जी ने जब मुझे लौटने की आज्ञा दी, तब मैं लौट कर आया हूँ ॥ १० ॥

ते तीर्णा इति विज्ञाय वाष्पपूर्णमुखा जनाः ।

अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति च चुक्रुशः ॥११॥

तव वै पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी को गङ्गा के पार उतरा जान, नेत्रों में आँसु भर, मुख से हाय ! धिक्कार हैं कह, और दीर्घ ध्वास ले " हा राम " कह कर चिल्लाने लगे ॥ ११ ॥

शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दंवृन्दं च तिष्ठताम् ।

हताः स्म खलु ये नेह पश्याम इति राघवम् ॥ १२ ॥

उस समय उस जनसमुदाय से यही सुन पड़ता था कि, हा ! हम लोग मारे गये जो हम राम को नहीं देख पाते ॥ १२ ॥

दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च ।

न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु<sup>१</sup> धार्मिकं राममन्तरा<sup>२</sup> ॥ १३ ॥

हाय ! दान, यज्ञ, विवाह, और बड़े बड़े समाजों में लोगों के बीच, माला के सुमेरु की तरह बैठे हुए श्रीराम को हम अब कभी न देख सकेंगे ॥ १३ ॥

किं समर्थं जनस्यास्यं किं प्रियं किं सुखावहम् ।

इति रामेण नगरं पितृवत्परिपालितम् ॥ १४ ॥

हा ! वे श्रीरामचन्द्र जी तो अमुकजन के लिये क्या ठीक है, क्या अच्छा है और क्या सुखदायी है, इन सब बातों का विचार कर, पिता की तरह नगरवासियों का पालन करते थे ॥ १४ ॥

वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम् ।

रामशोकाभितप्तानां शुश्राव परिदेवनम् ॥ १५ ॥

सुमंत्र जाते जाते, सड़क के दोनों तरफ़ सड़खों में बैठी हुई श्रीराम के वियोग से सन्तप्त पुरनारियों के विलाप सुनते थे ॥ १५ ॥

१ पुनःजातु—कदाचिद्दपि । (रा०) २ अन्तरा—मध्येनायकमार्णिवद्वर्तमानं ।

स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः ।

यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम् ॥ १६ ॥

राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन, सुमन्त्र ने अपना मुख ढक लिया और बड़ी शीघ्रता से वे महाराज के देवोपम गृह की ओर गये ॥ १६ ॥

सोऽवतीर्य रथाच्छीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च ।

कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुलाः ॥ १७ ॥

सुमन्त्र ने रथ से उतर बड़ी शीघ्रता से लोगों की भोड़ से परिपूर्ण सात फाटकों को पार कर राजभवन में प्रवेश किया ॥ १७ ॥

हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम् ।

हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः ॥ १८ ॥

ऊँजों, सतखने मकानों की अटारियों और भवनों में वैठी तथा श्रीराम के वियोग से कर्षित स्त्रियाँ (अकले) सुमन्त्र को आयां देख, हाहाकार करने लगीं ॥ १८ ॥

आयतैविमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः ।

अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १९ ॥

वे बड़े बड़े विमल नेत्रों से आँसू ढलकाती हुईं परस्पर देखती थीं और अत्यन्त दुःखी हो ऐसे विलाप भरे वचन कहती थीं, जो अस्पष्ट थे ॥ १९ ॥

ततो दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः ।

रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम् ॥ २० ॥

राजभवन के भीतर भी इधर उधर महाराज दशरथ की रानियों का जो श्रीरामचन्द्र के शोक से सन्तप्त थीं, घीमा आलाप लुन पड़ता था ॥ २० ॥

सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः ।

मृतः किं नाम कौसल्यां शोचन्तीं प्रतिवक्ष्यति ॥२१॥

वे कहती थीं कि, यह लुनत्र श्रीरामचन्द्र को ले कर गया था, किन्तु उनको छोड़ कर अकेला लौट कर आया है। अब देखें रोती हुई कौशल्या को किस प्रकार यह धोरज बंधाता है ॥ २१ ॥

यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न मुकरं ध्रुवम् ।

आच्छिद्य<sup>१</sup> पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥२२॥

हम तो यही कहेंगी कि, जीव को दुःख भोगने के लिये जीना जैसा पसन्द है वैसा सुख के लिये नहीं। देखो इसीसे तो अपने पुत्र ( श्रीरामचन्द्र ) के राज्य छोड़ कर वन चले जाने पर भी, कौशल्या अब तक जी रही है ॥ २२ ॥

सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राज्ञः स्त्रीणां निशामयन् ।

अधीप्तमिव शोकेन विवेश सहसा गृहम् ॥ २३ ॥

इस प्रकार उन रानियों के ये सत्यवचन सुनते हुए लुनत्र, शोक से दग्ध हो, अचानक महाराज के घर में जा पहुँचा ॥ २३ ॥

स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम् ।

पुत्रशोकपरिच्यून<sup>२</sup>मपश्यत्पाण्डुरे गृहे ॥ २४ ॥

१ आच्छिद्य—राज्यं त्यक्ते । ( शि० ) २ परिच्यून—झींग । ( गो० )

३ पाठान्तरे—“ प्रदीप्तइव । ”

आठवाँ ज्योढ़ी लाँघ उसने महाराज के सफेद रंग के कमरे में जा कर देखा कि, महाराज दीन, आतुर और पुत्रशोक से क्षीण हो रहे हैं ॥ २४ ॥

अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवाद्य च ।

सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत् ॥ २५ ॥

सुमन्त्र ने जा कर बैठे हुए महाराज को प्रणाम किया और जो बातें श्रीरामचन्द्र जी ने महाराज से कहने के लिये उससे कहाँ थीं—वे बातें ज्यों की त्यों उसने महाराज से कहाँ ॥ २५ ॥

स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विभ्रान्तचेतनः ।

मूर्छितो न्यपतद्भूमौ रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥

उन बातों को चुपचाप सुन, महाराज की बुद्धि ठीक ठिकाने न रही। वे श्रीराम के वियोगजनित शोक से अत्यन्त विकल होने के कारण, अचेत हो पृथिवी पर गिर पड़े ॥ २६ ॥

ततोऽन्तःपुरमाविद्ध<sup>१</sup> मूर्छिते पृथिवीपतौ ।

उद्धृत्य बाहू चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ ॥ २७ ॥

उस समय महाराज को मूर्च्छित हो, पृथिवी पर पड़ा देख, रज-वास की सब रानियाँ बड़ी दुःखी हुई और बाहें उठा उठा कर शाने लगीं ॥ २७ ॥

सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् ।

उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत् ॥ २८ ॥

१ भाविद्धं—शोकनाभिहितं । ( गो० )

तव सुमित्रा और कौशल्या ने ज़मीन पर पड़े हुए महाराज को उठाया और कहने लगीं ॥ २८ ॥

इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः ।

वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभापसे ॥ २९ ॥

हे महाभाग ! महाकठिन कार्य करने वाले श्रीरामचन्द्र के, ये दूत वन कर वन से आये हुए हैं। इनसे आप क्यों बातचीत नहीं करते ॥ २९ ॥

अद्येममनयं<sup>१</sup> कृत्वा व्यपत्रपसि राघव ।

उत्तिष्ठ सुकृतं<sup>२</sup> तेऽस्तु शोके न स्यात्सहायता ॥३०॥

हे राघव ! श्रीरामचन्द्र जी को देशनिकाला दे कर, अब आप क्यों लज्जित हो रहे हैं। उठिये उठिये ! अब इस शोक के लिये कोई चारा नहीं—अतः अब आप शोक मत कीजिये। अर्थात् अब इस शोक को निवृत्त करने के लिये कोई उपाय शेष नहीं रहा। ऐसी दशा में आपके लिये अब शोक करना शोभा नहीं देता ॥३०॥

देव यस्या भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिम् ।

नेह तिष्ठति कैकेयी विस्रव्यं<sup>३</sup> प्रतिभाष्यताम् ॥ ३१ ॥

हे देव ! जिसके भय से आप सुमित्र से बातचीत नहीं करते वह कैकेयी यहाँ नहीं है। आप निर्भय हो बातचीत कीजिये ॥ ३१ ॥

सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा ।

घरण्यां निपपाताशु वाप्पविप्लुतभाषिणी ॥ ३२ ॥

१ इममनयं—पुत्रविवाहनं । ( गो० ) २ सुकृतं—शोचनं । ( गो० )

३ विस्रव्यं—निःशङ्कम् । ( गो० )



महाराज से ये वचन कहते कहते कौशल्या शोक से कातर हो गयीं, उनका कण्ठ गद्गद् हो गया । वे भूमि पर गिर पड़ीं ॥ ३२ ॥

एवं विलपतीं दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि ।

पतिं चावेक्ष्य ताः सर्वाः सुस्वरं रुदुः स्त्रियः ॥३३॥

इस प्रकार विलाप करती हुईं और भूमि पर मूर्च्छितावस्था को प्राप्त कौशल्या को तथा महाराज को देख, वहाँ जो अन्य स्त्रियाँ तथा अन्तःपुर की स्त्रियाँ थीं—वे उच्चस्वर से रुदन करने लगीं ॥ ३३ ॥

ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थितं

समीक्ष्य<sup>१</sup> वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः ।

स्त्रियश्च सर्वा रुदुः समन्ततः

पुरं तदासीऽऽपुनरेव<sup>२</sup> सङ्कुलम् ॥ ३४ ॥

इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥

रत्नवास में रोने का शब्द सुन, अयोध्यापुरी में उस समय जितने बूढ़े और जवान पुरुष थे तथा वहाँ जितनी स्त्रियाँ थीं, वे सब की सब चारों ओर रोने लगीं और समूची अयोध्यापुरी में फिर एक बार वैसा ही हाहाकार हुआ, जैसा श्रीरामचन्द्र के वन जाते समय हुआ था ॥ ३४ ॥

अयोध्याकाण्ड का मत्तावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

१ समीक्ष्य—ध्रुत्वा । ( गो० ) २ पुनरेवसङ्कुलम् । रामगमनकाल-  
इवव्याकुलमासीत् । ( गो० )

## अष्टपञ्चाशः सर्गः

—: ० :—

प्रत्याश्वस्तो<sup>१</sup> यदा राजा मोहात्प्रत्यागतः<sup>२</sup> पुनः ।

अथाजुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात् ॥ १ ॥

कुछ देर बाद जब महाराज उपचारद्वारा सचेत हुए, तब श्रीराम-चन्द्र का वृत्तान्त सुनने के लिये सूत को पुकारा और उनको और अपना मुख फेरा ॥ १ ॥

अथ सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः ।

राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम् ॥ २ ॥

सुमंत्र, महाराज के सामने होय जोड़े खड़े थे। उस समय महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्र के वियोग से चिन्तित और शोक से विकल थे ॥ २ ॥

वृद्धं परमसन्तप्तं<sup>३</sup> नवग्रहमिव द्विपम् ।

विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तम्<sup>४</sup> अस्वस्थमिव कुञ्जरम् ॥३॥

वृद्धे महाराज दशरथ, हाल के पकड़े हुए हाथी की तरह परम सन्तप्त थे और उसी तरह उसीसे ले रहे थे, जिस प्रकार एक व्याधिग्रस्त हाथी उसीसे लेता है ॥ ३ ॥

राजा तु रजसा सूतं\* श्वस्ताङ्गं समुपस्थितम् ।

अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत् ॥ ४ ॥

१ प्रत्याश्वस्तः—उपचारैरुद्धोदितः । (गो०) २ प्रत्यागतः—सूतस्याभि-  
मुखागतः । (गो०) ३ नवग्रहं—सद्योगृहीतं । (गो०) ४ अस्वस्थ—  
व्याधिग्रस्तं । (गो०) \* पाठान्तरे—“धृतं”

सुमंत्र के सारे शरीर में धूल लगी थी, आँखों से आँसू बह रहे थे, देखने से वे अत्यन्त विकल जान पड़ते थे। ऐसी दशा को प्राप्त सुमंत्र से, महाराज दशरथ अत्यन्त कातर मनुष्य की तरह बोले : ॥ ४ ॥

कनु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः ।

सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमिशिष्यति राघवः ॥ ५ ॥

हे सुमंत्र ! वह धर्मात्मा कहाँ—वृक्ष के नीचे वास करता होगा और जो हर प्रकार से सुखपूर्वक रहने योग्य है—वह राम वन में क्या खायगा ? ॥ ५ ॥

दुःखस्यानुचितो दुखं सुमन्त्र शयनोचितः ।

भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत् ॥ ६ ॥

हे सुमंत्र ! हमारा राम दुःख भोगने योग्य नहीं—वह तो सेज पर सोने योग्य है। भंला एक राजकुमार एक अनाथ की तरह कैसे भूमि पर सो सकता है ? ॥ ६ ॥

यं यान्तमनुयान्ति स्मपदातिरथकुञ्जराः ।

स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ॥

जिस राजकुमार की सवारी के पीछे अनेक पैदल सिपाही, रथ और घोड़े चला करते थे, वह राम जनशून्य वन में कैसे रह सकेगा ॥ ७ ॥

व्यालैर्मृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम् ।

कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनमुपस्थितौ ॥ ८ ॥

जिस वन में अनेक अजगर और दुष्ट वनजन्तु विचरा करते हैं और जिसमें काले साँप रहा करते हैं, उस वन में सीता सहित दोनों राजकुमार कैसे रहते होंगे ॥ ८ ॥

सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया ।

राजपुत्रो कथं पादैरवरुह्य रथाद्गता ॥ ९ ॥

हे सुमन्त्र ! उस सुकुमारी और दुःखियारी सीता को साथ ले—वे दोनों राजकुमार किस तरह रथ से उतर कर पैदल चले होंगे ॥९॥

सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ ।

वनान्तं प्रविशन्तौ तावद्विनाविव मन्दरम् ॥ १० ॥

हे सुमन्त्र ! तू बड़ा भाग्यवान् है, जिसने मेरे दोनों राजकुमारों को वन में उसी प्रकार जाते देखा, जिस प्रकार अश्विनीकुमार मन्दराचल पर जाते हैं ॥ १० ॥

किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः ।

सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली ॥ ११ ॥

हे सुमन्त्र ! वन में पहुँच, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा और सीता ने क्या कहा ? ॥ ११ ॥

आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय ।

जीविष्याम्यहमेतेन ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥

हे सूत ! तुम राम के उपवेशन, शयन तथा भोजन का वृत्तान्त कहो, जिसके सुनने से मैं कुछ देर और उसी प्रकार जीवित रह सकूँ, जिस प्रकार साधु के वचनों को सुन, राजा ययाति जीवित रहे थे ॥ १२ ॥

[ नोट—लिखा है, राजा ययाति जब स्वर्ग में पहुँचे और अपने सुकृतों का वर्णन करने लगे ; तब इन्द्र ने उनसे कहा कि, जिह्वा पर अग्निदेव का वास है । तुमने अपने सुकृतों का अपने आप वर्णन कर अपने सुकृतों को दाग कर डाला, अतः अब तुम स्वर्ग में नहीं रह सकते । मृत्युलोक को चले जाओ । तब ययाति ने यह प्रार्थना की कि, यदि आप मुझे मृत्युलोक में भेजते हैं, तो वहाँ ऐसी जगह भेजिये जहाँ साधुओं का साथ मिले । ययाति की यह प्रार्थना स्वीकृत हुई और इसका फल यह हुआ कि, ययाति को स्वर्ग से गिरने का जो दुःख हुआ था, वह साधुसमागम से दूर हो गया था । ]

इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया<sup>१</sup> ।

उवाच वाचा राजानं स वाष्प<sup>२</sup>परिरब्धया ॥ १३ ॥

जब महाराज ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब सुमंत्र गद्गद करके बोला, लड़खड़ाती वाणी से कहने लगे ॥ १३ ॥

अब्रवीन्मां महाराज धर्ममेवानुपालयन् ।

अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥

सूत मद्रचना<sup>३</sup>त्तस्य तातस्य विदितात्मनः<sup>४</sup> ।

शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ<sup>५</sup> पादौः\*पुनः पुनः ॥१५॥

हे महाराज ! धर्म के पालन करने वाले श्रीरामचन्द्र ने हाथ जोड़ और मस्तक झुका कर यह कहा कि, मेरी ओर से संसार में धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध एवं वन्दनीय महाराज पिता के चरणों को वार वार प्रणाम कर ॥ १४ ॥ १५ ॥

१ सज्जमानया—सललन्त्या । ( गो० ) २ वाष्पपरिरब्धया—कण्ठगतवाष्प रुद्धयेत्यर्थः । ( गो० ) ३ मद्रचनात्—ममप्रतिनिधित्वेन । ( रा० ) ४ विदितात्मनः—लोकेधामिष्टत्वेनप्रसिद्धस्य । ( रा० ) ५ वन्द्यौ—वन्दनीयौ । ( रा० )

\* पाठान्तरे—“महात्मनः ।”

सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात्त्वया ।

आरोग्यमविशेषेण यथार्हं चाभिवादनम् ॥ १६ ॥

अन्तःपुरवासी समस्त स्त्रियों और पुरुषों को भी मेरी ओर से मेरा कुशलसमाचार कहना और यथायोग्य प्रणामादि कहना ॥ १६ ॥

माता च मम कौशल्या कुशलं चाभिवादनम् ।

अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः ॥ १७ ॥

मेरी माता कौशल्या से भी मेरा कुशलसमाचार कह कर, मेरी ओर से प्रणाम कहना और यह भी कह देना कि, अपने कर्त्तव्य के पालन में प्रमाद न करें अर्थात् तत्पर रहें ॥ १७ ॥

धर्मनित्या यथाकालमन्यगारपरा<sup>१</sup> भव ।

देवि देवस्य पादौ च देववत्परिपालय<sup>२</sup> ॥ १८ ॥

और यथासमय नित्य धर्माहुष्टानादि करती रहै और यज्ञ-शाला की चौकसी रखें । फिर यह कहा है कि, हे देवी ! महाराज को देवतावत् मान उनकी चरणसेवा करो ॥ १८ ॥

अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु ।

अनु राजानमार्या च कैकेयीमम्ब कारय<sup>३</sup> ॥ १९ ॥

और कुलाभिमान एवं वदुष्पन का विचार त्याग कर, मेरी अन्य माताओं के साथ व्यवहार करना । महाराज की विशेष

१ अन्यागारपरा—यागशालारक्षिकाभव । ( शि० ) २ परिपालय—  
निपेवल्व । ( शि० ) ३ कारय—राजानं कैकेयीयनुत्यभनुवर्तस्व ।

कृपापात्र माता केकेयी है । : उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना जैसा महाराज के साथ ॥

कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् ।

अर्थज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर ॥ २० ॥

और कुमार भरत से राजा जैसा बर्ताव करना—यद्यपि भरत वय में नहीं, तथापि धन से ज्येष्ठ होने के कारण, राजधर्मानुसार उनके प्रति राजा जैसा व्यवहार करना ॥ २० ॥

भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्बचनेन च ।

सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु ॥ २१ ॥

( हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के लिये यह कहा है कि ) भरत जी से मेरा कुशलवृत्त कहना और यह बात कहना कि, वे सब माताओं के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें ॥ २१ ॥

वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः ।

पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥ २२ ॥

इक्ष्वाकुकुलनन्दन भरत से यह भी कहना कि, युवराज हो कर महाराज पिता की आज्ञा में चलें ॥ २२ ॥

अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यवरोरुधः<sup>१</sup> ।

कुमारराज्ये जीव त्वं तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात् ॥ २३ ॥

महाराज अब बहुत बूढ़े हैं, अतएव उनको राज्यभ्रष्ट न करना अर्थात् राज्यासन की अभिलाष मत करना और युवराज पद पा कर ही सन्तोष कर, महाराज जो कहें सो करना ॥ २३ ॥

१ व्यवरोरुधः—व्यवरोरुधः राज्यात् अंशयैत्यर्थः । ( रा० )

अत्रवीक्षापि मां भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन् ।  
मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्विणी ॥ २४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त दुखिया कर मुझसे यह भी कहा है कि, भरत जी से यह बात कह देना कि, मेरी पुत्रवत्सला माता को अपनी माता की तरह समझें ॥ २४ ॥

इत्येवं मां महाराज ब्रुवन्नेव महायशाः ।  
रामो राजीवताम्राक्षो भृशमश्रूण्यवर्तयत् ॥ २५ ॥

महाबाहु, महायशस्वी, पद्मपलाशजोचन श्रीरामचन्द्र ने मुझसे ये सन्देशे कहे और बहुत रोये ॥ २५ ॥

लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन्वाक्यमब्रवीत् ।  
केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ २६ ॥

तव लक्ष्मण जी ने अत्यन्त क्रुपित हो और ऊँची सांस ले यह कहा । इन राजकुमार ने कौनसा ऐसा अपराध किया था जिससे इन्हें देशनिकाला दिया गया है ॥ २६ ॥

राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु त्वाश्रित्य शासनम् ।  
कृतं कार्यमकार्यं वा त्रयं येनाभिपीडिताः ॥ २७ ॥

महाराज ने कैकेयी की तुच्छ बात मान और प्रतिज्ञा कर, कार्य अकार्य का कुछ भी विचार न किया । ( इसका फल यह हुआ कि ) दुःख हम लोगों को भोगना पड़ता है ॥ २७ ॥

यदि प्रत्राजितो रामो लोभकारणकारितम् ।  
वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम् ॥ २८ ॥



यदि श्रीरामचन्द्र जी, कैकेयी के ( अनुचित ) लालच वश  
अथवा वरदान पूरा करने के लिये वन भेजे गये हैं, तो यह कार्य  
सर्वथा बुरा है ॥ २८ ॥

इदं तावद्यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम् ।

रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ ॥

यदि ईश्वर के करने से उन्होंने ऐसा किया है, तो भी श्रीराम-  
चन्द्र के निर्वासन में ईश्वर की कृति का कोई हेतु या कारण नहीं  
देख पड़ता है ॥ २९ ॥

असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् ।

जनयिष्यति संक्रोशं<sup>१</sup> राघवस्य विवासनम् ॥ ३० ॥

महाराज ने इसका परिणाम न सोचा, केवल बुद्धि की कोताई  
ही से यह काम किया, अतः श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास  
महाराज को दुःख देगा ॥ ३० ॥

अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये ।

भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥ ३१ ॥

मुझे तो महाराज में पितृकर्त्तव्य का पालन कुछ भी नहीं  
देख पड़ता । अतः अब तो मेरे भाई, स्वामी, बन्धु और पिता  
( जो कुछ हैं—सो ) श्रीरामचन्द्र हैं ॥ ३१ ॥

सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम् ।

सर्वलोकौऽनुरज्येत कथं त्वाऽऽनेन कर्मणा ॥ ३२ ॥

१ संक्रोशं—दुःखं । राज्ञोऽनुतापइतिभावः । ( गो० )

सब लोगों के प्रिय और सब लोगों की भलाई करने में निरत श्रीरामचन्द्र जी को जब तुमने वनवास दिया—तब ( तुम्हारे इस कर्म से तुम्हारे ऊपर ) प्रजाजन कैसे प्रसन्न होंगे ॥ ३२ ॥

सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्रत्राज्य धार्मिकम् ।

सर्वलोकं विरुद्धयेमं कथं राजा भविष्यसि ॥३३॥

ऐसे धार्मिक और प्रजाप्रिय श्रीरामचन्द्र को वन में निकालने के कारण सब प्रजाजनों के विरोधी बन, आप किस प्रकार राजा कहजा सकेंगे ॥ ३३ ॥

जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती मनस्विनी<sup>१</sup> ।

भूतोपहतचित्तैव विष्टिता विस्मिता स्थिता ॥ ३४ ॥

हे महाराज ! जानकी जो बड़े गम्भीर मन की है—भूत लगे हुए जन के चित्त की तरह आश्चर्यचकित हो, टकटकी बांधे खड़ी की खड़ी ही रह गयी ॥ ३४ ॥

अदृष्टपूर्वन्यसना राजपुत्री यशस्विनी ।

तेन दुःखेन रुदती नैव मां किञ्चिद्ब्रवीत् ॥ ३५ ॥

क्योंकि उस यशस्विनी राजदुलारी पर इसके पूर्व कभी दुःख नहीं पड़ा था । अतः इस दुःख में, मुँह से कुछ भी न कह, केवल वह विलास रही थी ॥ ३५ ॥

उद्वीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता ।

मुमोच सहसा वाष्पं मां प्रयान्तमुदीक्ष्य सा ॥३६॥

और पति के अश्रुपूर्ण मुख को देख, उसका मुख सूख गया  
या और वह मेरी ओर देख सहसा आँसू गिराने लगी थी ॥ ३६ ॥

तथैव रामोऽश्रुमुखः कृताञ्जलिः

स्थितोऽभवलक्ष्मणवाहुपालितः ।

तथैव सीता रुदती तपस्विनी

निरीक्षते राजरथं तथैव माम् ॥ ३७ ॥

इति अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥

उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी, जिनकी बांह पकड़ लक्ष्मण खड़े  
थे, अश्रुमुख हो और हाथ जोड़े खड़े खड़े, मेरी ओर देख रहे थे ।  
तपस्विनी सीता भी उसी तरह रोती हुई राजरथ को और मुझको  
देख रही थी ॥ ३७ ॥

अयोध्याकाण्ड का अठावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

एकोनषष्टितमः सर्गः

—:०:—

मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्यनि ।

उष्णमश्रु प्रमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् ॥ १ ॥

( सुमंत्र, महाराज दशरथ से कहने लगे ) श्रीरामचन्द्र जी के  
वन को चले जाने पर जब मैं लौटने लगा, तब मेरे थके घोड़े  
रास्ते में अड़ गये और गरम गरम आँसू गिराने लगे ॥ १ ॥

उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाद्मञ्जलिम् ।

प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन् ॥ २ ॥

मैंने दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर रथ में बैठ वहाँ से प्रस्थान किया और उस दुःख को भी किसी प्रकार सह लिया ॥ २ ॥

गुह्येन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्वहून् ।

आशया यदि मां रामः पुनः गृह्णापयेदिति ॥ ३ ॥

कदाचित् श्रीरामचन्द्र जी मुझे बुला कर, (अपने साथ ले चलें) इस आशा में मैं गुह्य के साथ वहीं कई दिनों तक ठहर रहा ॥ ३ ॥

विषये ते महाराज रामव्यसनकर्षिताः ।

अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः ॥ ४ ॥

मैंने लौटते समय देखा कि, आपके राज्य के वृक्ष तक दुःखी हैं । क्योंकि उनके फूल अङ्कुर और कलें कुम्हला गयी हैं ॥ ४ ॥

उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च ।

परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥

नदियों, तलैयों और तालावों का जल सूख रहा है । ( और नदियों तलैयों और तालावों में जल कम हो जाने के कारण ) वनों और उपवनों के वृक्षों के पत्ते मुरझाये हुए हैं ॥ ५ ॥

न च सर्पन्ति<sup>१</sup> सत्त्वानि<sup>२</sup> व्यालाः<sup>३</sup> न प्रचरन्ति च

रामशोकाभिभूतं तन्निष्कृजमभवद्वनम् ॥ ६ ॥

१ नसर्पन्ति—नगच्छन्ति । ( गो० ) २ सत्त्वानि—जन्तवः । ( गो० )

३ व्यालाः—हिंस्रपशवः सर्वदासञ्चारस्वभावा गजावा । ( गो० )

जीव जन्तुओं ने चलना बंद कर दिया है और हिंस्ररश्चु अथवा सदैव घूमने वाले हाथी भी श्रव वनों में घूमते हुए नहीं देख पड़ते । राम के वियोगजनित शोक से वनों में सन्नाटा छाया हुआ है ॥ ६ ॥

लीनपुष्करपत्राश्च<sup>१</sup> नरेन्द्र कलुषोदकाः ।

सन्तप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीन<sup>२</sup>विहङ्गमाः ॥ ७ ॥

हे महाराज ! तालावों का जल गंदला हो गया है और कमलों के पत्ते राम-वियोग-जन्य अतिशय ग्लानि उत्पन्न होने के कारण जल के भीतर डूब गये हैं । कमल के तालावों में कमल सूख रहे हैं । मङ्गलियों और ( जल ) पक्षियों ने पानी में घूमना फिरना छोड़ दिया है ॥ ७ ॥

जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि<sup>३</sup> स्थलजानि च ।

नाद्य भान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम् ॥८॥

जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प और पृथिवी पर उत्पन्न होने वाले पुष्पों में न तो पहले जैसी गन्ध हो रह गयी और न फलों में पहले जैसा स्वाद ही रह गया ॥ ८ ॥

अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च ।

न चाभिरामानारामान्पश्यामि मनुजर्षभ ॥ ९ ॥

यहां के उपवनों में भी पक्षियों के चुपचाप घोंसलों में बैठे रहने से सन्नाटा छाया हुआ है । यहां की वाडिकाएँ भी मुझे शोभाहीन देख पड़ती हैं ॥ ९ ॥

प्रविशन्तमयोध्यां मां न कश्चिदभिनन्दति ।

नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः ॥ १० ॥

१ लीनपुष्करपत्राः—१।अन्यतिशयेनजलान्प्रिलीनपत्राः । ( गो० )

२ लीनाः—सञ्चाररहिताः । ( गो० ) ३ माल्यानि—पुष्पाणि । ( गो० )

मैं जब अयोध्या में आया, तब मैंने किसी को भी प्रसन्न न पाया प्रत्युत लोग ( मेरे रथ में ) श्रीरामचन्द्र को न देख, बार बार लंबी साँसे लेने लगे ॥ १० ॥

देव राजरथं दृष्ट्वा विना राममिहागतम् ।

दुःखादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गगतो जनः ॥ ११ ॥

हे देव ! राजरथ में बैठ कर श्रीरामचन्द्र जी को आते न देख, रास्ते में जितने लोग थे, वे सब दुःखी हो रोने लगे ॥ ११ ॥

हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम् ।

हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः ॥ १२ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को न देखने के कारण विरुल और लज्जा, सतखने मकानों की छतों और भवनों के झरोखों में बैठी हुई स्त्रियों ने सुने रथ को आते देख, बड़ा हाहाकार किया ॥ १२ ॥

आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः ।

अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १३ ॥

वे ( स्त्रियाँ ) बड़े बड़े विमल नेत्रों में आँसू भर और बहुत कातर एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं देखती थीं ॥ १३ ॥

[ नोट—नेत्रों के विमल कहने का भाव यह है कि, नेत्रों में अंजन या काजल जो स्त्रियों के श्रद्धार का एक अङ्ग है, वह नहीं लगा था । ]

नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च ।

अहमार्ततया किञ्चिद्विज्ञेयमुपलक्षये ॥ १४ ॥

मुझे तो आज क्या मित्र, क्या शत्रु और क्या उदासीन—  
किसी भी जन में, सिवाय कातरता के और कोई भी विशेषता नहीं  
देख पड़ती ॥ १४ ॥

अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरङ्गमा ।

आर्तस्वरपरिभ्रूलाना विनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५ ॥

जितने मनुष्य हैं वे सब दुःखी हैं, जितने हाथी घोड़े हैं वे भी  
उदास हैं । सब ही आर्तनाद करते हुए लंबी लंबी उसीसे ले रहे  
हैं ॥ १५ ॥

निरानन्दा महाराज रामप्रव्राजनातुरा ।

कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मा ॥ १६ ॥

हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र जी के चले जाने से सब लोग दुःखी  
हैं, अयोध्यापुरी तो मुझे पुत्र से बिलुब्डी हुई कौशल्या की तरह  
( दीन ) दिखलाई पड़ रही है ॥ १६ ॥

सूतस्य वचनं श्रुत्वा राजा परमदीनया ।

वाष्पोपहतया वाचा तं सूतमिदमब्रवीत् ॥ १७ ॥

सुमंत्र के वचन सुन महाराज दशरथ अत्यन्त दुःखी हो गङ्गाद  
कण्ठ से सुमंत्र से यह बोले ॥ १७ ॥

कैकेय्या हि नियुक्तेन पापाभिजनभावया ।

न मया मन्त्रकुशलैर्द्वैः सह समर्थितम् ॥ १८ ॥

१ पापाभिजनभावया—कृकर्मविषयकसंमतिदानजनितपापविशिष्टाये अभि-  
जनाः अभितः समीपं विद्यमानाः जनाः मन्थरादयाः तैस्सहभावो  
यंस्थितिर्यस्याः । ( शि० ) २ नसमर्थितं—नधिचारितं । ( गो० )

हे सुमंत्र ! दुष्ट बुद्धिवाली मन्थरादि का सहवास करने वाली कैकेयी को जव मैं वर देने लगा, तब ( शोक है कि ) न तो परामर्श देने में निपुण वृद्ध जनों के साथ मैंने विचार किया ॥ १८ ॥

न सुहृद्भिर्न चामात्यैर्मन्त्रयित्वा च नैगमैः ।

मयाऽयमर्थः सम्मोहात्स्त्रीहेतोः सहसा कृतः ॥ १९ ॥

और न अपने सुहृदों और न अपने मंत्रियों और न ( राजधानी के ) महाजन साहूकारों से सलाह ली । मैंने यह अनर्थ केवल कैकेयी के लिये मोहवश सहसा कर डाला ॥ १९ ॥

भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत् ।

कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया<sup>१</sup> ॥ २० ॥

हे सुमंत्र ! निश्चय ही यह दारुण कष्ट होनी के वश, इन्द्राकु कुल का सर्वनाश करने को अपने आप अथवा दैवइच्छा से उपस्थित हुआ है ॥ २० ॥

सूत यद्यस्ति ते किञ्चिन्मया तु सुकृतं<sup>२</sup> कृतम् ।

त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः सन्त्वरयन्ति माम् ॥२१॥

हे सुमंत्र ! यदि मैंने तेरा कुछ भी उपकार किया हो, तो तू मुझे शीघ्र राम के पास पहुँचा । ( क्योंकि ) मेरे प्राण ( शरीर से निकलने के लिये ) जल्दी कर रहे हैं ॥ २१ ॥

यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम् ।

न शक्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम् ॥ २२ ॥

१ यदृच्छया—दैवइच्छया । ( २० ) २ सुकृतं—उपकारः ( २० ) ।



अथवा यदि अथ भी श्रोराम मेरो आज्ञा मान वन से लौट सकें, तो नृ ही जा कर उनको लौटा ला । क्योंकि मैं राम बिना एक मुहूर्त्त भी नहीं जी सकता ॥ २२ ॥

अथवाऽपि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति ।

मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय ॥ २३ ॥

अथवा यदि महाबाहु राम बहुत दूर निकल गये हों, तो मुझे रथ में बिठा शीघ्र ले चल कर, मुझे राम को दिखला दे ॥ २३ ॥

वृत्तदंष्ट्रो<sup>१</sup> महेष्वासः कासौ लक्ष्मणपूर्वजः ।

यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह ॥ २४ ॥

कुन्दपुष्पसम दांतों वाले, महाधनुर्धर और लक्ष्मण के बड़े भाई राम कहाँ हैं ? यदि मैं जीता रहा तो सीता सहित इस साधु को अवश्य देखूँगा ॥ २४ ॥

लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम् ।

रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ २५ ॥

यदि मैं लाल नेत्र वाले, महाबाहु, रत्नकुण्डलधारी राम को न देखूँगा तो मैं यमालय को चला जाऊँगा अर्थात् मर जाऊँगा ॥ २५ ॥

अतो नु किं दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् ।

इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम् ॥ २६ ॥

१ वृत्तदंष्ट्रो—कुन्दकुड्मलाकारदंष्ट्रः । (गो०)

हा ! इससे अधिक दुःख को बात क्या होगी, जो मैं इच्छुक-कुल-नन्दन राम को इस ( नरण ) अवस्था में भी नहीं देख सकता ॥ २६ ॥

हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनी ।

न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाश्रितम् ॥ २७ ॥

हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा तपस्विनी वैदेही ! मैं अनाथ की तरह कष्ट के साथ मर रहा हूँ, यह तू नहीं जानती ॥ २७ ॥

स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पितचेतनः ।

अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमवव्रीत् ॥ २८ ॥

यह कहते कहते महाराज दशरथ का मन बहुत दुःखी हो गया । वे अपार शोकसागर में डूब कर कहने लगे ॥ २८ ॥

[ शोकसागर का स्वरूप यथा है । ]

रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः ।

श्वसितोर्मिमहावर्ती वाष्पफेनजलाविलः ॥ २९ ॥

बाहुविक्षेपमीनौघो विक्रन्दितमहास्वनः ।

प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयीवडवासुखः ॥ ३० ॥

ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः ।

वरवेला नृशंसाया रामप्रव्राजनायतः ॥ ३१ ॥

राम का विरहजन्य शोक उस सागर की गहराई या चौड़ाई है, जिसके किनारे हैं सीता जी का विद्रोह । श्वास का निकलना उसके सँवर हैं, नेत्रजल से मानों वह गंदला हो रहा है । हाथों की पट

१ अर्पित चेतनः—व्याप्तचित्तः । (गो०) २ अवगाढः—प्रविष्टः । (गो०)

कना मानों मञ्जुलिशों हैं और आर्त्तनाद् उस महासागर का मानों गर्जन तर्जन है । विखरे हुए बाल मानों सिवार हैं और कैकेयी मानों वड़वानल ( वह आग जो समुद्र के नीचे रहती है । ) नेत्रों का जल गम्भीरता उत्पन्न करने वाला है, मन्थरा के वाक्य मानों वड़े वड़े घड़ियाल हैं, कैकेयी के वर, जिससे श्रीरामचन्द्र जी बन गये मानों लंबे लंबे तट हैं ॥ २२ ॥ ३० ॥ ३२ ॥

यस्मिन्वत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना ।

दुस्तरो जीवता देवि ममाऽयं शोकसागरः ॥ ३२ ॥

हे कौशल्या ! मैं विना राम के इस प्रकार के अथाह शोक-सागर में डूब रहा हूँ, सो जीते जी तो मैं इसे पार न कर सकूँगा ॥ ३२ ॥

अशोभनं<sup>१</sup> योऽहमिहाद्य राघवं

दिदृक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम् ।

इतीव राजा विलपन्महायशाः

पपात तूर्णं शयने स मूर्च्छितः ॥ ३३ ॥

मैं आज लक्ष्मण सहित राम को देखना चाहता हूँ, किन्तु नहीं देख सकता, यह मेरे किसी महापातक का फल है। इस प्रकार महायशस्वी महाराज अनेक प्रकार से विलाप करते हुए तत्काल ही अचेत हो पलंग पर गिर पड़े ॥ ३३ ॥

इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे<sup>२</sup>

करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः ।

१ अशोभनं—मममहत्पापं । (रा०) २ प्रनष्टे—मूर्च्छिते सीता । (रा०)

वचनमनुनिशम्य तस्य देवी

भयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ ३४ ॥

इति एकोनषष्टितमः सर्गः ॥

महाराज जब श्रीरामचन्द्र के लिये अत्यन्त कष्टपूर्ण विलाप करते करते मूर्छित हो गये तब राममाता महारानी कौशल्या देवी को उनके ऐसे वचन सुन, डूना भय हुआ। (अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी के लिये महाराज को कष्टपूर्ण विलाप कर के मूर्छित हुआ देख, कौशल्या बहुत डरी कि, कहीं महाराज प्राण न त्याग दें) ॥ ३४ ॥

अयोध्याकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ।

—:❖:—

षष्टितमः सर्गः

—:०:—

ततो भूतोपसृष्टेव वैपमाना पुनः पुनः ।

धरण्यां गतसत्त्वेव<sup>१</sup> कौसल्या मृतमत्रवीत् ॥ १ ॥

कौशल्या, जो भूताविष्ट की तरह भूमि पर निर्जीव सी पड़ी कांप रही थी, लुमंत्र से बोलती ॥ १ ॥

नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः ।

तान्विना क्षणमप्यत्र जीवितुं नेत्सहे ह्यहम् ॥ २ ॥

हे सूत ! जहाँ राम, लक्ष्मण जानकी हों, वहाँ मुझे ले चलो, क्योंकि बिना उनके आज मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती ॥ २ ॥

१ गतसत्त्वेव—गतप्राणैव । (गो०)

निवर्तय रथं शीघ्रं दण्डकान्नय मामपि ।

अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ ३ ॥

अतः अति शीघ्र रथ फिर लौटाओ और मुझे भी दण्डकवन में पहुँचा दो, जो मैं उनके पास न गयी तो मैं यमपुरी को चल दूँगी ॥ ३ ॥

वाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया<sup>१</sup> ।

इदमाश्वासयन्देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् ॥ ४ ॥

यह सुन सुमंत्र आँसू बहा, विकल हो, और हाथ जोड़ कर, महारानी को धीरज बँधाते हुए बोले ॥ ४ ॥

त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं<sup>२</sup> दुःखजं तथा ।

व्यवधूय च सन्तपं वने वत्स्यति राघवः ॥ ५ ॥

हे देवी ! तुम शोक, मोह और दुःख के कारण उत्पन्न विकलता को त्याग दो । क्योंकि श्रीरामचन्द्र सुख से वन में वास करेंगे ॥५॥

लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन्वने ।

आराधयति धर्मज्ञः परलोकं<sup>३</sup> जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥

लक्ष्मण भी श्रीरामचन्द्र की चरणसेवा कर, धर्मपूर्वक एवं जितेन्द्रिय हो, अपना परलोक सुधार रहे हैं ॥ ६ ॥

विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव ।

विस्मर्भं<sup>४</sup> लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥

१ सज्जमानया—विह्वलया। (गो०) २ सम्भ्रमं—ज्याकुलत्वं। (गो०) ३ परलोकमाराधयति—परलोकं साधयति। (गो०) ४ विस्मर्भं—प्रणयं। (गो०)

विज्जन वन में भी सीता राम में अपना मन लगा, घर ही के समान, प्रीतिपूर्वक एवं निर्भय रहती हैं ॥ ७ ॥

नास्या दैन्यं कृतं किञ्चित्सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते ।

उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मा ॥ ८ ॥

सीता जी में मुझे ज़रा सी भी दीनता नहीं देख पड़ी। अतः मुझे तो वह प्रवास में रहने के योग्य ही जालूम पड़ती है ॥ ८ ॥

नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा ।

तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥ ९ ॥

जिस प्रकार सीता नगर के बाग़ बगीचों में जा कर पहले यहाँ विहार किया करती थीं उसी प्रकार वह वहाँ निर्जन वन में भी विहार करती है ॥ ९ ॥

वालेव रमते सीताञ्जालचन्द्रनिभानना ।

रामा रामे ह्यधीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥१०॥

पूणिमा के चन्द्रमा की तरह मुखवाली सीता निर्जन वन में भी प्रसन्नचित्त हो कर राम में मन लगा और अधीन हो क्रीड़ा किया करती है ॥ १० ॥

तद्गतं हृदयं ह्यस्यास्तदधीनं च जीवितम् ।

अयोध्यापि भवेत्तस्या रामहीना तथा वनम् ॥११॥

क्योंकि केवल उसका मन ही सम्पूर्णतया श्रीराम के अधीन नहीं है, प्रत्युत उसका जीवन भी उन्हींके ऊपर निर्भर है। अतः

बिना श्रीराम के उसके लिये यह अयोध्या भी वन के समान है ॥ ११ ॥

पथि पृच्छति वैदेही ग्रामांश्च नगराणि च ।

गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान्विविधानपि ॥ १२ ॥

मार्ग में जो गाँव, नगर, नदी और अनेक प्रकार के वृक्ष सीता देखती, उनके विषय में वह ॥ १२ ॥

रामं वा लक्ष्मणं वापि पृष्ट्वा जानाति जानकी ।

अयोध्याक्रोशमात्रे तु विहारमिव संश्रिता ॥ १३ ॥

राम से और लक्ष्मण से पूँछ, उनका वृत्तान्त अथवा परिचय जान लेती थी। वह वन तो उसके लिये मानों अयोध्या से एक कोस के अन्तर पर उपस्थित विहारस्थल जैसा हो रहा है ॥ १३ ॥

इदमेव स्मराम्यस्याः सहसैवोपजल्पितम् ।

कैकेयीसंश्रितं वाक्यं नेदानीं प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥

सीता जी के विषय में तो मुझे इन्हीं बातों की याद है, उसने कैकेयी के बारे में जो कहा था—वह मुझे इस समय याद नहीं है ॥ १४ ॥

ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पर्युपस्थितम् ।

ह्लादनं वचनं सूतो देव्या मधुरमब्रवीत् ॥ १५ ॥

सुमंत्र ने भूल से कैकेयी की चर्चा छोड़ दी थी—सो उस चर्चा को वहीं छोड़, फिर सुमंत्र कौशल्या को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे ॥ १५ ॥

अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन<sup>१</sup> च ।

न विगच्छति<sup>२</sup> वैदेह्याश्चन्द्रांशुसदृशी प्रभा ॥ १६ ॥

हे महारानी ! जानकी के मुख की चन्द्रमा जैसी प्रभा, मार्ग की थकावट से, हवा के झोंकी से, व्याघ्रादि भयङ्कर वन के जीव जन्तुओं के डर से, अथवा तेज़ धूप से फीकी नहीं होती है ॥ १६ ॥

सदृशं शतपत्रस्य<sup>३</sup> पूर्णचन्द्रोपमप्रभम् ।

वदनं तद्वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते ॥ १७ ॥

अलक्तरसरक्ताभावलक्तरसवर्जितौ ।

अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८ ॥

और न कमल एवं पूर्णचन्द्र के तुल्य सीता जी का मुख मलिन होता है। यद्यपि उसके चरणों में महानर नहीं लगायी गयी तथापि अब तक उसके दोनों चरण कमल की तरह लाल लाल देख पड़ते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥

नूपुरोद्घुष्टहेलेव खेलं<sup>४</sup> गच्छति भामिनी ।

इदानीमपि वैदेही तद्रागान्न्यस्तभूषणा ॥ १९ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के प्रति अनुरागवती होने के कारण सीता ने अब तक आभूषण नहीं उतारे हैं, वह पैरों की पायजेंटों की झनकार से हंस आदि के गमन को लजानी हुई बड़े आनन्द से चलती है ॥ १९ ॥

१ सम्भ्रमेण—व्याघ्रादिदर्शनजन्यव्याकुलत्वेन । ( गो० ) २ नविगच्छति—नविकरोति । ( गो० ) ३ शतपत्रस्य—पद्मस्य । ( गो० ) ४ खेलं—सलीलं । ( गो० )



गजं वा वीक्ष्य सिंह वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता ।

नाहारयति संत्रासं वाहू रामस्य संश्रिता ॥ २० ॥

वन में हाथी, सिंह और व्याघ्र को देख—वह डरती नहीं, क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के भुजबल पर विश्वास होने से वह निर्भय रहती है ॥ २० ॥

न शोच्यास्ते न चात्मानः<sup>१</sup> शोच्यो नापि जनाधिपः ।

इदं<sup>२</sup> हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम् ॥ २१ ॥

अतः हे देवी ! तुम उन तीनों के लिये, अपने लिये और महाराज के लिये ज़रा भी चिन्ता न करो । पिता की आज्ञा मान कर वन जाने का शौगम जी का चरित्र आचन्द्रार्क इस संसार में प्रसिद्ध हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा ॥ २१ ॥

विधूय शोकं परिहृष्टमानसा

महर्षियाते<sup>३</sup> पथि सुव्यवस्थिताः ।

वने रता वन्यफलाशनाः पितुः

शुभां प्रतिज्ञां परिपालयन्ति ते ॥ २२ ॥

वे ( श्रीरामचन्द्र ) शोक को दूर कर, प्रसन्न मन से महर्षियों के चले हुए मार्ग का भली भाँति अनुसरण कर, अर्थात् तपस्वियों के नियमों का पालन करते हुए वन में रह और कन्दमूल फल खा पिता की परम पवित्र आज्ञा का पालन कर रहे हैं ॥ २२ ॥

१ आत्मनः—वयं । ( गा० ) २ इदंचरितं—पितृवचनपरिपालनरूपंचरितं । ( गो० ) ३ महर्षियाते—महर्षिभिः प्राप्ते । ( गो० )

तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना  
निवार्यमाणा सुतशोककश्चिता ।

न चैव देवी विरराम कृजितात्  
प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥ २३ ॥

इति षष्ठिनमः सर्गः ॥

यद्यपि सूत ने कौशल्या को अनेक युक्तियों से बहुत कुछ समझाया, तथापि कौशल्या पुत्रवियोगजन्य शोक से पीड़ित हो, रोने बिलाने से न रुकी और “अरे मेरे लाड़ले,” “अरे मेरे बेटे,” “अरे राम !” बराबर कह कह कर रोती ही रहीं ॥ २३ ॥

अयोध्याकाण्ड का साठवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकषष्टितमः सर्गः

—:०:—

वनं गते धर्मपरे रामे स्मयतां वरे ।

कौसल्या रुदती\* सार्ता भर्तारमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥

गुणामिराम, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के वन चले जाने पर, कौशल्या विकल हो रुदन करती हुई अपने पति से यह बोली ॥ १ ॥

यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः ।

सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ ॥

\* पाठान्तरे—“स्वाती ।”

हे महाराज ! यद्यपि तीनों लोकों में आपकी यह कीर्ति फैली हुई है कि, महाराज बड़े दयालु, उदार, और प्रियवादी हैं ॥ २ ॥

कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया ।

दुखितौः सुखसंवृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः ॥ ३ ॥

तथापि हे पुरुषोत्तम ! ( यह तो बतलाइये कि ) सीता सहित आपके वे दोनों पुत्र, जो सुख में पाले पोसे गये हैं, दुःखी हो, किस तरह वन में दुःख सह सकेंगे ॥ ३ ॥

सा नूनं तरुणी<sup>१</sup> श्यामा<sup>२</sup> सुकुमारी सुखोचिता ।

कथमुष्णं च शीतं च मैथिली प्रसहिष्यते ॥ ४ ॥

निश्चय ही युवावस्था को प्राप्त युवती एवं सुकुमारी सीता, जो सुख से रहने योग्य है, किस प्रकार गर्मी सर्दी सह सकेगी ॥ ४ ॥

भुक्त्वाऽशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं<sup>३</sup> शुभम् ।

वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥

जो बड़े बड़े नेत्र वाली, ( रसाइयों के बनाये हुए ) सुन्दर व्यञ्जन खाती थी, वह सीता फ्योंकर वन के चावलों को खा सकेगी ॥ ५ ॥

गीतवादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा शुभमनिन्दिता ।

कथं क्रव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम् ॥ ६ ॥

---

१ तरुणी—आरव्ययौवना । ( गो० ) २ श्यामा—यौवनमध्यस्था । (गो०) ( श्यामातरुणी—यौवनमध्यस्था तरुणी । गो०) ३ सूपदंशान्वितं—शोभनव्यञ्जन सहितं । (गो०)

जो अनिन्दिता सीता गाने और वजाने की ( मधुर ) ध्वनि ही सुना करती थी, इस समय वह क्यों कर मांसाहारी सिंहों का भयङ्कर शब्द सुनेगी ॥ ६ ॥

महेन्द्रध्वजसङ्काशः क नु शेते महाभुजः ।

भुजं परिघसङ्काशमुपधाय \*सहानुजः ॥ ७ ॥

जो इन्द्रधनुष के समान बड़ी भुजाओं वाले और महाबली हैं, वे अपनी विशाल भुजा तकिये की जगह सिर के नीचे रख कहीं शयन करते होंगे ॥ ७ ॥

पद्मवर्णं सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमम् ।

कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम् ॥ ८ ॥

कमल के समान और सुन्दर केशों से युक्त, कमल जैसी सुगन्ध और कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी के मुखारविन्द को, मैं कब देखूँगी ॥ ८ ॥

वज्रसारमयं नूनं हृदये मे न संशयः ।

अपश्यन्त्या न तं यद्वै फलतीदं सहस्रधा ॥ ९ ॥

निश्चय ही मेरा हृदय वज्र का है—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। क्योंकि राम को न देखने से इससे सहस्र टुकड़े नहीं हो जाते ॥ ९ ॥

यत्त्वयाऽकरुणं कर्म व्यपोह्य मम वान्धवाः ।

निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥ १० ॥

१ महेन्द्रध्वजोनाम इन्द्रधनुः । (गो०) \* पाठान्तरे—“महाबलः ।”

महाराज ! आपने मेरे प्रियजनों को राज्य से निकाल कर  
बड़ा निर्दयतापूर्ण कर्म किया है। जो सुख से रहने योग्य हैं, हाथ  
वे दीन हो वन में मारे मारे फिरते हैं ॥ १० ॥

यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति ।

जह्याद्राज्यं च कोशं च भरतो नोपभुज्यते ॥ ११ ॥

यदि चौदह वर्ष बाद श्रीरामचन्द्र लौट भी आवें ( तो भी  
मुझे भरोसा नहीं कि ) भरत उनको राज्य और कोश दे देंगे ॥ ११ ॥

भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानेव बान्धवान् ।

ततः पश्चात्समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजर्षभान् ॥ १२ ॥

कोई कोई श्राद्ध करने वाले विद्वान् ब्राह्मण को निमंत्रण दे,  
पहले गुणहीन भाई वंदों को श्राद्ध में भोजन करवाते हैं। पीछे से  
उन निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाते हैं ॥ १२ ॥

तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः ।

न पश्चात्तेऽनुमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥ १३ ॥

तब उन ब्राह्मणों में जो गुणवान् एवं विद्वान् होते हैं, वे श्राद्ध  
के अमृत तुल्य भोज्य पदार्थों को, मदिरा के समान ( त्याज्य )  
क्या नहीं समझते ? ॥ १३ ॥

ब्राह्मणेष्वपि तृप्तेषु पश्चाद्भोक्तुं द्विजर्षभाः ।

नाभ्युपैतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवर्षभाः ॥ १४ ॥

(यही नहीं बल्कि) अन्य ब्राह्मणों के भोजन से वचे हुए अन्न को,  
विद्वान् ब्राह्मण अङ्गीकर करने में वैसा ही अपना अनादर समझते  
हैं, जैसा बैल का अनादर उसके सींगों के काटने से होता है ॥ १४ ॥

एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशांपते ।

भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमंस्यते ॥ १५ ॥

हे प्रजानाथ ! इसी तरह छोटे भाई के भोगे हुए राज्य का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाई क्यों न अनादर करेगा, अर्थात् अवश्य अनादर करेगा ॥ १५ ॥

न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याघ्रः खादितुमिच्छति ।

एवमेव नरव्याघ्रः परलीढं<sup>२</sup> न मंस्यते ॥ १६ ॥

जिस प्रकार व्याघ्र दूसरे की मारी हुई शिकार का खाना पसंद नहीं करता, वैसे ही पुरुषसिंह श्रीराम भी दूसरे की चक्खी हुई वस्तु कदापि अङ्गीकार न करेंगे ॥ १६ ॥

हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः ।

नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे ॥ १७ ॥

जिस प्रकार एक यज्ञ में व्यवहृत हवि, घी, पुरोडाश, कुशा और खैर के खंभे दूसरे यज्ञ के काम के नहीं रहते ॥ १७ ॥

तथा हात्तमिदं राज्यं हतसारां सुरामिव ।

नाभिमन्तु<sup>३</sup>मलं रामो नष्टसोममिवाध्वरम् ॥ १८ ॥

उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी इस उपयुक्त राज्य को सार निकली हुई सुरा और सोमरहित यज्ञ की तरह कभी लेने की इच्छा न करेंगे ॥ १८ ॥

१ विशांपते—हे प्रजानाथ । (गो०) २ परलीढं—परेणास्वादितं । (गो०)

३ हात्तं—उपभुक्तपूर्वं । (गो०) ४ अभिमन्तुं—अभिलषितुं । (गो०)

नैवविधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति ।

वलवानिव शार्दूलो वालधेरभिमर्शनम् ॥ १९ ॥

जिस प्रकार बलवान् सिंह अपनी पूँछ का मरुड़वाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम भी इस तरह के असत्कार को न सह सकेंगे ॥ १९ ॥

नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामृधे<sup>१</sup> ।

अधर्मं त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत् ॥ २० ॥

क्या सब लोग यहाँ संग्राम में श्रीरामचन्द्र जी से नहीं डरते ( अर्थात् सब डरते हैं । अतः वे बड़े बलवान् हैं, वे चाहते तो यह राज्य अपने बाहुबल से ले सकते थे, किन्तु ) वे ( केवल स्वयं ही ) धर्मात्मा ( नहीं ) हैं, प्रत्युत अधर्मियों को भी धर्म पर चलने की शिक्षा देते हैं । वे ही क्यों कर अधर्म करें ( अर्थात् बलपूर्वक राज्य लें ) ॥ २० ॥

नन्वसौ काञ्चनैर्वाणैर्महावीर्यो महाभुजः ।

युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्दहेत् ॥ २१ ॥

बड़े भुजाओं वाले और महापराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो अपने सुनहले रंग के वाणों से प्रलयकाल के समय जैसा, ( केवल ) सब प्राणियों ही को ( नहीं ) समुद्र ( तक ) को भस्म कर सकते हैं ॥ २१ ॥

स तादृशः सिंहवलो वृषभाक्षो नरर्षभः ।

स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ २२ ॥

वे सिंह के समान बलशाली, पुरुषश्रेष्ठ शोगाम उनी प्रकार अपने पिता द्वारा मारे पड़े, तिस प्रकार मञ्जुली के बच्चे ( अपने पिता ) मत्स्य द्वारा नष्ट कर दिये जाते हैं ( मत्स्य अपने सन्तान को खा डालते हैं ) ॥ २२ ॥

द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रदृष्टः सनातनः ।

यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥ २३ ॥

यदि आप द्विजों द्वारा आचरित, शास्त्राक सनातन धर्म मानते होते, तो ऐसे धर्मनिरत पुत्र को देग निकाला कभी न देते ॥ २३ ॥

गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः ।

तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्या नेह विद्यते ॥ २४ ॥

हे महाराज ! स्त्री के लिये पहला सहारा पति का, दूसरा पुत्र का, तीसरा भाईवंदा का है। स्त्री के लिये चौथा सहारा तो कोई है ही नहीं ॥ २४ ॥

तत्र त्वं चैव मे नास्ति रामस्य वनमाश्रितः ।

न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा निहता त्वया ॥२५॥

इनमें से आप तो मेरे हैं ही नहीं ( और दुमरे सहारे ) राम को आपने वन भेज ही दिया है। आपके झेड़ में वन भी नहीं जा सकती। आपने तो मुझे वारहवाट कर दिया ( अर्थात् मुझे कहीं का नहीं रखा सब तरह से बरबाद कर दिया ) ॥ २५ ॥

हतं त्वया राज्यमिदं सराष्ट्रं

हतस्नयाऽऽत्मा सह मन्त्रिभिश्च ।

इता सपुत्राऽस्मि इताश्च पौराः ।

सुतश्च भार्या च तत्र प्रहृष्टौ ॥ २६ ॥



हे महाराज ! ( आपने श्रीराम को चन में भेज कर ) अनेक छोटे राज्यों सहित इस विशाल राज्य को, मंत्रियों सहित अपने आपको, पुत्र सहित मुझको और समस्त अयोध्यावासियों को बरबाद कर डाला । ( आपके इस कार्य से प्रसन्न केवल दो ही हैं ) आपको भार्या कैकेयी और उसका पुत्र भरत ॥ २६ ॥

इमां गिरं दारुणशब्दसंश्रितां

निशम्य राजाऽपि मुमोह दुःखितः ।

ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः

स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तदा स्मरन् ॥ २७ ॥

इति इकषष्टितमः सर्गः ॥

कौशल्या के इस प्रकार के कठोर वचन सुन, महाराज दशरथ अत्यन्त दुःखी हो मूर्च्छित हो गये और शोकनागर में निमग्न हो महाराज इस दुःख का आदिकारण विचारने लगे ॥ २७ ॥

अयोध्याकाण्ड का इकसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❖:—

द्विषष्टितमः सर्गः

—:०:—

एवं तु क्रुद्धया राजा राममात्रा सशोकया ।

श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामांस दुःखितः ॥ १ ॥

१ स्वदुष्कृतं स्मरन्—एतादृशदुःखस्यनिदानभूतं किंकर्म पूर्वं कृतं इति स्मरन् । ( गो० )

महाराज दशरथ शोक के कारण क्रुद्ध राममाता कौशल्या के ऐसे फटोर वचन सुन, दुखी हो सोचने लगे कि, अब क्या करें ॥ १ ॥

चिन्तयित्वा स च नृपो मुमोह व्याकुलेन्द्रियः ।

अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परन्तपः ॥ २ ॥

यंही सोचते सोचते महाराज विकल हो मूर्छित हो गये और बहुत देर बाद वे सचेत हुए ॥ २ ॥

स संज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् ।

कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा पुनश्चिन्तामुपागमत् ॥ ३ ॥

वे सचेत होने पर बड़ी गहरी सांसे लेने लगे । कौशल्या को पास बैठी देख, वे फिर सोच में पड़ गये ॥ ३ ॥

तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्कर्म दुष्कृतम् ।

यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥

सोचते सोचते उनका अपना दुष्टकर्म याद पड़ा । ( वह था ) पहले किसी समय अनजाने एक तपस्वी का शब्दवेधी वाण से बध ॥ ४ ॥

विमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः ।

द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत ॥ ५ ॥

महाराज एक तो श्रीरामचन्द्र के वियोग से दुःखी थे ही, अब - उस दुष्कर्मिका स्मरण भी उन्हें दुःखी करने लगा । इन दोनों के शोक से महाराज सन्तप्त हो विकल हो गये ॥ ५ ॥

दह्यमानः स शोकाभ्यां कौसल्यामाह भूपतिः ।  
वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः ॥ ६ ॥

दोनों शोकों से दग्ध और दुःखित महाराज दशरथ ने कांप कर और नीचा सिर कर कौशल्या को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हाथ जोड़ कर कहा ॥ ६ ॥

प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाऽञ्जलिः ।  
वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि ॥ ७ ॥

हे कौशल्ये ! मैं तेरी विनती करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ । तू तो अपने शत्रुओं पर भी सदा दया दिखाती और उनके प्रति अकोर व्यवहार करती है ॥ ७ ॥

भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान्निर्गुणोऽपि वा ।  
धर्मं विमृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम् ॥ ८ ॥

हे देवी ! ( यह भी तू जानती ही है कि, ) धर्म की दृष्टि से, धर्माचरण करने वाली स्त्री के लिये उसका/पति ही चाहे गुणी हो अथवा निर्गुणी, प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८ ॥

सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा<sup>१</sup> ।  
नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम् ॥ ९ ॥

सो तू नित्य धर्माचरण में तत्पर और संसार का ऊँच नीच समझने वाली हो कर भी, तुझे ऐसे अप्रिय वचन कहना उचित

१ दृष्टलोकपरावरा—दृष्टलोकैकज्ञेयपरावरा—उत्कर्षापिकर्षीयंयासत-  
योक्ता । ( गो० )

नहीं। ( मैं यह जानता हूँ कि, तू दुःखी होने के कारण ऐसा कह रही है, तो भो ) मुझ जैसे अत्यन्त दुःखी से तुझे ऐसा कहना उचित नहीं ॥ ६ ॥

तद्वाक्यं कर्णं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम् ।

कौसल्या व्यसृजद्वाप्यं प्रणालीव नवोदकम्<sup>१</sup> ॥१०॥

महाराज के ऐसे कर्णापूर्ण वचन सुन, कौशल्या के नेत्रों से आंसुओं को धार इस भाँति बही, जिस भाँति नालियों में वर्षों का जल बहता है ॥ १० ॥

सा मूर्ध्नि बद्धा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम् ।

सम्भ्रमाद्ब्रवीन्नस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११ ॥

कौशल्या ने महाराज के दोनों जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर पर रख लिया और रोते हुई घबड़ानी सी वह बोली ॥ ११ ॥

प्रसीद शिरसा याचे भूमौ<sup>२</sup> निपतिताऽस्मि ते ।

याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया ॥ १२ ॥

हे देव ! आप दुःखी न हों ; प्रसन्न हों। मैं अपना सिर आपके चरणों में रख आपका प्रणाम करनी हूँ। आपका मेरो विनती करना, मेरे लिये मरने के समान कष्टदायी है। अतः आप मुझसे क्षमा न माँग कर, मुझे मेरे अनुचित कर्म के लिये दण्ड दें ॥ १२ ॥

नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता ।

उभयोर्लोकयोर्वीर पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ १३ ॥

<sup>१</sup> नवोदकं—वर्षजलं । ( गो० ) <sup>२</sup> भूमौनिपतितास्मि—प्रणतास्मीत्यर्थः । ( गो० )

वह स्त्री कुलीन नहीं कहला सकती, जिसको दोनों लोकों की एक मात्र गति ( अर्थात् पति ) विनतो कर प्रसन्न करे ॥ १३ ॥

जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् ।

पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम् ॥ १४ ॥

हे धर्मज्ञ ! मैं स्त्री कर्चव्य को जानती हूँ और आपको सत्यवादी मानती हूँ । उस समय मेरे मुख में जो थोड़ा बहुत अनुचित निकल गया, वह पुत्रशोक से विकल होने के कारण निकल गया ॥ १४ ॥

शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम्<sup>१</sup> ।

शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः ॥ १५ ॥

क्योंकि शोक ( मनुष्य का केवल ) धैर्य और शास्त्रज्ञान ही नष्ट नहीं करना, प्रद्युत सर्वनाश कर देता है । अतः शोक से बड़ कर ( मनुष्य का ) शत्रु दूसरा कोई नहीं है ॥ १५ ॥

शक्यमापतितः सोढुं प्रहारो रिपुहस्ततः ।

सोढुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते ॥ १६ ॥

अतएव अन्य वैरी के हाथ का प्रहार तो सह भी लिया जा सकता है, किन्तु हठात्प्राप्त बहुत थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता ॥ १६ ॥

वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्य गण्यते ।

यः शोरुहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम ॥ १७ ॥

१ श्रुतम् — शास्त्रध्वजनिर्दिष्टधर्म । ( शि० ) २ आपतितः—  
हठात्प्राप्तः । ( गो० )

राम को वनवास गये आज पाँचवी रात है किन्तु, मेरे लिये ता ये पाँच रातें पाँच वर्ष के समान हो गयीं । क्योंकि राम-वियोग-जनित शोक के कारण हर्ष तो एकदम मुझसे विद्रा हो गया है ॥ १७ ॥

तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते ।

नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत् ॥ १८ ॥

श्रीराम की चिन्ता करने से मेरे हृदय में उसी प्रकार शोक बढ़ता है, जिस प्रकार नदी के जल के वेग से समुद्र का जल बढ़ता है ॥ १८ ॥

एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः ।

मन्दरशिमरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९ ॥

कौशल्या जी के इस प्रकार विनम्रतापूर्ण वचन कहते कहते, सूर्य अस्त हो गये और रात हो गयी ॥ १९ ॥

\*अथ प्रह्लादितो वाक्यैर्देव्या कौसल्यया नृपः ।

शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान् ॥ २० ॥

इति द्विषष्टितमः सर्गः ॥

महाराज दशरथ, कौशल्या की यह बातचीत सुन, हर्षित हुए और शोक से उत्पीड़ित होने के कारण उनको नींद आ गयी ॥२०॥

अयोध्याकाण्ड का बासठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

## त्रिषष्टितमः सर्गः

—:०:—

प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः ।

अथ राजा दशरथश्चिन्तामभ्यवपद्यत ॥ १ ॥

एक मुहूर्त सोने के पीछे महाराज की आँखें खुलीं। आँखें खुलते ही शोक ने उनको आ घेरा और वे चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥

रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्वासवोपमम् ।

आविवेशोपसर्गः<sup>१</sup> तं तमः<sup>२</sup> सूर्यमिवासुरम्<sup>३</sup> ॥ २ ॥

श्रीराम और लक्ष्मण के वनवास के उपद्रव से बड़े हुए शोक ने इन्द्र के समान महाराज दशरथ को उसी प्रकार आच्छादित कर लिया, जिस प्रकार राहु सूर्य को आच्छादित कर लेता है ॥ २ ॥

सभार्ये निर्गते रामे कौसल्यां कौसलेश्वरः ।

विवक्षु<sup>४</sup>रसितापाङ्गां स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥

सखीक श्रीराम जी के वनवासी होने पर महाराज ने अपने उस दुष्कृत कर्म की सुधि कर, उसे महारानी कौशल्या से कहने की इच्छा की ॥ ३ ॥

स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम् ।

अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन्दुष्कृतं कृतम् ॥ ४ ॥

१ उपसर्गः—महापद्रवःपुत्रशोककल्पः । ( गो० ) २ तमः—राहुः ।  
३ आसुरं—असुर संबन्धि । ( गो० ) ४ विवक्षुः वक्तुमिच्छुः । ( शि० )

श्रीराम के वनवास के दिन से छठवीं रात को आधी रात के समय महाराज ने अपने उस पापकृत्य को स्मरण किया ॥ ४ ॥

स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ।

कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमब्रवीत् ॥ ५ ॥

पुत्र के वियोग के शोक से विकल महाराज ने अपने पापकर्म को स्मरण कर, पुत्रवियोग से विकल महारानी कौशल्या से कहा ॥ ५ ॥

यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।

तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥ ६ ॥

हे कल्याणि ! मनुष्य भला या बुरा—जैसा कर्म करता है, उस कर्म का फल, कर्ता का अवश्य मिलता है ॥ ६ ॥

गुरुलाघवमर्थानां मारम्भे कर्मणां फलम् ।

दोषं वा यो न जानाति स बाल<sup>२</sup> इति होच्यते ॥७॥

अतएव कर्म करने के पूर्व जो मनुष्य कर्म के फल का गुरुत्व लघुत्व ( भलाई बुराई ) अथवा उसके दोष ( त्रुटि ) को नहीं जानता, वह अज्ञानी रहजाना है ॥ ७ ॥

कश्चिदाभ्रवणं छित्त्वा पलांशाश्च निषिञ्चति ।

पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे ॥ ८ ॥

जो आदमी पलाश के लाल लाल फूलों को देख, फल पाने की अभिलाषा से, आम के पेड़ को काट कर, पलाश वृक्ष को

१ अर्थानाम्—फलानाम् । ( गो० ) २ बालः—अज्ञः । ( गो० )



सींचता है, फल लगने का समय आने पर वह अवश्य ही पक-  
ताता है ॥ ८ ॥

अविज्ञाय फलं ये हि कर्मत्वेवानुधावति ।

स शोचेंत्फलवेलायां यथा किंशुकसेचकः ॥ ९ ॥

अतः जो मनुष्य कर्म का परिणाम विचारे बिना ही कर्म करने  
लगता है, उसे भी फल प्राप्ति के समय, पत्राश वृत्त सींचने वाले  
( अज्ञानी ) मनुष्य की तरह पकृताना पड़ता है ॥ ९ ॥

सोऽहमाप्रवृणं छित्ना पलाशांश्च न्यवेवयम् ।

रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः ॥१०॥

हे देवी ! मैंने भी आन के वृत्त को काट कर पत्राश के वृत्त  
को सींचा है। वो फल लगने के समय, शोचाम को त्याग कर  
मुझ दुष्टमति को भी पकृताना पड़ता है ॥ १० ॥

लब्धशब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता ।

कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम् ॥ ११ ॥

हे कौशल्ये ! मैंने अपनी कुमारावस्था में अपने को शब्दवेधी  
कहला कर, प्रमिद्ध होने की अभिजाया से धनुष धारण कर, यह  
पाप किया ॥ ११ ॥

तदिदं मेऽनुसम्प्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतम् ।

सम्मोहादिह \*त्राल्येन यथा स्याद्भक्षितं विषम् ॥१२॥

१ लब्धशब्देन—प्राप्तत्वमातिनामया शब्दालब्धगततुल्य मुनिपुत्र शब्देन ।

( गो० ) \* पाठान्तरे—“ बालेन तदा । ”

सो हे देवी ! मैं इस दुःख का कारण स्वयं ही हूँ । जिस प्रकार बालक अज्ञानवश विष खा ले, वैसे ही मैंने भी अज्ञान में पाप कर अपना सर्वनाश अपने आप किया है ॥ १२ ॥

यथाऽन्यः पुरुषः कश्चित्पलाशैर्मोहितो भवेत् ।

एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम् ॥ १३ ॥

जैसे कोई आदमी पलाशपुष्प को देख, उससे उत्तम फल पाने की आशा से उसकी सेवा करे, पर उससे उसे उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती—वैसे ही मैंने भी शब्दवेधी शिकार को उत्तम समझ विना जाने बूझे ऐसा किया, उसका मुझे यह फल प्राप्त हुआ है ॥ १३ ॥

देव्यनुदा<sup>१</sup> त्वमभवे युवराजो<sup>२</sup> भवाम्यहम् ।

ततः<sup>३</sup> प्रावृटनुप्राप्ता मदकामविवर्धनी ॥ १४ ॥

हे देवी ! यह हाल उस समय का है जिस समय तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था । उन्हीं दिनों काम के वेग को उत्तेजित करने वाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४ ॥

उपास्य हि रसान्<sup>४</sup> भीमांस्तप्त्वा च<sup>५</sup> जगदंशुभिः ।

परेताचरितां भीमां<sup>६</sup> रविराविशते<sup>७</sup> दिशम् ॥ १५ ॥

१ अनुदा—अकृत विवाहा । ( गो० ) २ भवामि—अभवम् । ( गो० )  
 ३ प्रावृट्—वर्षाकालः । ( गो० ) ४ उपास्य—गुडीत्वा । ( गो० ) ५ रसान्—  
 जलानि । ( गो० ) ६ जगत्—भूमिम् । ( गो० ) ७ परेताचरितां—प्रेता-  
 चरितां । ( गो० ) ८ भीमांदिशम्—दक्षिणामित्यर्थः । ( गो० ) ९ आविशते  
 —आविशतेस्म । ( गो० )

सूर्यदेव पृथिवी के जल को सोख, और अपनी किरणों से भूमि को तप्त कर, प्रेतगण सेवित भयङ्कर दक्षिण दिशा को चले गये ( अर्थात् दक्षिणायन हो गये ) ॥ १५ ॥

उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा<sup>१</sup> ददृशिरे घनाः ।

ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गवर्हिणः ॥ १६ ॥

गरमी एक दम दूर हो गयी । शीतल वादल दिखलाई देने लगे । उनको देख, मेढक, चातक और मयूर हर्षित हो गये ॥ १६ ॥

क्लिन्नपक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छ्रादिव पतत्रिणः ।

वृष्टिवातावधूताग्रान्पादपानमिपेदिरे ॥ १७ ॥

बरसाती हवा से हिलते हुए पेड़ों पर, उन पक्षियों ने, जिनके पर जल से भीग जाने के कारण, स्नान किये हुए जैसे जान पड़ते थे, बड़े कष्ट से वसेरा लिया ॥ १७ ॥

पतितेनाम्भसाछन्नः पतमानेन चासकृत् ।

आवभौ भक्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८ ॥

बरसे हुए और बरसते हुए जल से आच्छादित मत्त हाथी उस समय उसी प्रकार जान पड़ते थे, जिस प्रकार स्थिर महासागर में पर्वत खड़ा हो ॥ १८ ॥

पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि ।

सुसुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजङ्गवत् ॥ १९ ॥

१ स्निग्धाः—शीतलाः । ( गो० ) २ मत्तसारङ्गः—मत्तगजः ।

पर्वतों की धातुओं से मिश्रित होने के कारण विमज जल के सोते भी पोले लाज अथवा राख मिजने से काले रंग के जल से युक्त हों, साँप की तरह टेढ़ी मेंढ़ी चाल से वह निकले ॥ १९ ॥

तस्मिन्नतिसुखे काले \*धनुष्मान्कवची रथी ।

१व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूमन्वगां नदीम् ॥ २० ॥

उन सुखदायी समय में शिकार खेलने के लिये धनुष बाण ले और रथ में बैठ सरयू नदी के तट पर पहुँचा ॥ २० ॥

निपाने महिषं रात्रौ गजं वाऽभ्यागतं नदीम् ।

अन्यं वा श्वापदं<sup>२</sup> कश्चिज्जिघांसुरजितेन्द्रियः ॥२१॥

मैं वहाँ गया, जहाँ रात के समय वनमेंसा, हाथी, तथा व्याघ्रादि अन्य दुष्ट जन्तु जल पीने आया करते थे । ( मैं इस उद्देश्य से वहाँ गया कि, कोई जानवर आवे और उसे मैं मारूँ ) क्योंकि उस समय तक मेरी प्रवृत्ति शिकार खेलने की और विशेष थी ( अथवा मुझे शिकार से निवृत्ति नहीं हुई थी ) ॥ २१ ॥

अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः ।

अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः ॥ २२ ॥

इसी बीच मैं अँधेरे में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन, मैंने समझा कि कोई हाथी चिंघार रहा है । मुझे कुछ दिखलाई न पड़ा, मैंने केवल वह शब्द ही सुना ॥ २२ ॥

१ व्यायामकृतसङ्कल्पः—सृगयाविहारेकृतसङ्कल्पः । ( गो० ) २ श्वापदं—व्याघ्रादिदुष्टमृगं । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ धनुष्मानिपुमान् रथी । ”

ततोऽहं शरमुद्धृत्य दीप्तमाशीविपोपमम् ।

शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्य त्वपातयम् ॥ २३ ॥

( मैंने तरकस से सर्प के विष से बुझा अर्थात् पैना और चमचमाता वाण निकाल, उस हाथी को बेधने को इच्छा से, शब्द को लक्ष्य कर छोड़ा ॥ २३ ॥

अमुञ्चं निशितं वाणमहमाशीविपोपमम् ।

तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः<sup>१</sup> ॥ २४ ॥

मैंने ज्योंही वह विष का बुझा पैना वाण छोड़ा, त्योंही किसी वनवासी का शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ा ॥ २४ ॥

हाहेति पततस्तोये वाणाग्निहतमर्मणः ।

तस्मिन्निपतिते वाणे वागभूत्तत्र मानुषी ॥ २५ ॥

वह ( तपस्वी जिसके वाण लगा था ) हाय हाय कह जल में गिर पड़ा—क्योंकि उस वाण से उस तपस्वी के मर्मस्थल विध गये थे । वह वाण की व्यथा से जब पानी में गिर पड़ा, तब मनुष्य जैसी बोली ( इस प्रकार ) सुन पड़ी ॥ २५ ॥

कथमस्मद्विधे<sup>२</sup> शस्त्रं निपतेत्तु तपस्विनि ।

प्रविविक्ता<sup>३</sup> नदीं शरात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥ २६ ॥

( वह बोला ) मेरे जैसे अज्ञातशत्रु तपस्वी के क्यों इस प्रकार बाण लगा । मैं तो रात्रि के समय, निराले में जल भरने आया था ॥ २६ ॥

१ वनौकसः—तपस्विनः । ( गो० ) २ अस्मद्विधे—अज्ञातशत्रौ । ( गो० )

३ प्रविविक्ता—प्रकर्षेण निर्जना । ( गो० ) ४ रात्रौ—अपररात्रौ । ( गो० )

इषुणाऽभिहतः केन कस्य वा किं कृतं मया ।

ऋषेर्हि न्यस्तदण्डस्य॑ वने वन्येन जीवतः ॥ २७ ॥

किसने मुझे बाण से मारा, मैंने किसी का क्या विगाड़ा था ? उस ऋषि को जो बाणों और शरीर से किसी जीव को नहीं सताता और वन में रह कर जो वन में उत्पन्न कन्दमूल फल खा कर जीवन बिताता है ॥ २७ ॥

कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते ।

जटाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः ॥ २८ ॥

ऐसे मुझ जैसे ( ऋषि ) का बाण मार कर वध क्यों किया जाता है । अरे मैं जटाभार धारण कर, वल्कल और मृगचर्म पहिनाता थोढ़ता हूँ ॥ २८ ॥

को वधेन ममार्थो स्यात्किं वास्यापकृतं मया ।

एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम् ॥ २९ ॥

इस दशा में रहने पर भी मुझे मारने से किसी का क्या अर्थ साधन हो सकता है, अथवा मैंने किसी का कुछ विगाड़ा था ( जो उसने मुझे बाण से मारा ) ऐसा निष्फल कर्म तो केवल अनर्थ ही का मूल है ॥ २९ ॥

• न कश्चित्साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम् ।

नाहं तथातुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३० ॥

जैसे गुरु की शय्या पर बैठने वाला साधु नहीं समझा जाता ( वैसे ही उसको भी कोई मला न कहेगा जिम्मेने अकारण मेरा

बध करना चाहा है । ) मुझे अपने प्राण जाने की उतनी चिन्ता  
अथवा शोक नहीं है ॥ ३० ॥

मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे ।

तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया ॥ ३१ ॥

जितनी चिन्ता मुझे अपने मरने पर माता पिता की है । उन  
दोनों वृद्धों का अब तक तो मैंने पालन पोषण किया ॥ ३१ ॥

मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्तिं वर्तयिष्यति ।

वृद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणा हतः ॥ ३२ ॥

किन्तु मेरे मर जाने पर उनकी क्या दशा होगी, मेरी माता  
और मेरे पिता तो बूढ़े हैं और मैं इस प्रकार बाण से मारा  
गया ॥ ३२ ॥

केन स्म निहताः सर्वे सुवालेनाकृतात्मना' ।

तां गिरं करुणां श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः ॥ ३३ ॥

किसी दुर्वृद्धि मूर्ख ने ( एक ही बाण से ) हम सब को मार  
डाला । ( हे कौशल्या ! ) इस प्रकार की करुणा भरी बाणी सुन,  
मुझ जैसे पुरयोपार्जन की इच्छा रखने वाले अथवा धर्ममोह ॥३३॥

कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्भुवि ।

तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशि लालपतो बहु ॥ ३४ ॥

सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः ।

तं देशमहमागम्य दीनसत्वः सुदुर्मनाः ॥ ३५ ॥

१ अकृतात्मन—अनिश्चितबुद्धिना । ( गी० ) २ धर्मानुकाङ्क्षिणः—  
धर्मप्रतीक्षाशीलस्य । ( बि० )

ऐसा व्यथित हुआ कि मेरे हाथ से धनुष बाण भूमि पर गिर पड़े। उस रात में, मैं उस तपस्वी का विलाप सुन उठिऊँ हो और अत्यन्त शोकाकुल हो अचेत हो गया। तदनन्तर मैं दुःखी और उदास हो उस जगह गया ॥ ३३ ॥ ३५ ॥

अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम् ।

अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम् ॥ ३६ ॥

सरयू के तट पर जा कर देखा कि, एक तपस्वी बाण से घायल पड़ा है। उसके सिर की जटा बिखरी हुई है और कलसा का जल फैला हुआ है अथवा पानी का कलसा अलग पड़ा है ॥ ३६ ॥

पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं \*शरपीडितम् ।

स मामुद्रीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसम् ॥ ३७ ॥

इत्युवाच ऽवचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा ।

किं तवापकृतं राजन्वने निवसता मया ॥ ३८ ॥

सारे शरीर में खून और धूल लगी हुई है, वह बाण की व्यथा से ज़मीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा है। उसने मुझे भयभीत और विकल जोन अपने दोनों नेत्रों से मेरी ओर ऐसे देखा मानों अपने नेत्राग्नि से मुझे भस्म कर डालेगा। तदनन्तर वह ये कठोर बचन बोला। हे राजन्! मैंने वन में बसते हुए तुम्हारा क्या विगाड़ा था? ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थं<sup>१</sup> यदहं ताडितस्त्वया ।

एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥ ३९ ॥

१ प्रवृद्ध—ध्वस्तं। ( रा० ) । गुर्वर्थं—मातापितृनिमित्तं। ( गो० )

२ पाठान्तरे—“शल्यपीडितम्” “शल्यबोधितं वा” । पाठान्तरे—“ततः” ॥



जो माता पिता के ( पीने के ) लिये जल भरने आये हुए मुझ-  
को तुमने मारा । एक ही बाण से तुमने मेरा मर्मस्थल घायल कर  
दिया ॥ ३९ ॥

द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे ।

तौ कथं दुर्वलावन्धौ मत्प्रतीक्षौ पिपासितौ ॥ ४० ॥

और मेरे माता पिता को भी, जो दुर्बल तथा अश्वे हैं एवं  
मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए व्यासे बैठे होंगे, मार डाला ॥ ४० ॥

चिरमाशाकृतां तृष्णां \*कथं सन्धारयिष्यतः ।

न नूनं तपसो वाऽस्ति फलयोगः श्रुतस्य<sup>१</sup> वा ॥ ४१ ॥

वे मेरे आने की वाट-देखते हुए व्यास के कष्ट को कैसे सह  
सकेंगे ! हा ! इससे तो तप का व इतिहास पुराणादि के श्रवण का  
कुछ भी सम्बन्ध न रहता ॥ ४१ ॥

पिता यन्मां न जानाति शयानं पतितं भुवि ।

जानन्नपि च किं कुर्यादशक्तिरपरिक्रमः ॥ ४२ ॥

जो पिता जो यह नहीं जानते कि मैं इस दशा में यहाँ ज़मीन  
पर पड़ा हूँ और यदि जान भी जाय तो कर ही क्या सकते हैं,  
क्योंकि उनमें ( अश्वे होने से ) चलने की शक्ति नहीं है अर्थात्  
वे पङ्क्तु हैं ॥ ४२ ॥

भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम् ।

पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४३ ॥

१ श्रुतस्य—सच्छ्रवणविषयीभूतेतिहासपुराणादेवीफलयोगः । ( शि० )

\* पाठान्तरे—“ कथा । ”

जैसे कटते हुए वृक्ष की रक्षा दूसरा वृक्ष नहीं कर सकता ( क्योंकि उसमें चलने की शक्ति नहीं ) उसी प्रकार मेरे माता पिता भी अंधे और पङ्गु होने के कारण मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं—अतः हे राजन् ! मेरे पिता के पास जा कर तुरन्त यह समाचार उनसे कहो ॥ ४३ ॥

न त्वामनुदहेत्क्रुद्धो वनं वह्निरिवैधितः ।

इयमेकपदी<sup>१</sup> राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥ ४४ ॥

नहीं तो वे क्रोध में भर तुम्हें वैसे ही ( शाप द्वारा ) भस्म कर डालेंगे, जिस प्रकार आग वन को भस्म कर डालती है । हे राजन् ! यह पगडंडी, जो देख पड़ती है, वही मेरे पिता के आश्रम तक चली गयी है ॥ ४४ ॥

तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शपेत् ।

विशल्यं कुरु मां राजन्मर्म मे निशितः शरः ॥ ४५ ॥

सो तुम वहाँ जा कर उनको प्रसन्न करो नहीं तो कुपित हो वे तुमको शाप दे देंगे । हे राजन् ! तुम इस वाण को जो मेरे मर्मस्थल में घुसा हुआ है, निकाल दो ॥ ४५ ॥

रुणाद्धि मृदु सोत्सेयं तीरमम्बुरयो<sup>२</sup> यथा ।

सशल्यः क्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति ॥ ४६ ॥

इति मामविशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे ।

दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य<sup>३</sup> च ॥ ४७ ॥

१ एकपदी—एकपदन्यासमात्रयुक्ता । सरणित्यर्थः । ( गो० ) २ अम्बुरयः—  
नदीवेगः । ( गो० ) ३ शोकातुरस्य—ब्रह्मइत्याभविष्यतीतिभियाशोकेन  
पीडितस्य । ( गो० )

क्योंकि यह वाण मेरे कोमल मर्मस्थल को उसी प्रकार काट रहा है, जिस प्रकार ऊँचे और बालु कामय करारे की नदी की धार का वेग काटता है। हे देवी! उस समय इस बात की चिन्ता उत्पन्न हुई कि, जब तक यह वाण गड़ा है तब तक उसे पीड़ा तो है, किन्तु जीता भी तभी तक है। क्योंकि वाण निकालते ही यह मर जायगा। अतः वाण निकालने में मेरे मन में खटका पैदा हो गया। उसने मुझे दीन दुःखी और शोकातुर देखा ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

लक्षयामास हृदये चिन्तां मुनिसुतस्तदा ।

ताम्यमानः स मां कृच्छ्रादुवाच परमार्तवत् ॥ ४८ ॥

तब उस मुनिपुत्र ने मेरे मन की चिन्ता को लख लिया और मुझे सन्तप्त देख, अत्यन्त दुःखी हो बड़े कष्ट से कहा ॥ ४८ ॥

सीदमानो विवृत्ताङ्गो<sup>१</sup> वेष्टमानो गतः क्षयम् ।

संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ॥ ४९ ॥

यद्यपि मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, मुझे साफ साफ कुछ दिखलाई भी नहीं पड़ रहा, पीड़ा से कूटपटा रहा हूँ, और मरा ही चाहता हूँ, तथापि धोरज घर के शोक के वेग को रोक मैं स्थिर चित्त होता हूँ ॥ ४९ ॥

ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम् ।

न द्विजातिरहं राजन्मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५० ॥

हे राजन्! आप ब्रह्महत्या के पाप के भय को अपने मन से निकाल अपने मन की व्यथा दूर कीजिये। क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ॥ ५० ॥

१ विवृत्ताङ्गः—परावृत्तनेत्रः । ( ग० )

शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप ।

\*इत्येवं वदतः कृच्छ्राद्वाणाहितमर्मणः ।

विधूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले ॥ ५१ ॥

हे भूपाल ! मैं शूद्रा माता के गर्भ से एक वैश्य द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ । यह कहते कहते बाण से घायल मर्मस्थान की पीड़ा से उसकी शैनों आँखें उलट गयीं, उसकी चेष्टा विगड़ गयी और वह ज़मीन पर तड़फड़ाने लगा ॥ ५१ ॥

तस्य त्वानम्यमानस्य तं वाणमदमुद्धरम् ।

स मामुद्धीक्ष्य सन्त्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः ॥ ५२ ॥

उसकी यह दशा देख, मैंने बाण खींच लिया । बाण खींचते ही उस मुनिपुत्र ने अत्यन्त भयभीत हो मेरी ओर देखा और प्राण छोड़ दिये ॥ ५२ ॥

जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रात्

मर्मत्रणं सन्ततमुच्छ्वसन्तत् ।

ततः सरथ्वां तमहं शयानं

समीक्ष्य भद्रेऽस्मि भृशं विपण्णः ॥ ५३ ॥

इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥

हे कौशले ! उस तपोधन को, ( जो कुछ ही क्षणों पूर्व ) मर्मस्थल में बाण का घाव लगने से अत्यन्त कष्टित हो विलाप कर रहा था और जिसका शरीर ( छूटपड़ाने से ) जल से तर हो गया था—उस समय सरथू के तट पर, प्राणरहित पड़ा देख, मुझे बड़ा ही विषाद हुआ ॥ ५३ ॥

अयोध्याकाण्ड का तिरसट्ठां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:—

## चतुःषष्टितमः सर्गः

—: #:—

वधमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः ।

विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यां पुनरब्रवीत् ॥ १ ॥

मुनिपुत्र के अट्टचित वध को वर्णन कर और बीच बीच में अपने पुत्र का स्मरण कर के विलाप करते हुए, धर्मात्मा महाराज वशरथ, कौशल्या से फिर बोले ॥ १ ॥

तदज्ञानान्महत्पापं कृत्वाहं सङ्कुलोन्द्रियः ।

एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत् ॥ २ ॥

हे कौशल्या ! उस समय, अनजाने उस महापाप को कर, विकल हों, मैं अकेला सोचने लगा कि, अब मेरा कल्याण किस तरह हो ॥ २ ॥

ततस्तं व्रतमादाय पूर्णं परमगारिणा ।

आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपर्यं गतः ॥ ३ ॥

अन्त में यह निश्चय कर कि, अब मेरा कल्याण इसीमें है कि, मैं मुनि-कुमार के कथनानुसार उनके पिता को जा कर प्रसन्न करूँ। अतः मैं उस मुनिपुत्र के कलसे में जल भर उसे लेकर, उसके बतलाये रास्ते से मुनि के आश्रम में गया ॥ ३ ॥

तत्राहं दुर्वलावन्धौ बृद्धावपरिणायकौ ।

अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ ॥ ४ ॥

---

१ विलपन्नेव—मध्येस्वपुत्रं विलपन्नेव । ( गो० )

वहां जा कर देखा कि, पंख रहित पक्षियों की तरह उसके माता पिता जो वृद्ध, दुर्बल और दीन थे, बैठे हुए थे ॥ ४ ॥

तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिक्रमौ ।

तामाशां मत्कृते हीनावुदासीनावनाथवत् ॥ ५ ॥

वे जल की प्रतीक्षा में बैठे पुत्र ही की चर्चा कर रहे थे । उनकी आशा पर मैंने पानी फेर दिया था । वे अनार्थ की तरह निश्चेष्ट बैठे हुए थे ॥ ५ ॥

शोकोपहतचित्तश्च भयसन्त्रस्तचेतनः ।

तच्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ६ ॥

उस समय मैं शोक से विकल और भय से ग्रस्त तो था ही, उस आश्रम में पहुँचने पर, ( उन दोनों की दशा देख कर ) मुझे और भी अधिक दुःख हुआ ॥ ६ ॥

पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत ।

किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥

मेरे पाँवों की आहट पा, उस मुनि ने कहा—हे बत्स ! क्यों देर कर रहे हो, शीघ्र जल लाओ ॥ ७ ॥

किन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया ।

उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम् ॥ ८ ॥

तुम इतनी देर तक क्यों जल में खेलते रहे । आश्रम में तुरन्त जाओ, तुम्हारी माता वड़ी उत्कण्ठित हो रही है ॥ ८ ॥

यद्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया ।

न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥

बेटा ! यदि मुझसे या तेरी माता से कोई अप्रिय कार्य बन पड़ा हो तो हे तपस्वी ! उस पर तू ध्यान मत देना ॥ ६ ॥

\*गतिस्त्वमगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम् ।

समासक्तास्त्वयि प्राणाः किं त्वं नो नाभिभाषसे ॥१०॥

तुम्हीं हम दोनों असमर्थों के एकमात्र अवलंब हो और हम अंधों की तुम्हीं आंखें हो और तुम्हारे ही अधीन हमारे दोनों के प्राण हैं । तुम जवाब क्यों नहीं देते ॥ १० ॥

मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया<sup>१</sup> ।

हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीतोऽभीत<sup>२</sup> इवाब्रवम् ॥ ११ ॥

मैंने उस मुनि को देख, अत्यन्त डरे हुए मनुष्य की तरह, लड़खड़ाती जवान से अतः अस्पष्ट अक्षरों में, उससे कहा ॥ ११ ॥

मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य<sup>४</sup> वाग्वलम् ।

आचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम् ॥ १२ ॥

बालने के समय मैंने मन से और क्रियात्मक प्रयत्नों से जिह्वा को अपने वश में किया और धीरे से उसके पुत्र का कष्टमय वृत्तान्त उससे कहा ॥ १२ ॥

क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः ।

सज्जना<sup>१</sup> भवतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम् ॥ १३ ॥

१ सज्जमानया—स्खलन्त्या । (गो०) २ हीनव्यञ्जनया—अस्पष्टाक्षरया । (गो०) ३ भीतोभीतः—अत्यन्तभीतः । (गो०) ४ अभिसंस्तभ्य—स्खलितं वाचाबलाद्वीकृत्येति । (गो०) १ सज्जनावमतं—सत्सुरुषगर्हितं । (गो०) \* पाठान्तरे—“त्वंगतिस्त्वगतीनां”

हे महात्मन् ! मैं दगरथ नाम का क्षत्रिय हूँ । आपका पुत्र नहीं हूँ । मुझसे एक निन्द्य कर्म बन पड़ा है, जिसका मुझे बड़ा ही दुःख है ॥ १३ ॥

भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयुतीरमागतः ।

जिघांसुः श्वापदं कञ्चिन्निपाने चागतं गजम् ॥ १४ ॥

हे भगवन् ! मैं हाथ में धनुष ले सरयू नदी के तट पर इसलिये आया कि, यदि कोई हाथी या शेर बाघ आदि वनजन्तु पानी पीने आवे तो उसका शिकार खेळूँ ॥ १४ ॥

तत्र श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः ।

द्विपोऽयमिति मत्वायं वाणेनाभिहतो मया ॥ १५ ॥

इसी बीच मैं मैंने घड़े में जल भरने का शब्द सुना और यह समझा कि, हाथी बोल रहा है, अतः मैंने बाण मारा ॥ १५ ॥

गत्वा नद्यास्ततस्तोरमपश्यमिपुणा हृदि ।

विनिर्दिष्टं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम् ॥ १६ ॥

किन्तु जब मैं सरयू के तट पर पहुँचा तब मैंने देखा कि, झाती में बाण लगने के कारण एक तपस्वी श्रुतप्राय अवस्था में भूमि पर पड़ा है ॥ १६ ॥

भगवञ्शब्दमालक्ष्य मया गजजिघांसुना ।

विस्पृष्टोऽम्भसि \*नाराचस्तेन तेऽभिहतः सुतः ॥ १७ ॥

हे भगवन् ! हाथी की शिकार के धोखे में, शब्दवेधी बाण चला कर मैंने जल भरने के लिये गये हुए आपके पुत्र को मार डाला है ॥ १७ ॥

\* पाठान्तरे—“नाराचस्तस्ते निहतः सुतः” ।



ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः ।

स मया सहसा वाण उद्धृतो\* मर्मणस्तदा ॥ १८ ॥

तदनन्तर मैंने उसीके कहने से, अत्यन्त कष्टदायी वाण सहसा उसको क़ाती से खींचा ॥ १८ ॥

स चोद्धृतेन वाणेन तत्रैव स्वर्गमास्थितः ।

भवन्तौ पितरौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥ १९ ॥

वाण के खींचते ही वह वहीं स्वर्गवासी हो गया । ( मरने के पूर्व ) उसने आप दोनों अँधे माता पिता के लिये विलाप और आप ही के लिये शोक किया ॥ १९ ॥

अज्ञानाद्भवतः पुत्रः सहसाऽभिहतो मया ।

शेषमेवं गते यत्स्यात्तत्प्रसीदतु<sup>१</sup> मे मुनिः ॥ २० ॥

अनजान में अचानक आपके पुत्र को मैंने मारा है । जो होना था वह तो हो गया । आप मुनि हैं ; अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें ( अर्थात् शापानुग्रह जो कुछ उचित समझें सो मेरे प्रति करें ) ॥ २० ॥

स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मयोक्तमघशंसिना ।

नाशकत्तीव्रमायासमकर्तुं भगवान्मुनिः† ॥ २१ ॥

मेरे किये हुए पापकर्म का दारुण वृत्तान्त मेरे ही मुख से सुन कर, वे महात्मा मुनि ( जो सब प्रकार का शाप दे सकते थे, किन्तु ) मुझे तीव्र शाप न दे सके ॥ २१ ॥

\* पाठान्तरे—“मर्मतस्तदा ।” † पाठान्तरे—“भगवान्मुनिः” न प्रसीदतु—शापोवाऽनुग्रहोवाप्तः कर्तव्यस्तकरोस्त्वित्यर्थः । ( गो० )

स बाष्पपूर्णनयनो\* निःश्वसञ्शोककर्षितः ।

मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ २२ ॥

किन्तु नेत्रों में आंसू भर और शोक से व्याकुल हो ठंडी ठंडी साँसे लेते हुए उन महातेजस्वी मुनि ने हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा ॥ २२ ॥

यद्येतदशुभं कर्म न त्वं मे कथयेः स्वयम् ।

फलेन्मूर्धा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्रधा ॥ २३ ॥

हे राजन् ! अगर तू अपने इस कर्म को स्वयं ही मुझसे न कहता, तो मेरे शाप से तेरे सिर के अभी हजारों टुकड़े हो जाते ॥ २३ ॥

क्षत्रियेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषतः ।

ज्ञानपूर्वं कृतः स्थानाच्छ्यावयेदपि वज्रिणम् ॥ २४ ॥

हे राजन् ! जो क्षत्रिय जान वृक्ष कर किसी वानप्रस्थ का वध करे तो वह भले ही इन्द्र ही क्यों न हो, उसे अवश्य स्थानच्युत होना पड़ता है ॥ २४ ॥

सप्तधा तु फलेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ।

ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिनि ॥ २५ ॥

जो कोई मेरे पुत्र जैसे तपस्वी एवं ब्रह्मवादी मुनि पर जान वृक्ष कर शस्त्र का प्रयोग करता है, तो उसके सिर के सात टुकड़े हो जाते हैं ॥ २५ ॥

अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं तेनैव जीवसि ।

अपि ह्यद्य कुलं न स्यादिक्ष्वाकूणां कुतो भवान् ॥२६॥

\* पाठान्तरे—“ बाष्पपूर्णवदनो ” । † फलेत्—विशीर्षेत् । ( गो० )

तूने अनजाने यह निन्द्य कर्म किया है, इसीसे तू अब तक जोवित (भो) है। नहीं तो अभी (समस्त) रघुकुल ही का नाश हो जाता, तेरी तो हस्ती ही क्या है ॥ २६ ॥

नय नौ नृप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत ।

अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम्<sup>१</sup> ॥ २७ ॥

हे कौशल्ये ! मुनि ने मुझसे कहा, हे राजन् ! अब तू मुझे उस स्थान पर ले चल, जहाँ वह पड़ा है। क्योंकि अपने पुत्र की अन्तिम दशा देखने की मेरी इच्छा है ॥ २७ ॥

रथिरेणावसिक्ताङ्गं प्रकीर्णाजिनवाससम् ।

शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराजवशं गतम् ॥ २८ ॥

हा ! वह काल के वश और अचेत हो भूमि पर पड़ा होगा। उसका सारा शरीर रक्त से सना होगा, मृगचर्म जो वह ओढ़े था वह अलग पड़ा होगा ॥ २८ ॥

अथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ ।

अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया ॥ २९ ॥

हे कौशल्ये ! मैं अकेला उन अत्यन्त दुःखित मुनि और उनकी स्त्री को उस जगह ले गया। (अंधे होने के कारण वे देख तो न सके, किन्तु) हाथ से उन्होंने मृतपुत्र का शरीर टोला ॥ २९ ॥

तौ पुत्रमात्मानः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ ।

निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चास्येदमब्रवीत् ॥ ३० ॥

१ पश्चिमदर्शनम्—अन्तदर्शनम् । ( १० )

वे दोनों जन पुत्र के पाम जा और हाथ से उसका शरीर टटोल, दोनों के दोनों पुत्र के मृतशरीर से लिपट गये। उसका पिता कहने लगा ॥ ३० ॥

नाभिवादयसे माञ्च न च मामभिभाषसे ।

किन्तु शेषेऽथ भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि ॥३१॥

हे वत्स ! तूने आज न तो मुझे प्रणाम किया और न मुझसे कुछ बातचीत की। तू ज़मीन पर क्यों पड़ा है ? क्या तू मुझसे रुठ गया है ? ॥ ३१ ॥

न त्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिक ।

किन्तु नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद ॥ ३२ ॥

यदि तू मुझसे रुठा है तो हे वत्स ! तू अपनी धार्मिक माता को श्रोत तो देख। तू क्यों मुझसे आ कर नहीं लिपटता और क्यों कोमल वचन नहीं बोलता ॥ ३२ ॥

कस्य वाऽपररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयङ्गमम्<sup>१</sup> ।

अधीयानस्य मधुरं शाल्नं वाऽन्य<sup>२</sup>द्विशेषतः ॥ ३३ ॥

अब मैं पिछली रात में धर्मशाल्न और पुराणादि पढ़ते समय किसका मनोहर एवं मधुर स्वर सुनूँगा ॥ ३३ ॥

को मां सन्ध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतहुतारानः ।

श्लाघयिष्य<sup>३</sup>त्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम् ॥ ३४ ॥

१ हृदयङ्गमम्—मधुरस्वरं । (गो०) २ अन्याद्वापुराणं—त्रैश्याच्छ्रुतार्थात्त-  
त्त्वेन सङ्कृत्वाद्देवप्रसङ्गोक्तः । (रा०) ३ श्लाघयिष्यति—उपचरिष्यति । (गो०)

हे बैटा ! अब शोक और भय से कातर हुए प्रातःकाल स्नान कर, सन्ध्यापासन एवं होम कर मेरे निकट आ कौन सेवा करेगा ॥ ३४ ॥

[ नोट—मुनिपुत्र तो वर्णसङ्घर था अतः उसे सन्ध्यापासन एवं होम का शास्त्रोक्त अधिकार प्राप्त नहीं था ; तब सन्ध्यापासन और होम करने की बात यहाँ क्यों लिखी गयी ; इस शङ्का का समाधान शास्त्रानुसार इस प्रकार किया गया है ।

“ नमस्कारेणमंत्रेणपञ्चयज्ञान्समापयेत् ”

इस वचनानुसार पञ्चयज्ञों के ( इस प्रकार ) करने का अधिकार चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त है । ]

कन्दमूल<sup>१</sup>फलं हत्वा को मां प्रियमिवातिथिम् ।  
भोजयिष्यत्यकर्मण्यम<sup>२</sup>प्रग्रहमनायकम्<sup>४</sup> ॥ ३५ ॥

मुझ जैसे असमर्थ, असंग्रही ( वन्य चावल आदि जिसके पास एकत्र नहीं ) और अनाथ को अब कौन वन से कन्दमूल फल ला कर प्यारे अतिथि की तरह भोजन करावेगा ॥ ३५ ॥

इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम् ।  
कथं वत्स भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम् ॥ ३६ ॥

हे वत्स ! इस अंधी, तपस्विनी एवं दुःखिनी एवं पुत्रवत्सला तेरी बूढ़ी माता का भरण पोषण अब मैं कैसे करूँगा ॥ ३६ ॥

१ कन्द—जलोद्भवानांपद्मादीनां । ( गो० ) २ मूल—स्थलोद्भवानाम् । ( गो० ) ३ अग्रग्रहम्—नीवारादि संग्रहहितम् । ( गो० ) ४ अनायकम्—अनाथम् । ( गो० )

तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति ।

श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥३७॥

हे पुत्र ! ठहर जा और आज यमालय को मत जा । कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना ॥ ३७ ॥

उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने ।

क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया सह यमक्षयम् ॥ ३८ ॥

तुझे छोड़ कर, शोकपीड़ित, अनाथ और असहाय हम दोनों इस वन में नहीं रह सकेंगे, अतः तेरे साथ ही हम भी शीघ्र यमालय को चलेंगे ॥ ३८ ॥

ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम् ।

क्षमतां धर्मराजो मे विभ्रयात्पितरावयम् ॥ ३९ ॥

और चल कर यमराज से मिल उनसे कहूँगे कि, पुत्र-वियोग-कारी पूर्वजन्म में किये हुए हमारे अपराध को आप क्षमा करें, और यह बालक हमारा ( दोनों का ) पालन करे ॥ ३९ ॥

दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायज्ञाः ।

ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम् ॥ ४० ॥

ऐसी अक्षय्य और अभय-प्रदायिनी दक्षिणा हम जैसें को दीजिये । क्योंकि आप धर्मात्मा एवं महायज्ञस्वी लोकपाल हैं ॥ ४० ॥

अपापोऽसि यदा पुत्र निहतः पापकर्मणा ।

तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकाः शस्त्रयोधिनाम् ॥४१॥

हे पुत्र ! तू निर्दोष होने पर भी इस पापी द्वारा मारा गया है । अतः तू अपने सत्य बल से, उस लोक में जा, जहाँ योद्धा लोग जाते हैं ॥ ४१ ॥

यान्ति शूरा गतिं यां च संग्रामेष्वनिवर्तिनः ।

हताःस्त्वभिमुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रज ॥ ४२ ॥

हे वत्स ! युद्ध में पीठ न दिखाने वाले वीर लोग, शत्रु द्वारा मारे जाने पर, जिस गति को प्राप्त होते हैं, तू भी उसी परम गति को प्राप्त हो ॥ ४२ ॥

यां गतिं सगरः शैब्यो दिल्लीपो जनमेजयः ।

नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ४३ ॥

हे बेटा ! महाराज सगर, शैब्य, दिल्लीप, जनमेजय, नहुष और धुन्धुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, उसी गति को तू भी प्राप्त हो ॥ ४३ ॥

या गतिः सर्वसाधूनां स्वाध्यायात्तपसा च या ।

भूमिदस्याहिताग्नेरेकपत्नीव्रतस्य च ॥ ४४ ॥

जो गति स्वाध्याय और तप में निरत सब महात्मा पुरुषों को प्राप्त होती है वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो । जो गति भूमिदान करने वाले अग्निहोत्री और एक-पत्नी-व्रत-धारी को प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो ॥ ४४ ॥

गोसहस्रप्रदातणां या या गुरुभृतामपि<sup>१</sup> ।

देहन्यासकृतां<sup>२</sup> या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ ४५ ॥

हे वत्स ! जो गति सहस्र गौ दान करने वाले को, गुरुशुश्रूषा करने वाले को तथा महाप्रस्थान का सङ्कल्प कर (प्रयाग में या श्रद्धि में) शरीर त्याग करने वाले को प्राप्त होती है, वह तुम्हें भी प्राप्त हो ॥ ४५ ॥

न हि त्वस्मत्कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम् ।

स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः<sup>३</sup> ॥ ४६ ॥

क्योंकि हमारे तपस्विकुल में उत्पन्न हो कोई भी नीच गति को प्राप्त नहीं हुआ । नीच गति को तो वह प्राप्त होगा जिसने मेरे पुत्र तुम्हें मारा है ॥ ४६ ॥

एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासकृत् ।

ततोऽस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ४७ ॥

इस प्रकार वह तपस्वी बार बार कृपापूर्ण विलाप कर, स्त्री सहित अपने मृतपुत्र को जलाञ्जलि देने में प्रवृत्त हुआ ॥ ४७ ॥

स तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः ।

स्वर्गमध्यारुहत्क्षिप्रं शक्रेण सह धर्मवित् ॥ ४८ ॥

तब तो वह धर्मात्मा मुनिकुमार अपने पुण्यकर्मों के बल, दिव्य रूप धारण कर, इन्द्र के साथ तुरन्त स्वर्ग को चला गया ॥ ४८ ॥

१ गुरुभृतां—गुरुशुश्रूषाकारिणां । ( गो० ) २ देहन्यासकृतां—महा-प्रस्थानादितापरलोकार्थतनुत्यजः । ( रा० ) परलोकाप्राप्तिसङ्कल्पपूर्वकं गङ्गा यमुना संगमदौजलेनौ वातनुं त्यज्यता मित्यर्थः । ( गो० ) ३ ममबान्धवः—ममपुत्रः । ( गो० )



[ नोट—स्वर्ग को, इन्द्र के साथ जाने से, जान पड़ता है कि स्वयं इन्द्र वसे स्वर्ग में ले जाने को आये थे । ]

आवभापे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः ।

आशवास्य च मुहूर्तं तु पितरौ वाक्यमब्रवीत् ॥ ४९ ॥

मुनिकुमार स्वर्ग जाते समय, इन्द्र के सहित, उन दोनों वृद्धों को एक मुहूर्त तक समझा बुझा, पिता से बोला ॥ ४९ ॥

स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतोः परिचारात् ।

भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यतः ॥ ५० ॥

मैंने जो आपकी सेवा की थी उसी पुण्य के बल मुझे यह उत्तम स्थान मिला । आप दोनों भी अति शीघ्र मेरे पास आवेंगे ॥ ५० ॥

एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता ।

आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥

यह कह, वह जितेन्द्रिय मुनिपुत्र अति दिव्य विमान में बैठ, तुरन्त स्वर्ग को चला गया ॥ ५१ ॥

स कृत्वाथोदकं\* तूर्णं तापसः सह भार्यया ।

मासुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ ५२ ॥

महाराज दशरथ कहने लगे, हे देवी ! उस महातेजस्वी तपस्वी ने भार्या सहित झटपट पुत्र को जलाञ्जलि दे, मुझसे, जो वहाँ हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कहा ॥ ५२ ॥

अद्यैव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा ।

यच्छरेणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम् ॥ ५३ ॥

हे राजन् ! तुम अब मुझे भी मार डालो । मुझे मरने में कुछ भी कष्ट न होगा । क्योंकि मेरे यही इकलौता पुत्र था सो इसे तुमने एक ही वाण से मार मुझे बिना पुत्र का कर दिया ॥ ५३ ॥

त्वया तु यदविज्ञानान्निहतो मे सुतः शुचिः ।

तेन त्वामभिशप्स्यामि सुदुःखमतिदारुणम् ॥ ५४ ॥

हे राजन् ! तुमने यद्यपि अनजान में मेरे धर्मात्मा पुत्र का वध किया है, तथापि मैं इसके लिये तुम्हें यह अति दुस्सह दारुण शाप देता हूँ ॥ ५४ ॥

पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् ।

एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं \*गमिष्यसि ॥ ५५ ॥

हे राजन् ! मुझको इस समय जैसा यह पुत्रशोक हुआ है, ऐसे ही पुत्रशोक से तुम्हारी भी मृत्यु होगी ॥ ५५ ॥

अज्ञानात्तु हतो यस्मात्क्षत्रियेण त्वया मुनिः ।

तस्मात्त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५६ ॥

तुम क्षत्रिय हो और अनजान में तुमने मुनि की हत्या कर डाली है । इसीसे ते नरेन्द्र ! तुमको ब्रह्महत्या नहीं लगी ॥ ५६ ॥

त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति ।

जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणा ॥ ५७ ॥

किन्तु जिस प्रकार दाता को दान का फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार तुमको भी घोर दुःख प्राप्त होगा और उसी दुःख से तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़ेंगे ॥ ५७ ॥

\* पाठान्तरे—“ करिष्यसि ” ।

एवं शापं मयि न्यस्य त्रिलप्य करुणं बहु ।

चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात् ॥ ५८ ॥

( दशरथ जी कौशल्या से कहने लगे ) हे देवि ! इस प्रकार मुझे शाप दे और बहुत सा त्रिलाप कर, चिता बना और उस पर बैठ ( भस्म हो ) वे दोनों स्वर्ग को चले गये ॥ ५८ ॥

तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम् ।

तदा बाल्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५९ ॥

हे देवि ! इस चिन्ता में पड़ कर, आज मुझे अपना वह पापकर्म स्मरण हो आया, जो मैंने मूर्खतावश, शब्दवेधी वाण चला कर किया था ॥ ५९ ॥

तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः ।

अपथ्यैः\* सह सम्भुक्ते व्याधिमन्नरसो यथा ॥ ६० ॥

हे देवि ! जिस प्रकार खाये हुए अपथ्य अन्न के रस से रोग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस पापकर्म का फल स्वरूप यह कर्मविपाक घा कर उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥

तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः ।

इत्युक्त्वा स रुदंस्त्रस्तो भार्यामाह च भूमिपः ॥ ६१ ॥

हे भद्रे ! उस उदार तपस्वी के दिये हुए शाप के पूरे होने का समय आ गया है । यह कह, रुदन कर और ( मरण ) भय से प्रस्त हो, महाराज दशरथ कौशल्या से कहने लगे ॥ ६१ ॥

यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यक्ष्याम्यद्य जीवितम् ।

चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये साधु मां स्पृश ॥ ६२ ॥

हे कौशल्ये ! पुत्रशोक के कारण मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, इसीसे तू अब मुझे नहीं देख पड़ती । अतः तू मेरे शरीर को छू ॥ ६२ ॥

यमक्षयमनुप्राप्तं \*द्रक्ष्यन्ति न हि मानवाः ।

यदि मां संस्पृशेद्रामः सकृदद्य लभेत वा ॥ ६३ ॥

[ धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः ।

न तन्मे सदृशं देवि यन्मया राघवे कृतम् ॥ ६४ ॥

क्योंकि यमघाम को जाने वाले लोगों को आँखों से नहीं देख पड़ता । यदि श्रीरामचन्द्र इस घड़ी एक बार भी मुझे छू लें अथवा यौवराजपद तथा धन सम्पत्ति ग्रहण करना स्वीकार कर लें, तो बोध होता है कि, कदाचित् मैं जीता बच जाऊँ । हे कल्याणी ! मैंने श्रीरामचन्द्र के साथ जैसा व्यवहार किया है, वैसा करना मेरे लिये उचित नहीं था ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि ।

दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद्भुवि विचक्षणः ॥ ६५ ॥

प्रयुत श्रीरामचन्द्र का मेरे प्रति वह व्यवहार सर्वथा उचित है । इस संसार में कौन ऐसा विचारवान मनुष्य होगा, जो अपने दुष्ट भी पुत्र को त्याग दे ॥ ६५ ॥

ऋश्च प्रवाज्यमानो वा नासूयेत्पितरं सुतः ।

चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते ॥६६॥ ]

और कौन ऐसा पुत्र होगा, जो घर से निकाले जाने पर भी पिता की निन्दा न करे । हे देवि ! आँखों से तू अब मुझे नहीं देख पड़ती और मेरी स्मरणशक्ति भी नष्ट होती जाती है ॥ ६६ ॥

दूता वैवस्वतस्यैते कौशल्ये त्वरयन्ति माम् ।

अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥ ६७ ॥

हे कौशल्ये ! यमराज के दूत, चलने के लिये जल्दी कर रहे हैं ।  
अतः अब इससे बढ़ कर अन्य दुःख कौन सा हो सकता है कि, मैं  
मरते समय भी ॥ ६७ ॥

न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम् ।

तस्यादर्शनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः<sup>१</sup> ॥ ६८ ॥

उस सत्यपराक्रमी और धर्मात्मा राम को नहीं देख रहा हूँ ।  
उस पुत्र को, जिसने कभी मेरा किसी बात में सामना नहीं किया,  
न देखने से उत्पन्न शोक ॥ ६८ ॥

उच्छोषयति मे प्राणान्वारि स्तोकमिवातपः ।

न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम् ॥ ६९ ॥

मेरे प्राणों को उसी प्रकार सोख रहा है, जिस प्रकार उष्णता  
जल को थोड़ा थोड़ा कर सुखाती है । वे मनुष्य नहीं, किन्तु देवता  
हैं, जो सुन्दर कुण्डल पहिने हुए ॥ ६९ ॥

मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः ।

पद्मपत्रेक्षणं सुभ्रु सुदंष्ट्रं चारुनासिकम् ॥ ७० ॥

कमल पत्र वाले, सुन्दर भ्रुकुटि वाले सुन्दर दाँतों वाले  
और सुन्दर नासिका युक्त श्रीराम के मुख को पन्द्रहवें वर्ष पुनः  
देखेंगे ॥ ७० ॥

१ अप्रतिकर्मणः—प्रतिक्रियारहितस्य । ( गो० )

धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनिभं मुखम् ।  
 सहस्रं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ ७१ ॥  
 सुगन्धि मम नाथस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्मुखम् ।  
 निवृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम् ॥ ७२ ॥

वे लोग धन्य हैं, जो श्रीराम के चन्द्रमा तुल्य मुख को देखेंगे । शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान, प्रफुल्लित कमल की सुगन्ध से युक्त, श्रीराम का मुख जो लोग उनके वनवास से लौट कर अयोध्या में आने पर देखेंगे, वे धन्य हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा ।  
 कौशल्ये चित्तमोहेन हृदयं<sup>१</sup> सीदतीव<sup>२</sup> मे ॥ ७३ ॥

अथवा अपने मार्ग को प्राप्त हुए शुक्र की तरह वनवास से अयोध्या में आये हुए श्रीराम को जो लोग देखेंगे, वे यथार्थ में सुखी होंगे । हे कौशल्ये ! मन की घबड़ाहट से मेरा हृदय फटा जाता है ॥ ७३ ॥

येन वेद न संयुक्ताञ्जशब्दस्पर्शरसानहम् ।  
 चित्तनाशाद्विपद्यन्ते<sup>३</sup> सर्वाण्येवेन्द्रियाणि मे ॥ ७४ ॥

अतएव इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले शब्द, स्पर्श, रसादि गुण भी मुझे नहीं जान पड़ते । क्योंकि चित्त के नाश होने पर ये सब इन्द्रियाँ भी वैसे ही नष्ट हो जाती हैं ; ॥ ७४ ॥

१ हृदयं—मनसोधिष्ठानं । (गो०) २ सीदतीव—विसीर्यतीव । (गो०)  
 ३ विपद्यन्ते—परिणतानिभवन्ति । (शि०) \* पाठान्तरे—“वेदये न च” ।

क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता<sup>१</sup> रश्मयो यथा ।

अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतसम्\* ॥ ७५ ॥

जैसे तेल के जल जाने पर दीपक का प्रकाश नष्ट हो जाता है । यह मेरे हृदय में उत्पन्न शोक मुझ अचेत और अनाथ को, ॥ ७५ ॥

संसादयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ।

हा राघव महावाहो हा ममायासनाशन<sup>२</sup> ॥ ७६ ॥

उसी प्रकार गिरा रहा है, जिस प्रकार नदी की धार का वेग नदी के करारे को गिराता है । हा राघव ! हा महावाहो ! हा मेरे दुःख को दूर करने वाले ! ॥ ७६ ॥

हा पितृप्रिय मे नाथ हाऽद्य कासि गतः सुत ।

हा कौसल्ये विनश्यामिं हा सुमित्रे तपस्विनि ।

हां नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि ॥ ७७ ॥

हा पिता के लाडले, हे मेरे नाथ ! हे मेरे बेटा, तुम कहाँ गये ? हा कौशल्या, हा तपस्विनी सुमित्रा ! अब मैं मरता हूँ । हा क्रूर मेरी वैरिन्, और कुलनाशिनी कैकेयी ! ॥ ७७ ॥

इति रामस्य मातुश्च सुमित्रायाश्चसन्निधौ ।

राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तमुपागमत् ॥ ७८ ॥

इस प्रकार महाराज दशरथ ने राममाता और सुमित्रा की सन्निधि में, विलाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिये ॥ ७८ ॥

१ संसक्तः—दीपाविनाभूताः । (गो०) २ आयासनाशन—दुःखनाशन ।

(गो०) \* पाठान्तरे—“अचेतनम्” । † पाठान्तरे—“नशिष्यामि” ।

तथा\* तु दीनं कथयन्नराधिपः  
 प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः ।  
 गतेऽर्धरात्रे भृशदुःखपीडितः  
 तदा जहौ प्राणमुदारदर्शनः ॥ ७९ ॥  
 इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥

उदार एवं दर्शनीय महाराज ने दोन वचन कहते हुए, प्रिय पुत्र के वनवास से व्याकुल हो, आधी रात बीतने पर अत्यन्त दुःखी हो प्राण त्यागे ॥ ७९ ॥

अयोध्याकाण्ड का चौसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

### पञ्चषष्टितमः सर्गः

—:०:—

अथ राज्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहनि ।  
 वन्दिनः पर्युपातिष्ठन्पार्थिवस्य निवेशनम् ॥ १ ॥

रात बीतने पर अगले दिन प्रातःकाल के समय, महाराज के राजद्वार पर वन्दीजन आये ॥ १ ॥

सूताः परमसंस्कारा<sup>१</sup> मागधाश्चोत्तमश्रुताः<sup>२</sup> ।  
 गायकाः स्तुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक्पृथक् ॥ २ ॥

१ परमसंस्काराः—व्याकरणाद्युत्तमसंस्कारयुक्ताः । ( गी० ) २ उत्तम श्रुताः—वंशपरम्पराश्रवणमेवा ते मागधाः । ( रा० ) • पाठान्तरे—यदा तु ।



व्याकरणादि शास्त्रों में चतुर सुत, और वंशपरम्परा का कीर्तन करने में निपुण मागध; तान, लय एवं, स्वर के ज्ञाता गवैया राज-भवन के द्वार पर उपास्थित हों, पृथक् पृथक् अपनी रीति के अनुसार महाराज के गुण कीर्तन करने लगे ॥ २ ॥

राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम् ।

प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्देः\* व्यवर्धत ॥ ३ ॥

उच्चस्वर से महाराज की स्तुति करने वाले और आशीर्वाद देने वाले उन लोगों के नाद से सम्पूर्ण राजभवन भर गया ॥ ३ ॥

ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः ।

अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादानवादयन् ॥ ४ ॥

तदनन्तर ताली बजा कर ताल देने में निपुण ( पाणिवादक ) लोग ताली बजा बजा कर महाराज के अद्भुत कर्मों का वर्णन करने लगे ॥ ४ ॥

तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विसस्वतुः ।

शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः ॥ ५ ॥

इससे वे पक्षी जो राजभवन के वृत्तों की शाखाओं पर रहते थे और जो पालतू होने के कारण पिंजड़ों में रहते थे, जागे और बोलने लगे ॥ ५ ॥

व्याहृताः<sup>२</sup> पुण्यशब्दाश्च<sup>३</sup> वीणानां चापि निःस्वनाः ।

आशीर्गेयं च गाथानां<sup>४</sup> पूरयामास वेश्म तत् ॥ ६ ॥

१ अपदानानि—वृत्तान्यद्भुतकर्माणि । (गो०) २ व्याहृताः—ब्राह्मणैरुक्ताः । (गो०) ३ पुण्यशब्दाः—पुरुषश्रेयस्तीर्थं कीर्तनादिरूपाः । (गो०) ४ गाथानां—दशरथ विषय प्रबन्ध पुण्य विशेषाणां । (गो०) \* पाठान्तरे—“ह्यवर्धत” ।

ब्राह्मणों के आशीर्वादात्मक वाक्यों से, पालतु पक्षियों की उन बोलियों से, जो भगवन्नाम अथवा पवित्र तीर्थों के नाम ले कर बोल रहे थे, वीणा की ध्वनि से, आशीर्वाद से तथा महाराज दशरथ सम्बन्धी प्रबन्ध विशेषों के बखान से राजभवन पूरित हो गया ॥६॥

ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः<sup>१</sup> ।

स्त्रीवर्षधर<sup>२</sup>भूयिष्ठा उपतस्थुर्यथापुरम् ॥ ७ ॥

तदनन्तर सदाचार सम्पन्न कालोचित सेवा करने में निपुण और नर्पुंसक ( खोजा लोग ) प्रतिदिन की प्रथानुसार आ कर उपस्थित हुए ॥ ७ ॥

हरिचन्दनसम्पृक्तमुदकं काञ्चनैर्घटैः ।

आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि ॥८॥

महाराज को स्नान करवाने वाले लोग जो स्नान कराने की विधि के विशेषज्ञ थे, सुवर्ण के कलसों में हरिचन्दन मिला हुआ जल भर कर यथासमय और यथाविधान लाये ॥ ८ ॥

मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान् ।

उपानिन्युस्तथाऽप्यन्याः कुमारी<sup>३</sup>बहुलाः स्त्रियः ॥ ९ ॥

अनेक कुमारीप्राय सुन्दर स्त्रियों ने तेल उबटनादि, दन्तधावन तथा कुल्ली करने के लिये जलादि तथा शीशा, कंधा, तोलिया आदि सामग्री ला कर उपस्थित की ॥ ९ ॥

१ पर्युपस्थानकोविदाः—काञ्चित्तपरिचर्याविचक्षणः । ( गो० ) २ स्त्रीवर्षधरभूयिष्ठाः—अन्तःपुराध्यक्षस्त्रीभिः वर्षधरैःपण्डैश्चसमुदाः । ( गो० ) ३ कुमारीबहुला—कुमारीप्रायाः । ( गो० )

सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितम् ।

सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत्तद्वभूवाभिहारिकम् ॥ १० ॥

इस प्रकार सम्पूर्ण लक्षण युक्त, विधि पूर्वक सजी हुई, अतः सर्वगुण और शोभायुक्त, महाराज के लिये प्रातःकृत्य की सध सामग्री ला कर एकत्र की गयी ॥ १० ॥

तत्तु सूर्योदयं यावत्सर्वं परिसमुत्सुकम् ।

तस्थानुपसम्प्राप्तं किंस्विदित्युपशङ्कितम् ॥ ११ ॥

सूर्योदय पर्यन्त सब लोग महाराज के दर्शनों के लिये उत्कण्ठित रहे और आपस में कहते थे कि, कारण क्या है जो महाराज आज अब तक सो कर नहीं उठे ॥ ११ ॥

अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं<sup>१</sup> प्रत्यनन्तराः ।

ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं<sup>२</sup> प्रत्यवोधयन् ॥ १२ ॥

कौशल्या जी के अतिरिक्त और जो सब स्त्रियाँ वहाँ महाराज की सेज के समीप थीं, मिल कर महाराज को जगाने लगीं ॥ १२ ॥

तथाप्युचित<sup>३</sup> वृत्तास्ता विनयेन<sup>४</sup> नयेन<sup>५</sup> च ।

न ह्यस्य शयनं स्पृष्ट्वा किञ्चिदप्युपलेभिरे ॥ १३ ॥

उन स्त्रियों ने बड़े प्यार से और युक्ति से महाराज के शरीर को स्पर्श कर, जब देखा, तब उनमें जीवित पुरुष जैसी कुछ भी

१ शयनं प्रत्यनन्तरा—शयनसन्निकृष्टाहस्पर्शः । ( गी० ) २ उचितवृत्ताः—  
स्पर्शानादिन्यापारेचित्ताः । ( गी० ) ३ विनयेन—प्रश्रयेण । ( गी० )  
४ नयेन—युक्त्या । ( गी० )

चेष्टा न पायी ( अर्थात् सोन का आना जाना आदि न जान पड़ा ) ॥ १३ ॥

ताः स्त्रियः 'स्वप्नशीलज्ञाश्चेष्टासञ्चलनादिषु ।

तां वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ॥ १४ ॥

तब वे सब स्त्रियाँ, जो महाराज के सोने के समय की हालत चेष्टा और नाड़ीसञ्चार को भली भाँति जानती थीं, महाराज की यह दशा देख, थरथरा उठीं और महाराज के जीवित रहने में उनको सन्देह उत्पन्न हो गया ॥ १४ ॥

प्रतिस्रोतस्तृणाग्राणां सदृशं सञ्चकम्पिरे\* ।

अथ संवेपमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम् ॥ १५ ॥

महाराज के जीवित रहने में सन्देह उत्पन्न हो जाने के कारण, वे सब स्त्रियाँ उसी प्रकार धरधर कराने लगीं जिस प्रकार नदी के सोत में उत्पन्न वेत या नरकुल काँपा करता है ॥ १५ ॥

यत्तदाशङ्कितं पापं<sup>२</sup> तस्य जज्ञे विनिश्चयः ।

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते<sup>३</sup> ॥ १६ ॥

उन लोगों को महाराज के जीवित रहने में जो सन्देह था, वह अब निश्चय में परिणत हो गया—( अर्थात् उनको निश्चय हो गया कि, महाराज ने शरीर त्याग दिया) । तब कौसल्या और सुमित्रा जो पुत्रों के वियोगजन्य शोक से ग्रस्त हो ॥ १६ ॥

१ स्वप्नशीलज्ञा—स्वापस्वभावज्ञाः । ( गो० ) २ मत्पापं—मरणरूप माशङ्कितं । ( गो० ) ३ पराजिते—आक्रान्ते । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“संचकाशिरे” ।

प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथाकालसमन्विते<sup>१</sup> ।

निष्पन्ना च धिवर्णा च सन्ना शोकेन सन्नता ॥ १७ ॥

मृतक की तरह सो रही थीं न जागें। मारे शोक के कौशल्या निस्तेज और पीली पड़ गयी थीं, उनका शरीर एकदम कुश हो गया था ॥ १७ ॥

न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता ।

कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम् ॥ १८ ॥

जिस प्रकार बादल के अंधेरे में द्विपे नक्षत्र शोभित नहीं होते वैसे ही महाराज के समोप कौशल्या व सुमित्रा शोकरूपी बादल से ढकी होने के कारण शोभा रहित हो रही थीं ॥ १८ ॥

न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना ।

ते च दृष्ट्वा तथा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपम् ॥ १९ ॥

राजभवन की अन्य स्त्रियाँ भी शोक से अश्रुपात करती हुई शोभित नहीं होती थीं। उन स्त्रियों ने देखा कि, कौशल्या और सुमित्रा सो रही हैं और महाराज ॥ १९ ॥

सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरमदृश्यत ।

ततः प्रचुक्रुशुर्दीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः ॥ २० ॥

के निद्रावस्था ही में प्राण निकले हुए देख वे अन्तःपुरवासिनी स्त्रियाँ अति दीन हो उच्च स्वर से राने लगीं ॥ २० ॥

१ यथाकालसमन्विते—मृतेहवप्रसुप्ते नप्रबुध्येते । ( गो० )

करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ।

तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्गतचेतने ॥ २१ ॥

जिस प्रकार वन में अपने समूह से विछुड़ने पर हथिनियाँ चिल्लाती हैं, उसी प्रकार इन सब का बड़े जोर से रोने का चीत्कार सुन, पकापकी जाग कर ॥ २१ ॥

कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम् ।

हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुर्धरणीतले ॥ २२ ॥

कौशल्या और सुमित्रा महाराज को देख वा उनके शरीर पर हाथ रख (और शरीर को ठंडा वा महाराज को मरा हुआ जान,) "हा नाथ!" कह कर चिल्लाती हुई, पृथिवी पर पंखाड़ खा कर, गिर पड़ीं ॥ २२ ॥

सा कौसलेन्द्रदुहिता वेष्टमाना महीतले ।

न बभ्राज रजोध्वस्ता तारेव गगनाच्च्युता ॥ २३ ॥

कौशल्या जी ज़मीन पर लोट रही थीं, अतः उनके सारे शरीर में धूल लग गयी थी। उस समय धूलधूसरित वे आकाश से गिरे हुए तारा की तरह जान पड़ती थीं ॥ २३ ॥

नृपे शान्तगुणे<sup>१</sup> जाते कौसल्यां पतितां भुवि ।

अपश्यंस्ताः स्त्रियः सर्वा हतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥

महाराज के मरने पर, कौशल्या को ज़मीन पर लोटते हुए उन सब स्त्रियों ने देखा, मानों कोई नागवधू पड़ी हो ॥ २४ ॥

१ शान्तगुणे—शान्तदेहोष्णस्पन्दनादिगुणे । ( गो० )

ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः स्त्रियः ।

रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेतुर्धरणीतले\* ॥ २५ ॥

तब महाराज की कैकेयी आदि सब स्त्रियाँ रुदन करती हुई, शोक से सन्तप्त होने के कारण, मूर्छित हो, ज़मीन पर गिर पड़ीं ॥ २५ ॥

ताभिः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुदृतः<sup>१</sup> ।

येन स्थिरीकृतं भूयस्तद्गृहं समनादयत् ॥ २६ ॥

तदनन्तर ( पूर्व ) आयी हुई स्त्रियों के रोने का तुमुज शब्द पीछे आयी हुई कैकेयी आदि स्त्रियों के रोने के शब्द से मिल, और भी अधिक हो गया और उस धार्तनाद से सम्पूर्ण राजभवन पूरित हो गया ॥ २६ ॥

तत्समुन्नस्तसम्भ्रान्तं पर्युत्सुकजनाकुलम् ।

सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तबान्धवम् ॥ २७ ॥

सद्यो निपतितानन्दं दीनविक्रवदर्शनम् ।

बभूव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥ २८ ॥

उस समय महाराज दशरथ का राजभवन अस्त, विकल और व्यग्र जनों से भरा, महा चीत्कार से युक्त और परिताप से सन्तप्त बन्धुजनों से भरा हुआ आनन्द रहित और दोनता से परिपूर्ण हो गया था । वह राजभवन भाव्यहीन सा देख पड़ता था ॥ २७ ॥ २८ ॥

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षभं

यशस्विनं सम्परिवार्य पत्नयः ।

१ अनुदृतः—अनुद्युतोभूत् । (गो०) \* पाठान्तरे—“निपेतुर्गतचेतनाः” ।

धृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः

प्रगृह्य वाहू व्यलपन्ननाथवत् ॥ २९ ॥

इति पञ्चपष्ठितमः सर्गः ॥

राजाओं में श्रेष्ठ और यशस्वी महाराज दशरथ को मरा देख, उनकी सब रानियाँ मझा दुःखी हो अत्यन्त करुणपूर्ण स्वर से रो रो कर और महाराज दशरथ की वाहें पकड़ अनाथ की तरह विलाप करने लगीं ॥ २९ ॥

अयोध्याकाण्ड का पैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:❖:—

षट्षष्टितमः सर्गः

—:०:—

तमग्निमिव संशान्तमम्बुहीनमिवाणवम् ।

हतप्रभमिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य पार्थिवम् ॥ १ ॥

महाराज दशरथ को बुझी हुई आग, अथवा जलहीन समुद्र अथवा हतप्रभ सूर्य की तरह स्वर्गवासी हुआ देख ॥ १ ॥

कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्षिता ।

उपगृह्य<sup>१</sup> शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत ॥ २ ॥

कौशल्या ने महाराज का सिर अपनी गोद में रख और विविध प्रकार के शोकों से उत्पीड़ित होने के कारण रोते रोते कैकेयी से कहा ॥ २ ॥

१ राज्ञा शिरउपगृह्य—राज्ञःशिरभङ्गे कृत्वा । ( गो० )



सकामा भव कैकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्ठकम् ।  
त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा<sup>१</sup> नृशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३ ॥

अरी दुष्ट कमाइन ! अब अपनी साध पूरी कर और निष्कण्ठक राज्य सुख भोग । महाराज को विदा कर अब तू अपने पुत्र के राज्यसुख में एकाग्रचित्त हो ॥ ३ ॥<sup>१</sup>

विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम ।  
विपथे सार्थहीनेव<sup>२</sup> नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ४ ॥

श्रीराम तो मुझे छोड़ चला ही गया था, महाराज भी अब नहीं रहे । दुर्गम पथ में सहायक साथी क्यूं हुए पथिक की तरह मुझे अब जो ने की साध नहीं है ॥ ४ ॥

भर्तारं तं परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः ।  
इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः ॥ ५ ॥

हाय ! कौन पेमो स्त्री होगी, जो अपने परम देवता स्वामी को छोड़ कर, जीवित रहना पसन्द करेगी । एक कैकेयी अवश्य जीवेगी, क्योंकि उसने अपना धर्म त्याग दिया ( अर्थात् पतिव्रत धर्म ) ॥ ५ ॥

न लुब्धो बुध्यते दोषान्<sup>३</sup>किपाकमिव भक्षयन् ।  
कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुलं हतम् ॥ ६ ॥

हा ! जो लालची होता है वह लालच के दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता, जैसे भूखा मनुष्य विषमिश्रित पदार्थ को लुब्धा

१ एकाग्रा—पुत्रराज्यैकाग्रचित्त । ( रा० ) २ सार्थहीना—सहायभूत पथिकसङ्घरहितेत्यर्थः । ( गो० ) ३ किपाकं—कुत्सितपाकं । ( गो० )

वश खाते समय तज्जनित दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं देता, हा ! कुब्जा के कहने से कैकेयी ने महाराज रघु के कुल का नाश कर डाला ॥ ६ ॥

१ अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम् ।

सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७ ॥

जब राजा जनक सुनंगे कि, कैकेयी के द्वारा अनुचित रीति से प्रेरणा किये जाने पर महाराज दशरथ ने श्रीरामचन्द्र को छोड़ सहित वन भेज दिया, तब उनके कैसा सन्ताप होगा ॥ ७ ॥

स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः ।

रामः कमलपत्राक्षो १जीवनाशमितो१ गतः ॥ ८ ॥

इस समय कमलनयन धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र यह न जानते होंगे कि, यहाँ महाराज के मरने से मैं अनाथ और विधवा हो गयी ॥ = ॥

विदेहराजस्य सुता तथा सीता तपस्विनी<sup>४</sup> ।

दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्विजिष्यते\* ॥ ९ ॥

राजा जनक की पुत्री वापुरी सीता जो दुःख सहने योग नहीं है, वन में अनेक प्रकार के दुःख पा कर घबड़ाती होगी ॥ ९ ॥

नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम् ।

निशम्य नूनं संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ॥ १० ॥

१ अनियोगे—वरप्रदान समये वरस्य विशेषनिर्देशा भावे सति । (गो०)

२ जीवनाशंगतः—राज्ञाजीवनाशंगतः प्राप्तः । (गो०) ३ इतः अत्रदेशे ।

(गो०) ४ तपस्विनी—शाचनीया । (गो०) \* पाठान्तरे—“विजिष्यति” ।

सीता जब कि, रात में सिंह व्याघ्रादि जन्तुओं का डरावना दहाड़ना और पत्तियों की बोलियाँ सुनती होगी, तब मारे डर के औराम के गले में लिपट जाती होगी ॥ १० ॥

वृद्धश्चैवालपऽपुत्रश्च<sup>१</sup> वैदेहीमनुचिन्तयन् ।

सोऽपि<sup>२</sup> शोकसमाविष्टो ननु त्यक्ष्यति जीवितम् ॥११॥

वे राजा जनक भी, जो वृद्धे हैं और जिनके केवल कन्या सन्तति है, सीता जी के कष्टों का, स्मरण कर और शोक से विकल हो शरीर छोड़ देंगे ॥ ११ ॥

साऽहमद्यैव<sup>३</sup> दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिव्रता ।

इदं शरीरमालिङ्ग्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥ १२ ॥

अतः पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई मैं आज ही प्राण त्यागने के लिये, महाराज के शव से चिपट, अग्नि में प्रवेश करूँगी अर्थात् सती हो जाऊँगी ॥ १२ ॥

तां ततः सम्परिष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम् ।

\*व्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कौशल्यां व्यावहारिकाः\* ॥१३॥

अन्तःपुर के तथा राज्य के रीति व्योहार ( अर्थात् ज्ञासा ) जानने वाले अर्थात् मंत्रियों ने महाराज के शव से अत्यन्त दुःखिनी वापुरी कौशल्या को हटा कर अलग किया ॥ १३ ॥

१ अल्पपुत्रः—दुहितृमात्रपुत्रः । (गो०) २ सोऽपि—जनकोपि । (गो०)

३ दिष्टान्तं—मरणं । (गो०) ४ व्यावहारिकाः—व्यवहारेवाद्याभ्यन्तर सकलराजकृत्येनियुक्ताः अमात्याइत्यर्थः । (गो०) \* पाठान्तरे—“व्यवनीय” ।

तैलद्रोण्यामथामात्याः संवेश्य जगतीपतिम् ।

राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टशक्रुः कर्माण्यनन्तरम् ॥ १४ ॥

और उन मंत्रियों ने महाराज के शव को तेल भरे कढ़ाई में रख दिया जिससे शव विगड़े नहीं । तदनन्तर वे राजाज्ञानुसार सब कृत्य करने लगे ॥ १४ ॥

न तु \*संस्करणं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः ।

सर्वज्ञाः<sup>१</sup> कर्तुमोषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम् ॥ १५ ॥

समयार्चित कर्त्तव्यों को जानने वाले मंत्रियों ने विना किसी राजकुमार के आये महाराज के शव के अग्नि-संस्कारादि क्रियाकर्म करना उचित न समझा । अतः महाराज के शव ( को तेल से भरी कढ़ाई में ) रखवा दिया ॥ १५ ॥

तैलद्रोण्यां तु सचिवैः शायितं तं नराधिपम् ।

हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेवयन् ॥ १६ ॥

जब मंत्रि लोग महाराज के शव को तेल से भरी कढ़ाई में लिटाने लगे, तब वे स्त्रियाँ महाराज का मरना निश्चय जान, हा महाराज ! मर गये । ”— कह कर विलाप करने लगीं ॥ १६ ॥

वाहूनुद्यम्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणैर्मुर्तैः ।

रुदन्त्यः शोकसन्तप्ताः कृपणं पर्यदेवयन् ॥ १७ ॥

वे दुःखिनो स्त्रियाँ अपनी भुजाओं को उठा उठा कर और आँखों से द्रश्रुत्रारा बहा तथा शोक से सन्तप्त हो, विलाप करने लगीं ॥ १७ ॥

१ सर्वज्ञाः—सर्वधर्मज्ञाः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ सङ्कलनं ” ।

हा महाराज रामेण सततं प्रियवादिना ।

विहीनः\* सत्यसन्धेन किमर्थं विजहासि नः ॥ १८ ॥

हा महाराज ! हमें सदैव प्रिय बोलने वाले श्रीराम से रहित कर, आप हमें छोड़ कर क्यों चले जाते हैं ॥ १८ ॥

कैकेय्या दुष्टभावाया राघवेण वियोजिताः ।

कथं पतिघ्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम् ॥ १९ ॥

अब हम श्रीरामचन्द्र जी से विछुड़ कर इस दुष्ट तथा पति को मारने वाली कैकेयी के साथ, विधवा हो कर कैसे रह सकेंगी ॥ १९ ॥

स हि नाथः सदाऽस्माकं तव च प्रभुरात्मवान् ।

वनं रामो गतः श्रीमान्विहाय नृपतिश्रियम् ॥ २० ॥

क्योंकि श्रीराम जो जो हमारे और आपके जीवनाधार थे, राज्यलक्ष्मी को छोड़, वन को चले गये ॥ २० ॥

त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः ।

कथं वयं निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिताः? ॥२१॥

अब हम सब तुम्हारे विना और श्रीराम के न रहने पर, दुःख में फँस, कैकेयी के तिरस्कारों को सहन करती हुई, किस प्रकार रह सकेंगी ॥ २१ ॥

यया तु राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः ।

सीतया सह सन्त्यक्ता सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥

१ विदूषिताः—राज्यगर्वातिरस्कृताः । (गो०) \* पाठान्तरे—विहीनाः ।

जिसने महाराज को, श्रीरामचन्द्र एवं महावली लक्ष्मण तथा सीता को त्याग करने में सङ्कोच न किया वह भला किसको नहीं छोड़ सकता ॥ २२ ॥

ता वाप्पेण च संवीतः शोकेन विपुलेन च ।

व्यवेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः ॥ २३ ॥

इस प्रकार महाराज दशरथ की सर्वश्रेष्ठ रानियाँ नेत्रों से आँसु बहाती और महाशोकग्रस्त होने के कारण आनन्द रहित हो गयीं ॥ २३ ॥

निशा चन्द्रविहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता ।

पुरी नाराजतायोध्या विना राज्ञा महात्मना ॥२४॥

उस समय अयोध्यापुरी चन्द्र विन यामिनी और कन्त विन कामिनी की तरह महाराज दशरथ के बिना, शोभित नहीं होती थी ॥ २४ ॥

वाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना ।

शून्यचत्वरवे<sup>१</sup>श्मान्ता न वभ्राज यथापुरम्<sup>२</sup> ॥ २५ ॥

क्योंकि जिधर देखो उधर लोग रोते हुए देख पड़ते थे, और स्त्रियाँ हाहाकार मचा रही थीं। घर और चौराहों में भाड़ तक नहीं पड़ी थी। सारांश यह कि अयोध्या की जैसी शोभा पहले थी वैसी अब नहीं देख पड़ती थी ॥ २५ ॥

गते तु शोकाऽत्रिदिवं नराधिपे

महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च ।

१ शून्यचत्वरैति—समार्जनातुल्येपनत्रत्यादि शून्यचत्वरत्रियुक्तेति यावत् (गो०) २ यथापुरं—यथापूर्वं । (गो०) : शोकात्—पुत्रशोकात् । (गो०)

निवृत्तचारः<sup>१</sup> सहसा गतो रविः

प्रवृत्तचारा<sup>२</sup> रजनी ह्युपस्थिता ॥ २६ ॥

पुत्रशोक में महाराज दशरथ के स्वर्ग सिंघारने पर, उनकी सब रानियाँ ज़मीन पर पड़ी हो रही थीं । इतने में दिन हूब गया और अंधकार को लिये हुए रात हो आयी ॥ २६ ॥

ऋते तु पुत्राद्दहनं महीपतेः

न रोचयन्ते सुहृदः समागताः ।

इतीव तस्मिञ्जयने न्यवेशयन्

विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम् ॥ २७ ॥

राजवंश के जो हितैषी भाईवंद वहाँ एकत्र हुए थे, उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि, बिना किसी राजपुत्र के आये महाराज के शव की दाहक्रिया किया जाना ठीक नहीं । अतः शव को तेल के कढ़ा में रखा रहने दिया जाय ॥ २७ ॥

गतप्रभा द्यौरिव भास्करं विना

व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी ।

पुरी वभासे रहिता महात्मना

न चास्रकण्ठाऽऽकुलमार्गचत्वरं ॥ २८ ॥

उस समय महाराज के स्वर्ग सिंघारने पर अयोध्यापुरी की सड़कें और चौराहों पर शते हुए और वाष्परुद्धकण्ठ वाले लोगों

१ निवृत्तचारः—निवृत्तकिरणप्रचारः । ( गो० ) २ प्रवृत्तचारा—प्रवृत्त-  
तमः प्रचारा । ( गो० )

को भीड़ हो जाने से, अयोध्यापुरी सूर्यहीन आकाश अथवा नक्षत्र हीन रात्रि की तरह प्रभाहोन हो गयी ॥ २८ ॥

नराश्च नार्यश्च समेत्य सङ्घुशो

विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् ।

तदा नगर्यां नरदेवसंक्षये

वभ्रुुरार्ता न च शर्म लेधिरे ॥ २९ ॥

इति पट्टपष्टितमः सर्गः ॥

महाराज के स्वर्गगामी होने पर, अयोध्यापुरीवासी क्या पुरुष, क्या स्त्री सब इकट्ठे हो एक स्वर से भरत को माता कैकेयी को धिक्कारने लगे । उस समय सभी दुःखी थे ; सुखी कोई न था ॥२९॥

अयोध्याकाण्ड का छत्रछत्रां संगं समाप्त हुआ ।

—\*—

सप्तपष्टितमः सर्गः

—:०:—

आक्रन्दितनिरानन्दा साश्रुकण्ठजनाकुला ।

अयोध्यायामवतता<sup>१</sup> सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ ॥

राते राते किसी के भी मन में आनन्द नहीं रह गया था, सब लोग आँसू गिराने बराबर रो रहे थे । वह दुःख को रात लोगों के लिये पहाड़ जैसी बड़ी हो गयी थी । किसी न किसी तरह वह व्यतीत हुई ॥ १ ॥

<sup>१</sup> अवतता—दीर्घा । ( गो० )



व्यतीतायां तु शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः ।

समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः ॥ २ ॥

जब रात बीती और सूर्य उदय हुए, तब राजकाज में साहाय्य देने वाले अधिकारी ब्राह्मण इकट्ठे हो सभा में आये ॥ २ ॥

मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च काश्यपः ।

कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायशाः ॥ ३ ॥

उनमें सब से अधिक प्रसिद्ध अथवा मुख्य थे मार्कण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम और जावालि ॥ ३ ॥

एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन् ।

वसिष्ठमेवाधिसुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम् ॥ ४ ॥

ये ब्राह्मण मंत्रियों सहित आ कर सर्वश्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठ, अलग अलग अपना अपना आशय प्रकट करने लगे ॥ ४ ॥

अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा ।

अस्मिन्पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥ ५ ॥

बीती हुई रात जो हमें सौ वर्ष के समान जान पड़ती थी, किसी प्रकार बीती । क्योंकि इसी रात में पुत्रशोक से विकल महाराज पञ्चत्व को प्राप्त हुए ( मरे ) ॥ ५ ॥

स्वर्गतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः ।

लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह ॥ ६ ॥

१ पृथक्—भिन्न । ( शि० ) २ उदीरयन्—अकथयन् । ( शि० )

महाराज स्वर्गवासी हुए हैं और श्रीरामचन्द्र जी वन में हैं ।  
तेजस्वी लक्ष्मण भी श्रीराम के साथ वन में हैं ॥ ६ ॥

उभौ भरतशत्रुघ्नौ कैकयेषु परन्तपौ ।

पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ॥ ७ ॥

परन्तप दोनों भरत और शत्रुघ्न कैकय देश की राजधानी में  
अपने नाना के घर में बिराजमान हैं ॥ ७ ॥

इक्ष्वाकूणामिहाद्यैव राजा कश्चिद्विधीयताम् ।

अराजकं हि नो राष्ट्रं न विनाशमवाप्नुयात् ॥ ८ ॥

अतः इक्ष्वाकुवंशीय किसी पुरुष को आज ही राजा बनाना  
चाहिये । नहीं तो कहीं राजा के बिना हमारा राष्ट्र नष्ट न हो  
जाय ॥ ८ ॥

नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः ।

अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥

क्योंकि जहाँ राजा नहीं होता वहाँ विजली की चमक सहित  
अत्यन्त गरजने वाले मेघ दिव्य जल पृथिवी पर नहीं बरसाते—  
अर्थात् ओले बरसाते हैं ॥ ९ ॥

नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते ।

नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे ॥ १० ॥

अराजक देश में किसान लोग खेतों में बीज नहीं छिड़काते,  
और अराजक देश में पुत्र पिता के और स्त्री अपने पति के वश में  
नहीं रहती अर्थात् सब स्वतंत्र हो जाते हैं ॥ १० ॥

अराजके धनं नास्ति नास्ति १भार्याऽप्यराजके ।  
इदमत्याहितं चान्यत्कृतः सत्यमराजके ॥ ११ ॥

अराजक देश में धन नहीं रहने पाता ( क्योंकि चोर डाँकू बरजोरी ले लेते हैं । ) स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और घर में नहीं रहतीं । जब घर की स्त्री तक का ठिकाना नहीं, तब सत्य भला कैसे रह सकता है । ( अर्थात् अराजक देश में सत्य व्यवहार भी नहीं रह जाता ) ॥ ११ ॥

नाराजके जनपदे कारयन्ति सर्वां नराः ।

उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि<sup>२</sup> च ॥१२॥

अराजक देश में प्रसन्न हो कर प्रजाजन (अस्वस्थ मन रहने के कारण ) न तो सभा समाज करते, न रमणीक वागु बगोचा लगवाते—( क्योंकि राजा के दण्ड का भय न रहने से लोग पेड़ काट डालते हैं ) और न पुण्य बढ़ाने वाले देवाल्लय ( अथवा धर्म-शालायँ ) आदि बनवाते हैं ॥ १२ ॥

नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः ।

३सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव्रताः ॥१३॥

अराजक देश में न तो द्विजाति यज्ञ करते और न कठोर व्रत धारण करने वाले जितेन्द्रिय ब्राह्मण महायज्ञ हो कराते हैं ( विभ्र के भय से ) ॥ १३ ॥

१ नास्तिभार्या—व्यभिचार निरतत्वात् गृहे न तिष्ठतीत्यर्थः । ( शि० )

२ पुण्यगृहाणि—देवतायतनादीनि । ( गो० ) ३ सत्राणि—महायज्ञान् । ( गो० )

नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ।

ब्राह्मणा वसुसम्पन्ना विसृजन्त्याप्तदक्षिणाः<sup>१</sup> ॥ १४ ॥

अराजक राज्य में धनसम्पन्न ब्राह्मण भी बड़े यज्ञों में ऋत्विजों को भूरि दक्षिणा नहीं देते ॥ १४ ॥

नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः ।

उत्सवाश्च<sup>२</sup> समाजाश्च<sup>३</sup> वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः ॥ १५ ॥

अराजक राज्य में नट और वेड़िया लोग भी ( आजीविका के अभाव से ) प्रसन्न नहीं रहते । और न वहाँ देश को वृद्धि करने वाले देवोत्सव होते हैं और न तोर्यों पर यात्रियों के मेले आदि ही लगते हैं ॥ १५ ॥

नाराजके जनपदे सिद्धार्था<sup>४</sup> व्यवहारिणः<sup>५</sup> ।

कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः ॥ १६ ॥

अराजक राज्य में व्यवहार करने वालों में ( रुपये का लैन दैन करने वालों में ) अथवा ( माल बेचने खरीदने वालों में ) विवाद उपस्थित होने पर, किसी का भी प्रयोजननिष्ठ नहीं होता अर्थात् मुकदमा लड़ने वालों का न्याय ( राजा के अभाव से ) नहीं होना । ( राजा के न रहने से पुरस्कार के अभाव में ) कथा वाचने वाले अच्छी कथा शीघ्र कर कथा सुनने वालों को सन्तुष्ट नहीं करते ॥ १६ ॥

१ मातृदक्षिणाः—मृत्दिक्षिणाः । ( गो० ) २ उत्सवाः—देवतोत्सवाः । ( गो० ) ३ समाजाः—तीर्थयात्राः । ( गो० ) ४ सिद्धार्थाः—कर्मप्रयोजनाः । ( गो० ) ५ व्यवहारिणः—कर्मपर्यनुद्दिष्टान्योन्यं विवदमानाः । ( गो० )

नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः ।

सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः ॥ १७ ॥

अराजक राज्य में सोने के गहने धारण कर कुमारियाँ साय-  
ङ्काल के समय वाटिका और उपवन में खेलने नहीं जातीं ( क्योंकि  
राजा के अभाव से चार दुष्टों का भय रहता है ) ॥ १७ ॥

नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः ।

नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १८ ॥

अराजक राज्य में कामी पुरुष तेज चलने वाली सवारियों में  
बैठ, स्त्रियों सहित वनविहार करने नहीं जाते ॥ १८ ॥

नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः ।

शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः ॥ १९ ॥

अराजक राज्य में धनी सुरक्षित नहीं रह सकते और न किसान  
और ग्वाले गड़रिये ही अपने घरों के किवाड़ खोल ठंडी हवा में  
सुख से सो सकते हैं ॥ १९ ॥

नाराजके जनपदे वद्धघण्टा विषाणिनः<sup>१</sup> ।

अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः<sup>२</sup> ॥ २० ॥

अराजक राज्य में हाथी, जो साठ बरस की उम्र के होने पर,  
बड़े बड़े दातों वाले हो जाते हैं, घंटों को धनघनाते राजमार्गों पर  
नहीं चल सकते ( क्योंकि गुण्डे उनके दातों ही को काट  
लें ) ॥ २० ॥

१ विषाणिनः—प्रशस्तदन्ताः । ( गो० ) २ षष्टिहायनाः—षष्टिवर्षाः ।

नाराजके जनपदे शरान्सतन्तम<sup>१</sup>स्यताम् ।

श्रूयते तलनिर्घोष इष्वस्त्राणामुपासने<sup>२</sup> ॥ २१ ॥

अराजक देश में वाणविद्या का अभ्यास करने वाले धनुर्दरों के हस्ततल का शब्द नहीं सुन पड़ता ॥ २१ ॥

नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः ।

गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२ ॥

अराजक जनपद में दूर देशों में सौदागर लोग वेचने के लिये बहुत सा माल ले कर निर्भय हो अथवा सकुशल यात्रा नहीं कर सकते ॥ २२ ॥

नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी<sup>३</sup> ।

भावय<sup>४</sup>न्नात्मनात्मानं<sup>५</sup> यत्र सायंगृहो मुनिः ॥ २३ ॥

अराजक देश में, अकेले घूमने वाले, जितेन्द्रिय और अपने आत्मा से परमात्मा का चिन्तन करने वाले ( अर्थात् परब्रह्म का ध्यान करने वाले ) मुनि, सन्ध्याकाल होने पर किसी के द्वार पर नहीं टिकते ( क्योंकि कोई उन्हें भोजन नहीं देता ) अथवा अराजक देश में जितेन्द्रिय मुनि लोग, परमेश्वर का एकान्त में भजन करते हुए दिन भर घूम फिर सायंकाल होने पर, किसी के द्वार पर नहीं टिकते ॥ २३ ॥

नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते ।

न चाप्यराजके सेना शत्रून्<sup>६</sup>विषहते युधि ॥ २४ ॥

१ अत्यन्त—क्षिपतां । ( गो० ) २ उपासने—अभ्यासे । ( गो० )  
३ वशी—जितेन्द्रियः । ( गो० ) ४ भावयन्—चिन्तयन् । ( गो० ) ५ आत्मन  
—परमात्मनं । ( गो० ) ६ विषहते—जयति । ( गो० )

अराजक राज्य में न तो अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा हो सकती और न विना नायक की सेना रण में शत्रु को जीत सकते हैं ॥ २४ ॥

नाराजके जनपदे हृष्टैः परमवाजिभिः ।

नराः संयान्ति सहसा रथैश्च परिमण्डिताः<sup>१</sup> ॥ २५ ॥

अराजक देश में उत्तम घोड़ों और रथों पर बैठ कोई भी स्वयं सजधज कर वेखटके एकाकी बाहिर नहीं निकल सकता ॥ २५ ॥

नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः ।

संवदन्तोऽवतिष्ठन्ते वनेषु नगरेषु च ॥ २६ ॥

अराजक राज्य में शास्त्रज्ञानी लोग वन में या नगर में बैठ निर्भोक हो परस्पर शास्त्र सम्बन्धी विचार करते हुए, नहीं रह सकते ॥ २६ ॥

नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः ।

देवताभ्यर्चनार्याय कल्प्यन्ते<sup>२</sup> नियतैर्जनैः<sup>३</sup> ॥ २७ ॥

संयमी लोग, अराजक देश में, देवताओं की पूजा के लिये माला, जड़ू, दक्षिणादि कोई भी पूजा को सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सकते ॥ २७ ॥

नाराजके जनपदे चन्द्रनागरुरूषिताः ।

राजपुत्रा विराजन्ते वसन्त इव शाखिनः ॥ २८ ॥

१ परिमण्डिताः—भूषिताः । (गो०) २ कल्प्यन्ते—सम्पाद्यन्ते । (गो०)

३ नियतैर्जनैः—यत्तचित्तैर्जनैः । ( शि० ) ४ रूषिताः—लिप्ताः । ( गो० )

अराजक राज्य में राजकुमार चन्दन और शगर से चर्चित हो कर ( अर्थात् शरीर में लगा कर ) वसन्त ऋतु के पेड़ों की तरह शोभायमान् नहीं हो सकते ॥ २८ ॥

यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाऽप्यतृणं वनम् ।

अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम् ॥ २९ ॥

जैसे विना जल की नदी, अथवा विना घास फूस का वन, अथवा विना चरवाड़े को गौएँ होती हैं, वैसा ही विना राजा का राष्ट्र है ॥ २९ ॥

ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं<sup>१</sup> धूमो ज्ञानं<sup>२</sup> विभावसोः ।

तेषां यो नो ध्वजो<sup>३</sup> राजा स देवत्वमितो<sup>४</sup> गतः ॥३०॥

जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, जिस प्रकार अग्नि का ज्ञापक चिन्ह धुआँ होता है, उसी प्रकार हम लोगों के प्रकाशक चिन्ह स्वरूप जो महाराज थे, वे यहाँ से मर कर देवयानि को प्राप्त हो गये हैं । ( अतः यह देश इस समय अराजक है ) ॥ ३० ॥

नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् ।

मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम् ॥ ३१ ॥

अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता, मत्स्रियों की तरह लोग आपस में एक दूसरे को मार कर खा जाते हैं ॥ ३१ ॥

१ प्रज्ञानं—ज्ञापकं । ( गो० ) २ ज्ञानं—लिङ्गं । ( गो० ) ३ ध्वजः—प्रकाशकः । ( गो० ) ४ इतः—अस्नात्स्नाकादित्य देवत्वंगत इत्यर्थः । ( गो० )



ये हि सम्भिन्नमर्यादाः<sup>१</sup> नास्तिकाश्छिन्नसंशयाः<sup>२</sup> ।

तेऽपि भावाय<sup>३</sup> कल्पन्ते<sup>४</sup> राजदण्डनिपीडिताः ॥ ३२ ॥

जो लोग वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को त्याग नास्तिक हो जाते हैं, किन्तु राजदण्ड के डर से दबे रहते हैं, वं भी अराजक देश में राजदण्ड के भय से निर्भय हो, लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं अथवा अपना प्रभुत्व प्रकट करते हैं ॥ ३२ ॥

यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते ।

तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥ ३३ ॥

जिस प्रकार दृष्टि, या आँखें शरीर की भलाई करने और बुराई दूर करने में सदा ही तत्पर रहती हैं—उसी प्रकार राजा भी अपने राज्य में सत्य व धर्म का प्रचार कर राष्ट्र की भलाई करने में और दुष्टात्माओं का शासन कर बुराई दूर करने में सदा तत्पर रहता है ॥ ३३ ॥

राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवता<sup>५</sup> कुलम्<sup>६</sup> ।

राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् ॥३४॥

राजा ही सत्य और धर्म का प्रजा में प्रवर्तक है, राजा ही कुलीनोचित कुलाचार का प्रवर्तक है, राजा ही प्रजा का मा बाप है और राजा ही प्रजाजनों का हितसाधन करने वाला अर्थात् हितैषी है ॥ ३४ ॥

१ सम्भिन्नमर्यादाः—उल्लङ्घितस्वस्वजातिवर्णाश्रममर्यादाः । (गो०) २ छिन्न-संशयाः—राजदण्डशङ्कारहिताः । (गो०) ३ भावाय—सद्भावाय, प्रभावायवा ।

( गो० ) ४ कल्पन्ते—समस्तदैष्टिकपीडासमर्थाभवन्तीत्यर्थः । ( गो० )

५ कुलवता—क्षेत्रबीजशुद्धवता । (गो०) ६ कुलं—कुलाचारप्रवर्तकः । (गो०)

यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः ।

विशेष्यन्तेः नरेन्द्रेण<sup>१</sup> वृत्तेन महता ततः ॥ ३५ ॥

अपने कर्त्तव्य का भली भाँति पालन करने वाला एक राजा—  
यम, कुबेर, इन्द्र और वरुण से भी बड़ा है ॥ ३५ ॥

अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन ।

राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ ३६ ॥

शिष्ट और अशिष्टों का विभाग कर के प्रजा का पालन करने के  
लिये, यदि राजा न हो तो सारे राज्य में अन्धेर मच जाय—कहाँ  
किसी को न पूँजे ॥ ३६ ॥

जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम् ।

नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥ ३७ ॥

हे द्विजश्रेष्ठ ! ( वशिष्ठ जी ) जब महाराज जीवित थे तब भी  
हम लोगों ने आपकी आज्ञा उसी प्रकार कभी उल्लङ्घन नहीं की  
जिस प्रकार समुद्र अपनी सीमा उल्लङ्घन नहीं करता ॥ ३७ ॥

स<sup>१</sup> नः<sup>२</sup> समीक्ष्य द्विजवर्यं वृत्तं

नृपं विना राज्यमरण्यभूतम् ।

कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं\*

त्वमेव राजानमहाभिषिञ्च ॥ ३८ ॥

इति सप्तशष्टितमः सर्गः ॥

१ विशेष्यन्ते—अधः क्रियन्ते । ( गी० ) २ नरेन्द्रेण—महतावृत्तेन सर्व  
प्रकाररक्षणरूपचरित्रेण । ( गी० ) ३ सः—त्वं । ( गी० ) ४ नः—अहमाकं । ( गी० )  
५ वृत्तं—अराजकत्वप्रभुपित्तं सर्वकृत्यं । ( गी० ) \* पाठान्तरे—“ वदान्यं । ”

हे द्विजश्रेष्ठ ! हमारे वर्णित अराजक राज्य के देशों पर विचार कर इस राष्ट्र का—जो राजा के न रहने से जंगल जैसा हो रहा है, किसी को चाहे वह इक्ष्वाकुकुल हो अथवा अन्य कोई हो—राजा बना दीजिये ॥ ३८ ॥

अयोध्याकाण्ड का सरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

### अष्टषष्टितमः सर्गः

—: #:—

तेषां हि वचनं श्रुत्वा वशिष्ठः प्रत्युवाच ह ।

१ मित्रामात्यगणान्सर्वान्ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ १ ॥

उन लोगों के मुख से ऐसी बातें सुन वशिष्ठ जी, हितैषी सुमंत्रादि मंत्रियों और मार्कण्डेयादि ब्राह्मणों से यह बोले ॥ १ ॥

यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परंसुखी ।

भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ २ ॥

महाराज, भरत को राज्य दे गये हैं । वे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के घर परम सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं ॥ २ ॥

तच्छीघ्रं जवनाः दूता गच्छन्तु त्वरितैर्हयैः ।

आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम् ॥ ३ ॥

१ मित्रामात्यगणान्—मित्रभूनामात्यगणान्सुमंत्रादीन् । (गो०) २ ब्राह्मणान्—मार्कण्डेयादीन् । (गो०) ३ जवनाः—वेगवन्तः । (गो०)

अनः शीघ्र चलने वाले घोड़ों पर शीघ्रगामी दून उन दोनों राजकुमारों को लीवा लाने के लिये जाँय । इसके अनिश्चित और इस विषय में विचार ही क्या हो सकता है । ( अर्थात् महाराज भरत को राज्य दे गये हैं —अतः सिवाय उनके दूसरे को राज्य देने के सम्बन्ध में विचार नहीं हो सकता ) ॥ ३ ॥

गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् ।

तेषां तु वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥

तब सब ने ही वसिष्ठ जी से कहा कि, दूत अभी जाने चाहिये । उनका यह वचन सुन वसिष्ठ जी बोले ॥ ४ ॥

एहि सिद्धार्थं विजयं जयन्ताशोकनन्दन ।

श्रूयतामिति कर्तव्यं सर्वानिव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥

हे सिद्धार्थ ! हे विजय ! हे जयन्त ! हे अशोकनन्दन ! तुम सब यहाँ आओ और तुम लोगों को, जो इस समय करना चाहिये, वह मैं कहता हूँ—तुम सब सुनो ! ॥ ५ ॥

पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रजवैर्हयैः ।

त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद्भरतो मम ॥ ६ ॥

तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार हो कर, शीघ्र राजगृह नामक पुर को जाओ और शोक रहित हो, भरत से मेरा यह अनुशासन कहो ॥ ६ ॥

पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः ।

त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ७ ॥

किं पुरोहित वशिष्ठ जी ने तथा सब मंत्रियों ने तुमसे कुशल  
स्रेम कहा है और ये कहा है कि, बड़ा जरूरी काम है अतः तुम  
शोभ यहाँ आओ ॥ ७ ॥

मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम् ।

भवन्तः शंसिपुर्गत्वा<sup>१</sup> राघवाणामिमं क्षयम् ॥ ८ ॥

किन्तु सावधान ! रघुवंशियों के तेजक्षय ( नामोसी की बात )  
का यह वृत्तान्त कि, धीरामचन्द्र वन गये और महाराज स्वर्ग  
वासी हुए, वहाँ मत कहना ॥ ८ ॥

कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च ।

क्षिप्रमादाय राज्ञश्च<sup>२</sup> भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥

केकयराज और भरत के लिये इन रेशमी वस्त्रों और ( बहुमूल्य-  
वान ) सुन्दर आभूषणों को ले कर तुरन्त चले जाओ ॥ ९ ॥

दत्तपथ्यशना दूता जग्मुः स्वस्वं निवेशनम् ।

केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतान्<sup>३</sup> ॥ १० ॥

वशिष्ठ जी के वचन सुन और मार्ग के लिये भोजन ले कर  
दूत लोग अपने अपने घर गये और फिर तेज और बहुत दूर की  
यात्रा करने में अभ्यस्त घोड़ों पर चढ़, तुरन्त केकयराज की राज-  
धानी की ओर जाने के लिये तैयार हुए ॥ १० ॥

ततः प्रास्थानिकं<sup>४</sup> कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम्<sup>५</sup> ।

वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञाता दूताः सन्त्वरिता ययुः ॥ ११ ॥

१ माशंसिपुः—माकथयन्तु । ( १० ) २ राज्ञः—केकयराजस्य । ( गो० )

३ सम्मतान्—जवनत्वेनाध्वक्षम सहत्वेन च सम्मतान् । ४ प्रास्थानिकं—प्रस्थान  
प्रयोजकं । ( गो० ) ५ कार्यशेषमनन्तरम्—पाथेयादिकंचकृत्वा । ( गो० )

वे द्रुत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय ( रास्ते में खाने के लिये भोजन ) ले, और वशिष्ठ जी से विदा हो वड़ी तेजी से रवाना हुए ॥ ११ ॥

१ न्यन्तेनापरता रलस्य प्रलम्बःस्योत्तरप्रति १ ।

निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम् ॥ १२ ॥

अपरताल नामक पहाड़ के दक्षिण और प्रलंब नामक पहाड़ के उत्तर अर्थात् इन्हीं पहाड़ों की मध्यवर्तिनी मालिनी नदी के किनारे किनारे वे पश्चिम की ओर चलते गये ॥ १२ ॥

ते हस्तिनपुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः ।

पाश्चालादेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम् ॥ १३ ॥

उन्होंने हस्तिनापुर के समीप पहुँच गङ्गा पार की । फिर पश्चिमाभिमुख चल पञ्जाब तथा कुरुजांगल के बीच में पहुँचे ॥ १३ ॥

सरांसि च सुपूर्णानि नदीश्च विमलोदकाः ।

निरीक्षमाणास्ते जग्मुर्दूताः कार्यवशाद्द्रुतम् ॥ १४ ॥

रास्ते में उन लोगों ने बहुत से जल से लज्जालव भरे तालाब तथा निर्मल जल वाली नदियाँ देखीं । किन्तु काम की त्वरा होने के कारण ( वे लोग उन रम्य सरोवरों अथवा नदियों के तट पर ठहरे नहीं ) वे शीघ्र शीघ्र चले जाते थे ॥ १४ ॥

ते प्रसन्नोदःां दिव्यां नानाविहगसेविताम् ।

उपातिजग्मुर्वेगेन शरदण्डां जनाकुलाम् ॥ १५ ॥

१ अपरतालक्ष्य—अपरताला नामगिरिःतस्य । ( गो० ) २ न्यन्तेन—  
नितरान्तेन—चरमप्रदेशेनेत्यर्थः । ( गो० ) ३ प्रलंबस्य—प्रलम्बाख्यगिरेः ।  
( गो० ) ४ उत्तरप्रति—उत्तरभाग्यमुदिश्य । ( गो० )

तदनन्तर वे लोंग तरह तरह के जलचर पक्षियों से सेवित, और निर्मल जल से पूर्ण शरदगढा नाम्नी नदी के तट पर पहुँचे ॥ १५ ॥

निकूलवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् ।

अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्राविशन्पुरीम् ॥ १६ ॥

शरदगढा नदी के तीर पर सत्योपयाचन नाम का एक पुज्य वृक्ष था । दुनों ने उस वंदनीय वृक्ष की परिक्रमा कर कुलिङ्गा नामक नगरी में प्रवेश किया ॥ १६ ॥

[ इस वृक्ष में यह गुण था कि इससे जो प्रार्थना की जाती, उसे यह पूरी करता था, इसीसे उसका नाम " सत्योपयाचन" पड़ गया था । ]

अभिकालं ततः प्राप्य ते बोधिभवनाच्च्युताः ४ ।

पितृपैतामहीः पुण्यां तेहरिक्षुमतीं नदीम् ॥ १७ ॥

तदनन्तर उन्हें अभिकाल नामक ग्राम मिला । फिर वे बोधिभवन नामक पर्वत से निकली हुई इक्षुमती नामकी उस नदी के पार हुए जिसके तट के गाँवों पर कभी महाराज दशरथ के पूर्वजों का राज्य था ॥ १७ ॥

अवेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान्वेदपारगान् ।

ययुर्मध्येन वाहीकान्सुदामानं च पर्वतम् ॥ १८ ॥

१ दिव्यं—देवाधिष्ठानवत् । ( गो० ) २ अभिगम्य—प्रदक्षिणोक्त्य । (गो०) ३ अभिवाद्यं—सर्वनमस्कार्यं । ( गो० ) ४ बोधिभवनाच्च्युता—तदाख्यात् पर्वतात् । ( गो० ) ५ पितृपैतामही—दशरथवंश्यानुभूता । तन्तीर प्रवेशप्रामा इक्षुमतीकृणामितिभावः । ( गो० )

दूतों ने इक्षु नदी के तट पर अंजुलि भर जल पी कर रहने वाले, वेदवित् ब्राह्मणों को देखा । वाल्मीकि नामक देश में हो कर जाते समय उनको सुदामा नामक पर्वत मिला ॥ १८ ॥

विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम् ।

नदीर्वापीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १९ ॥

उस पर्वत पर विष्णु मगवान् के पदचिन्ह के दर्शन कर, उन्हें, विपाशा, शाल्मली आदि अनेक नदियां, बावड़ी, तालाब और सरोवरों मिलीं ॥ १९ ॥

पश्यन्तो विविधांश्चापि सिद्ध्युवाग्रमृगट्टिपान् ।

ययुः पथाऽतिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः ॥ २० ॥

वे लोग विविध प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि वन्य जन्तुओं को देखने हुए स्वामी की आज्ञा का पालन करने को बराबर उस लंबे मार्ग पर चले जाते थे ॥ २० ॥

वे श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेनः पथा ततः ।

गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसाः ॥ २१ ॥

बहुत दूर चलने के कारण वे सब दूत ( और उनके घोड़े ) श्रान्त ( थक ) हो गये थे । तिस पर भी वे शीघ्र गिरिव्रज नामक केकयराज के श्रेष्ठ पुर में बहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥ २१ ॥

भर्तुः प्रियार्थं कुञ्जरक्षणार्थं

भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम्\* ।

१ विकृष्टेन—अतिदूरेण । ( गो० ) २ शीघ्रमासेदुरञ्जसाः । ( गो० )

३ अज्ञसानान्तराप्यते । \* परिग्रहार्थं—प्रतिष्ठार्थं । ( गो० )



अहेडमाना<sup>१</sup>स्त्वरया स्म दूता

रात्र्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ २२ ॥

इति अष्टपष्टितमः सर्गः ॥

अपने स्वामी अर्थात् महाराज दशरथ का प्रियकार्य ( भरत को ले जा कर महाराज के शव का दाहादि कर्म ) करवाने को, कुल को रक्षा के लिये और महाराज दशरथ के वंश की प्रतिष्ठा के लिये, बड़े आदर के साथ, जल्दी के कारण रात ही में उन दूतों ने उस पुर में प्रवेश किया ॥ २२ ॥

अयोध्याकाण्ड का अरसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

एकोनसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीम् ।

भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः ॥ १ ॥

जिस रात को वे दूत उस नगर में पहुँचे, उसी रात में भरत ने भी एक अशुभ स्वप्न देख ॥ १ ॥

व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियम् ।

पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २ ॥

राजाधिराज के पुत्र ने वह बुरा स्वप्न, रात्रि के अन्तिम पहर में देखा था ( रात्रि के अन्तिम पहर का देखा हुआ शुभाशुभ स्वप्न

१ अहेडमानाः—अनादरमूर्खवाणाःसावराइतियावत् । ( गो० )

का फल तुरन्त होता है—अतः ) भरत जी बहुत घबड़ाए हुए थे ॥ २ ॥

तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः ।

आयासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥३॥

उनको घबड़ाया हुआ अथवा उदास देख, उनके समवयस्क ( हमजौली ) अथवा उनके साथ उठने बैठने वाले तथा प्रियवचन बोलने वाले मित्र, उनका खेद मिटाने के लिये, सभा में नाना प्रकार की कथाएँ कहने लगे ॥ ३ ॥

वादयन्ति तथा गान्ति १लासयन्त्यपि चापरे ।

नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥

उनमें से कोई कोई भरत जी का खेद मिटाने के लिये वीणा बजाने लगे कोई कोई तुमुक तुमुक नाचने या थिरकने लगे । कोई कोई नाट्य करने लगे, और कोई हास्य कथा कहने लगे ॥ ४ ॥

स तैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः ।

गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्भिर्न प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ ॥

उन प्रियवचन बोलने वाले मित्रों द्वारा अनेक प्रकार से भरत जी को ( खेद दूर करने के लिये और ) हँसाने के लिये अनेक प्रयत्न किये जाने पर भी, भरत जी का मानसिकखेद दूर न हो सका ॥ ५ ॥

तमव्रवीत्प्रियसखो १ भरतं सखिभिर्वृतम् ।

सुहृद्भिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे ॥ ६ ॥

१ आयासं—मनःखेदं । ( गो० ) २ लासयन्ति—लास्यं कुर्वन्ति ।  
लास्यं—सुकुमारमृत् । ( गो० ) ३ प्रियसखः—अन्तरङ्गसुहृद् ( गो० ) ।

मित्रों के बीच बैठे भरत जी से उनके एक अत्यन्त अन्तरङ्ग मित्र ने कहा, हे मित्र ! हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी तुम हर्षित क्यों नहीं होते ॥ ६ ॥

एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच तम् ।

शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् ॥ ७ ॥

इस प्रकार इस मित्र के कहने पर भरत जी बोले—हे मित्र ! मेरे मन के उदास होने का कारण सुनो ॥ ७ ॥

स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्धजम् ।

पतन्तमद्रिशिखरात्कल्पे गोमयेहृदे\* ॥ ८ ॥

मैंने स्वप्न में मैंले कपड़े पहने और सिर के बाल खोले हुए अपने पिता को पर्वत की चोटो से बुरे गोबर के गड्ढे में गिरते हुए देखा है ॥ ८ ॥

प्लवमानश्च<sup>१</sup> मे दृष्टः स तस्मिन्गोमयेहृदे ।

पिवन्नञ्जलिना तैलं हसन्नपि मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥

और देखा है कि, वह उस गोबर के कुण्ड में मैड़क की तरह तैरते तैरते बारंवार हँस कर अञ्जलि भर भर कर तेल पी रहे हैं ॥९॥

ततस्तिलौदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः ।

तैलेनाभ्यक्तसर्वाङ्गस्तैलमेवावगाहत ॥ १० ॥

यह भी देखा है कि, महाराज तिल मिश्रित भात खा कर बारंवार मस्तक नीचे झुका कर, सर्वाङ्ग में तेल लगाये हुए हैं और तेल ही में डूब रहे हैं ॥ १० ॥

१ प्लवमानः—मण्डूकवत् । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“गोमयेहृदे” ।

स्वमेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि ।

उपलब्दां च जगतीं तमसेव समावृताम् ॥ ११ ॥

मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा है कि, समुद्र सूख गया है, चन्द्रमा झूट कर जमीन पर गिर पड़ा है, सारी पृथिवी पर अंधेरा छाया हुआ है ॥ ११ ॥

औपवाहस्य नागस्य विषाणं शुकलीकृतम् ।

सहस्रा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम् ॥ १२ ॥

महागज को सवारी के हाथी के दाँतों के टुकड़े टुकड़े हो गये हैं, और प्रज्वलित आग सहस्रा बुझ गयी है ॥ १२ ॥

अवतीर्णा<sup>१</sup> च पृथिवीं शुष्कांश्च विविथान्दुमान् ।

अहं पश्यामि विध्वस्तान्सधूर्मांश्चापि पर्वतान् ॥ १३ ॥

पृथिवी नीचे घस गयी है और अनेक प्रकार के वृक्ष सूख गये हैं। मैंने देखा है कि, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गये हैं और उनमें से धुआँ निकल रहा है ॥ १३ ॥

पीठे काष्णायसे चैनं निषण्णं कृष्णवाससम् ।

महसन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णभिङ्गलाः ॥ १४ ॥

महाराज काले लोहे के पीढ़े पर काले बख पहिने हुए बैठे हैं और काली तथा पीले रंग को लिये उनका उपहास कर रही हैं ॥ १४ ॥

त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः ।

स्येन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५ ॥

१ अवतीर्णा—अवःपतितं । ( गो० )

धर्मात्मा महाराज लाल चन्दन शरीर में लगाये और लाल ही फूलों की माला पहिने हुए गधों से खींचे जाने वाले रथ में बैठ शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे हैं ॥ १५ ॥

प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी ।

प्रकर्षन्ती मया दृष्ट्वा राक्षसी विकृतानना ॥ १६ ॥

एक चिकट बदन राक्षसी जो लालवस्त्र पहिने हुए है, अट्टहास करती हुई महाराज को पकड़ कर ज़बरदस्ती खींच रही है ॥ १६ ॥

एवमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिं भयावहाम् ।

अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १७ ॥

मैंने रात में ऐसे भयानक स्वप्न देखे हैं, इससे यह निश्चय बोध होता है कि, मैं या राम या महाराज अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी ॥ १७ ॥

नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि ।

अचिरात्तस्य धुमाग्रं चितार्यां सम्प्रदृश्यते ॥ १८ ॥

क्योंकि जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार हो यात्रा करता है, उसका थोड़े ही दिनों में चिता में धुआँ निकलता हुआ देखा पड़ता है ॥ १८ ॥

एतन्निमित्तं दीनोऽहं तन्न वः प्रतिपूजये ।

शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थमिव मे मनः ।

न पश्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये ॥ १९ ॥

वस मेरे उदास होने का यही कारण है और इसीलिये आप लोगों की बातें मुझे नहीं भातीं। मेरा गला सूखा जा रहा है और

मेरा मन ठिकाने नहीं है यद्यपि इस समय भय का कोई कारण  
देख नहीं पड़ता, तथापि मन से ज़टका दूर नहीं होता ॥ १९ ॥

भ्रष्टश्च<sup>१</sup> स्वरयोगो<sup>२</sup> मे च्छाया चोपहता मम ।

जुगुप्सन्नैव चात्मानं न च पश्यामि कारणम् ॥२०॥

इससे मेरा कण्ठस्वर भी विगड़ गया है अर्थात् आवाज़  
भारी पड़ गयी है, और मेरे गरोर की कान्ति भी जाती रही  
है। मैं जानता हूँ कि, यह अवश्यम्भावी विपत्ति है इससे डरना  
जुरी बात है, तो भी मेरे मन में जो ज़टका उत्पन्न हो गया है  
उसको दूर करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ पड़ता ॥ २० ॥

इमां हि दुःस्वप्नगतिं \*निशम्य ता-

मनेकरूपामवितर्कितां पुरा ।

भयं महत्तद्दृद्यान्न याति मे

विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्<sup>३</sup> ॥ २१ ॥

इति एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥

पहले कभी इस प्रकार के खोटे स्वप्न की तर्कना भी नहीं हुई  
थी, किन्तु अब जब से यह स्वप्न देखा है तब से मन में यह चिन्ता  
उत्पन्न हो गयी है कि, जाने महाराज के दर्शन फिर हों कि नहीं ;  
इससे मेरा मन अत्यन्त भयभीत हो गया है ॥ २१ ॥

अयोध्याकाण्ड का उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

१ च्छाया—कान्तिः । (गो०) २ स्वरयोगः—युक्तस्वरः । (शि०)

३ अचिन्त्यदर्शनम्—अप्रत्याक्ष्यदर्शनम् । (गो०) \* पाठान्तरे—“निशम्य” ।

## सप्ततितमः सर्गः

—: ० :—

भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः ।

प्रविश्यासह्यपरिखं\* रम्यं राजगृहं पुरम् ॥ १ ॥

भरत जो इस प्रकार अपने इष्ट मित्रों के साथ वातचीत कर ही रहे थे, कि थके थकाये अयोध्या के दूत रम्य राजगृहपुर में, जिसके चारों ओर इतनी बड़ी और गहरी खाई थी कि, उसे कोई लाघ नहीं सकता था, पहुँचे ॥ १ ॥

समागम्य च राज्ञा<sup>१</sup> च राजपुत्रेण<sup>२</sup> चार्चिताः ।

राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तमूचुर्भरतं वचः ॥ २ ॥

दूतों ने प्रथम केकयराज से, तदनन्तर राजकुमार युधाजित से भेंट की। राजपुत्र युधाजित ने उन दूतों का आदर सत्कार किया। अनन्तर दूतों ने केकयराज को प्रणाम कर, भरत जी से कहा ॥२॥

पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः ।

त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३ ॥

राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल-क्षेम कहा है और कहा कि, आप शीघ्र अयोध्या आइये। क्योंकि यहाँ एक विशेष आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है ॥ ३ ॥

इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च ।

प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४ ॥

---

१ राज्ञा—केकयराजेन । ( गो० ) २ राजपुत्रेण—युधाजिना । ( गो० )  
पाठान्तरे—“परिवं” ।

हे विशालाक्ष ! ये महामूल्यवान बख्खा और भूषण उन लोगों ने भेजे हैं। इनको ले कर आप अपने मामा को दे दीजिये ॥ ४ ॥

अत्र विंशतिकोट्यस्तु<sup>१</sup> नृपतेर्मातुलस्य ते ।

दश कोट्यस्तु सम्पूर्णा<sup>२</sup>स्तथैव च नृपात्मज ॥ ५ ॥

इनमें से लगभग बीस करोड़ के मूल्य के बख्खाभूषण तो आपके नाना के लिये हैं और लगभग दस करोड़ के मूल्य के आपके मामा के लिये हैं ॥ ५ ॥

प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं स्वनुरक्तः<sup>३</sup> सुहृज्जने<sup>४</sup> ।

दूतानुवाच भरतः कामैः<sup>५</sup> सम्प्रतिपूज्य तान् ॥ ६ ॥

भरत जी ने उन सब को ले और बड़े अनुराग के साथ वे सब बख्खाभूषण अपने नाना मामा को दे दिये। तदनन्तर दूतों को भोजनादि की सामग्री द्वारा उनका सत्कार कर भरत जी उनसे बोले ॥ ६ ॥

कञ्चित्सुकुशली राजा पिता दशरथो मम ।

कञ्चित्चारोगता रामे लक्ष्मणे वा महात्मनि ॥ ७ ॥

हे दूतों ! यह तो कहो, मेरे पिता महाराज दशरथ तो प्रसन्न हैं ? महात्मा श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण तो आरोग्य हैं ? ॥ ७ ॥

१ विंशतिकोट्यः विंशतिकोटि मूल्यानि । (गो०) २ सम्पूर्णाः—अन्युता ।

( गो० ) ३ सुहृज्जने—मातुलादीः । ( गो० ) ४ स्वनुरक्तः प्रदाप्येतिशेषः ।

( गो० ) ५ कामैः अभीष्टान्नपानादिभिः । ( गो० )



आर्या<sup>१</sup> च धर्मनिरता<sup>२</sup> धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी<sup>३</sup> ।

अरोगा चापि<sup>४</sup> कौशल्या माता रामस्य धीमतः ॥८॥

धर्मानुष्ठानों के करने में तत्पर, धर्म के तत्त्व को जानने वाली और धर्मात्मा जनों को देखने वाली पूज्य एवं ज्येष्ठा धीमान् श्री-रामचन्द्र की माता कौशल्या तो निरोग है ? ॥ ८ ॥

कच्चित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या ।

शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सऽरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥

धर्म का मर्म समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता और महाराज की मङ्गली रानी सुमित्रा जो निरोग तो हैं ? ॥ ९ ॥

आत्मकामा<sup>५</sup> सदा चण्डी<sup>६</sup> क्रोधना प्राज्ञमानिनी ।

अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥ १० ॥

सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र और क्रोध स्वभाव वाली तथा अपने को सब से बढ़ कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता कैकेयी तो कुशल से है ? चलती बेर उन्होंने क्या कोई संदेश भी कहा है ? ॥ १० ॥

एवमुक्त्वास्तु ते दूता भरतेन महात्मना<sup>७</sup> ।

ऊचुः सप्रश्रयं वाक्यमिदं<sup>८</sup> तं भरतं तदा ॥ ११ ॥

१ आर्या—ज्येष्ठा मातृत्वेन पूजिता । ( गो० ) २ धर्मनिरता—धर्मा-  
नुष्ठानपरा । ( गो० ) ३ धर्मदर्शिनी—धर्ममेव जनेषु पश्यतीतिः धर्मदर्शिनी ।  
( गो० ) ४ अपिः—प्रश्ने । ( गो० ) ५ आत्मकामा—स्वप्रयोजनपरा । ( गो० )  
६ चण्डी—उग्रा । ( गो० ) ७ महात्मना—महाबुद्धिना । ( गो० ) ८  
सप्रश्रयं—सविनयं । ( गो० )

वड़े बुद्धिमान् भरत जी का वचन सुन, दूतों ने विनय पूर्वक भरत जी से कहा ॥ ११ ॥

कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि ।

श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥१२॥

हे पुरुषसिंह ! आप जिनका कुशल चाहते हैं, वे कुशलपूर्वक हैं । इस समय लक्ष्मी आपको वरण करने के लिये उद्यत है, अतएव यात्रा के लिये आप अपना रथ जुतवाइये । (एक टोकाकार ने इस श्लोक के उत्तरार्द्ध की व्याख्या इस प्रकार की है ; क्योंकि आपके मुखादि शारीरिक अंगों में इस समय ऐसी शोभा देख पड़ती है कि, जिससे किसी भी अमङ्गल की शङ्का नहीं हो सकती अतः अब आप अपना रथ जुतवावें ) ॥ १२ ॥

भरतश्चापि तान्दूतानेवमुक्तोऽभ्यभाषत ।

आपृच्छेऽहं महाराजं दूताः सन्त्वरयन्ति माम् ॥१३॥

दूतों का वचन सुन भरत बोले—अच्छा, मैं महाराज से चलने की आज्ञा मांगता हूँ और जा कर कहता हूँ कि, दूत लोग चलने के लिये वड़ी शीघ्रता कर रहे हैं ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा तु तान्दूतान्भरतः पार्थिवात्मजः ।

दूतैः सञ्चोदितो वाक्यं मातामहमुवाच ह ॥ १४ ॥

राजकुमार भरत दूतों से यह कह कर, दूतों के कथनानुसार नाना से जा कर बोले, ॥ १४ ॥

राजन्पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः ।

पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि ॥ १५ ॥

हे राजन् ! भ्रव में अपने पिता के पास जाऊँगा—क्योंकि, दूत लोग मुझे ले जाने के लिये जल्दी मचा रहे हैं। फिर जब आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊँगा ॥ १५ ॥

भरतेनैवमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा ।

तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम् ॥ १६ ॥

भरत का वचन सुन केकयरज, भरत का मस्तक सूँघ यह शुभ वचन बोले ॥ १६ ॥

गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया ।

मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप ॥ १७ ॥

हे भरत ! कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पा कर सुपुत्रवती हुई है। हे शत्रुघ्न ! मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। तुम वहाँ पहुँच कर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना ॥ १७ ॥

पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः ।

तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १८ ॥

पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा महा धनुर्धर श्रीराम और लक्ष्मण दानों भाइयों से कुशल क्षेम कह देना ॥ १८ ॥

तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान्कम्बलानजिनानि च ।

अभिसत्कृत्य<sup>१</sup> कैकेयो भरताय धनं ददौ ॥ १९ ॥

यह कह, केकयरज ने भरत जी को ( विदाई में ) उत्तम उत्तम हाथी, कीमती शाल दुशाले और मृगचर्म उनकी बड़ाई कर कर के दिये ॥ १९ ॥

१ अभिसत्कृत्य—इलाघापूर्वं । ( गो० )

स्वमनिष्क<sup>१</sup>सहस्रे द्वे षोडशाश्वशतानि च ।

सत्कृत्य कैकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्<sup>२</sup> ॥ २० ॥

यह कह कर केकयराज ने सत्कारपूर्वक भरत जी को ( विदाई में ) उत्तम उत्तम हाथी, बढ़िया शाल दुशाले तथा धन ( नकदी ) दिया ॥ २० ॥

तथाऽमात्यानभिप्रेतान्<sup>३</sup>विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् ।

ददावश्वपतिः क्षिप्रं भरतायानुयायिनः ॥ २१ ॥

दो हजार गले में पहने जाने वाले कंठे, गुंजे, कडुले आदि आभूषण तथा सोलह सौ घोड़े दिये और बड़े सत्कार के साथ धन दे कर, वह सब सामान अयोध्या पहुँचा देने के लिये नौकेरों को आज्ञा दी । केकयराज ने भरत के साथ शीघ्रता पूर्वक जाने के लिये कई एक अपने विश्वासी और गुणवान अर्थात् बुद्धिमान मंत्रों आदि कर दिये । ( ये तो नाना ने विदाई को अब आगे मामा की विदाई का वर्णन है ) ॥ २१ ॥

ऐरावतानैन्द्रशिरान्<sup>४</sup>नागान्वै प्रियदर्शनान् ।

खराञ्जीघ्रान्सुसंयुक्तान्<sup>५</sup>मातुलोऽस्मै धनं ददौ ॥२२॥

भरत जी के युधाजित मामा ने, भरत जी को इरावत नामक तथा इन्द्रशिख नामक पर्वत पर उत्पन्न और देखने में बड़े सुन्दर हाथी तथा अपने जाने हुए शीघ्रगामी अनेक खच्चर भी दिये ॥२२॥

१ निष्काः—वक्षोभूषणानि । ( गो० ) २ आदिशत्—आदायभिगच्छति मृत्यानाज्ञापयामास । ( गो० ) ३ अभिप्रेतान्—सहायभूतान् । ( गो० ) ४ ऐरावतान्—इरावत पर्वतभवान् । ( गो० ) ५ ऐन्द्रशिरात्—इन्द्रशिराख्य पर्वतभवान् । ( गो० ) ६ सुसंयुक्तान्—परिचितान् । ( गो० )

अन्तःपुरेऽतिसंवृद्धान्व्याघ्रवीर्यवलान्वितान् ।

दंष्ट्रायुधान्महाकायाञ्छुनश्चोपायनं ददौ ॥ २३ ॥

युधार्जित् मामा ने भरत को, इनके अनिरीक्त रजवास में पले हुए तथा वनचोर्य में व्याघ्र के तुल्य और बड़े बड़े दंतों वाले तथा बड़े डील डौल के कुत्ते भी दिये ॥ २३ ॥

स दत्तं कैकेयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत ।

भरतः कैकेयीपुत्रो \*गमनं त्वरयंस्तदा ॥ २४ ॥

परन्तु कैकेयराज की दो हुई इन वस्तुओं की और भरत जी ने ध्यान नहीं दिया । अनन्तर कैकेयीनन्दन भरत जाने के लिये शीघ्रता करने लगे ॥ २४ ॥

वभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा ।

त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात् ॥२५॥

एक तो भरत खोटा स्वप्न देखने से चिन्तित थे ही, तिस पर चजने के लिये दूतों के जल्दी मचाने से वे और भी चिन्तित हो गये ॥ २५ ॥

स स्ववेश्म व्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंवृतम् ।

प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम् ॥ २६ ॥

मनुष्य हाथी और घोड़ों को लिए हुए भरत जी अपने घर से निकले और उत्तम एवं बड़े लंबे राजमार्ग में आ कर उपस्थित हुए ॥ २६ ॥

अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तःपुरमुदारधीः ।

ततस्तद्भरतः श्रीमानाधिवेशानिवारितः ॥ २७ ॥

\* पाठान्तरे—“ गमनं त्वरयातदा ” ।

और उस मार्ग से हो कर उदार बुद्धि वाले भरत जी रनवास में गये । रनवास में जाते समय किसी ने उन्हें रोका नहीं ॥ २७ ॥

स मातामहमापृच्छय मातुलं च युधाजितम् ।

रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ ॥ २८ ॥

भरत जी ने वहाँ पहुँच कर, नाना तथा मामा युधाजित से विदा माँगी । तदनन्तर शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो वहाँ से वे चल दिये ॥ २८ ॥

रथान्मण्डलचक्रांश्च योजयित्वा परःशतम् ।

उष्ट्रगोश्वखरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥

तब अनेक नौकर अनेक रथों में घोड़े, ऊँट, बैल और खच्चर जोत, भरत के रथ को चारों ओर से घेर कर, उनके साथ खाना हुए ॥ २९ ॥

वलेन गुप्तो भरतो महात्मा<sup>१</sup>

सहार्यकस्या<sup>२</sup>त्मसमैरमात्यैः<sup>३</sup> ।

आदाय शत्रुघ्नमपेतशत्रु-

र्षहाद्ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात् ॥ ३० ॥

इति सप्ततितमः सर्गः ॥

महाधैर्यवान् भरत नाना के आत्मसदृश विश्वासी मंत्रियों और सैनिकों से सुरक्षित हो एवं शत्रुघ्न को साथ ले राजभवन से उसी

१ महात्मा—महाधैर्यो भरतः । ( गो० ) २ आर्यकस्य—मातामहस्य । ( गो० ) ३ आत्मसमैः—स्वप्रभावसदृशैः । ( गो० ) ४ अपेतशत्रु—निष्कण्टकः सन् । ( गो० )

प्रकार निर्भय हो चले, जिस प्रकार इन्द्रलोक से सिद्ध चलते हैं ॥ ३० ॥

अयोध्याकाण्ड का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

[ नोट—भरत जी राजगृह से अयोध्या जिस मार्ग से गये, वह राज मार्ग था । दूत जिस मार्ग से राजगृह गये थे, वह मार्ग समीप का था, किन्तु उसमें अनेक नदियाँ और पहाड़ पड़ते थे । भरत जी के साथ रथ हाथी घोड़े तथा अनेक मनुष्य थे अतः वह पहाड़ी मार्ग उनके लिये उपयुक्त न था अतः वे आम रास्ते से अयोध्या गये । ]

—:~:—

### एकसप्ततितमः सर्गः

—:~:—

स प्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान्\* ।

ततः सुदामां द्युतिमान्सन्तीर्यावेक्ष्य तां नदीम् ॥१॥

पराक्रमी एवं तेजस्वी भरत राजगृह से खाना हो कर, पूर्व की ओर चले । कुछ दूर पर उनको सुदामा नाम की नदी देख पड़ी । वे उस नदी के पार हुए ॥ १ ॥

हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम्<sup>१</sup> ।

शतद्रूमतरच्छ्रीमान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ ॥

अनन्तर बड़े फाँट वाली ह्यादनी नदी मिली, तिस पीछे पश्चिम वाहिनी शतद्रू ( सतलज ) मिली । इन दोनों नदियों के भी इक्ष्वाकुनन्दन भरत पार हुए ॥ २ ॥

१ प्रत्यक्स्रोतस्तरङ्गिणीम्—पश्चिमप्रवाहां नदीम् । (रा०) \* पाठान्तरे—

“ राघवः ” ।

एलाधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वटान्<sup>१</sup> ।

शिलामाकुर्वती तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्तनम् ॥ ३ ॥

फिर वे पलाधान गाँव के पास बहने वाली नदी को पार कर पर्यपट नामक ग्राम में पहुँचे । फिर उस नदी को, जिलमें जो वस्तु डाल देा वह पत्थर हो जाय, पार कर और आग्नेय दिशा की ओर चल कर, वे शल्यकर्तन नामक नगर में पहुँचे ॥ ३ ॥

सत्यसन्धः शुचिः श्रीमान्प्रेक्षमाणः शिलावहाम् ।

अत्ययात्स महाशैलान्वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥

उसके आगे सत्यसन्ध एवं धर्मात्मा भरत जो ने शिलावहा नदी देखी । फिर बड़े बड़े पहाड़ों को बचाते हुए वे चैत्ररथ नामक वन की ओर चले ॥ ४ ॥

सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च ।

उत्तरं वीर मत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनम् ॥ ५ ॥

अनन्तर सरस्वती और गङ्गा के सङ्गम पर होते हुए, वीर-मत्स्य नामक देशों के उत्तर भागों को देखते हुए वे भारुण्ड वन में पहुँचे ॥ ५ ॥

वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां ह्यादिनीं पर्वतावृताम् ।

यमुनां प्राप्य सन्तीर्णो बलमाशवासयत्तदा ॥ ६ ॥

अनन्तर वेगवती, हर्ष देने वाली और पर्वतों से घिरी हुई कुलिङ्गा को तथा यमुना को पार कर, उन्होंने सेना को विश्राम दिया ॥ ६ ॥

१ पूर्वपर्यटानपरपर्यटा इचेति ग्रामद्वयमस्ति । ( गो० ) २ शिलामा-कुर्वती—शिलामासमन्ताकुर्वती । ( गो० )



शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम् ॥७॥

यके हुए घोड़ों के शरीरों को ठंडा किया अर्थात् उनके शरीर की थकावट दूर की । लोगों ने भी स्नान किये और जलपान किया और रास्ते में पीने के लिये जल साथ ले, वे आगे बढ़े ॥ ७ ॥

[ जल साथ इसलिये लिया था कि, आगे वन पड़ता था, वहाँ जल मिलने की सुविधा नहीं थी । ]

राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम् ।

भद्रो भद्रेण<sup>१</sup> यानेन मारुतः<sup>२</sup> खमिवात्ययात् ॥ ८ ॥

इसके अनन्तर भरत जी उस निर्जन महारण्य में पहुँचे और भद्र जाति के हाथी ( इस जाति का हाथी वनों में खूब चलता है ) पर सवार हो, बड़ी तेज़ी के साथ उस वन के पार हुए ॥ ८ ॥

भागीरथीं दुष्प्रतरामंशुधाने महानदीम् ।

उपायाद्राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥ ९ ॥

अंशुधान नगर के नीचे गङ्गा जी का पार करना असम्भव था । अतः वे बड़ी शीघ्रता से प्राग्वट नामक प्रसिद्ध घाट पर पहुँचे ॥९॥

स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात्कुटिकोष्ठिकाम् ।

सवलस्तां स तीर्त्वार्थं समायाद्धर्मवर्धनम् ॥ १० ॥

१ भद्रेण—भद्रगजरूपेणयानेन । ( गो० ) २ मारुतःखमिवात्ययात्—  
अतिवेगेनातिक्रान्तवान् । ( गो० )

वे प्राग्वट घाट से गङ्गा को पार कर, कुटिकोष्ठिका नदी पर पहुँचे और सेना सहित उसे भी पार कर, धर्मवर्द्धन नामक ग्राम में पहुँचे ॥ १० ॥

तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थमुपागमत् ।

वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ ११ ॥

फिर तोरण नामक ग्राम के दक्षिण की ओर जम्बूप्रस्थ ग्राम में पहुँचे । फिर दशरथनन्दन भरत जी रमणीक वरूथ नामक ग्राम में पहुँचे ॥ ११ ॥

तत्र रम्ये वने वासं कृत्वाऽसौ प्राङ्मुखो ययौ ।

उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियका<sup>१</sup> यत्र पादपाः ॥ १२ ॥

फिर वरूथ ग्राम के वन में ठहर वहाँ से पूर्व की ओर रवाना हुए और उज्जिहाना नाम की पुरी के उपवन में, जहाँ पर वन्धूक अथवा कदम्ब के पेड़ लगे थे, पहुँचे ॥ १२ ॥

सालांस्तु प्रियकान्प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः ।

अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ॥ १३ ॥

उस साल और वन्धूक के उपवन में पहुँच, रथ में शीघ्रगामी घोड़े जोत और सेना को धीरे धीरे पीछे आने की आज्ञा दे, भरत जी वहाँ से शीघ्रतापूर्वक रवाना हुए ॥ १३ ॥

[ नोट—उज्जिहानापुरी के आगे कोसलराज्य की सीमा आरम्भ होती थी—अतः अपने राज्य में किसी प्रकार का खटका न समझ, सेना का साथ छोड़, भरत जी, रथ में बैठ, शीघ्रतापूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थानित हुए । ]

१ प्रियका—वन्धूकाः कदम्बावासन्ति ( गो० ) ।

वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिका<sup>१</sup> नदीम् ।

अन्या नदीश्च विविधाः पार्वतीयै<sup>२</sup>स्तुरङ्गमैः ॥ १४ ॥

( रास्ते में भरत जी ने ) सर्वतीर्थ नामक ग्राम में ठहर और उत्तानिका नदी को पार किया । फिर अन्य अनेक नदियों को उन पहाड़ी घोड़ों की सहायता से पार किया ॥ १४ ॥

हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामत्यवर्तत ।

ततार च नरव्याघ्रो लौहित्ये सिकतावतीम्\* ॥१५॥

तदनन्तर हस्तिपृष्ठक नगर के समीप कुटिका नदी पार की । पुरुषश्रेष्ठ भरत ने लोहित्य नगर के पास सिकतावती नदी को पार किया ॥ १५ ॥

एकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमती नदीम् ।

कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा ॥ १६ ॥

भरत जी एकसाल नगर में स्थाणुमती नदी को और विनत नामक नगर में गोमती नदी को पार कर, कलिङ्ग नगर के सालवन में पहुँचे ॥ १६ ॥

भरतः क्षिप्रमागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः ।

वनं च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये ॥ १७ ॥

भरत जी वड़ी तेज़ी से यात्रा कर रहे थे । अतः उनके रथ को छोड़े थक गये थे । सो वे रात भर सालवन में विश्रामार्थ ठहर गये । जब रात बीती और सबेरा हुआ ॥ १७ ॥

१ उत्तानिका—उन्नतबलत्वेनतदाख्यां । ( गो० ) २ पार्वतीयैः—पर्वत-  
देशोत्पन्नैः । \* पाठान्तरे—“ स कपीवतीम् ” ।

अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सन्ददर्श ह ।

तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तरात्रोपितः पथि ॥ १८ ॥

तब वहाँ से खाना हो भरत ने महाराज मनु की वसाई अयोध्यापुरी देखी । राजगृह से अयोध्या तक आने में, रास्ते में भरत को सात रातें ( दिन ) लगीं ॥ १८ ॥

अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं वान्यमब्रवीत् ।

एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १९ ॥

दूर ही से अयोध्या को देख, भरत जी सारथी से कहने लगे कि, यह पुरी तो मुझे जगतप्रसिद्ध और स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों से पूर्ण अयोध्या जैसी तो नहीं जान पड़ती ॥ १९ ॥

अयोध्या दृश्यते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका ।

यज्वभिर्गुणसम्पन्नैर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः ॥ २० ॥

भूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षिपरिपालिता ।

अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् ॥२१॥

हे सारथे ! दूर से देखने पर तो अयोध्या पीली मिट्टी का एक ढेर सा जान पड़ती है । देखो, अत्यन्त उन्मुद्धशालिनी और राजर्षियों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में तो पहले यज्ञकर्ता, गुणी एवं वेद-पाठी ब्राह्मणों का बड़ा तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था ॥ २० ॥ २१ ॥

समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम् ।

उद्यानानि हि सायाह्ने क्रीडित्वापरतैर्नरैः ॥ २२ ॥

और चारो ओर स्रो पुरुषों का जो बड़ा जोलाहल हुआ करता था, वह तो मुझे आज सुनाई ही नहीं पड़ता । यहाँ के उपवनों में सायङ्काल के समय खेलों से निवृत्त हो, बहुत से पुरुष ॥ २२ ॥

समन्ताद्विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यदा<sup>१</sup> ।

तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥

इधर उधर दौड़ते हुए पहले देख पड़ते थे, किन्तु आज तो वे उपवन मुझे कामी लोगों द्वारा परित्यक्त होने के कारण रेतें हुए से जान पड़ रहे हैं ॥ २३ ॥

अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति मे ।

न ह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः ॥ २४ ॥

निर्यान्तो वाऽभियान्तो वा नरमुख्या यथापुरम् ।

उद्यानानि पुरा भ्रान्ति मत्तप्रमुदितानि च ॥ २५ ॥

हे सारथे ! यह अयोध्या नहीं, किन्तु यह तो मुझे उजड़ी हुई अयोध्या का वन जैसा जान पड़ता है । क्योंकि न तो यहाँ कोई सवारो और न कोई हाथो अथवा घोड़ों पर चढ़े प्रतिष्ठित पुरवासी आते जाते देख पड़ते हैं । वाटिकाओं में पहले खूब चहल पहल बनी रहती थी ॥ २४ ॥ २५ ॥

जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ।

तान्येतान्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः ॥ २६ ॥

<sup>१</sup> अन्यदा—पूर्व । ( गो० ) <sup>२</sup> रतिसंयोगेषु—रत्यर्थसंयोगेषु । ( गो० )

और बाटिकाएँ विहार करने के लिये एकत्र हुए जनों से भरी रहती थीं और जो अनेक प्रकार के फूले हुए वृत्तों तथा लता गृहादि से शोभायमान होती थीं—उन बाटिकाओं में मुझे आज सदासी सी झाँई हुई देख पड़ती है ॥ २६ ॥

स्रस्तपर्णैरनुपथं विक्रोशद्भिरिव द्रुमैः ।

नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम् ॥ २७ ॥

संरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु ।

चन्दनागरुसंपृक्तो धूपसम्मूर्छितोऽतुलः ॥ २८ ॥

प्रवाति पवनः श्रीमान्किन्नु नाद्य यथापुरम् ।

भेरीमृदङ्गवीणानां कोणसङ्घट्टितः पुनः ॥ २९ ॥

सड़कों के अगल बगल लगे हुए वृत्त पत्तों से रहित हो मानों चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए से जान पड़ते हैं। मदमाते मृगों और पक्षियों के अनुराग में भर कर, कलरन करने का शब्द भी तो आज नहीं सुनाई पड़ती। हे सुत ! इस पुरी में सदा चन्दन और अगर की धूप से धूपित अत्यन्त सुगन्धित पवन चला करता था, किन्तु आज वैसा पवन भी तो नहीं चल रहा। पहले भेरी मृदङ्ग और वीणा आदि वाजों के बजाये जाने का शब्द बार बार हुआ करता था, ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

किमद्य शब्दो विरतः सदाऽदीनगतिः पुरा ।

अनिष्टानि च पापानि<sup>१</sup> पश्यामि विविधानि च ॥३०॥

१ धूपसम्मूर्छितः—धूपव्याप्तः । (गो०) २ श्रीमान्—रमणीयः । (गो०)  
४ पापानि—ऋणानि । (गो०)

किन्तु आज क्या कारण है, जो वह पहले जैसा प्रसन्न करने वाला शब्द बंद है ? मुझे तरह तरह के अनिष्ट और क्रूर शकुन दिखाई पड़ते हैं ॥ ३० ॥

१निमित्तान्यमनोज्ञानि<sup>२</sup> तेन सीदति मे मनः ।

सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम वन्धुषु ॥ ३१ ॥

देखने ही से दुःख देने वाले इन अपशकुनों से मेरा मन दुःखी हो रहा है । इससे मुझे जान पड़ता है कि, मेरे वन्धु दान्धवों का कुशल पूर्वक होना सर्वथा दुर्लभ है ॥ ३१ ॥

तथा ह्यसति संमोहे<sup>३</sup> हृदयं सीदतीव मे ।

विषण्णः<sup>४</sup> श्रान्तहृदय<sup>५</sup> ह्रस्तः संलुलितेन्द्रियः<sup>६</sup> ॥ ३२ ॥

हे सूत ! घबड़ाने का कारण न होने पर भी, मेरा हृदय घड़क रहा है, मन उदास है और भय के कारण सब बाह्य इन्द्रियाँ लुब्ध हो रही हैं ॥ ३२ ॥

भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकूपालिताम् ।

द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः ॥ ३३ ॥

भरत जो इक्ष्वाकूपालित अशोधापुरी में, पुरी के वैजयन्त नामक पश्चिमद्वार से घुसे । उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थक गये थे ॥ ३३ ॥

१ निमित्तानि—अशुभसूचकानि । ( गी० ) २ अमनोज्ञानि—दर्शनमात्रेण दुःख कारणि । ( गी० ) ३ संमोहे—संमोहकारणे । ( गी० ) ४ विषण्णः—दुःखितः । ( गी० ) ५ श्रान्तहृदयः—कलुषितमनस्कः । ( गी० ) ६ लुलितेन्द्रियः—क्षुभितबाह्येन्द्रियः । ( गी० ) .

द्वाःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्टस्तैः सहितो ययौ ।

स त्वनेकाग्रहृदयो<sup>१</sup> द्वाःस्थं प्रत्यर्च्य<sup>२</sup> तं जनम् ॥३४॥

भरत जी को देख द्वारपाल उठ खड़े हुए और ( रीत्यानुसार ) विजय प्रश्न कर उनके साथ हो लिये । उस समय भरत जी का मन व्यग्र हो रहा था । अतः उन्होंने उन द्वारपालों को सत्कारपूर्वक लौटा दिया ॥ ३४ ॥

भूतमश्वपतेः क्लान्तमग्रवीत्तत्र राघवः ।

किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनाऽनघ<sup>३</sup> ॥ ३५ ॥

केकयराज का सारथी जो बहुत थक गया था उससे भरत जी ने कहा—हे अनघ ! किस लिये बिना कारण बतलाये शीघ्रता से मैं यहाँ बुलाया गया हूँ ॥ ३५ ॥

अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं<sup>४</sup> च पततीव<sup>५</sup> मे ।

श्रुता नो यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने ॥ ३६ ॥

मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ गड़बाएँ उत्पन्न हो रही हैं और मन पर दीनता छाती जाती है । राजाओं के मरने पर जो अमाङ्गलिक लक्षण देख पड़ते हैं और जिन्हें मैंने पहले सुन रखे हैं ॥ ३६ ॥

आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ।

संमार्जनविहीनानि परुषाण्युपलक्षये ॥ ३७ ॥

१ अनेकाग्रहृदयः—इयाकुलमनाः । ( गो० ) २ प्रत्यर्च्य—सत्कारपूर्वक निवर्त्य । ( शि० ) ३ अनघति—चिन्तासमर्थताक्तिः । ( गो० ) ४ शीलं—निलंबद्वैभ्यरहितस्वभावः । ( शि० ) ५ पतति—असगच्छतीव । ( शि० )



हे सारथे ! आज वे ही सब कुलक्षण मुझे यहाँ देख पड़ रहे हैं। देखो, गृहस्थों के घर विना झाड़े बुहारे होने के कारण गंदे जान पड़ते हैं ॥ ३७ ॥

असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ।

बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च ॥ ३८ ॥

द्वारों के किवाड़ खुले पड़े हैं, सब घरों की शोभा नष्ट हो गयी है। वे सब बलिकर्म-विहीन, धूपगन्ध रहित हैं, ॥ ३८ ॥

अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च ।

अलक्ष्मीकानि<sup>१</sup> पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम् ॥३९॥

तथा भूखे और हतश्री जनों से भरे हैं। गृहस्थों के मकान मुझे विचित्र श्वजाओं और वंदनवारों से रहित देख पड़ रहे हैं ॥ ३९ ॥

अपेतमाल्यशोभान्यप्यसंमृष्टाजिराणि च ।

देवागाराणि शून्यानि<sup>२</sup> न चाभान्ति यथापुरम् ॥४०॥

किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पुष्पमालाएँ लटकती नहीं देख पड़तीं—सब घरों के आगन विना झाड़े बुहारे पड़े हैं। देवाल्यों में पुजारी आदि कोई भी नहीं है, उनकी जैसी पहले शोभा थी, वैसी अब नहीं है ॥ ४० ॥

देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यज्ञगोष्ठ्य<sup>३</sup>स्तथाविधाः ।

माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा ॥४१॥

१ अलक्ष्मीकानि—विचित्रश्वजतोरणाद्यभावात् । ( रा० ) २ शून्यानि—पूजापरिचारिकादिरहितानि । ( गो० ) ३ प्रविद्धाः—छुटाः । ( गो० ) ४ यज्ञ-गोष्ठ्यः—यज्ञसभा । ( गो० )

न तो कोई अथ देवताओं का पूजन कर रहा है और न यज्ञ-  
शालाओं में यज्ञविधान ही हो रहा है। आज मूलनालाओं की  
तथा अन्य वस्तुओं का दूधाने गौनाह्वान हो रही है ॥ ४१ ॥

इत्यन्ते ऋषिजोऽप्यथ न यथापूर्वमत्र वै ।

ध्यानसंविमहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिणाः<sup>१</sup> ॥ ४२ ॥

यहाँ पर पहले की तरह ऋषि भी प्रफुल्ल नन नहीं देख पड़ते।  
चिन्ता के मारे इनका मन घनड़ाया हुआ है। इनका व्यापार बंद  
सा हो गया है ॥ ४० ॥

देवायतनचैत्येषु दीनाः पद्मिगणान्तया ।

मलिनं चाश्रुपूर्णांसं दीनं ध्यानपतं कृद्यम् ।

सर्वोपुंसं च पर्यापि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥ ४३ ॥

देवताओं के मन्दिरों में तथा देवालय चिथों में पद्मिगण  
उदात्त बैठे हैं। नैले रूपके पद्मिने, अंकों में अश्रु नरे उदात्त,  
चिन्ताग्रस्त, दुबले पनले और उत्कण्ठित को दुःख ही मुझे नगर  
नर में देख पड़ते हैं ॥ ४३ ॥

इत्येवमुक्त्वा भरतः सूर्तं तं दीनमानसः ।

तान्यरिष्टान्ययोध्यायां मेक्ष्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥

उदात्त नन नरत श्री, इस प्रकार के वचन उस लन से कहते  
और अयोध्या में उन अरिष्टों को देखते हुए, राजमदन की ओर  
गये ॥ ४४ ॥

<sup>१</sup> यन्त्रिणाः—सङ्घचित्कण्ठ । ( वि० )

तां शून्याः शृङ्गाटकः वेश्मरथ्यां  
रजोरुणः द्वारकपाट्यन्त्राम् ।

दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरप्रकाशां

दुःखेन सम्पूर्णांतरो बभूव ॥ ४५ ॥

इस इन्द्रपुरी के समान, अयोध्यापुरी के चौराहे के घरों और गलियों को जनशून्य, और मकानों के किवाड़ों और किवाड़ों के कोल कांटों को धूलधूसरित ( अर्थात् गर्दा पड़ी हुई ) देख, भरत जी अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ४५ ॥

बहूनि पश्यन्मनसोप्रियाणि

यान्यन्यदा\* नात्र\* पुरे बभूवुः ।

अवाक्शिरा दीनमना नहृष्टः

पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म ॥ ४६ ॥

इति एकसप्ततितमः सर्गः ॥

भरत जी ने ऐसी ऐसी अनेक अप्रिय घटनाओं को, जो इसके पूर्व उन्होंने कभी नहीं देखी थीं, देख कर—नोचा सिर किये हुए, उदास मन होने के कारण हर्ष रहित हो, अपने महात्मा पिता के घर में प्रवेश किया ॥ ४६ ॥

अयोध्याकाण्ड का इकहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

१ शून्या—जनरहिताः । ( गो० ) २ शृङ्गाटक वेश्मरथ्याः—चतुष्पथ पृथ्वीथयोयस्यां । ( गो० ) ३ रजोरुणद्वारकपाट्यन्त्राम्—रजोभिः मलिनानि-द्वारस्थकपाटानां दारुबन्धादीनियस्यां । ( गो० ) ४ अन्यदा—पूर्वकाले । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ नास्य ” ।

## द्विसप्ततितमः सर्गः

—१०—

अपश्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये ।  
जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥ १ ॥

भरत जी पिता के घर में पिता को न देख, माता के दर्शन की लालसा से अपनी माता के घर में गये ॥ १ ॥

अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतम् ।  
उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम् ॥ २ ॥

बहुत दिनों बाद विदेश से लौट कर घर आये हुए, अपने प्रिय पुत्र भरत को देख, कैकेयी हर्ष में मग्न हो, सौने की चौकी से उठ खड़ी हुई ॥ २ ॥

स प्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम् ।  
भरतः प्रतिजग्राह जनन्याश्वरणौ शुभौ ॥ ३ ॥

धर्मात्मा भरत जी ने अपने माता के घर में जा कर देखा कि, घर की शोभा नष्ट हो गयी है । अनन्तर भरत जी ने अपनी माता के शुभ दोनों चरण छुए ॥ ३ ॥

सा मूर्ध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम् ।  
अङ्गे भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥

उस समय कैकेयी भरत जी का मस्तक छूँघ, उनको हृदय से लगा और गोदी में बैठा कर, उनसे पूँछने लगी ॥ ४ ॥

अद्य ते कतिचिद्रात्र्यश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः ।

अपि<sup>१</sup> नाध्वश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥

हे वरम ! आज तुमको नाना के घर से चले कितने दिन हो गये ? तुम रथ पर सवार जल्दी जल्दी आये हो, सा रास्ते की थकावट तो तुम्हें कष्ट नहीं दे रही ॥ ५ ॥

आर्यकस्ते सुकुवाली युधाजिन्मातुलस्तव ।

प्रवासाच्च सुखं पुत्र सर्वं मे वक्तुमर्हसि ॥ ६ ॥

हे वत्स ! तुम्हारे नाना और मामा युधाजित तो बहुत अच्छी तरह से हैं ? वेटा ! जब से तुम विदेश गये, तब से रहे तो अच्छी तरह न ? यह सब मुझसे कहो ॥ ६ ॥

एवं पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः ।

आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥

कैकेयो के इस प्रकार पूछने पर प्रिय राजकुमार कमलनयन भरत ने अपनी माता से वहाँ का सारा वृत्तान्त कहा ॥ ७ ॥

अद्य मे सप्तमी रात्रिश्च्युतस्यार्यकवेश्मनः ।

अम्बायाः कुवाली तातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८ ॥

हे अम्मा ! नाना का घर छोड़े हुए मुझे आज सात रातें बीत चुकीं । मेरे नाना और मामा कुशल से हैं ॥ ८ ॥

१ च्युतस्य—निर्गतस्य । ( गो० ) २ आर्यकः—मातामहः । ( गो० )  
३ अपिः—प्रश्ने । ( गो० )

यन्मे धनं च रत्नं च ददौ राजा परन्तपः ।

परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥

शत्रुओं का दमन करने वाले राजा केकय ने मुझे विदाई में जो रत्न धन दिये हैं उन सबको मैं रास्ते ही में छोड़ कर आगे चला आया हूँ । क्योंकि सवारियों के जानवर बहुत थक गये थे ॥ ९ ॥

राजवाक्यहरैर्दूतैस्त्वर्यमाणोऽहमागतः ।

यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्वा वक्तुमर्हति ॥ १० ॥

महाराज का संदेश ले कर जो दूत गये थे, उनके जल्दी करने पर ही मैं इतनी जल्दी आया हूँ । हे अम्मा ! अब मैं जो कुछ पूछूँ उसका तू उत्तर दे ॥ १० ॥

शून्याऽयं शयनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः ।

न चायमिक्ष्वाकुजनः<sup>१</sup> प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११ ॥

तुम्हारा यह सुवर्ण का पलंग महाराज विना सुना क्यों है ? महाराज के कोई भी जन मुझको प्रसन्न नहीं जान पड़ते ॥ ११ ॥

राजा भवति भूयिष्ठ<sup>२</sup>मिहाम्वाया निवेशने ।

तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः ॥ १२ ॥

महाराज अधिक तर तेरे ही घर में रहा करते थे—सो वे आज नहीं देख पड़ते । मैं उन्हींके दर्शन करने को यहां आया हूँ ॥ १२ ॥

पितुर्ग्रहीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पृच्छतः ।

—आहोस्विदम्ब ज्येष्ठायः कौसल्याया निवेशने ॥ १३ ॥

१ इक्ष्वाकुजनः—दशरथजनः । (गो०) २ भूयिष्ठ—प्राबुयेंण । (गो०)

इस समय पिता जो कहां हैं ? मुझे यह बतलाओ, क्योंकि मैं उनके चरणयुगल में प्रणाम करूँगा । वे क्या मेरी माताओं में सब से बड़ी माता कौशल्या जी के घर में हैं ? ॥ १३ ॥

तं प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्वोरमप्रियम् ।

अजानन्तं<sup>२</sup> प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥

इन प्रश्नों के उत्तर में, सारा वृत्तान्त जानने वाली कैकेयी राज्य के लोभ में फँस, महाराज का वृत्तान्त न जानने वाले भरत से, प्रिय संवाद की तरह, घोर अप्रिय वचन बोली ॥ १४ ॥

या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः ।

राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतांगतिं ॥ १५ ॥

हे बेटा ! सब प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को तुम्हारे महात्मा, तेजस्वी और सज्जनों के आश्रयस्थल पिता महाराज दशरथ प्राप्त हुए हैं ॥ १५ ॥

तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुचिः ।

पपात सहसा भूमौ पितृशोकवलादितः ॥ १६ ॥

कैकेयी को यह बात सुनते ही, धर्मात्माओं के वंश में उत्पन्न— निष्कपट भरत, पितृशोक से विकल हो, सहसा पृथिवी पर गिर पड़े ॥ १६ ॥

हा हतोऽस्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन् ।

निपपात महाबाहुर्वाहू विशिष्य वीर्यवान् ॥ १७ ॥

१ प्रियवत्—प्रियमिव । ( गो० ) २ अजानन्तं—राजवृत्तान्तमजानन्तं । ( गो० ) ३ धर्माभिजनवान्—धर्मयुक्तवंशवान् । ( रा० )

और गिरते समय, महाबाहु एवं महाबली भरत जी दोनों हाथ पृथिवी पर पटक “ हाथ मैं मारा गया ” कह कर, कल्याणपूर्ण वचन बोले ॥ १७ ॥

ततः शोकेन संविग्नः\* पितुर्मरणदुःखितः<sup>१</sup> ।

विललाप महातेजा भ्रान्ता<sup>२</sup>कुलितचेतनः ॥ १८ ॥

तदनन्तर महातेजस्वी भरत, पिता के मरने का संवाद सुनने के कारण, शोक और दुःख से विकल हो, घबड़ा गये और विलाप करने लगे ॥ १८ ॥

एतत्सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा ।

शशिनेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये ॥ १९ ॥

वादलों के विदा होने पर अर्थात् शरत्काल में चन्द्रमा से आकाश की जैसी शोभा होती है, पहले वैसी ही शोभा मेरे पिता की इस सेज की थी ॥ १९ ॥

यदिदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता ।

व्योमेव शशिना हीनं विशुष्क इव सागरः ॥२०॥

आज उन बुद्धिमान पिता जी के बिना चन्द्रहीन आकाश और जलहीन सागर की तरह यह सेज बुरी मालूम पड़ती है ॥ २० ॥

वाष्पमुत्सृज्य कण्ठेन स्वार्तः परमपीडितः ।

प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्वस्त्रेण जयतांवरः<sup>३</sup> ॥ २१ ॥

१ मरणदुःखितः—मरणश्रवणनसञ्जातदुःखः । (गो०) २ भ्रान्ता—अन-  
वस्थिता । (गो०) ३ जयतांवरः भरतः । (शि०) \* पाठान्तरे—“ संवितः ” ।



इस प्रकार भरत अपना मुख वरुण से ढक आँसु बहाते, अत्यन्त व्यथित हो गद्गद् करके से विलाप करने लगे ॥ २१ ॥

तमार्तं देवसङ्काशं समीक्ष्य पतितं भुवि ।

निकृत्तमिव सालस्य स्फुन्धं परशुना वने ॥ २२ ॥

जिस प्रकार वन में कुल्हाड़ो से कटा हुआ शालवृक्ष का गुद्दा गिर पड़ता है, उसी प्रकार देवता के समान भरत जो पिता को मृत्यु से दुःखित हो भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥

माता मातङ्गसङ्काशं चन्द्रार्कसदृशं भुवः ।

उत्थापयित्वा शोकार्तं वचनं चेदमब्रवीत् ॥ २३ ॥

यह देख, कैकेयी चन्द्र, सूर्य और हाथी के समान तेजस्वी शोकाकुल अपने पुत्र को, पृथिवी से उठा कर उससे बोली ॥ २३ ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजपुत्र महायशः ।

त्वद्विधा न हि शोचन्ति सन्तः 'सदसिसम्पताः' ॥२४॥

हे महायशस्वी राजकुमार ! उठो ! उठो ! तुम जमीन पर क्यों पड़े हो ? तुम जैसे सज्जन और सभ्य लोग कभी शोक नहीं करते ॥ २४ ॥

दानयज्ञाधिकारा हि शीलं श्रुतिं वचोनुगा ।

बुद्धिस्ते<sup>४</sup> बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य<sup>५</sup> मन्दिरे ॥ २५ ॥

१ सदसिसम्पताः—सभ्या इत्यर्थः । (गो०) २ शीलं—सद्गुणं । (गो०)  
३ श्रुतिवचोवेदवाक्यं । (गो०) ४ बुद्धिः—अव्ययसाय । (गो०) ५ अर्क-  
स्थप्रभामन्दिरद्वय—सूर्यप्रभायथास्वस्थानेनिश्चलाभवति तथातेबुद्धिर्निश्चलाभा-  
तीत्यर्थः । (गो०)

हे बुद्धिमान् ! जिस प्रकार सूर्य की प्रभा अपने स्थान पर निश्चल होती है—उसी प्रकार तुम्हारा अध्यवसाय, जो दान, यज्ञ, सदाचरण और वेदवाक्यों का अनुसरण करने वाला है—निश्चल है ॥ २५ ॥

स रुदित्वा चिरं कालं भूमौ विपरिवृत्य च ।

जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्वहुभिरावृतः ॥ २६ ॥

इस प्रकार माता के समझाने पर भी भरत बहुत देर तक भूमि पर लोटते और रोते रहे । तदनन्तर अत्यन्त शोकाकुल हो माता से बोले ॥ २६ ॥

अभिषेक्षयति रामं नु राजा यज्ञं नु यक्षयते ।

इत्यहं कृतसङ्कल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्<sup>१</sup> ॥ २७ ॥

हे अम्मा ! मैंने तो यह समझा था कि, महाराज श्रीराम को राज्य दूँगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे । इसीलिये मैं प्रसन्न हो वहाँ से चला था ॥ २७ ॥

तदिदं ह्यन्यथाभूतं च्यवदीर्णं मनो मम ।

पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥ २८ ॥

किन्तु इस समय उसके निपरोत बात देख, मेरा मन फटा जाता है । क्योंकि अब मैं अपने सदाहितैषी पिता को नहीं देख पाता ॥ २८ ॥

१ यात्रामयासिषम्—यात्रामकार्षं । ( गो० )

अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते ।

धन्या रामादयः सर्वे यैः पिता संस्कृतः स्वयम् ॥२९॥

हे अम्बा ! महाराज को क्या बीमारी हुई थी कि, मेरे आने के पूर्व ही उन्होंने जरूर छोड़ दिया । धन्य है श्रीराम आदि भाई, जिन्होंने पिता की और्द्धदैहिक क्रिया की होगी ॥ २९ ॥

न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्त्तिमान् ।

उपजिघ्रेद्धि मां मूर्ध्नि तातः सन्नम्य सत्वरम् ॥३०॥

निश्चय ही कीर्त्तिशाली महाराज को यह नहीं मालूम कि, मैं यहाँ आ गया हूँ—नहीं तो वे अवश्य अपना मस्तक मुझा मेरे सिर को तुरन्त सूँघते ॥ ३० ॥

क स पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः ।

येन मां रजसा ध्वस्तमभीक्षणं परिमार्जति ॥ ३१ ॥

हा ! महाराज का वह हाथ, जो अंग से स्पर्श करते ही सुख दिया करता था और मेरे धूलधूसरित शरीर को धूल बार बार झाड़ता था, कहाँ गया ? ॥ ३१ ॥

यो मे भ्राता पिता वन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः ।

तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥ ३२ ॥

अब जो मेरे भ्राता, पिता और वन्धु भी हैं, और जिन बुद्धिमान् का मैं दास हूँ, उन श्रीरामचन्द्र का पता मुझे शीघ्र बतला कि, वे कहाँ हैं ? ॥ ३२ ॥

पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य<sup>१</sup> जानतः ।

तस्य पादौ गृहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ ३३ ॥

क्योंकि धर्मज्ञ और विवेकी जन का जेठा भाई पिता के तुल्य होता है । अतः मैं उनके पैर पकड़ूँगा क्योंकि अब तो मुझे उन्हीं का सहारा है ॥ ३३ ॥

धर्मविद्धर्मनित्यश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः ।

आर्यः किमव्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥

हे माता ! धर्मज्ञ और धर्म में निरत रहने वाले, सत्यप्रतिष्ठ, तथा दृढव्रत महाराज मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गये हैं अथवा मेरे लिये क्या कह गये हैं ॥ ३४ ॥

पश्चिम<sup>२</sup> साधु सन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः ।

इति पृष्ठा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमव्रवीत् ॥ ३५ ॥

मैं अपने विषय में महाराज का अन्तिम काल का संदेशा चुनना चाहता हूँ भरत जी के ऐसा पूँछने पर कैकेयी ने जो ठीक बात थी वही कही ॥ ३५ ॥

रामेति राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च ।

स महात्मा परं लोकं गतो गतिमतां वरः ॥ ३६ ॥

( कैकेयी बाली मरते समय महाराज ने तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया ) उत्तम गति को प्राप्त होने वालों में श्रेष्ठ महाराज,

१ धर्ममार्यस्यजानतः—धर्मजानत आर्यस्य श्रेष्ठस्य विवेकिनः पुरुषस्य । ( १० ) २ पश्चिमं संदेशं—अन्त्यकालिकम् । ( १० )

हा राम ! हा सीता ! हा लक्ष्मण ! ऐसा विलाप करते हुए, पर-  
लोक सिधारे हैं ॥ ३६ ॥

इमां तु पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव ।

कालधर्मपरिक्षिप्तः? पाशैरिव महागजः ॥ ३७ ॥

बड़ा हाथी जिम प्रकार बंधन में बांधा जाता है, उसी प्रकार  
तुम्हारे पिता ने काल और धर्म के बश हो कर, अन्तिम समय  
यह कहा था ॥ ३७ ॥

सिद्धार्थास्ते नरा राममागतं सीतया सह ।

लक्ष्मणां च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥ ३८ ॥

कि, वे नर ही सफल मनोरथ होंगे, जो सीता सहित श्रीराम  
और लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे ॥ ३८ ॥

तच्छ्रुत्वा, विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात् ।

विषण्णवदने भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम् ॥ ३९ ॥

जब कैकेयी ने यह दूसरी अप्रिय बात कही, तब भरत जी और  
भी अधिक उदास हुए और फिर माता से पूछने लगे ॥ ३९ ॥

क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः ।

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समं गतः ॥ ४० ॥

हे अम्मा ! वे धर्मात्मा और कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने  
वाले श्रीराम, इस समय सीता और लक्ष्मण के सहित कहाँ  
हैं ? ॥ ४० ॥

तथा पृष्ठा यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ।

माताऽस्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशङ्कया ॥ ४१ ॥

इस प्रकार भरत जी के पूँछने पर उनकी माता कैकेयी ने ल्यों की ल्यों समस्त घटना सुनानी आरम्भ की । उसने समझा कि, उस दावण अप्रिय घटना का वृत्तान्त सुन, भरत अवश्य प्रसन्न होंगे ॥ ४१ ॥

स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम् ।

दण्डकान्सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ ४२ ॥

हे बत्स ! वे राजकुमार चौर को धारण कर, सीता और लक्ष्मण के साथ दण्डक नामक महावन को चले गये हैं ॥ ४२ ॥

तच्छ्रुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया ।

स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्पष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४३ ॥

कैकेयी के मुख से श्रीराम का वन जाना सुन—भरत जी के मन में भाई के चरित्र के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ और वे बहुत भयभीत हुए । क्योंकि वे अपने वंश की प्रतिष्ठा जानते थे । उन्होंने माता से फिर पूँछा ॥ ४३ ॥

कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित् ।

कच्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥ ४४ ॥

हे माता ! क्या श्रीरामचन्द्र ने किसी ब्राह्मण का धन छीना या ? अथवा बिना अपराध किसी धनाढ्य या दरिद्री को हत्या की थी ? ॥ ४४ ॥

कञ्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते ।

कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्रूणहेव विवासितः ॥ ४५ ॥

अथवा किसी परछी की और बुरी दृष्टि से देखा था ? किस अपराध के कारण वह श्रुताध्ययनसम्पन्न श्रीराम वन में निकाले गये ? ॥ ४५ ॥

अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथातथम् ।

तेनैव स्त्रीस्वभावेन व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥

तब भरत की चपल मति माता ने अपनी ज्यों की त्यों करनी, स्त्री-स्वभाव-सुजन्म चपलता-वश कहनी आरम्भ की ॥ ४६ ॥

एवमुक्त्वा तु कैकेयी भरतेन महात्मना ।

उवाच वचनं हृष्टा मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४७ ॥

जब भरत ने कैकेयी से इस प्रकार कहा, तब वह मूर्खा और अपने को पण्डिता समझने वाली, प्रसन्न हो कर यह बोली ॥४७॥

न ब्राह्मणधनं किञ्चिद्धृतं रामेण धीमता ।

कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः ॥४८॥

वेढा ! बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण का धन छीना और न विना अपराध किसी धनी अथवा निर्धन का बध ही किया ॥ ४८ ॥

१ भ्रूणः—श्रुताध्ययन सम्पन्नः । (गो०) २ स्त्रीस्वभावेन—चापलेन ।  
( गो० ) धर्माधर्महिताहितोचितानुचितविवेकशून्यतारूपेण । ( रा० )

न रामः परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति ।

मया तु पुत्रं श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनम् ॥ ४९ ॥

श्रीरामचन्द्र परह्यो को तो आँव उठा कर भी कभी नहीं देखते । किन्तु हे पुत्र ! मैंने जब श्रीराम के अभिषेक की बात सुनी, ॥ ४९ ॥

याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम् ।

स स्ववृत्तिं<sup>१</sup> समास्थाय पिता ते तत्तथाऽकरोत् ॥ ५० ॥

तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिये राज्य और श्रीरामचन्द्र के लिये वनवास माँगा । अतः अपनी सत्यप्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये तुम्हारे पिता ने वैसा ही किया ॥ ५० ॥

रामश्च सहसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ।

तमपश्यन्प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः ॥ ५१ ॥

उन्होंने श्रीरामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण सहित वन में भेज दिया और महायशस्वी महाराज दशरथ उन प्रियपुत्र श्रीराम को न देखने के कारण ॥ ५१ ॥

पुत्रशोकपरिधूनः पञ्चत्वमुपपेदिवान् ।

त्वया त्विदानीं धर्मज्ञं राजत्वमवलम्ब्यताम् ।

त्वत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम् ॥ ५२ ॥

पुत्रशोक से पीड़ित हो, पञ्चत्व को प्राप्त हुए ( मर गये ) । हे धर्मज्ञ ! अब तुम राजकाज संभालो, क्योंकि तुम्हारे ही लिये इस प्रकार ये सब काम मैंने किये हैं ॥ ५२ ॥

१ स्ववृत्ति—स्वप्रतिज्ञारूपवृत्ति । ( गो० )



मा शोकं मा च सन्तापं धैर्यमाश्रय पुत्रक ।

त्वदधीना हि नगरी राज्यं चैतदनायकम्\* ॥ ५३ ॥

हे वत्स ! तुम दुःखी मत हो और न सन्ताप ही करो । तुम धीरज रहो । क्योंकि यह अयोध्यापुरी और बिना राजा का यह राज्य अब तुम्हारे ही अधीन है ॥ ५३ ॥

तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञै-

र्वसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः ।

सङ्काल्य राजानमदीनसत्त्व-

मात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥

इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥

अतः तुम इस घड़ी विधि जानने वाले वशिष्ठादि ब्राह्मणों के साथ शीघ्र यथाविधि महापराक्रमी अपने पिता को प्रेतक्रिया समाप्त कर, राज्यासन ग्रहण करो और अपने मन को हिरास मत करो ॥ ५४ ॥

अयोध्याकाण्ड का वहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:❖:—

त्रिसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ ।

भरतो दुःखसन्तप्त इदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

१ सङ्काल्य—संस्कृत्य । ( गी० ) \* पाठान्तरे—“अनामयं ।”

पिता का मरण, और दोनों भाइयों के वन में निकाले जाने का वृत्तान्त सुन, भरत दुःख से सन्तप्त हो, कैकेयो से यह वचन बोले ॥ १ ॥

किन्तु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः ।

विहीनस्याथ पित्रा च भ्राता पितृसमेन च ॥ २ ॥

पिता और पिता के समान भाई से रहिन होने के कारण मेरा, तो सर्वनाश हो गया । ऐसी शोच्य दशा में मैं राज्य ले कर कहेगा ही क्या ॥ २ ॥

दुःखे मे दुःखमकरोर्ब्रणे क्षारमिवादथाः ।

राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम् ॥ ३ ॥

तूने महाराज दशरथ को मार और श्रीराम को तपस्वी बना, मुझे दुःख के ऊपर दुःख दिया, मानां घाव पर निमक छिड़का ॥३॥

कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता ।

अङ्गारमुपगृह्य\*त्वां पिता मे नावबुद्धवान् ॥ ४ ॥

तू कालरात्रि के समान इस कुल का सत्यानाश करने को यहाँ आई है । मेरे पिता ने जलते हुए अंगारे को समान अनजाने तुम्हें घर में रखा ॥ ४ ॥

मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शनि ।

सुखं परिहृतं मोहात्कुलेऽस्मिन्कुलपांसिनि ॥ ५ ॥

अरी पापिष्ठे ! तूने महाराज को मार डाला । अरी कुल-नाशिनी ! तूने मोहवश हो सहसा ही इस घराने का सारा सुख, नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥

त्वां प्राप्य हि पिता मेऽथ सत्यसन्धो महायशाः ।

तीव्रदुःखाभिसन्तप्तो वृत्तो दशरथो नृपः ॥ ६ ॥

सत्यप्रतिज्ञ एवं महायशस्वी मेरे पिता महाराज दशरथ ने तुझे पा कर, बड़ा दुःख और सन्ताप भोगा ॥ ६ ॥

विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः ।

कस्मात्प्रत्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७ ॥

तूने क्यों उन धर्मवत्सल मेरे पिता महाराज दशरथ को मार डाला और क्यों श्रीरामचन्द्र को वनवास दिलवाया और वे क्यों वन में चले गये ? ॥ ७ ॥

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते ।

दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥

तुम्ह जैसी मेरी जननी के साथ रह कर, कौशल्या और सुमित्रा का पुत्रशोक से पीड़ित हो कर, जीवित रहना बहुत कठिन है ॥ ८ ॥

ननु त्वार्योऽपि धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम् ।

वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते ॥ ९ ॥

मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई श्रीरामचन्द्र, जो गुरुजनों की सेवा करना जानते हैं, तेरी भी तो वैसी ही सेवा करते थे, जैसी कि वे अपनी जननी कौशल्या की किया करते थे ॥ ९ ॥

तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी<sup>२</sup> ।

त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥ १० ॥

१ वृत्ति—शुश्रूषा । ( गो० ) २ दीर्घदर्शिनी—दूरकालभाव्यनर्थदर्शिनी ।  
( गो० )

मेरी बड़ी माता कौशल्या जो भावी विपत्ति को जानती थी,  
धर्मपूर्वक तेरे साथ सगी वहिन जैसा व्यवहार करती थी ॥ १० ॥

तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससम् ।

प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसि ॥ ११ ॥

उसीके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहिना कर, तूने  
वन में भिजवा दिया । अरी पापिन ! तिस पर भी तुझे दुःख क्यों  
नहीं होता ? ॥ ११ ॥

अपापदर्शनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनम् ।

प्रत्राज्य चीरवसनं किन्तु पश्यसि कारणम् ? ॥ १२ ॥

जिन श्रीरामचन्द्र ने कभी दुःख नहीं देखा, ऐसे शूर और  
यशस्वी श्रीरामचन्द्र को चीर पहना कर और वन में भिजवा कर,  
तूने क्या फल पाया ? ॥ १२ ॥

लुब्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं प्रति ।

तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वयाऽऽनीतो महानयम् ॥ १३ ॥

मेरी श्रीरामचन्द्र में कैसी भक्ति है—यह बात तूने न जानी ।  
इसीसे तूने लालच में फँस, राज्य के लिये यह महाअनर्थ कर  
ढाला ॥ १३ ॥

अहं हि पुरुषव्याघ्रावपश्यन्रामलक्ष्मणौ ।

केन शक्तिप्रभावेन राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४ ॥

मैं उन पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण को देखे बिना, किस  
शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकूँगा ॥ १४ ॥

तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महाबलः ।

अपाश्रितोऽभूद्धर्मात्मा मेरुर्मैख्वनं यथा ॥ १५ ॥

मेरी तो गिनती ही किसमें है, महाराज दशरथ जी उन्हीं बलवान और महापराक्रमी श्रीरामचन्द्र का उसी प्रकार सदा भरोसा रखते थे जिस प्रकार मेरु पर्वत निकटस्थ वन पर भरोसा रखता है ॥ १५ ॥

सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्यसमुद्धतम् ।

१दम्यो धुरमिवासाद्य वहेयं केन चौजसा ॥ १६ ॥

अतएव मैं क्यों कर और किसके भरोसे इस बड़े भारी राज्य-भार को उठा सकूँगा । जिस भार को बड़ा बलवान वीर खींच सकता है, उसे छोटी उम्र का बच्चा क्यों कर खींच सकता है ? ॥ १६ ॥

अथवा मेऽभवेच्छक्तिः २योगैर्बुद्धि बलेन३ वा ।

सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम् ४ ॥१७॥

यदि मैं सामदानादि उपायों से अथवा बुद्धिवल से इस राज्य-भार को उठा भी सकूँ, तो भी पुत्र के राज्य की अभिनाषा करने वाली तेरी यह कुत्सित साध में कभी पूरी न होने दूँगा ॥ १७ ॥

न मे विकाङ्क्षा जायेत त्यक्तुंत्वां पापनिश्चयाम् ।

यदि रामस्य \*नापेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत्सदा ॥१८॥

१ दम्यः—तरुणवत्सहव । ( गो० ) २ योगैः—सामादानाद्युपायैः । ( गो० ) ३ बुद्धिवलेन—ग्रहणधारणाघर्षाङ्ग युक्तबुद्धिवलेनवा । ( गो० )

४ पुत्रगर्धिनीम्—पुत्र प्रयोजनानिमित्तावती । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ नापेक्षा ” ।

यदि श्रीराम को तुझमें माता के समान श्रद्धा न होती, तो मैं  
तुझ पापिन को अवश्य त्याग देता ॥ १८ ॥

उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी ।  
साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता ॥ १९ ॥

अरे पापदर्शिनी ! हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलङ्कित करने  
वाली यह बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥

अस्मिन्कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते ।  
१ अपरे भ्रातरस्तस्मिन्भवर्तन्ते समाहिताः ॥ २० ॥

क्योंकि इस राजवंश में पोट्टियों से यह चाल चली आती है  
कि, सब भाइयों में जो बड़ा होता है वही राजगद्दी पर बैठता है  
और ( छोटे ) सब भाई उसके अधीन रहते हैं ॥ २० ॥

न हि मन्ये नृशंसे त्वं २ राजधर्ममवेक्षसे ।

गतिं ३ वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम् ॥ २१ ॥

अरे नृशंसे ! तेरी दृष्टिराजधर्म की ओर नहीं है और न तू  
राजधर्म से सनातन विविध प्रकारों ही को जानती है ॥ २१ ॥

सततं राजवृत्ते ४ हि ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते ।

राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥ २२ ॥

राजधर्मानुसार जो ज्येष्ठ होता है, उसीका राज्याभिषेक होता  
है । यही प्रथा सब राजाओं में है । तिसमें भी इक्ष्वाकुकुल में तो  
इसका विशेष आग्रह है ॥ २२ ॥

१ अपरे—रुनिष्ठाभ्रातरः । ( गो० ) २ राजधर्म—राज्ञांविहितं धर्मं ।

( गो० ) ३ गतिं—प्रकारंवा । ४ राजवृत्ते—राजधर्मं । ( रा० )

तेषां धर्मैकरक्षणां कुलचारित्रशोभिनाम् ।

अत्र चारित्रशौण्डर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम् ॥२३॥

आज तूने, धर्म प्रतिपालक एवं अच्छे चरित्र से सुशोभित इक्ष्वाकुवंश का सदाचार सम्बन्धी गर्व धूल में मिला दिया ॥२३॥

तवापि सुमहाभागा<sup>१</sup> जनेन्द्राः<sup>२</sup> कुलपूर्वगाः<sup>४</sup> ।

बुद्धेर्मोहः कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः ॥ २४ ॥

तेरा भी तो एक सुचरित्र कुलीन राजवंश में जन्म हुआ है । फिर क्यों कर तेरी बुद्धि में ऐसा गर्हित मोह उत्पन्न हुआ—अर्थात् कैसे तेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गयी ॥ २४ ॥

न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये ।

त्वया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥ २५ ॥

हे पापिन ! याद राव, नाहे जो कुछ हो मैं तेरी साध कभी पूरी न करूँगा । क्योंकि तूने मेरे प्राण लेने वाले प्रपञ्च का सूत्रपात किया है ॥ २५ ॥

एष त्विदानीमेवाहमप्रियार्थं तवानघम् ।

निवर्तयिष्यामि वनाद्भ्रातरं स्वजनप्रियम् ॥ २६ ॥

मैं तो तुझे खिजाने के लिये स्वजनों के प्यारे एवं निर्दोष बड़े भाई धीरामचन्द्र को अब वन से लौटा लाता हूँ ॥ २६ ॥

१ कुलचरित्र—कुलकामागतचरित्रं । ( गो० ) २ चारित्रशौण्डर्यं—चरित्रगर्वित्तत्वं । ( गो० ) ३ जनेन्द्राः—राजानः । ( गो० ) ४ कुलपूर्वगाः—कुलज्येष्ठाः । ( गो० )

निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः ।

दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७ ॥

मैं श्रीराम जी को केवज वन से लौटा ही न लाऊँगा, प्रत्युत उनका दास बन कर और मन लगा कर उनकी सेवा भी करूँगा ॥ २७ ॥

इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा

प्रियेतरैः<sup>१</sup>वाक्यगणैस्तुदंस्ताम् ।

शोकातुरश्चापि ननाद भूयः

सिंहो यथा पर्वतगह्वरस्यः ॥ २८ ॥

इति त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥

इस प्रकार भरत जो अनेक कठोर वचनों से कैकेयी को मर्माहत करते हुए और स्वयं शोक से कातर हो, मन्दराचल की कन्दरा में बैठे हुए सिंह की तरह पुनः गरज कर बोले ॥ २८ ॥

अयोध्याकाण्ड का तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

चतुःसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा ।

रोषेण महताविष्टः पुनरेवान्नवीद्वचः ॥ १ ॥



इस प्रकार भरत जी माता को धिक्कार कर और अत्यन्त कुपित हो, फिर अपनी माता कैकेयी से कहने लगे ॥ १ ॥

राज्याद्भ्रंशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि ।  
परित्यक्ता च धर्मेण १मामृतं रुदती भव ॥ २ ॥

हे निष्ठुर हृदये ! हे दुष्टे ! तू राज्यभ्रष्ट हो, ( अर्थात् तू भी वन में चली जा ) क्योंकि तू अधर्मिन है । अब मैं मरता हूँ, तू मेरे लिये रो, अथवा तू पतिव्रताधर्म को जब त्याग ही चुकी ; तब तुझे बचित है कि, तू मृतपति के लिये मत रो ॥ २ ॥

किन्नु तेऽदूषयद्राजा रामो वा भृशधार्मिकः ।  
ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्य<sup>२</sup>मागतौ ॥ ३ ॥

भला बता तो कि, महाराज ने और परमधार्मिक श्रीरामचन्द्र ने तेरा क्या विगाड़ा था जो तुने एक ही समय में महाराज को तो मार डाला और श्रीरामचन्द्र को वन में निकाल दिया ॥ ३ ॥

भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात् ।  
कैकेयि नरकं गच्छ मा च भर्तुः सलोकताम् ॥ ४ ॥

हे कैकेयी ! इस प्रकार वंश का नाश करने से तुझे गर्भस्थ बालक को मार डालने जैसा पाप लगा है ( गर्भ गिराने जैसा ) अतः तू नरक में गिर । क्योंकि तू मेरे पिता के लोक में जाने की अधिकारिणी नहीं है ॥ ४ ॥

१ मामृतं रुदती भव—प्राणहानिकरकार्यकरणान्मामृतं भवतिरोदनं कुर्व-  
त्यर्थः । यद्दामृतं भर्तारं उद्दिश्य रुदती च सा भव पतिआर्थाभावस्यगतत्वाद्रिति  
भावः । ( गो० ) २ तुल्यं—युगपत् । ( गो० )

यत्त्वया हीदृशं<sup>१</sup> पापं कृतं घारेण कर्मणा ।  
सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम् ॥ ५ ॥

क्योंकि तूने घोर कर्म कर ऐसा पाप कर्म किया है । तूने सर्व-  
लोक-प्रिय श्रीरामचन्द्र का त्याग कर, मेरे लिये केवल राज्य सम्पा-  
दन ही नहीं किया, प्रत्युत भय भी उत्पन्न कर दिया है ॥ ५ ॥

त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः ।  
अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः ॥ ६ ॥

तेरी ही करतूत से मेरे पिता को जान गयी और भाई श्रीराम  
वनवासी हुए और इस संसार में मुझे वदनाम किया ॥ ६ ॥

मातृरूपे ममामित्रे वृशंसे राज्यकामुके ।  
न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि ॥ ७ ॥

तू बड़े ही कठोर हृदय की है ; तुझे राज्य का लालच है, तू  
मेरी माता नहीं, बल्कि माता के रूप में मेरी शत्रु है । अरी दुष्ट !  
अरी पतिघातिनि ! तू मुझसे बोलने योग्य नहीं है अर्थात् मुझसे  
मत बोल ॥ ७ ॥

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः ।  
दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषणीम् ॥ ८ ॥

अरे कुल में बट्टा लगाने वाली ! तेरी ही करतूत से, कौशल्या,  
सुमित्रा तथा मेरी अन्य माताएँ, बड़े दुःख में पड़ी हुई हैं ॥ ८ ॥

१ इदृशं—रामविवासनेभर्तृमरण रूपं । ( गो० )

न त्वमश्वपतेः<sup>१</sup> कन्या धर्मराजस्य<sup>२</sup> धीमतः ।

राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९ ॥

तू बुद्धिमान् एवं धर्मात्मा महाराज अश्वपति की कन्या कहलाने योग्य नहीं है । तू तो मेरे पिता के कुज का नाश करने के लिये अश्वपति के घर में राक्षसी पैदा हुई है ॥ ९ ॥

यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः ।

वनं प्रस्थापितो दुःखात्पिता च त्रिदिवं गतः ॥१०॥

तूने उन धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र को, जो सदा सत्य में तत्पर रहते हैं, वन में भिजवा दिया और उनके वियोगजनित शोक से पीड़ित कर, पिता को परलोक भेजा ॥ १० ॥

यत्प्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा विनाकृते ।

भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ॥ ११ ॥

यह पापकर्म तो तू ने किया और इसका फल भुगतना मुझको पड़ा कि, मैं पिताहीन हो गया, दोनों भाइयों से बिछुड़ गया और सब लोगों का बुरा बन गया ॥ ११ ॥

कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां<sup>३</sup> पापनिश्चये ।

कृत्वा कं प्राप्स्यसे त्वद्य लोकं<sup>४</sup> निरयगामिनि ॥१२॥

१ नत्वमश्वपतेःकन्या—तत्कुलोचितकन्यानभवति । ( गो० ) २ धर्म-  
राजस्य—धर्मप्रधानराजस्य । ( गो० ) ३ वियुक्तां—पतिपुत्रवियुक्तां । ( रा० )  
४ कंलोकं—कं नरकलोकम् । ( रा० )

अरी पापिन ! अरी नरक में जाने चाली, यह तो बतला कि धर्मचारिणी कौशल्या का पति और पुत्र से विद्वेह करवा तू अब किस नरक में गिरेगी ॥ १२ ॥

किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं<sup>१</sup> बन्धुसंश्रयम्\* ।

ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायात्मसम्भवम् ॥ १३ ॥

अरे दुष्ट ! क्या तुझे यह नहीं मालूम था कि, श्रीराम बन्धु बान्धवों के सदा आघारभूत हैं तथा ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण मेरे लिये पिता के समान हैं और महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं ॥ १३ ॥

अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृदयाच्चापि<sup>२</sup> जायते ।

तस्मात्प्रियतमो मातुः प्रियत्वान्न तु वान्यवः ॥१४॥

यों तो देखा जाय तो बन्धुवान्धव सभी प्रिय होते हैं, किन्तु सब से अधिक पुत्र ही माता को प्रिय होता है—क्योंकि वह माता के अङ्ग प्रत्यङ्ग से और हृदय कमल से भी जन्म ग्रहण करता है अर्थात् ऐसी परम वस्तु का वियोग एक माता के लिये कितना दुःखदायी होता है—उसे तो तूने ज़रा विचारा होता ॥ १४ ॥

[ उक्त श्लोक में “ अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायते । आत्मावैपुत्र नामासि । ” श्रुति का अर्थ गर्भित है । ]

अन्यदा<sup>३</sup> किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता<sup>४</sup> ।

बहमानौ<sup>५</sup> ददर्शौर्व्यां पुत्रौ विगतचेतसौ<sup>६</sup> ॥ १५ ॥

१ नियतं—नितरां । ( शि० ) २ हृदयात्—हृदयपुण्डरीकात् । ( गो० )

३ अन्यदा—पूर्वकाले । ( गो० ) ४ सुरसंमता—देवपूजिता । ५ बहमानौ हलमितिशेषः । ( गो० ) ६ विगतचेतसौ मूर्च्छितावित्यर्थः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ बुद्धिसंश्रया ” ।

तावर्धदिवसे श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले ।

रुरोद पुत्रशोकेन वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ १६ ॥

( पुत्र शोक एक माता के लिये कितना दुःखदायी होता है इसका दृष्टान्त भरत जी देते हैं ।) यह दृष्टान्त धर्मज्ञों का कहा हुआ है । पूर्वकाल में एक दिवस, देवताओं का पूज्या कामधेनु ने देखा कि, उसके दो पुत्र हल खींचते दोपहर के समय, थक जाने के कारण मूर्च्छित हो गये हैं । पुत्रों के दुःख से दुःखी कामधेनु आँसुओं से आँसू गिराती हुई, रोने लगी ॥ १५ ॥ १६ ॥

अथस्ताद्व्रजतस्तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः ।

विन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥१७॥

उसी समय किसी काम के लिये देवराज इन्द्र भूलोक में यात्रा कर रहे थे । उस समय उनके शरीर पर सुगन्धित और सूक्ष्म कामधेनु के आँसुओं की बूँदें पड़ीं ॥ १७ ॥

इन्द्रोप्यश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम् ।

सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं तां सुरेश्वरः ॥ १८ ॥

इन्द्र के शरीर पर कामधेनु के जो आँसू गिरे थे, उनमें से सुगन्धि निकलती देख, इन्द्र ने जान लिया कि, कामधेनु सब से उत्तम है ॥ १८ ॥

निरीक्षमाणः शक्रस्तां ददर्श सुरभिं स्थिताम् ।

आकाशे विष्टितां दोनां रुदन्तीं भृशदुःखिताम् ॥१९॥

तब चौक कर इन्द्र ने ऊपर की ओर देखा तो आकाश में  
खड़ी और अत्यन्त दुःखित हो रोती हुई विचारी कामधेनु को  
पाया ॥ १९ ॥

तां दृष्ट्वा शोकसन्तप्तां वज्रपाणिर्यशस्विनीम् ।

इन्द्रः प्राञ्जलिरुद्विग्नः सुरराजोऽब्रवीद्वचः ॥ २० ॥

उस यशस्विनी कामधेनु को शोकमन्तप्त देख वज्रधारी सुर-  
राज इन्द्र बहुत घबड़ाये और हाथ जोड़ कर कामधेनु से कहने  
लगे ॥ २० ॥

भयं कच्चिन्न चस्मासु कुतश्चिद्विद्यते महत् ।

कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणि ॥ २१ ॥

हे सब लोकों की हितैषिणी ! तू क्यों रो रही है ? क्या हम  
लोगों के ऊपर कोई महा विपत्ति पड़ने वाली है, जिससे तू इतनी  
दुःखी हो रही है । अपने दुःख का कारण तो बतला ॥ २१ ॥

एवमुक्त्वा तु सुरभिः सुरराजेन धीमता ।

प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ २२ ॥

बुद्धिमान इन्द्रराज ने जब ऐसा कहा, तब बात कहने में चतुर  
कामधेनु ने धीरज धर कर यह उत्तर दिया ॥ २२ ॥

शान्तं पापं न वः किञ्चित्कुतश्चिदमराधिप ।

अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ ॥२३॥

हे देवराज ! नहीं नहीं, तुम लोगों के भय की कोई बात नहीं  
है । मुझे तो अपने इन दो पुत्रों को दुःखी देख, दुःख हो रहा  
है ॥ २३ ॥

एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मिप्रतापितौ ।  
अर्घमानौ बलीवर्दी कर्षकेण सुराधिप ॥ २४ ॥

देखो ये दोनों वैज कैसे दुबले हो रहे हैं, तिस पर भी सूर्य के ताप से सन्तप्त हो, ये बेचारे दीन हो रहे हैं । हे सुरराज ! किसान ने इन दोनों को मारा पीटा भी है ॥ २४ ॥

मम कायात्प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ ।  
यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २५ ॥

ये दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं । अतः उनको दुःखी और हल में जुतने के भार से पीड़ित देख, मुझे बड़ा सन्ताप हो रहा है — क्योंकि माता के लिये अपने पुत्र से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है ॥ २५ ॥

यस्याः पुत्रसहस्रैस्तु कृत्स्नं व्याप्तमिदं जगत् ।  
तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो न सुतान्मन्यते परम् ॥ २६ ॥

जिसके सहस्रों पुत्रों से यह समस्त जगत भरा पड़ा है, उसे अपने दो पुत्रों के लिये रोते हुए देख, इन्द्र ने जाना कि, माँ को पुत्र से बढ़ कर और कोई वस्तु प्यारी नहीं है ॥ २६ ॥

सदाऽप्रतिमवृत्ताया लोकधारणकाम्यया ।  
श्रीमत्याः गुणान्त्यायाः स्वभावपरिवेषया ॥ २७ ॥

यस्याः पुत्रसहस्राणि साऽपि शोचति कामधुक् ।  
किं पुनर्या विना रामं कौसल्या वर्तयिष्यति ॥२८॥

कामधेनु लोकों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से सब के साथ एक सा बर्ताव करती है और सबके मनोरथ पूर्ण करने की सामर्थ्य भी रखती है, उसके अनन्त पुत्र रहते हुए भी, जब वह कामधेनु मातृ-स्वभाव-सुलभ पुत्र-स्नेह-वश दो पुत्रों के दुःख से दुःखित हो गयी, तब हे कैकेयी ! बतला तो, कौशल्या अपने एकमात्र पुत्र के बिना क्यों कर जीवित रह सकेंगी ॥ २७ ॥ २८ ॥

एकपुत्रा च साध्वी च विवित्सेयं त्वया कृता ।

तस्मात्त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥२९॥

इस समय तूने एक पुत्र वाला एवं साध्वी कौशल्या से उसके पुत्र का विद्वेह करा दिया है, अतः तू इस लोक और परलोक में सदा ही दुःख भोगेगी ॥ २९ ॥

अहं ह्यपचितिः<sup>१</sup> भ्रातुः पितुश्च सकलामिमाम् ।

वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥

मैं तो अब पिता का और्द्धदेहिक कृत्य कर और भाई की सेवा कर, निस्सन्देह सम्पूर्ण रूप से उनका सम्मान करूँगी और उनके यश को बढ़ाऊँगी ॥ ३० ॥

आनाययित्वा तनयं कौसल्याया महाबलम् ।

स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनिनिषेवितम् ॥ ३१ ॥

मैं उन महाबली कौशल्यानन्दन को वन से लौटा कर, स्वयं मुनिसेवित वन में जा कर रहूँगी ॥ ३१ ॥

न ह्यहं पापसङ्कल्पे पापे पापं त्वया कृतम् ।

शक्तो धारयितुं पारैरश्रुकण्ठैर्निरीक्षितः ॥ ३२ ॥

१ अपचिति—पूजा । ( गो० )



क्योंकि हे दुष्ट विचारोंवालो पापिष्ठा ! जब पुरवासी मेरी और  
आसू भरे नेत्रों से देखेंगे, तब मैं तेरे इस पापप्रुरित कृत्य को कैसे  
सहन कर सकूँगा ॥ ३२ ॥

सा त्वमग्निं प्रविश वा स्वयं वा दण्डकान्निवश ।

रज्जुं बधान वा कण्ठे न हि तेऽन्यत्परायणम् ॥३३॥

अब तो तुझे यही उचिit है कि, या तो तू अग्नि में गिर कर  
भस्म हो जा, या दण्डकवन में चली जा या गले में फाँसी लगा  
क्योंकि बिना भरे तेरे लिये और कोई गति नहीं है ॥ ३३ ॥

अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे ।

कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितरुत्ववः ॥ ३४ ॥

मेरे मन की कसक तभी मिटेगी और मैं अपने को तभी कृत-  
कृत्य मानूँगा, जब सत्यपराक्रम श्रीरामवन्द्य लौट आवेंगे ॥ ३४ ॥

इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशचोदितः ।

पपात भुवि संक्रुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः ॥ ३५ ॥

भरत जो इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अंकुश  
के मारने से उत्तेजित हाथों को तरह, क्रोध में भर, पृथिवी पर  
गिर, सर्प की तरह फुँफकारने लगे ॥ ३५ ॥

संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा

विधूतसर्वाभरणः परन्तपः ।

वभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः

शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६ ॥

इति चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥

उस समय भरत के ( मारे क्रोध के ) नेत्र लाल हो गये । शरीर पर जो वस्त्र वे पहिने हुए थे, वे ढीले हो गये । सब गहने खिसक पड़े । जिस प्रकार उत्सव के अन्त में इन्द्र की ध्वजा पृथिवी पर गिरती है, वैसे ही राजकुमार भरत पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥

अयोध्याकाण्ड का चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❖:—

पञ्चसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

दीर्घकालात्समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा च वीर्यवान् ।

नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्य मातरम् ॥ १ ॥

तदनन्तर पराक्रमी भरत जी ने बहुत देर बाद सचेत हो, नेत्रों में आँसु भर तथा माता को दीन देख ॥ १ ॥

सोमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् ।

राज्यं न कामये जातु<sup>१</sup> मन्त्रये नापि मातरम् ॥ २ ॥

और मंत्रियों के बीच बैठ, माता की निन्दा की, ( इसलिये कि; मंत्रियों को बतावें कि, उनको माता ने जो कुछ किया उसमें उनकी सम्मति नहीं थी ) वे बोले, मेरी तो कभी यह अभिलाषा नहीं है

<sup>१</sup> जातु—कदाचिदपि । ( गो० )

कि, में राज्य कहूँ और न इस विषय में कभी माता से मैंने परामर्श ही किया (अथवा दिया) ॥ २ ॥

अभिपेकं न जानामि योऽभूद्राज्ञा समीक्षितः ।

विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुघ्नसहितोऽवसम् ॥ ३ ॥

न मुझे इसकी कुछ भी खबर थी कि, महाराज ने श्रीरामचन्द्र का अभिपेक करना विचार था । क्योंकि मैं तो शत्रुघ्न सहित यहाँ से बहुत दूर पर था ॥ ३ ॥

वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः ।

विवासनं वा सौमित्रेः सीतायाश्च यथाऽभवत् ॥ ४ ॥

अतः मुझे महात्मा श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता जी के वनवास का भी हाल न मिला कि, वह किस प्रकार से हुआ ॥ ४ ॥

तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः ।

कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रवीत् ॥ ५ ॥

इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी का कण्ठस्वर पहिचान कर, कौशल्या जी सुमित्रा जी से यह बोली ॥ ५ ॥

आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः ।

तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम् ॥ ६ ॥

जान पड़ता है—निष्ठुर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है । मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि वह बड़ा समझदार है ॥ ६ ॥

एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विचर्णा मलिना कृशा ।

प्रतस्थे भरतो यत्र वैभमाना विचेतना ॥ ७ ॥

श्रीराम के विद्वेह के शोक से अति दुर्बल गत, कान्तिहीन मुख वाली कौशल्या घरघर कांपती हुई और अचेत सी भरत जी की ओर चली ॥ ७ ॥

स तु रामानुजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा ।

प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम् ॥ ८ ॥

उधर श्रीराम के छोटे भाई भरत जी भी शत्रुघ्न को साथ ले कौशल्या के भवन की ओर चले ॥ ८ ॥

ततः शत्रुघ्नभरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ ।

पर्यष्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनाम् ॥ ९ ॥

कौशल्या को दुःखी और बहकी बहकी देख, दोनों भाई—भरत और शत्रुघ्न अत्यन्त दुःखित हो कौशल्या से लिपट कर रोने लगे ॥ ९ ॥

रुदन्तौ रुदतीं दुःखात्समेत्यार्या<sup>१</sup> मनस्विनीम् ।

भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता ॥ १० ॥

ज्येष्ठामाता कौशल्या उस समय अत्यन्त दुःखित हो, शोक के मारे रोते हुए भरत जी को लिपटा कर, कहने लगी ॥ १० ॥

इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम् ।

सम्प्राप्तं वत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा ॥ ११ ॥

आर्या—ज्येष्ठां मातरं । ( गो० )

तुमने राज्य पाने की कामना की थी सो क्रूर कर्म करने वाली तुम्हारी माता ने निष्ठुर कर्म कर के, तुम्हें निष्कण्टक राज्य दिला दिया ॥ ११ ॥

प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम् ।

कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी ॥ १२ ॥

और मेरे पुत्र को चीर पहिना कर और वन में भेज कर, इस क्रूरदर्शिनी ने क्या लाभ उठाया । ( क्योंकि बिना ऐसा किये भी तो वह तुम्हें राज्य दिला सकती थी ) ॥ १२ ॥

क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति ।

हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३ ॥

कैकेयी को उचित है कि, जहाँ मेरे सुवर्ण जैसे शरीर के रंग-वाले महायशस्वी श्रीराम हैं, वहाँ मुझे भी तुरन्त भेज दे ॥ १३ ॥

अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम् ।

अग्निहोत्रं<sup>३</sup> पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४ ॥

अथवा मैं स्वयं ही सुमित्रा को अपने साथ ले और अग्निहोत्र की आग को आने कर, वहाँ चली जाऊँगी, जहाँ मेरे श्रीराम हैं ॥ १४ ॥

[ महाराज दशरथ अग्निहोत्र करते थे । महारानी कौसल्या उनकी प्रधान ज्येष्ठा रानी थी । अतः पति के साथ अग्निहोत्र करने का अधिकार उन्हींको था । इसीसे कौसल्या ने यह कहा कि, अग्निहोत्र की आग को ब्राह्मण के ऊपर रखवा उसके पीछे मैं चली जाऊँगी । ]

३ हिरण्यनाभः—हिरण्यवस्त्रहृणीयनाभियुक्तः । नाभिप्रहणं शरीरस्थोप-  
कक्षणं । ( गो० ) १ अग्निहोत्रं—राजाग्निहोत्रं । ( तो० ) अग्निहोत्रंस्थज्येष्ठा-  
भार्याधीनत्वात् दशरथेन भरतसंस्कार प्रतिपेक्षाच्चेतिभावः । ( गो० )

कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि ।

यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रो मे तप्यते तपः ॥ १५ ॥

अथवा तू ही मुझे वहाँ कर आ, जहाँ पुरुषसिंह मेरा पुत्र तप करता या दुःख भोगता है ॥ १५ ॥

इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम् ।

हस्त्यश्वरयसम्पूर्णं राज्यं निर्यातितं<sup>१</sup> तथा ॥ १६ ॥

तुझे तो कैकेयो ने ये धनधान्य ले परियुर्ण तथा हाथो, थोड़ों और रथों से भरा पूरा राज्य दिलवा ही दिया है ॥ १६ ॥

इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः सम्भर्त्सितोऽनघः ।

विष्यथे भरतस्तीव्रं व्रणे तुद्येव मूचिना ॥ १७ ॥

जब कौशल्या ने इस प्रकार के कठोर वचनों के ताने मारे, तब भरत जी को वैसा ही लगे हुआ, जैसा कि, घाव में लुई चुभाने से होता है ॥ १७ ॥

पपात चरणां तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः ।

विलप्य बहुधाऽसंज्ञो लब्धसंज्ञस्ततः स्थितः ॥ १८ ॥

कौशल्या जी की बातें सुन भरत जी का मन उद्विग्न हो गया । प्रतः उनके कर्त्तव्य विषयक ज्ञान न रहा । जब उन्हें चेत हुआ तब बहुत विलाप कर, वे कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े ॥ १८ ॥

एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा ।

कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्वहुभिरावृताम् ॥ १९ ॥

इस प्रकार विलाप करती हुई तथा महाशोकग्रस्त कौशल्या से धे हाथ जोड़ कर बोले ॥ १९ ॥

आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकिल्विषम् ।

विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे ॥ २० ॥

हे माता ! तुम जानती हो कि, श्रीरामचन्द्र में मेरी कितनी अधिक दृढ़ प्रीति है। मैं इस मामले में नितान्त अनभिज्ञ और निर्दोष हूँ। ऐसा होने पर भी तुम मेरी निन्दा क्यों करती हो ॥ २० ॥

कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत्तस्य कदाचन ।

सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ २१ ॥

सत्यसन्ध और सज्जनों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जिसकी सम्मति से वन भेजे गये हों, वह पढ़े हुए शास्त्रों को भूल जाय। इसका भाव यह है, कि यदि श्रीराम के वन भेजने में मेरी अनुमति रही हो, तो मेरा श्रुति स्मृति सम्बन्धी ज्ञान नष्ट हो जाय ॥ २१ ॥

प्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु ।

हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ २२ ॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हों, वह पापात्मा नोच जाति का सेवक हो; सूर्य की ओर मुख कर मल मूत्र त्याग करने का और सोती हुई गौ के छात मारने का पाप उसे लगे ॥ २२ ॥

[ नोट—इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की ओर मुख कर मल मूत्र विसर्जन न करे और गाय के छात न मारे, जो ऐसा करते हैं वे पाप के भागी होते हैं । ]

कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् ।

अथर्मा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्वार्योऽनुमते गतः ॥२३॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हैं, उसे वह पाप लगे, जो बड़ा काम कर लेने पर भी नौकर का वेतन न देने के कारण नालिक को होता है ॥ २३ ॥

परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् ।

सततं द्रुहतां पापं यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ २४ ॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हैं, उसे वह पाप हो, जो पुत्र की तरह प्रजापालन करने वाले राजा से सिट्रोह करने पर होता है ॥ २४ ॥

वलिषड्भागमुद्धृत्यः वृषस्यारक्षतः प्रजाः ।

अथर्मा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्वार्योऽनुमते गतः ॥२५॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हैं, उसे वह पाप हो, जो उस राजा को होता है, जो प्रजा से छठवाँ अंश कर का ले कर भी, प्रजा की रक्षा नहीं करता ॥ २५ ॥

संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम् ।

तां विप्रलतपां पापं यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ २६ ॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हैं उसे वह पाप हो, जो पाप अश्विनों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा कर, पीढ़े दक्षिणा न देने वाले को होता है ॥ २६ ॥



हस्त्यश्वरथसम्वाधे युद्धे शस्त्रसमाकुले ।

मा स्म कार्पात्सतां धर्मं यस्वार्योऽनुमते गतः ॥२७॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गये हों, उसे वह पाप है, जो हाथी घोड़ों और रथों सहित एवं शस्त्रास्त्रयुक्त युद्धक्षेत्र में सत्वीरों का धर्म न पालने से योद्धाओं को होता है ॥ २७ ॥

उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं<sup>१</sup> यत्नेन<sup>२</sup> धीमता<sup>३</sup> ।

स नाशयतु दुष्टात्मा यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ २८ ॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गये हों, वह दुष्टात्मा, अच्छे बुद्धिमान् गुरु से परलोकसाधक एवं रहस्य-युक्त उपदिष्ट वेदान्तादि शास्त्रों को भूल जावे ॥ २८ ॥

मा च तं व्यूढवाहंसं चन्द्रार्कसमतेजसम् ।

द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनं यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ २९ ॥

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गये हों, वह उन निशाजवाडू और ऊँचे कंधों वाले तथा चन्द्र सूर्य के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक न देख पावे । ( अर्थात् तब तक वह जीवित न रहै, मर जाय ) ॥ २९ ॥

पायसं कृसरं छागं वृथा<sup>४</sup> सोऽश्नातु निर्घृणः ।

गुरुंश्चाप्यवजानातु<sup>५</sup> यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ३० ॥

१ शास्त्रं—वेदान्तादिविशिष्टार्थं । ( गो० ) २ यत्नेनोपदिष्टं—सुसूक्ष्मार्थं, परलोकसाधकरहस्यार्थयुक्तं । ( गो० ) ३ धीमता—गुरुणा । ( गो० ) ४ वृथाऽश्नातु—देवतापित्रतिथिनिवेदनमन्तरेणभुक्तमित्यर्थः । ( गो० )

५ अवजानातु—प्रत्युत्थानाभिवादिनादिकंनकरोत्वित्यर्थः । ( गो० )

अथवा श्रीरामचन्द्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गये हों, उसे वह पाप हो, जो देवना, पितृ, अतिथि को निवेदन किये बिना खीर, तिल, चावल, अथवा नांस खाने वाले को और गुरु को देख खड़े न हाने वाले तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले को होता है ॥ ३० ॥

[ नोट—अर्थात् बिना देवता पितृ अतिथि को निवेदन किये कोई वस्तु खानी नहीं चाहिये । श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है—“भुञ्जतेतेस्वयंपापं ये पचन्त्यात्मकारणात्” अर्थात् जो अपनं लिये रसाई बनाते हैं, वे अन्न नहीं ; किन्तु पाप भक्षण करते हैं । ]

गाश्च स्पृशतु पादेन गुरुन्परिवदेत्स्वयम् ।

मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यन्तं यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ३१ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, उसे वह पाप हो, जो पाप गौ को पैर से छूने, गुरु की निन्दा करने और मित्र से अत्यन्त द्रोह करने से होता है ॥ ३१ ॥

विश्वासात्कथितं किञ्चित्परिवादं मिथः क्वचित् ।

विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ३२ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन भेजे गये हों, उसे वह पाप हो, जो उम पुरुष को होता है, जिसका विश्वास कर उससे किसी का कोई दोष कहा जाय ( और साथ ही उससे उस दोष को प्रकट करने का निषेध भी कर दिया जाय और वह दुष्टात्मा निम पर भी उस दोष को प्रकट कर दे। ) अर्थात् जो पाप विश्वासघाती को होता है, वह उसे हो, जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने की सलाह दी हो ॥ ३२ ॥

अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा<sup>१</sup> निरपत्रपः ।

लोके भवतु विद्वेष्यो यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ३३ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, उसे वह पाप हों, जो उपकार न करने वाले, सज्जनों से त्यक्त, निर्लज्ज और सब से बैर करने वाले का होता है ॥ ३३ ॥

पुत्रैर्दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः ।

स एको मृष्टमश्नातु यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ३४ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र वन में भेजे गये हों, उसे वह पाप हो, जो उस मनुष्य का होता है, जो सामने बैठे हुए नौकर चाकर, स्त्री, पुत्रों को न दे कर, स्वयं अकेले ही मिठाई खाने वाले का होता है । अथवा जो पाप स्वयं अच्छे पदार्थ खा कर, अपने आश्रित जनों की कदम खिलाने से होता है ॥ ३४ ॥

अप्राप्य सदृशान्<sup>२</sup>दाराननपत्यः प्रमीयताम् ।

अनवाप्य क्रियां धर्म्यां<sup>३</sup> यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ३५ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, वह जन समान कुल की पत्नी न पावे, वह सन्ततिहीन हो, और अग्निहोत्रादि धर्म कर्म किये बिना ही मर जाय ॥ ३५ ॥

माऽऽत्मनः सन्ततिं द्राक्षीत्स्वेषु दारेषु दुःखितः ।

आयुः समग्रमप्राप्य यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ३६ ॥

१ त्यक्तात्मा—सद्भिः परिहृतः । ( गो० ) २ सदृशान्—समान कुलान् । ( गो० ) ३ धर्म्यां क्रियां—अग्निहोत्रादिकं च । ( गो० )

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, वह अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न मन्तति को विना देखे, दुःखी हो, पूर्णायु न पावे ॥ ३६ ॥

राजस्त्रीवाल्लङ्घानां वधे यत्पापमुच्यते ।

भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ३७ ॥

जो पाप राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध का वध करने से होता है, अथवा जो पाप निरपराध ( स्वामि-भक्त नौकर को त्यागने से होता है; वह पाप उस पुरुष को हो, जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों ॥ ३७ ॥

लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च ।

सदैव विभृयाद्भृत्यान् यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३८ ॥

अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, उसे वह पाप हो, जो मांस गहद अथवा मद्य, लाख, लोहा और विष की विक्री की आमदनी से अपने आश्रित जनों—घरवालों तथा नौकर चाकरों का सदा पालन करने वाले को होता है ॥३८॥

[ नोट—मांस, मदिरा, लाख, लोहा और विष का व्यापार करना निषिद्ध है । स्मृतियों में भी लिखा है—

“ लाक्षा लवण मांसानि वर्जनीयानि विक्रये ”

अर्थात् लाख, नोन मांस का बेचना वर्जित है । ]

संग्रामे समुपादे<sup>२</sup> तु \*शत्रुपक्षभयङ्करे ।

पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३९ ॥

१ भृत्यान्—भर्तव्यान् पुत्रादीन् । (शि०) २ समुपादे—निकटे । (गो०) प्राप्ते । ( रा० ) \* पाठान्तरे—“ शत्रुपक्ष । ”

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, वह पुरुष युद्ध में शत्रु का भयङ्कर सैन्यदल देख भागता हुआ मारा जाय । अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी को वन भेजने की सलाह देने वाले को वह पाप लगे, जो युद्धक्षेत्र से शत्रु से डर कर भागने वाले को होता है अथवा भागे हुए शत्रु को मारने वाले को होता है ॥ ३६ ॥

[ युद्ध से डर कर भागना भी पाप है, और भागते हुए, निःशस्त्र और अधाँन हुए शत्रु का मारना भी पाप है । ],

कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंवृतः ।

भिक्षमाणो यथेन्मत्तो यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ४० ॥

अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में भेजे गये हों, वह चिथड़े लपेटे, पागल को तरह मुर्दे को खोपड़ी हाथ में लिये द्वार द्वार भौल मांगता हुआ, पृथिवी पर घूमे ॥ ४० ॥

[ नोट—इस श्लोक में धारियों और कपालिकाँ को निन्द्य ठहराया है । ]

\*मद्ये प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः ।

कामक्रोधाभिभूतस्तु यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ४१ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र वनवासी हुए हों, वह पुरुष सदा मद्य पीने में, स्त्रीमैथुन में और जुआ खेलने में अत्यन्त आसक्त हो और काम व क्रोध के कारण उसका सदा निरादर होता रहे अथवा वह काम व क्रोध से सदा सताया जाय ॥ ४१ ॥

मा स्म धर्मे मनो भूयाद्धर्मं स निषेवताम् ।

अपात्रवर्षी भवतु यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ४२ ॥

१ अपात्रवर्षी—अपात्रे बहुदायो । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ पाते ॥ ।

अथवा जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए हों—  
वह स्वधर्म में मन न लगा कर सदा अधर्म कार्य ही किया करे  
और कुपात्र को बहुत सा दान दे। अथवा जिस मनुष्य की सलाह  
से श्रीराम वनवासी हुए हों, उसे वही पाप हो, जो स्वधर्म-त्यागी  
और अधर्म अनुरागी एवं कुपात्र को बहुत दान देने वाले को होता  
है ॥ ४२ ॥

संचितान्यस्य वित्तानि त्रिविधानि सहस्रशः ।

१दस्युभिर्विप्रलुप्यन्तां यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ४३ ॥

अथवा जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए हों  
उसकी गाड़ी कमायी का विपुल धन चोर चुरा ले जाय ॥ ४३ ॥

२उभे सन्ध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते ।

तच्च पापं भवेत्तस्य यस्वार्योऽनुमते गतः ॥ ४४ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वनवासी हुए  
हों, उसे वह पाप लगे जो साँफ सवेरे सोने वाले को लगता  
है ॥ ४४ ॥

[ प्रातःसन्ध्या=रात बीतने और दिन उगने के समय ; सायं सन्ध्या=  
दिन हूबने और रात्रि होने के समय. सोना निषिद्ध है—क्योंकि सन्ध्याओं  
में सोने से आयुक्षीण और पुण्यक्षय होते हैं । कहीं कहीं यह भी लिखा है—  
“प्राक्षेमुहूर्ते या निद्रा स पुण्यक्षयकारिणी । ” ]

यदग्निदायके पापं यत्पातं गुरुतल्पगं ।

मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ४५ ॥

१ दस्युभिः—तत्करैः । ( गो० ) २ उभे—उभयोः सन्ध्याः । ( गो० )

अथवा जो पाप घर में आग लगाने वाले को, गुरु की स्त्री के साथ संभोग करने वाले को और मित्र से द्रोह करने वाले को होता है, वह पाप उस मनुष्य को लगे, जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने की सलाह दी हा ॥ ४५ ॥

देवतानां पितॄणां च मातापित्रोस्तथैव च ।

मा स्म कार्षीत्सि शुश्रूषां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४६॥

अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र जी के वनवासी होने की सम्मति दी हो वह देवता, पितृ और माता पिता की पूजा, आद्व और सेवा शुश्रूषा से वञ्चिन हो । अथवा जो पाप—देवपूजन, पितृआद्व और माता पिता की सेवा न करने वाले को लगता है, वह पाप श्रीरामचन्द्र जी को वन में भेजने को सलाह देने वाले को हो ॥४६॥

सतां लोकात्सतां\* कीर्त्याः सञ्जुष्टात्कर्मणस्तथा ।

अश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७ ॥

अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र जी को वन में भेजने की सलाह दी हो, वह पुरुष इसी घड़ी सज्जनों के लोक से, सज्जनों की कीर्ति से और सत्कर्मों से भ्रष्ट हो जाय । अर्थात् ऐसे पुरुष को न तो कोई ऐसा लोक प्राप्त हो, जैसा कि, सत्पुरुषों को मिलता है, न उसे वह कीर्ति उप-लब्ध हो, जो साधु पुरुषों को मिलती है ( अथवा उस पुरुष को साधु लोग प्रशंसा न करें ) और न उसका मन उन कर्मों में लगे, जो साधुओं के लिये अनुष्ठेय हैं ॥ ४७ ॥

अपास्य मातृशुश्रूषामनर्थं सोऽवतिष्ठताम् ।

दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४८ ॥

१ सतांकीर्त्यात्—सङ्घिः क्रियमाणश्लाघनात् । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“कीर्त्यात्सञ्जुष्टात्कर्मणस्तथा” ।

अथवा जिसको सलाह से दीर्घबाहु और चौड़ी क्वाती वाले श्रीरामचन्द्र जी बनवासी हुए हों—वह माता की सेवा से विमुक्त हो, अशर्म कार्यों में लगे । अर्थात् उसे मातृ सेवा से विमुक्त होने तथा अशर्म कार्यों में रत होने का पाप हो ॥ ४८ ॥

बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः ।

स भूयात्सततं क्लेशो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४९ ॥

अथवा जिसको सलाह से श्रीरामचन्द्र जी बन में गये हों, वह बहु सन्तति वाला हो कर दरिद्र हो, ज्वर रोग से पीड़ित हो और सदा क्लेश पावे ॥ ४९ ॥

[ नोट—बहुत सन्तान होना भी दक्षिणता का सूचक है । स्मृतिकारों के मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ गेज सब सन्तान कानत्र हैं । ]

आशामाशंसमानानां<sup>१</sup> दीनानामूर्ध्वचक्षु<sup>२</sup>षाम् ।

अर्थिनां वितयां कुर्याद्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५० ॥

अथवा जिसको सलाह से श्रीरामचन्द्र जी बनवासी हुए हों, उसे वही पाप लगे, जो कुछ प्राप्ति की आशा से आये हुए दीन याचक को कैरा जवाब दे कर और उसे हताश करने वाले अभिमानो धनी को लगता है ॥ ५० ॥

मायया रमतां<sup>३</sup> नित्यं परुषः पिशुनोऽनुचिः ।

राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५१ ॥

१ आशामाशंसमानानां—लुवतः । ( गो० ) २ ऊर्ध्वचक्षुषां—दृष्टता-  
सनस्यदानुसुखनिरीक्षकाणां । ( गो० ) ३ मायया—वञ्जनया । ( गो० )  
४ रमतां—सकोभवतु । ( गो० )



अथवा जिसकी सलाह से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, वह पुरुष कपट-प्रिय, चुगलखोर—( इधर की उधर जगाने वाला ) वैदमान और अधर्मी हो। वह सदा राजभय से ग्रस्त रहे ॥ ५१ ॥

ऋतुस्नातां सर्ती भार्यामृतुकालानुरोधिनीम् ।

अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५२ ॥

अथवा जिसकी अनुगति में श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, वह दुष्टात्मा ऋतुस्नाना ( रजस्वला स्त्री के शुद्ध होने पर ) तथा पतिव्रता स्त्री को, जो ऋतुस्नानान्तर रतिदान की अभिज्ञापा से निकट आया हो, अङ्गीकार न करे। अथवा उसे वह पाप लगे जो ऋतुस्नाता पतिव्रता स्त्री को रतिदान न देने वाले को होता है ॥ ५२ ॥

[ नोट—ऋतुमती पति के विमुख करना पाप है । ]

धर्मदारान्परित्यज्य परदारान्निपेयताम् ।

त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५३ ॥

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, उसे वही पाप हो, जो उस मूढ़ को होता है, जो धर्मानुराग को त्याग देता है और अपनी धर्मपत्नी को छोड़, पराई स्त्री से मैथुन करता है। अर्थात् जो पाप धर्मविचारशून्य व्यभिचारी पुरुष को होता है ॥ ५३ ॥

विप्रलुप्तप्रजातस्य<sup>१</sup> दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यम् ।

तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योऽपते गतः ॥ ५४ ॥

१ ऋतुकालानुरोधिनी—ऋतुस्नानदिवसेस्वसंनिहिता । ( गो० ) २ अतिवर्तेत—स्वीकारनकुर्वात् । ( गो० ) ३ विप्रलुप्तप्रजातस्य—नष्टापत्यस्य, सन्तति-हीनस्येऽर्थः । ( गो० )

अथवा जिसकी अनुमति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है, जिसके पुत्र मारे भूखों के मर जाय और वह उनका पालन न कर सके ॥ ५४ ॥

पानीयद्रूपके पापं तथैव विपदायके ।

यत्तदेकः<sup>१</sup> स लभतां यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ५५ ॥

अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, उसे वही पाप हो, जो पाप पानी में विष आदि डाल कर बिगाड़ देने से अथवा किसी को विष दे कर मार डालने से होता है । इन दोनों दुष्कर्मों का पापरूप फल उसे प्राप्त हो ॥ ५५ ॥

<sup>२</sup>ब्राह्मणायेद्यतां पूजां विहन्तु क्लुषेन्द्रियः ।

बालवत्सां च गां दोग्धु यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ५६ ॥

अथवा जिसकी सम्मति से श्रीरामचन्द्र जी वन में गये हों, उसकी सब इन्द्रियाँ क्लृप्त हो जायँ । उसे वही पाप हो, जो उस मनुष्य को होता है, जो किसी ब्राह्मण के होने वाले सत्कार को, उस ब्राह्मण की निन्दा कर, रुकवा दे, तथा छोटे बछड़े वाली गौ का दूध दुहे ॥ ५६ ॥

[ नोट—ब्राह्मण के लाभ में अंजी मारना और जब तक बछड़ा छोटा हो, तब तक गौ का दूध दुहना, पाप हैं । ]

तृषार्तं सति पानीये विप्रलम्बेनः योजयेत् ।

लभेत तस्य यत्पापं यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ५७ ॥

१ यत्तदेकः—द्वयं एकैः लभतां । (रा०) २ ब्राह्मणायेद्यतांपूजांविहन्तु—ब्राह्मणाय उद्यतांकेनचित्प्रतिनां पूजां सत्कृतिं विहन्तुब्राह्मणनिन्दादिनावास्त्यतुः । (नि०) ३ विप्रलम्बेन—दृढनया । (गो०)

अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने की सम्मति दी हो, उसे वही पाप हो, जो जल के रहते भी, प्यासे आदमी को बहाना कर, ढाल देने वाले का होता है ॥ ५७ ॥

१ भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः १ ।

तस्य पापेन युज्येत यस्मार्योऽनुमते गतः ॥ ५८ ॥

अथवा जिसने श्रीरामचन्द्र को वन में भेजने की सलाह दी हो, उसे वही पाप हो जो पाप उस मनुष्य का होता है जो एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन, पक्षपात से प्रेरित हो, अपने प्रियजन का पक्षपात करता है । अर्थात् जो पाप पक्षपात करने वाले मध्यस्थ का होता है । रामाभिरामी टीकाकार ने इस श्लोक पर यह टीका की है कि जहाँ पर वैष्णव और शैवों में विष्णुपरत्व और शिवपरत्व के ऊपर विवाद होता हो, उसे शान्त न कर, उसे बढ़ाने चाहे जो जो पाप होता है, वह पाप उसको लगे, जिसने श्रीरामचन्द्र जो वन में भेजने की सलाह दी हो ॥ ५८ ॥

विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः ।

एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तो निपपात ह ॥ ५९ ॥

राजपुत्र भरत इस प्रकार पति पुत्र विहीन कौशल्या को समझाते और अपनी सफाई देते हुए, आर्त्त हो, पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ५९ ॥

तथा तु शपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम् ।

भरतं शोकसन्तप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत् ॥ ६० ॥

१ भक्त्या—जयोपायमाश्रित्य । ( गो० ) २ पश्यतः—भुवतस्तस्यपापेन युज्येतेतिसम्बन्धः । ( गो० )

तव भरत से जो इस प्रकार की कठिन शपथें खा कर, शोक से मन्त हो, ज्ञानगून्थ हो गये थे—कौशल्या जो बालीं ॥ ६० ॥

मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते ।

शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे ॥ ६१ ॥

हे बत्स ! तुम जो तरह तरह की शपथें खा रहे हो, सो इससे तो मुक्त दुखियारी का दुःख और भी अधिक बढ़ता है ॥ ६१ ॥

दिष्ट्या<sup>१</sup> न चलितो<sup>२</sup> धर्मादात्मा<sup>३</sup> ते सहलक्ष्मणः ।

वत्स सत्यप्रतिज्ञो मे सतां लोकानवाप्स्यसि ॥ ६२ ॥

यह सौभाग्य की बात है कि, तुम्हारा मन अपने बड़े भाई की ओर से चलायमान नहीं हुआ और तुम लक्ष्मण की तरह सत्य-प्रतिज्ञ हो। अतः तुम उस लोक को प्राप्त होगे, जिसे सज्जन प्राप्त करते हैं ॥ ६२ ॥

इत्युक्त्वा चाङ्गमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम् ।

परिष्वज्य महाबाहुं खरोद् भृशदुःखिता ॥ ६३ ॥

यह कह महारानी कौशल्या, महाबाहु भ्रातृवत्सल भरत को गोदी में ले और हृदय से लगा, अत्यन्त दुःखित हो, रोने लगीं ॥ ६३ ॥

एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः ।

मोहाच्च शोकसंरोधाद्भ्रूव लुलितं मनः ॥ ६४ ॥

इस प्रकार रोते हुए और दुःख से पीड़ित भरत का मन शोक उमड़ने से उत्पन्न मोह के वशवर्ती हो, उद्विग्न हो गया ॥ ६४ ॥

<sup>१</sup> दिष्ट्या—भाष्येन । ( गो० ) <sup>२</sup> आत्मा—अन्तःकरणं । ( गो० )

<sup>३</sup> धर्मात्—अप्यंशानुवर्तकधर्मात् । ( गो० )

लालप्यमानस्य विचेतनस्य

प्रणष्टगुद्रेः पतितस्य भूमौ ।

मुहुर्मुहुर्निःश्वसतश्च धर्मं

सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥ ६५ ॥

इति षड्सप्ततितमः सर्गः ॥

महारानी कौशल्या द्वारा लाड किये गये, वारंवार विलाप करते हुए, चेतनाशून्य, पृथिवी पर पड़े ढूटपडाते हुए, वारंवार निश्वास लेते और शोक करते हुए भरत ने वह रात बिताई ॥ ६५ ॥

अयोध्याकाण्ड का पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

षड्सप्ततितमः सर्गः

—:०:—

तमेवं शोकसन्तप्तं भरतं कैकेयीसुतम् ।

उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवाग्दुषिः ॥ १ ॥

कैकेयीसुत भरत जी को इस प्रकार शोकाकुल देख, बालने वालों में श्रेष्ठ ऋषि वसिष्ठ जी उनसे उत्तम वचन बोले ॥ १ ॥

अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः ।

प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयाननुत्तमम् ॥ २ ॥

हे परम यशस्वी राजपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल हो । बस, बहुत हुआ, अब शोक मत करो । अब समय हो चुका ; अतः अब विधि विधान से महाराज की अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥ २ ॥

वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धारणां गतः ।

प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित् ॥ ३ ॥

पृथिवी पर पड़े हुए धर्मव्या भरत जो ने वसिष्ठ जी के वचन सुन, महाराज के प्रेतकर्मों का आरम्भ किया ॥ ३ ॥

उद्धृतं तैलसंरोधात्स तु भूमौ निवेशितम् ।

आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम् ॥ ४ ॥

(लोगों ने) महाराज के शव का तेल के कढ़ाह से निकाल कर, जमीन पर जियाया । यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने से महाराज का शव पीला पड़ गया था, तथापि यही जान पड़ता था कि, मानों महाराज सो रहे हैं । अर्थात् उनके मुख की चेष्टा विगड़ी न थी ॥ ४ ॥

संवेश्य शयने चाश्रे नानारत्नपरिष्कृते ।

ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥

अनन्तर शव का विविध रत्नजटित विस्तरे पर लिटा कर, अत्यन्त दुःखी हो भरत जी महाराज के लिये विलाप करने लगे ॥ ५ ॥

किं ते व्यवसितं राजन्प्रोषिते मथ्यनागते ।

विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम् ॥ ६ ॥

हे राजन् ! न मालूम आपने क्या सोचा, जो मेरे आये बिना ही आपने धर्मज्ञ श्रीराम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेज दिया ॥ ६ ॥

क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम् ।

हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा ॥ ७ ॥

हे महाराज ! अमात्रुषिक कर्मरुत्तां पुरुषसिंह श्रीराम विहीन  
मुझ दुखिया को छोड़ आप कहां जाते हैं ॥ ७ ॥

योगक्षेमं तु ते राजन्कोऽस्मिन्कल्पयिता पुरे ।

त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ ८ ॥

हे महाराज ! आपकी इस पुरी की राज्यव्यवस्था, स्थिरचित्त  
से अब कौन सँभालेगा । क्योंकि आप तो स्वर्गवासी और श्रीराम  
वनवासी हैं ॥ ८ ॥

विधवा पृथिवी राजस्त्वया हीना न राजते ।

हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्\* ॥ ९ ॥

हे महाराज ! आपके बिना यह विधवा पृथिवी जोभा नहीं  
पाती । यह अयोध्यापुरी तो मुझे चन्द्रहीन रात्रि जैसी शोभाहीन  
जान पड़ती है ॥ ९ ॥

एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् ।

अत्रवीद्वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥ १० ॥

भरत जी को इस प्रकार दीन मन से विलाप करते देख, महर्षि  
वशिष्ठ फिर उनसे बोले ॥ १० ॥

प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशांपतेः ।

तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियन्तामविचारितम् ॥ ११ ॥

हे महाबाहो ! हे पृथिवीनाथ ! अब तुम व्यग्रता त्याग कर महाराज  
की अन्त्येष्टिक्रिया के जो कर्म करने चाहिये, सो करो । अब सोच  
विचार करने का समय नहीं है ॥ ११ ॥

\* स्वः - स्वर्ग । ( गा० ) \* पाठान्तरे - 'मा' 'ने' ।

तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् ।

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यास्त्वरयामास सर्वशः ॥ १२ ॥

तब भरत जी ने वशिष्ठ जी की बात मान ऋत्विज, पुरोहित और आचार्यों से महाराज के प्रेतकर्म करवाने के लिये शीघ्रता की ॥ १२ ॥

ये त्वग्नेयो नरेन्द्रस्य चाग्न्यगाराद्वहिष्कृताः ।

ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव तेहूयन्ते\* यथाविधि ॥ १३ ॥

महाराज के अग्न्यागार में जो अग्नि में स्थापित थी, उन सब को बाहर निकाल कर, ऋत्विज और याजक यथाविधि होम करने लगे ॥ १३ ॥

शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतसम् ।

वाष्पकण्ठा विमनसस्तमूहुः परिचारकाः ॥ १४ ॥

तदनन्तर परिचारकगण महाराज के शव को पालकी में रख, अत्यन्त उदास और रोते हुए पालकी उठा कर चले ॥ १४ ॥

हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च ।

प्रकिरन्तो जना मार्गं नृपतेरग्रतो ययुः ॥ १५ ॥

लोग महाराज की पालकी के आगे आगे मोहरें रुपये अथवा सोने चाँदी के फूल और तरह तरह के वस्त्र सड़कों पर बरसाते हुए चले जाते थे अर्थात् लुटाते हुए चले जाते थे ॥ १५ ॥

१ चन्दनागरुनिर्यासान्सरळं<sup>२</sup> पद्मकं तथा ।

देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे ॥ १६ ॥

१ चन्दनागरुनिर्यासान्—निर्यासोगुग्गुलः । (गो०) २ सरळ—धूपसरळ । (गो०) \* पाठान्तरे—“तेऽहूयन्त” “आहियन्त” ।



कुछ लोग चन्दन, अगार, गुग्गुल की धूप ( पालकी के इधर उधर ) जलाते जाते थे । ( जब पालकी सरयूतट पर पहुँची तब ) देवदारु, पद्मक, चन्दन, अगार आदि सुगन्धित काष्ठ पकत्र कर चिता बनायी गयी ॥ १६ ॥

गन्धानुच्चावचांश्चान्यांस्तत्र गत्वाऽथ भूमिपम् ।

ततः संवेशयामासुश्च तामध्ये तमृत्विजः ॥ १७ ॥

चिता में और भी अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ डाले गये । तदनन्तर ऋत्विजों ने चिता के ( पास पालकी लेजा कर तथा उसमें से महाराज के शव को निकाल, ) ऊपर शव को लिटा दिया ॥ १७ ॥

तथा हुताशनं दत्त्वा <sup>१</sup>जेपुस्तस्य<sup>२</sup> तमृत्विजः ।

जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ ॥

तदनन्तर ऋत्विज लोग महाराज की परमगति के लिये प्रेत्याग्नि में आहुति दे कर, पैतृमेधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और सामगायी ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया ॥ १८ ॥

शिविकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः ।

नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तदा ॥ १९ ॥

महाराज की शोकसन्तप्त सब रानियाँ भी यथायोग्य पालकी रथ आदि सवारियों में बैठ, बृद्ध रत्नकों के साथ नगर के बाहिर, जहाँ महाराज की चिता बनाई गयी थी, पहुँची ॥ १९ ॥

१ जेपुः—पैतृमेधिकमंत्रविशेषानितिशेषः । ( गो० ) २ तस्य परम गत्यर्थमितिशेषः । ( गो० )

प्रसव्यं चापि तं चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निचितं नृपम् ।

स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥

फिर ऋत्विजों ने और कौशल्यादि रानियों ने अत्यन्त शोक-  
सन्तप्त हो, जलते हुए महाराज के शव की प्रदक्षिणा की ॥ २० ॥

कौञ्चीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे ।

आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः ॥ २१ ॥

उस समय करुण स्वर से रोती हुई और शोक से व्याकुल होने  
के कारण चिल्लाती हुई, उन सहस्रों स्त्रियों का चिल्लाना सुनने से  
ऐसा जान पड़ता था, मानों कौंच पक्षी की मादाएँ चिल्ला रही  
हों ॥ २१ ॥

ततो रुदन्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः ।

यानेभ्यः सरयूतीरमवतेर्ध्वराङ्गनाः ॥ २२ ॥

तदनन्तर सब रानियाँ रोती और विलाप करती हुई, अपनी  
अपनी सवारियाँ से उतर, सरयू नदी के तट पर पहुँची ॥ २२ ॥

कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं

नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च ।

पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा

भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम् ॥ २३ ॥

इति षट्सप्ततितमः सर्गः ॥

उन स्त्रियों ने भरत, मंत्री, और पुरोहितों के साथ महाराज को  
जलाश्लि दी । तदनन्तर सब लोग आँसू बहाते हुए नगर में आये

और दस दिन तक भूमि पर जेट कर बड़े दुःख से समय  
विताया ॥ २३ ॥

अयोध्याकाण्ड का त्रिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❖:—

### सप्तसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

ततो दशाहेऽतिगते कृतशौचो नृपात्मजः ।

द्वादशेऽहनि सम्प्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत् ॥ १ ॥

दस दिन बीत जाने पर ११वें दिन भरत जी शुद्ध. हुए और  
बारहवें दिन सपिण्डी आदि कर्म किये ॥ १ ॥

ब्राह्मणेभ्यो ददौ रत्नं धनमन्नं च पुष्कलम् ।

वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च ॥ २ ॥

और ब्राह्मणों को बहुत सा रत्न, धन और अन्न तथा बहुमूल्य  
वस्त्र एवं अन्य विविध उत्तम वस्तुएँ दीं ॥ २ ॥

वास्तिकं<sup>१</sup> बहुशुक्लं<sup>२</sup> च गात्रापि शतशस्तदा ।

दासीदासं च यानं च वेश्मानि सुमहान्ति च ॥३॥

ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राजस्तस्यौर्ध्वदैहिकम् ।

ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे ॥ ४ ॥

१ वास्तिकं—छागानांसमूहोवास्तिकं । ( गो० ) २ बहुशुक्लं—छागविशेष-  
णं । ( गो० )

भरत जी ने बहुत से सफेद बकरे, सैकड़ों गौएँ, अनेक दास दासी, सवारियाँ और बड़े बड़े मकान महाराज के मृत-कर्म में ब्राह्मणों को दान दिये। तदनन्तर तेरहवें दिन प्रातः-काल ॥ ३ ॥ ४ ॥

विलाप महाबाहुर्भरतः शोककर्षितः ।

शब्दापिहितकण्ठस्तु शोधनार्थमुपागतः ॥ ५ ॥

चितामूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः ।

तात यस्मिन्निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवे ॥ ६ ॥

महाबाहु भरत जी शोक से मूर्च्छित हो, विलाप करने लगे और चिता से अस्थि बिनने के लिये चिता के समीप जा गद्गद् वाणी से अत्यन्त दुखी हो और पिता को पुकार कर कहने लगे—हे तात ! जिन भाई श्रीरामचन्द्र के भरोसे आपने मुझे छोड़ा था ॥ ५ ॥ ६ ॥

तस्मिन्वनं प्रव्रजिते शून्ये<sup>१</sup> त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ।

यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो वनम् ॥ ७ ॥

उनको वन में भेज, आपने भी मुझे अनाथ की तरह त्याग दिया। जिन अनाथिनी का पुत्र वन में निकाल दिया गया ॥ ७ ॥

तामभ्यां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नृप ।

दृष्ट्वा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थिस्थानमण्डलम् ॥ ८ ॥

१ शून्ये—स्वजनरहिते । ( शि० )

उन माता कौशल्या को छोड़ कर, दे तात ! तुम कहीं चले गये ? भरत जी पिता के शरीर को जलो हुई श्वेत रंग को राख चिता स्थान पर देख ॥ ८ ॥

पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन्विपसाद् सः ।

स तु दृष्ट्वा रुदन्दीनः पपात धरणीतले ॥ ९ ॥

और पिता के शरीर को नष्ट हुआ देख, निरन्तर रो कर तथा दीन हो कर, विज्ञाप करते हुए, भूमि पर गिर पड़े ॥ ९ ॥

उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज<sup>१</sup> इव च्युतः ।

अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः शुचिव्रतम् ॥ १० ॥

फिर लोगों द्वारा उठाये जाने पर भरत जी उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार डारो से बंधी इन्द्र की ध्वजा, डारो टूट जाने से गिर पड़तो है । शुचिव्रत भरत को गिरा देख, मंत्रियों ने दौड़ कर उनको उठाया ॥ १० ॥

२अन्तकाले निपतितं ययातिमृपयो यथा ।

शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतम् ॥ ११ ॥

मंत्रियों ने भरत को उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार ऋषियों ने राजा ययाति को पुण्यक्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते समय उठाया था । शत्रुघ्न जी भी भरत जी को शोक में डूबा हुआ देख ॥ ११ ॥

विसंज्ञो न्यपतद्भूमौ भूमिपालमनुस्मरन् ।

उन्मत्त इव निश्चेता विललाप सुदुःखितः ॥ १२ ॥

१ शक्रस्य यन्त्रध्वजः—रज्जुयुक्तो ध्वजइवपपात । ( गी० ) २ अन्तकाले—पुण्यक्षयकाले । ( गी० )

महाराज का स्मरण करते हुए अचेत हो, भूमि पर गिर पड़े और अत्यन्त दुःखी होने के कारण वेसुध और उन्मत्त की तरह विलाप करने लगे ॥ १२ ॥

स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा ।

मन्थराप्रभवस्तीव्रः कैकेयीग्राहसङ्कुलः ॥ १३ ॥

वह पिता के गुणों को एक एक कर स्मरण करते जाते थे । उस समय शत्रुघ्न जी कहने लगे कि, मन्थरा की करतूत से उत्पन्न, और कैकेयी रूपी मगर से युक्त ॥ १३ ॥

वरदानमयोक्षोभ्योऽमज्जयच्छोकसागरः ।

सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया ॥ १४ ॥

वरदान रूपी स्थिर महासागर में हम सब डूब गये । हे पिता जी ! जिस सुकुमार बालक का लाड प्यार आपने सदा किया, ॥ १४ ॥

क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान् ।

ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वभरणेषु च ॥ १५ ॥

इस विलाप करते हुए भरत को छोड़, आप कहाँ चल दिये ? भोजन के योग्य पदार्थ वस्त्र और आभूषण ॥ १५ ॥

प्रवारयसि नः सर्वास्तन्नः कोऽन्यः करिष्यति ।

अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते ॥ १६ ॥

या विहीना त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना ।

पितरि स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रिते ॥ १७ ॥

१ प्रवारयसि—प्रद्वेषेण स्वयं ग्राहयसि । ( गो० )

आप आग्रह पूर्वक हम लोगों को स्वयं दिया करते थे—  
 सो ये सब वस्तुएँ हमें अब कौन देगा ? इस दारुण काल में, आप  
 जैसे महात्मा और धर्मज्ञ महागज से रहित होने पर यह पृथिवी  
 फट क्यों नहीं जाती । पिता जी तो स्वर्ग चले गये और श्रीरामचन्द्र  
 वनवासी हो गये ॥ १६ ॥ १७ ॥

किं मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ।

हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम् ॥ १८ ॥

अब मैं किस प्रकार प्राण धारण करूँ । मैं तो अब अग्नि में  
 कूद पड़ूँगा । अब मैं भाई और पिता से हीन इस इक्ष्वाकुपालित  
 सूनी ॥ १८ ॥

अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम् ।

तयोर्विलपितं श्रुत्वा व्यसनं चान्ववेक्ष्य तत् ॥ १९ ॥

अयोध्या में न जा कर, तपोवन में जाऊँगा । इस प्रकार उन  
 दोनों भाइयों का विलाप सुन, और उनका कष्ट देख, ॥ १९ ॥

भृशमार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ।

ततो विषण्णौ \*शोचन्तौ शत्रुघ्नभरताबुभौ ॥ २० ॥

सब नौकर चाकर बहुत दुःखी हुए । दोनों भाई विषादयुक्त  
 एवं दुःखी हो ॥ २० ॥

धरण्यां संव्यचेष्टेताः भग्नशृङ्गाविवर्षभौ ।

ततः प्रकृतिमान्वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः ॥ २१ ॥

१ व्यचेष्टेताः—व्यलुप्टेताः । ( गो० ) २ प्रकृतिमान्—प्रशस्तस्वभावः ।  
 ( गो० ) ३ वैद्यः—वेदान्तविद्याधिगतपरावरतत्त्वयाथात्म्यविज्ञानः सर्वज्ञ-  
 इतियावत् । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“विश्रान्तौ,” “श्रान्तौ च” ।

सोंग कटे हुए बैज को तरह, पृथिवी पर गिर कर, इटपड़ाने लगे। उस समय प्रशस्त स्वभाव सर्वज्ञ और उनके पिता के पुरोहित ॥ २१ ॥

वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ।

त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य<sup>१</sup> ते विभो ॥ २२ ॥

वशिष्ठ जो, भरत जो को उठा कर कहने लगे। हे विभो ! आपके पिता का अग्निसंस्कार हुए आज तेरह दिन हो चुके ॥ २२ ॥

सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे ।

त्रीणि द्वन्द्वानि भूनेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः ॥ २३ ॥

अतः अब मरुम सहित अस्थि मञ्चयन करने में क्यों देर करते हो। प्रत्येक प्राणी में तीन द्वन्द्व ( जोड़े ) रहा करते हैं—अर्थात् ( १ ) भूख प्यास ( २ ) शांति मोह, और ( ३ ) जरा ( बुढ़ापा ) मरण ॥ २३ ॥

तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमर्हसि ।

सुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च ॥ २४ ॥

इन छः को दूर करना सम्भव नहीं। अतएव तुमको इस प्रकार दुःखी होना उचित नहीं। ( वशिष्ठ जो ने भरत को इस प्रकार समझाया और ) तत्त्वज्ञ सुमन्त्र ने भी शत्रुघ्न को उठा कर और प्रसन्न कर सब प्राणियों को उत्पत्ति एवं विनाश के तत्व को समझाया ॥ २४ ॥



श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतधवाभवौ ।  
 उत्थितौ च नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशस्विनौ ।  
 वर्षातपपरिक्रिन्नौ पृथगिन्द्रध्वजाविव ॥ २५ ॥

जब वे दोनों पुरुषविंद एवं यशस्वी भाई उठ कर खड़े हुए,  
 तब वे ऐसे जान पड़े, मानों वर्षा और घाम के कारण मलिन  
 भाव धारण किये हुए, दो इन्द्र को धाजाएँ अजग अजग लड़ी  
 हों ॥ २५ ॥

अश्रूणि परिमृद्गन्तौ रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ ।  
 अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः ॥ २६ ॥

इति सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥

मंत्रिगण इन दोनों भाइयों से, जिनको आँखें लाल हो गयी  
 थीं और जो आँखों के आँसुओं को पोंछ रहे थे तथा जो दीन वचन  
 बोल रहे थे, आगे का कृत्य करने के लिये, शोषता करने  
 लगे ॥ २६ ॥

अयोध्याकाण्ड का सप्तहत्तवीं सर्ग समाप्त हुआ ।

—:०:—

अष्टसप्ततितमः सर्गः

—:०:—

अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुधनो लक्ष्मणानुजः ।  
 भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

१ परिमृद्गन्तौ—मार्जयन्तौ । ( गी० )

भरत जी से, जो शोकसन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने का विचार कर रहे थे, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न बोले ॥ १ ॥

गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः ।

स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रत्राजितो वनम् ॥२॥

भाई ! जो श्रीरामचन्द्र दुःख और सङ्कट में प्राणि मात्र के एक मात्र अवलंब हैं और सामर्थ्ययुक्त हैं—वे ही जब स्त्री सहित वन में निकाल दिये गये, तब हम अपने दुःखों की बात ही क्या कहें ॥ २ ॥

बलवान्वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ ।

किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम् ॥ ३ ॥

( यदि मान लिया जाय कि, श्रीरामचन्द्र ने सङ्कोचवश उस समय कुछ न कहा तो ) बलवान् और वीर्य सम्पन्न लक्ष्मण ने पिता को रोक कर, श्रीरामचन्द्र को क्यों न बचाया ? ॥ ३ ॥

पूर्वमेव तु निग्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ ।

उत्पथं यः समारूढो नार्या राजा वशं गतः ॥ ४ ॥

क्योंकि महाराज जब स्त्री के वशवर्ती हो, अथवा स्त्री के आग्रह से अन्याय करने को उद्यत हुए थे, तब ही लक्ष्मण को उचित था कि, नीति अनिति का भली भाँति विचार कर, पहिले ही महाराज को इस कर्म करने से रोक देते ॥ ४ ॥

इति सम्भाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे ।

प्राग्द्वारेऽभूत्तदा कुब्जा सर्वा भरणभूषिता ॥ ५ ॥

लक्ष्मण के छोट्टे भाई शत्रुघ्न जी इस प्रकार भरत जी से बात चीत कर ही रहे थे कि, इतने ही में कुबड़ी मन्थरा सब गहने पहिने हुए पूर्वद्वार पर देख पड़ी ॥ ५ ॥

लिप्ता चन्दनसारेण? राजवस्त्राणि? विभ्रती ।

विविधं विविधैस्तैस्तैर्भूषणैश्च विभूषिता ॥ ६ ॥

उस समय मन्थरा गाढ़े चन्दन से अपना शरीर पोते हुए थी, कैकेयी के दिये रानियों के पहनने योग्य वस्त्रों से सजी हुई थी और अनेक प्रकार के रानियों के पहिनने योग्य आभूषण धारण किये हुए थी ॥ ६ ॥

मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च शुभभूषणैः ।

वभासे बहुभिर्वद्धा रज्जुवद्धेव वानरी ॥ ७ ॥

उसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ करधनी थी तथा अन्य अंगों पर भी बड़े बढिया और सुन्दर अनेक जड़ाऊ आभूषण थे । ( यद्यपि उसने अपने शरीर का शृङ्गार करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी ; तथापि ) वह अनेक आभूषणों को धारण किये हुए डोरी से बँधी हुई वंदरिया जैसी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥

तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्था \*भृशं पापस्य कारिणीम् ।

गृहीत्वाऽकरुणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत् ॥ ८ ॥

इस समय उस महापापिन को देख, द्वारपालों ने उसे निर्दयता पूर्वक पकड़, शत्रुघ्नजी को सौंप दिया ॥ ८ ॥

१ चन्दनसारेण—चन्दनपहने । (गो०) २ राजवस्त्राणि—राजाहंवस्त्राणि कैकेयीदत्तानि । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ शुभृशं पापकारिणीम् । ”

यस्याः कृते वने रात्रौ न्यत्तद्देहश्च वः पिता ।

सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु<sup>१</sup> ययामति ॥ ९ ॥

और शत्रुघ्न से बोले कि, जिसके कहने से श्रीरामचन्द्र वनवासी हुए और आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, वह यही पापिन और कसाइन हैं। सो जैसा तुम उचित समझो वैसा इसे दण्ड दो ॥ ९ ॥

शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः ।

अन्तःपुरचरान्सर्वानित्युवाच धृतव्रतः<sup>२</sup> ॥ १० ॥

शत्रुघ्न जो यह बात सुन अत्यन्त ही दुःखित हो तथा कर्त्तव्य-कर्म निश्चय कर, सब अन्तःपुरचारियों से यह बोले ॥ १० ॥

तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथा पितुः ।

यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलमश्नुताम् ॥ ११ ॥

जिसने मेरे सब भाइयों और पिता के लिये महान् दुःख उत्पन्न किया, यह वही घात करने वाली है—अतः यह अपने किये का फल भोगे ॥ ११ ॥

एवमुक्त्वा तु तेनाशु सखीजनसमावृता ।

गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्गृहमनादयत् ॥ १२ ॥

यह कह कर, शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई मन्यरा को तुरन्त ऐसे जोर से पकड़ा कि, उसके चोत्कार से सारा भवन भर गया ॥ १२ ॥

१ कुरुशिक्षणमितिशेषः । ( गो० ) २ धृतव्रतः—कर्त्तव्यत्वेन अव्ययव्रतः । ( रा० )

ततः सुभृशसन्तप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः ।

क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नं विपलायत सर्वशः ॥ १३ ॥

मन्थरा की यह दशा देख उसके माथ की सखियाँ बहुत सन्तप्त हुईं और शत्रुघ्न को क्रुद्ध हुआ जान, वे सब इधर उधर भाग गयीं ॥ १३ ॥

आमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः ।

यथार्यं समुपक्रान्तो निःशेषान्नः करिष्यति ॥ १४ ॥

और दूर जा कर सब आपस में कहने लगीं कि, इस समय शत्रुघ्न ने जैसा कार्य आरम्भ किया है, उससे तो यह जान पड़ता है कि, शत्रुघ्न हम सब को मार ही डालेंगे ॥ १४ ॥

सानुक्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीम् ।

कौसल्यां शरणं याम सा हि नोऽस्तु ध्रुवा गतिः ॥ १५ ॥

अतएव इस समय हमें उन दयालु, परमोदार, धर्मज्ञ एवं यशस्विनी कौशल्या जी का आश्रय ग्रहण करना उचित है । क्योंकि वे ही हमको आश्रय देंगी ॥ १५ ॥

स च रोषेण ताम्राक्षः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः ।

विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं धरणीतले ॥ १६ ॥

उधर मारे क्रोध के लाल लाल आँखें किये हुए, शत्रुघ्नो के दमन करने वाले शत्रुघ्न ने, चीत्कार करती हुई मन्थरा को, भूमि पर पटक कर कढ़ारा ॥ १६ ॥

तस्या ह्याकृष्यमांगाया मन्थरायास्ततस्ततः ।

चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्वचशीर्यत ॥ १७ ॥

घसींटा घसाटो में मन्थरा के सब गहने तितर बितर हो गये और टूट फूट कर चारों ओर बिखर गये ॥ १७ ॥

तेन भाण्डेन \*संस्तीर्णं श्रीमद्राजनिवेशनम् ।

अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १८ ॥

उस समय वह परम सुन्दर राजभवन उन टूटे फूटे बिखरे हुए गहनों से उसी प्रकार शोभिन हुआ, जिस प्रकार शरद्वस्तु का आकाशमण्डल तारागण से सुशोभित होता है ॥ १८ ॥

स वली बलवत्क्रोधात् गृहीत्वा पुरुषर्षभः ।

कैकेयीमभिनिर्भर्त्स्य वभाषे परुषं वचः ॥ १९ ॥

पुरुषश्रेष्ठ, बलवान् शत्रुघ्न जी मन्थरा को अत्यन्त क्रुद्ध हो, पकड़े हुए थे । यह देख कैकेयी ने मन्थरा को छुड़ाना चाहा । इस पर शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को भी अत्यन्त कड़वी बातें सुनायीं ॥ १९ ॥

तैर्वाक्यैः परुषैर्दुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता ।

शत्रुघ्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥ २० ॥

शत्रुघ्न के उन कड़वे वचनों से कैकेयी अत्यन्त दुःखित हो और शत्रुघ्न से भयभीत हो, अपने पुत्र भरत के शरण गयी ॥ २० ॥

तां प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् ।

अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २१ ॥

तब शत्रुघ्न को कुपित देख, भरत ने उनसे यह कहा, भाई ! प्राणिमात्र के लिये स्त्रियाँ अव्यव हैं, अतएव अब इसे क्षमा करना चाहिये अर्थात् दौड़ देना चाहिये ॥ २१ ॥

१ बलवत्क्रोधात्—अतीवक्रोधात् । ( गी० ) \* पाठान्तरे—“सङ्कीर्णं” ।

हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम् ।

यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम् ॥ २२ ॥

( यदि स्त्रियां भवच्य न होतीं और ) यदि धर्मात्मा श्रीराम-  
चन्द्र जी मुझे मातृघाती समझ, मुझ पर क्रुद्ध न होते, तो मैं तो  
इस पापिन दुष्टा कैकेयी को ( कभी का ) मार डालता ॥ २२ ॥

इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः ।

त्वां च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् ॥ २३ ॥

यदि इस कुब्जा का मारना कहीं श्रीरामचन्द्र जी जान पाये,  
तो वे धर्मात्मा निश्चय ही तुमसे और मुझसे बात तक न  
करेंगे ॥ २३ ॥

भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः ।

न्यवर्तत ततो रोषात्तां मुमोच च मन्थराम् ॥ २४ ॥

इस प्रकार भरत के कहने पर, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न का  
क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने मन्थरा को छोड़ दिया ॥ २४ ॥

सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह ।

निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपर्णं विललाप च ॥ २५ ॥

तब मन्थरा जा कर कैकेयी के पैरों पर गिर पड़ी और  
अत्यन्त दुखी हो श्वासें छोड़ती हुई, करुणास्वर से विलाप करने  
लगी ॥ २५ ॥

शत्रुघ्नविक्षेपविमूढसंज्ञां

समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता ।

शनैः समाश्वासयदार्तरूपां

क्रौञ्चीं विलग्रामिव वीक्षमाणास् ॥ २६ ॥

इति अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥

शत्रुघ्न जी के कटोरने से अचेत और पीड़ित मन्थरा को जाल-पाश में बंधी क्रौञ्ची पक्षिणी की तरह देख, भरतमाना कैकेयी ने धीरे धीरे उसे समझाया ॥ २६ ॥

अयोध्याकाण्ड का अठत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

एकोनाशीतितमः सर्गः

—:०:—

ततः प्रभातसमये दिवसे च चतुर्दशे ।

समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन् ॥ १ ॥

चौदहवें दिन प्रातःकाल होने पर राज-कर्मचारी लोग इकट्ठे हुए और भरत जी से कहने लगे ॥ १ ॥

गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः ।

रामं प्रत्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महावलम् ॥ २ ॥

हमारे पूज्यों के भी पूज्य महाराज दशरथ, अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र जी और महावलवान लक्ष्मण जी को वन भेज स्वर्ग पधारें ॥ २ ॥

त्वमथ भव नो राजा राजपुत्र महायशः ।

सङ्गत्या नापराध्नाति सज्यमेतदनायकम् ॥ ३ ॥



अतएव हे महायशस्वी राजकुमार ! अब आप हमारे राजा हों । क्योंकि यह राज्य विना राजा का है और जब पिता आपको यह राज दे गये हैं, तब आपका इसे ग्रहण करना न तो असङ्गत है और न आपको ऐसा करने से कोई दोष ही लग सकता है ॥ ३ ॥

अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव ।

प्रतीक्षते त्वां स्वजनः<sup>१</sup> श्रेणयश्च<sup>२</sup> नृपात्मज ॥ ४ ॥

हे रघुवंशसम्भूत राजकुमार ! यह कथन केवल हम राजकर्मचारियों ही का नहीं है—बल्कि आपके मंत्रीगण और पुरवासी लोग अभिषेक की सामग्री लिये आपको अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ४ ॥

राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् ।

अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान्नरर्षभ ॥ ५ ॥

हे नरश्रेष्ठ ! आप अपने इस पिता पितामह के राज्य को अवश्य ग्रहण करें और अपना अभिषेक करवा, हम सब का पालन करें ॥ ५ ॥

[एवमुक्तः शुभं वाक्यं द्युतिमान्सत्यवाक्छुचिः ।]

आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणम् ॥ ६ ॥

इस प्रकार उन सब का यह शुभ वचन सुन तेजस्वी, सत्यवादी एवं पवित्र भरत ने अभिषेक की सामग्री से भरे हुए सब पात्रों की प्रदक्षिणा की ॥ ६ ॥

भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ।

ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः ॥ ७ ॥

१ स्वजनः—भमात्यादिः । ( गी० ) २ श्रेणयः—पौराः । ( रा० )

तदनन्तर ब्रतधारी भरत जी उन सब लोगों से बोले—देखो हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही राजसिंहासन पर बैठता आया है ॥ ७ ॥

नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः ।

रामः पूर्वा हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः ॥ ८ ॥

अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च ।

युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहावला ॥ ९ ॥

अतः यह बात जान कर भी, आप लोग मुझसे ऐसी बात न कहिये । श्रीरामचन्द्र जी मेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे । मैं ( उनके-बदले ) वन में जा कर चौदह वर्ष वनवास करूँगा । अतः चतुरङ्गी सेना तैयार करो ॥ ८ ॥ ९ ॥

आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात् ।

अभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम् ॥ १० ॥

मैं वन में जा कर भाई श्रीरामचन्द्र को यहाँ लिवा लाऊँगा । यह जो अभिषेक कां. है ॥ १० ॥

पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति ।

तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम् ॥ ११ ॥

उसको साथ ले कर, मैं श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करने को वन में जाऊँगा और वहीं उनका अभिषेक कर, ॥ ११ ॥

आनेष्यामि तु वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरात् ।

न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम् ॥ १२ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को यहाँ उसी प्रकार ले आऊँगा, जिस प्रकार यज्ञशाला में अग्नि लाया जाता है। मैं अपनी इस नाममात्र की माता को साध पूरी नहीं होने दूँगा ॥ १२ ॥

वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति ।

क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च ॥१३॥

प्रत्युत मैं स्वयं दुर्गम वन में जा कर रहूँगा और श्रीरामचन्द्र राजा होंगे। इस लिये मैं आज्ञा देता हूँ कि, सड़क की मरम्मत करने वाले कारीगर लोग ( आगे जा कर ) ऊँचे नीचे रास्ते को ठीक करें ॥ १३ ॥

रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः<sup>१</sup> ।

एवं संभाषमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजम् ।

प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम् ॥ १४ ॥

उनके पीछे रक्षक और दुर्गम मार्गों के शोधक भी जायँ। इस प्रकार राजकुमार भरत ने श्रीरामचन्द्र के अभिषेक के लिये कहा, तब सब लोग भरत जी से यह मनोहर एवं अति उत्तम वचन कहने लगे ॥ १४ ॥

एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरूपतिष्ठताम् ।

यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५ ॥

आप इस पृथिवी का राज्य ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को देना चाहते हैं—आपका यह वचन मनोहर और उत्तमोत्तम है। अतः आपके समीप सदा पद्मासना लक्ष्मी देवी निवास करें ॥ १५ ॥

१ विचारकाः—शोधकाः । ( शि० )

अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मज-  
 प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च ।  
 प्रहर्षजास्तं प्रति वाष्पविन्दवो  
 निपेतुरार्यान् ननेत्रसम्भवाः ॥ १६ ॥

उस समय वहाँ जितने साधुजन उपस्थित थे, वे सब भरत  
 जी के कहे हुए उत्तम वचन सुन, नेत्रों से आनन्द के आसू टपकाने  
 लगे ॥ १६ ॥

ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः  
 सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः ।  
 पन्थानं नरवर भक्तिमाञ्जनश्च  
 व्यादिष्टास्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः ॥ १७ ॥  
 इति एकैनाशीतितमः सर्गः ॥

यह बात सुन, मंत्रिगण नौकरों चाकरों सहित प्रसन्न हो और  
 शोक रहित हो कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ ! आपके वचन के अनु-  
 सार शिल्पियों को आज्ञा दे दी गयी है ॥ १७ ॥

अयोध्याकाण्ड का अन्नासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



## अशीतितमः सर्गः

—:०:—

अथ भूमिपदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः<sup>१</sup> ।

<sup>२</sup>स्वकर्माभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा<sup>३</sup> ॥ १ ॥

कर्मान्तिकाः स्थपत्यः पुरुषा<sup>४</sup> यन्त्रकोविदाः ।

तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः ॥ २ ॥

कूपकाराः सुधाकारा<sup>५</sup> वंशकर्मकृतस्तथा ।

<sup>६</sup>समर्था ये च द्रष्टारः<sup>७</sup> पुरतस्ते प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥

तदनन्तर भरत जो के आज्ञानुसार भूमि के भेदों के जानने वाले, देखते हो यह जान लेने वाले कि अमुक भूमि में जल कितनी दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा सावधान रहने वाले एवं परिश्रमी नैलदार तथा जल को बांध कर रोकने वाले अथवा पुल बनाने वाले मज़दूर, राजयवर्ध, निरीक्षक, कलपुत्रों के जानने वाले, बहई, मार्गों के ज्ञाता और वृक्ष काटने वाले, कुआ खोदने वाले, दीवालों पर अस्तर करने वाले, बंसफोड़ा, अन्य कामों के करने में समर्थ और वे लोग जो उन मार्गों को पहिले से देखे हुए थे ; ये सब लोग आगे ही चल दिये ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

१ विशारदाः—समर्थाः । (गो०) २ स्वकर्माभिरताः स्वकर्मसावधानाः । (गो०) ३ यन्त्रकाः—जलप्रवाहादियन्त्रण समर्थाः । (रा०) ४ पुरुषाः—अध्यक्षराजपुरुषाः । (गो०) ५ सुधाकाराः—प्रसादस्थलक्षित्यादिलेपनकराः । (गो०) ६ समर्थाः—कार्यान्तरैषुसमर्थाः । (गो०) ७ द्रष्टारः—पूर्वानुभूत-मार्गाः—मार्गप्रदर्शकाः । (गो०)

स तु हर्षात्तमुद्देशं जनौघो विपुलः प्रयान् ।

अशोभत महावेगः समुद्र इव पर्वणि ॥ ४ ॥

इन लोगों के भुँड जो प्ररुन्न होते हुए चले जाते थे, ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे, जैसे पृष्णमासी के दिन समुद्र शोभायमान देख पड़ता है । अर्थात् जैसे समुद्र उमड़ता है, वैसे ही मनुष्यों की भीड़ उमड़ी हुई जा रही थी ॥ ४ ॥

ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि क्रौविदाः ।

करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥

मार्ग बनाने में चतुर लोग अपने दल में मिल कर, फावड़े फुल्हाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयोगी सामान साथ ले, आगे आगे चले ॥ ५ ॥

लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनश्मन एव च ।

जनास्ते चक्रिरे मार्गं छिन्दन्तो विविधान्दुमान् ॥ ६ ॥

वे लोग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से लता, बल्ली, झाड़, खूँटी, पत्थर और अनेक प्रकार के वृत्तों को, जो रास्ते में पड़ते थे, काटकूट कर, रास्ता बनाते जाते थे ॥ ६ ॥

अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्वृक्षानरोपयन् ।

केचित्कुठारैष्ठङ्गैश्च दात्रैश्छिन्दन्कचित्कचित् ॥ ७ ॥

जहाँ कहीं वृक्ष नहीं लगे थे, वहाँ वृक्ष लगाते जाते थे और जहाँ कहीं वृत्तों की घनी डालियाँ रास्ता रोके हुए थीं, वहाँ उनको फुल्हाड़ी फरसे आदि से काट कूट कर एकसा करते जाते थे ॥ ७ ॥

अपरे १वीरणस्तम्बान् २बलिनोवलवत्तराः ।

विधमन्ति ३ स्म दुर्गाणि ४ स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ ॥

कुछ बलवान लोगों ने अत्यन्त मजबूत ढुंढों को, जो उखाड़े नहीं उखड़ सकते थे, जला कर साफ कर दिया और जितने ऊँचे नीचे रास्ते और दुर्गम स्थान थे, उन सब को ठोक पीट कर तथा मिट्टी से पाट कर ठीक कर दिया ॥ ८ ॥

अपरेऽपूरयन्कूपान्पांसुभिः श्वभ्रमायतम् ।

निम्नभागास्ततः केचित्समांश्चक्रुः समन्ततः ॥ ९ ॥

कुछ लोग बीच रास्ते में जो कुएँ और गड़हें आते, उनको मिट्टी से पाटते और नीची भूमि को मिट्टी से भर बराबर करते चले जाते थे ॥ ९ ॥

वचन्धु ५ र्वन्धनीयांश्च ६ क्षोदनीयांश्च चुक्षुदुः\* ।

विभिदुर्भेदनीयांश्च तांस्तान्देशान्बरास्तदा ॥ १० ॥

वे लोग, रास्ते को छोटी नदियों या नालों पर पुल बनाते जाते थे, जहाँ कहीं गोखरू या कंकड़ी आदि पाते उनको बटोर कर फैक देते थे, जहाँ कहीं जल के आने में रुकावट देखते वहाँ के बाँध को तोड़ कर जल निकाल देते थे ॥ १० ॥

अचिरेणैव कालेन परिवाहान्वहूदकान् ।

चक्रुर्वहुविधाकारान्सागरप्रतिमान्वहून् ॥ ११ ॥

१ वीरणस्तम्बान्—वीरणतृणकाण्डान् । ( गो० ) २ बलिनः—हृदमूलान् । ( गो० ) ३ विधिमन्तिस्म—अहन् । ( गो० ) ४ दुर्गाणि—गन्तुमशक्यानि । ( गो० ) ५ छेत्तुमशक्यान् । ( रा० ) ६ र्वन्धनीयान्—जलप्रदेशान् । ( गो० ) ७ क्षोदनीयान्—शर्करा भूयिष्ठ प्रदेशान् । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“क्षोद्यान्सञ्चुक्षुस्ता” ।

बहुत जल्द ही उन लोगों ने थोड़े पानी के स्रोतों का जल रोकने के लिये बांध बांध दिये और कई एक जगहों के तालावों को खोद कर सागर की तरह अगाध जलयुक्त कर दिया ॥ ११ ॥

निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान् ।

१ उदपानान्बहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान् ॥ १२ ॥

और जहाँ जल का अभाव था, वहाँ अनेक नये कुएँ तालाव खोदे और उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिये चबूतरे बना दिये ॥ १२ ॥

स सुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुहः ।

मत्तोद्दुष्टद्विजगणः पताकाभिरलंकृतः ॥ १३ ॥

उन शिल्पियों ने सेना के जाने के रास्ते को चूने की गलों से ठीक कर, सड़क के इधर उधर ऐसे वृक्ष लगा दिये, जिन पर पत्ती बोला करते थे और जगह जगह सड़कों की दोनों ओर पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं ॥ १३ ॥

चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः ।

वहशोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥ १४ ॥

चन्दन के जल के छिड़काव और अनेक प्रकार की फूली हुई लताओं से वह सेना का रास्ता देवमार्ग की तरह सजा दिया गया था ॥ १४ ॥

आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति<sup>२</sup> युक्तास्तेऽधिकृता<sup>३</sup> नराः ।

रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादुफलेषु च ॥ १५ ॥

१ उदपानान्—कूपान् । ( गो० ) २ यथाज्ञप्ति—यथामति । ३ अधिकृताः—मार्गशिविरादिकरणेनियुक्ताः । ( गो० )



जो लोग पड़ावों पर शिविर आदि बनाने के लिये नियुक्त किये गये थे, उन लोगों ने, यथामति रमणीय और अत्यन्त स्वादिष्ट फल वाले वृक्षों से युक्त जगहों पर ॥ १५ ॥

यो निवेशस्त्वभिमतोऽभरतस्य महात्मनः ।

भूयस्तं शोभयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम् ॥ १६ ॥

सेना के उतरने के जिये वैसे ही ध्यान बना दिये, जैसे कि महात्मा भरत जी चाहते थे । फिर उन स्थानों को अनेक प्रकार की सामग्री से सजा भी दिया ॥ १६ ॥

नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः<sup>१</sup> ।

निवेशान्<sup>२</sup>स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

वास्तुशास्त्र (मकान बनाने के शास्त्र के) ज्ञातार्थों ने शुभ नक्षत्र युक्त मुहूर्त्त में महात्मा भरत के लिये शिविर बनाये ॥ १७ ॥

बहुपांसुचया<sup>३</sup>श्चापि परिखापरिवारिताः ।

तवेन्द्रनीलप्रतिमाः प्रतोली<sup>४</sup>वरशोभिताः ॥ १८ ॥

शिविर, इन्द्रनील पर्वत की तरह ऊँचे रेतोले धुस्सों से तथा जलयुक्त खाइयों से घिरवा दिये गये थे और जगह जगह गलियारें बनाई गयी थीं ॥ १८ ॥

प्रासादमालावितताः सौध<sup>५</sup>प्रकारसंवृताः ।

पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः ॥ १९ ॥

१ तद्विदः—वास्तुशास्त्रज्ञाः । ( गो० ) २ निवेशान्—शिवराणि । ( गो० )  
बहुपांसुचयाः—पांसुशब्देनासूक्ष्मसिक्ता उच्यन्ते । ( गो० ) ४ प्रतोली—त्रीयैः ।  
( गो० ) ५ सौधा—राजगृहाणि यद्वासुधाधवल्लिताः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ अभिप्रेतो । ”

सफेद रंग के बड़े ऊँचे ऊँचे देवगृहों के सदृश मकानों की पांति बनाई गयी थी। जितने रास्ते थे, वें सब पताकाओं से सुशोभित किये गये थे ॥ १६ ॥

विसर्पद्भिरिवाकाशे विटङ्काग्रविमानकैः ।

समुच्छ्रितैर्निवेशास्ते वभ्रुः शक्रपुरोपमाः ॥ २० ॥

वहाँ पर सात सात खण्डों के गृहों के ऊपर जो अटारियाँ थीं, वें कवूतरोँ के बैठने की दूतरी की तरह ऊँची थीं। ऊँचे ऊँचे भवनों को देखने से ऐसा जान पड़ता था, मानों आकाश में देवताओं के आवासस्थान बने हों। उस समय उन पड़ावों की शोभा इन्द्र की अमरावती पुरी की शोभा जैसी हो रही थी ॥ २० ॥

जाह्नवीं तु समासाद्य<sup>१</sup> विविधद्रुमकाननाम् ।

शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम् ॥ २१ ॥

भरत जी के लिये, (अयोध्या से लेकर) निर्मल एवं शीतल जल वाली उस गङ्गा तक, जिसमें बड़ी बड़ी मर्लियाँ रहती हैं, जो मार्ग बनाया गया था, उसके अगल बगल तरह तरह के वृक्षों से युक्त अनेक कानन थे। अर्थात् यह मार्ग जङ्गलों में हो कर गया था ॥ २१ ॥

सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा

नभः क्षपायाममलं विराजते ।

नरेन्द्रमार्गः स तथा व्यराजत

क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिर्मितः ॥ २२ ॥

इति अशीतितमः सर्गः ॥

१ समुच्छ्रितैः— उच्चैः । (गो०) २ समासाद्य— अवधीकृत्य । (गो०)

चतुर शिल्पियों द्वारा बनाये गये इस रमणीक राजमार्ग की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसी रात में निर्मल आकाश की चन्द्रमा सहित तारागण से होती है ॥ २२ ॥

अयोध्याकाण्ड का अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:❀:—

## एकाशीतितमः सर्गः

—:०:—

ततो नन्दीमुखी<sup>१</sup> रात्रिं भरतं सूतमागधाः ।

तुष्टुदुर्वाग्विशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंहितैः ॥ १ ॥

[ भव फिर अयोध्या का वृत्तान्त आदिकवि वर्णन करते हैं । ]

जब वह आनन्दमयी ( इसलिये कि श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने का उद्योग आरम्भ हुआ था ) रात थोड़ी बाकी रही, तब मागधों ने माङ्गलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १ ॥

३सुवर्णकोणाभिहतः ३प्राणदद्यामदुन्दुभिः ।

दध्मुः शङ्खांश्च शतशो नादांश्चेच्चावचस्वरान् ॥ २ ॥

पहर भरत रात रहने पर जो नगाड़े बजाये जाते थे, वे सोने की घोंचों ( डंडों ) से बजाये जाने लगे । शङ्खध्वनि होने लगी और नाना स्वर युक्त सैकड़ों बाजे बजने लगे ॥ २ ॥

स तूर्यघोषः सुमहान्दिवमापूरयन्निव ।

भरतं शोकसन्तप्तं भूयः शोकैरवर्धयत्\* ॥ ३ ॥

१ नन्दीमुखी—रामानयनाभ्युदयप्रारम्भशुक्ता । ( गो० ) २ सुवर्णकोणः—सुवर्णदण्डः । ( रा० ) ३ प्राणदत्—नदतिस्थ । ( गो० ) \* पाठान्तरे—  
“शोकैरवर्धयत्” ।

उन वाजों के वजने का शब्द, आकाश में व्याप्त हो, शोक से सन्तप्त भरत जो के शोक को और भी अधिक बढ़ाने लगा ॥ ३ ॥

ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च ।

नाहं राजेति चाप्युक्त्वा शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् ॥ ४ ॥

भरत जो उस शब्द को सुन जागे और यह कह कर कि, मैं राजा नहीं हूँ, उन वाजों का वजना बंद करवाया और शत्रुघ्न से यह बोले ॥ ४ ॥

पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् ।

विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५ ॥

। हे शत्रुघ्न ! देखो, कैकेयी के कहने से इन सूत भागधों ने कैसा अनुचित काम किया है, अथवा हे शत्रुघ्न ! देखो, कैकेयी ने इसलोक का बड़ा अपकार किया है कि, जो महाराज दशरथ मुझे दुःख में डाल, आप स्वयं स्वर्गवासी हो गये ॥ ५ ॥

तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः ।

परिभ्रमति राजश्रीर्नारिवाकर्णिका जले ॥ ६ ॥

उन महात्मा धर्मराज की यह धर्ममूलक राजलक्ष्मी इस समय नाभीहीन नाव की तरह समुद्र में इधर उधर मारी मारी फिर रही है ॥ ६ ॥

यो हि नः सुमहान्नायः सोऽपि प्रव्राजितो वनम् ।

अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघवः स्वयम् ॥७॥

१ कैकेय्या हेतुनतया अप्यनानलोकस्य सूतनागधादिः । ( गो० )

१ अरुहन्तं—अनुचितं कर्म । ( गो० )

पिता की वह दशा हुई, तिस पर, मेरे जो बड़े रत्नक श्रीराम-चन्द्र जी थे, उनको भी इसने (कैकेयी ने) धर्म को त्याग स्वयं वन में भिजवा दिया ॥ ७ ॥

इत्येवं भरतं प्रेक्ष्य विलपन्तं विचेतनम् ।

कृपणं रुरुदुः सर्वाः सस्वरं योषितस्तदा ॥ ८ ॥

इस प्रकार भरत को चेतना रहित प्रलाप करते देख, सब क्रिया करुणा स्वर से रोने लगी ॥ ८ ॥

तथा तस्मिन्विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् ।

सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९ ॥

इस प्रकार से विलाप हो रहा था कि, इतने में राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकुनाथ की सभा में आये ॥ ९ ॥

शातकुम्भमयी<sup>१</sup> रम्यां मणिरत्नसमाकुलाम् ।

सुधर्मासुधर्मात्मा सगणः<sup>२</sup> प्रत्यपद्यत ॥ १० ॥

उस सभाभवन में सुनहला सुन्दर नकाशी का काम किया था और जगह जगह पद्मरागादि मणियाँ जड़ी हुई थीं । जिस प्रकार सुधर्मा नाम के सभाभवन में इन्द्र अपने अनुयायियों सहित प्रवेश करते हैं, वैसे ही इक्ष्वाकुनाथ की सभा के भवन में वशिष्ठ जी ने अपने अनुयायी शिष्यों सहित प्रवेश किया ॥ १० ॥

स काञ्चनमयं पीठं \*पराध्यास्तरणानृतम् ।

अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च ॥ ११ ॥

१ शातकुम्भमयी—स्वर्णमयी । ( गो० ) २ सगणः—सशिष्यगणः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“सुखास्तरणसंवृतम्” ।

और वहाँ सोने के एक सिंहासन पर, जिस पर स्वस्तिकाकार अर्थात् गोल आसन पड़ा था, जा बैठे, और दूतों को आज्ञा दी ॥ ११ ॥

ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्यान्मात्यान्गणवल्हभान्<sup>१</sup> ।

क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२ ॥

कि तुम लोग जा कर, बहुत शीघ्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों और मंत्रियों सेनापतियों को लिवा लाओ । क्योंकि एक बड़ा ज़रूरी काम है ॥ १२ ॥

स राजभृत्यं<sup>२</sup> शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम् ।

युधाजितं<sup>३</sup> सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥१३॥

यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को उनके निज के नौकरों सहित, युधाजित सुमन्त्र आदि मंत्रियों को, तथा और जो कोई वहाँ हित हों, उनको भी शीघ्र बुला लाओ ॥ १३ ॥

ततो हलह्लाशब्दः सुमहान्समपद्यत ।

रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ॥ १४ ॥

कुछ ही देर में दूतों के बुलाये लोग रथों, घोड़ों, और हाथियों पर सवार हो कर आने लगे । उनकी सवारियों के आने का एक प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥

ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः ।

प्रत्यनन्दन्प्रकृतयो यथा दशरथं तथा ॥ १५ ॥

१ गणवल्लभान्—गणाध्यक्षान् । ( गो० ) २ सराजभृत्यं—राजान्तरङ्गभृत्य सहितं । ( गो० ) ३ युधाजितं—युधाजिरिति विजयाख्यमंत्रिणो नामान्तरं सुमन्त्रशब्दसाहचर्यात् । ( गो० )

देवता जिस प्रकार इन्द्र को देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भरत को आते देख मंत्री आदि ऐसे प्रसन्न हुए, मानों वे महाराज दशरथ के समाप्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों ॥ १५ ॥

हृद<sup>१</sup> इव तिमिनागसंवृतः

स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः<sup>२</sup> ।

दशरथसुतशोभिता सभा

सदशरथेव वभौ यथा पुरा ॥ १६ ॥

इति एकाशीतितमः सर्गः ॥

उस समय भरत की उपस्थिति से वह राजसभा उसी प्रकार शोभित हुई, जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मच्छ, नाके, मणियों, शङ्खों, और बालू से सुशोभित होता है। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था, मानों महाराज दशरथ स्वयं सभा में आ कर बैठे हों ॥ १६ ॥

अयोध्याकाण्ड का इक्यासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



द्व्यशीतितमः सर्गः

—: #:—

तामार्यगणसम्पूर्णा<sup>१</sup> भरतः प्रग्रहां<sup>२</sup> सभाम् ।

ददर्श बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रो निशामिव ॥ १ ॥

१ हृदश्च—समुद्रसमीपस्थः । ( गो० ) २ शर्कराशब्देनात्रस्थूलबालुका उच्यते । ( गो० ) ३ प्रग्रहा—नियमवर्ती । ( गो० ) ४ घनापाये—शरदि । ( रा० )

वशिष्ठादि श्रेष्ठ पुरुषों से भरी, भरत द्वारा नियंत्रित सभा को, बुद्धि सम्पन्न भरत जी ने देखा कि, वह पूर्णमासी की रात की तरह शोभायमान है ॥ १ ॥

आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा ।

वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २ ॥

यथायोग्य आसनों पर बैठे हुए तथा अंगराग लगाये और चमकीली भड़कीली पोशाकें पहिने हुए श्रेष्ठ जनों से, वह श्रेष्ठ सभा चमक रही थी । अर्थात् सुशोभित थी ॥ २ ॥

सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुखचिरा तदा ।

अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव शर्वरी ॥ ३ ॥

शरद ऋतु में जिस प्रकार पूर्णमासी के चन्द्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार विद्वज्जनों के सम्मिलित होने से वह सभा परम शोभायुक्त दिखलाई पड़ती थी ॥ ३ ॥

राज्ञस्तु प्रकृतीः सर्वाः समग्राः प्रेक्ष्य धर्मवित् ।

इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत् ॥ ४ ॥

उस समय धर्मज्ञ पुरोहित वशिष्ठ जी ने, महाराज के सब मंत्रिआदि प्रधानों को देख, भरत जी से ये मधुर वचन कहे ॥ ४ ॥

तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् ।

धनधान्यवर्तीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ५ ॥

हे बत्स ! इस धन धान्ययुक्त और समृद्धशालिनी पृथिवी का राज्य तुम्हें दे कर, महाराज दशरथ धर्माचरणपूर्वक स्वर्ग सिधार गये ॥ ५ ॥



रामस्तथा सत्यधृतिः सतां<sup>१</sup> धर्ममनुस्मरन् ।

नाजहात्पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवेदितः ॥ ६ ॥

सत्यव्रतधारी श्रीरामचन्द्र ने पितृभ्राह्माकारी सज्जनों के पितृ-वचन-पालन रूपी धर्म का पालन कर, महाराज की भ्राह्मा का त्याग वैसे ही नहीं किया, जैसे चन्द्रमा चाँदनी का त्याग नहीं करता ॥ ६ ॥

[ नोट—पुत्र की पुत्रता नीचे के श्लोक में बतलायी गयी—

“ जीवतोर्वाक्यकरणात् प्रत्यब्द्भूरिभोजनात् ।

गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ ”

अर्थात् पुत्रोत्पादन करने की आवश्यकता यही है कि, ( १ ) जब तक पिता जीवित रहै तब तक पुत्र अपने पिता को आज्ञा माने ( २ ) पिता के मरने पर प्रतिवर्ष पिता की मरणतिथि को पिण्डदान कर अनेक ब्राह्मणों को भोजन करावे और ( ३ ) गया में जा कर पिण्ड दे कर पिता का उद्धार करे । पुत्र के ये ही तीन मुख्य कर्त्तव्य है । ]

पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम् ।

तद्भ्रुङ्क्ष्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय ॥ ७ ॥

अतएव पिता और भ्राता के दिये हुए इस निष्कण्टक राज्य को तुम भोगे और तुरन्त अपना अभिषेक करवा, अपने मंत्रियों को प्रसन्न करो ॥ ७ ॥

उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः<sup>२</sup> ।

कोल्यापरान्ताः<sup>४</sup> सामुद्रा रत्नान्यभिहरन्तु ते ॥ ८ ॥

१ सतां—पितृनिदेशवर्तिनाम् । ( गो० ) २ धर्म—पितृवचनपरिपालन रूपं । ( गो० ) ३ केवलाः—सिंहासनादिरडिता इत्यपरान्तादि विशेषणं । ४ अपरान्ताः—अपरान्तदेशवासिनोयवनाः । ( गो० )

उत्तर पश्चिम और दक्षिण देशवासी राजा तथा अन्य बेंतिलक के जमींदार तथा पश्चिमान्त सोमावासी यवनादि, तथा द्वीपों के राजा लोग तुमको कराड़ों रक्त भेंट करेंगे ॥ ८ ॥

तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः ।

जगाम मनसा रामं<sup>१</sup> धर्मज्ञो<sup>२</sup> धर्मकाङ्क्षया<sup>३</sup> ॥ ९ ॥

भरत जो गुरु वशिष्ठ के ये वचन सुन, बहुत दुःखी हुए । वंश-परम्परागत ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा होता है—इस कुलधर्म को जानने वाले, भरत जो ने बड़े भाई का अनुगमन करने की आकांक्षा से, श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण किया ॥ ९ ॥

स वाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा ।

विललाप सभामध्ये जगर्हे च पुरोहितम् ॥ १० ॥

उस समय कलहंस की तरह स्वर वाले युवा भरत का गला भर आया, वे विलाप करने लगे और उन्होंने कुलपुरोहित वशिष्ठ जी के इस कथन को सर्वथा अनुचित बतलाया ॥ १० ॥

४ चरितब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य<sup>५</sup> धीमतः<sup>६</sup> ।

धर्मे<sup>७</sup> प्रयतमानस्य को राज्यं मद्भिधो<sup>८</sup> हरेत् ॥ ११ ॥

१ रामं मनसा जगाम्—संस्मारेत्यर्थः । ( गो० ) २ धर्मज्ञः—कुलक्रमागत ज्येष्ठामिषेचनरूपधर्मज्ञः । ( गो० ) ३ धर्मकाङ्क्षया—ज्येष्ठानुवर्तन रूप धर्म-  
लिप्सया । ( गो० ) ४ चरितब्रह्मचर्यस्य—अनुष्ठितगुरुकुलवासस्य । ( गो० )  
५ विद्यास्नातस्य—निखिलवेदाध्ययनानन्तरभाविस्नानकर्मयुक्तस्य । ( गो० )  
६ धीमतः—तदर्थज्ञस्य । ( गो० ) ७ धर्मे प्रयतमानस्य—तदर्थानुष्ठान  
वत्तः । ( गो० ) ८ मद्भिधः—शास्त्रवश्येनादृशः । ( गो० )

भरत जी कहने लगे—हे ब्रह्मन् ! जो श्रीरामचन्द्र जी गुरु-कुल में रह कर, निखिल साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़े हुए हैं और उनका अर्थ भी भली भाँति जानते हैं और तदनुसार अनुष्ठान भी करते रहते हैं, उन श्रीरामचन्द्र जी का राज्य भला मुझ जैसा शास्त्र के मत का जानने वाला, क्योंकर हरण कर सकता है ॥ ११ ॥

[ नेट—शिरामणि टीकाकार ने धर्मप्रयतमानस्य का अर्थ किया है—  
“ वितृप्रतिज्ञा पालने त्रयतमानस्य ” ]

कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः ।

राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि ॥ १२ ॥

महाराज दशरथ से उत्पन्न कोई क्योंकर धर्मानुमोदित दूसरे के राज्याधिकार को अपहृत कर सकता है । केवल यह सारा राज्य ही नहीं, बल्कि मैं स्वयं भी श्रीरामचन्द्र का हूँ । हे पुरोहित जी ! आप जो कुछ कहें, सो धर्मानुमोदित ही कहें ॥ १२ ॥

ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः ।

लब्धुमर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥ १३ ॥

दिलीप और नहुष की तरह जैसे महाराज दशरथ, इस राज्य के अधिकारी थे, वैसे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं ॥ १३ ॥

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि ।

इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपासनः ॥ १४ ॥

यदि मैं आपके कथनानुसार इस राज्य को ग्रहण कर, असाधु सेवित और स्वर्गविरोधी महापाप करूँ, तो सब लोग मुझे इक्ष्वाकु-कुल का नाश करने वाला बतलावेंगे ॥ १४ ॥

यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये ।

इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १५ ॥

मेरी माता जो पापकर्म कर बैठी है—वह भी मुझे पसन्द नहीं है । मैं ( इसके लिये ) वन में बैठे हुए श्रीरामचन्द्र को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ—अर्थात् माता के अनुचित कर्म के लिये क्षमा माँगता हूँ ॥ १५ ॥

राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांबरः ।

त्रयाणामपि लोकानां राज्यमर्हति राघवः ॥ १६ ॥

और उनका अनुगामी होता हूँ । नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा हैं । वे तीनों लोकों का राज्यशासन करने योग्य हैं, उनके लिये इस पृथिवी का राज्यशासन करना कौन बड़ी बात है ॥ १६ ॥

तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः ।

हर्षान्मुमुक्षुरश्रुणि रामे निहितचेतसः ॥ १७ ॥

भरत जी के ऐसे धर्मानुमोदित वचन सुन सब के सब सभासद जिनका मन श्रीरामचन्द्र जी में लगा था, आनन्द के आँसू गिराने लगे ॥ १७ ॥

यदि त्वार्यं न शक्यामि विनिवर्तयितुं वनात् ।

वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥

भरत जी फिर कहने लगे—यदि मैं श्रीरामचन्द्र जी को वन से न लौटा सका, तो मैं उसी वन में श्रीरामचन्द्र जी के पास लक्ष्मण जी की तरह रहूँगा ॥ १८ ॥

सर्वोपायं च वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं वनात्\* ।

समक्षमार्यमिश्राणां<sup>१</sup> साधूनां गुणवर्तिनाम् ॥ १९ ॥

मैं श्रीरामचन्द्र जी को वन से लौटाने के लिये, ( आप सब ) समासनों और अच्छे गुण वाले साधु जनों की उपस्थित ही में, सब प्रकार के उपाय करूँगा । ( अर्थात् आप लोग मेरे साथ चलें और देखें कि, मैं श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिये उपाय करने में कोई कोरकसर नहीं करना ) ॥ १९ ॥

विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकतक्षकाः ।

प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्राऽपि मम रोचते ॥ २० ॥

मैंने पहिले ही बेगारी तथा पारिश्रमिक ले कर काम करने वाले चतुर मार्गशोधकों और बढ़इयों को, रास्ता ठीक करने के लिये भेज दिया है ॥ २० ॥

एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः ।

समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥ २१ ॥

यह कह भ्रातृवत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सजाहं देने में चतुर और पास बैठे हुए सुमन्त्र से कहा ॥ २१ ॥

तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात् ।

यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं वलं चैव समानय ॥ २२ ॥

तुम उठ कर शीघ्र जाओ और सेना को यह जता कर कि, मेरी आज्ञानुसार उनका यहाँ से प्रस्थान करना होगा, तुरन्त अपने साथ लिवा लाओ ॥ २२ ॥

१ आर्यमिश्राणां—सदस्यानां । ( गो० ) २ विष्टिकर्मान्तिकाइति—  
विष्टयो भूतिमन्तरेण जनपदेभ्यः समानीताः कर्मकराः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—  
“बलात्” ।

एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना ।

\*प्रहृष्टः सोऽदिशत्सर्वं यथासंदिष्टमिष्टवत् ॥ २३ ॥

महात्मा भरत जी के ये वचन सुन, सुमंत्र ने प्रसन्न हो भरत जी के आज्ञानुसार सब काम किया ॥ २३ ॥

ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च ।

श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने ॥ २४ ॥

भरत जी की इस आज्ञा को कि, श्रीरामचन्द्र जी को लौटाने के लिये चलना होगा, सुन कर प्रजाजन, तथा सेनापति लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥

ततो योधाङ्गनाः सर्वा भर्तृन्सर्वान्गृहे गृहे ।

यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः ॥ २५ ॥

घर घर, घोड़ाओं की खिया, हर्षित हो कर, अपने अपने पतियों से, श्रीरामचन्द्र को लौटा लाने के लिये वन में जाने की, जल्दी मचाने लगीं ॥ २५ ॥

ते हयैर्गौरयैः शीघ्रैः स्यन्दनैश्चमहाजवैः ।

सह योधैर्वलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन् ॥ २६ ॥

सब सेनाध्यक्षों ने घोड़ों बैलों से खींचे जाने वाले और तेज चलने वाले रथों पर सवार हो समस्त सेना को शीघ्र चलने की आज्ञा दी ॥ २६ ॥

सज्जं तु तद्वलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ ।

रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतोऽब्रवीत् ॥ २७ ॥

\* पाठान्तरे—“ दृष्टस्तदादिशत्सर्वं ” ।

सेना को यात्रा के लिये तैयार देख, गुरुवशिष्ठ को सन्निधि में और अपनी बगल में बैठे हुए सुमन्त्र से कहा कि, मेरा रथ तुरन्त लाओ ॥ २७ ॥

भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृह्य च हर्षितः ।

रथं गृहीत्वा प्रययौ युक्तं परमवाजिभिः ॥ २८ ॥

सुमन्त्र जी “जो आज्ञा” कह और इनके आदेशानुसार प्रसन्न होते हुए गये और बड़े अच्छे घोड़े जोत कर, एक रथ भरत जी के सामने ला खड़ा किया ॥ २८ ॥

स राघवः सत्यधृतिः<sup>१</sup> प्रतापवान्

ब्रुवन्सुयुक्तं<sup>२</sup> दृढसत्यविक्रमः ।

गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं

प्रसादयिष्यन्भरतोऽब्रवीत्तदा ॥ २९ ॥

वे धैर्यवान्, प्रतापी, दृढप्रतिज्ञ और सत्यपराक्रमी भरत जी, महावन में गये हुए यशस्वी श्रीरामचन्द्र को प्रसन्न कर लौटा जाने का विचार कर, सुमन्त्र जी से बोले ॥ २९ ॥

तूर्णं समुत्थाय सुमन्त्र गच्छ

बलस्य योगाय बलप्रधानान् ।

आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं

प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ३० ॥

१ सत्यधृतिः—अप्रच्युतधैर्यः । ( गो० ) २ सुयुक्तं ब्रुवन्—गुरुं प्रसादयिष्यन् । ( गो० )

हे सुमंत्र ! तुम तुरन्त सेनानायकादि, सुहृदों तथा अन्य मुख्य मुख्य प्रजाजनों को तैयार होने की आज्ञा दे। मैं जगत् के कल्याण के लिये श्रीरामचन्द्र को वन से लौटाने के लिये वन जाना चाहता हूँ ३० ॥

स सूतपुत्रो भरतेन सम्य-

गाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः ।

शशास सर्वान्प्रकृतिप्रधाना-

न्वलस्य मुख्यांश्च सुहृज्जनं च ॥ ३१ ॥

भरत जी के वचन सुन, पूर्णकाम सूत सुमंत्र ने प्रजा के मुखियों, सेनाध्यक्षों, तथा सुहृदु जनों से, भरत जी की आज्ञा समझा कर, कह दी ॥ ३१ ॥

ततः समुत्थाय कुले<sup>१</sup> कुले ते

राजन्यवैश्या वृषलाश्च<sup>२</sup> विप्राः ।

अयूयुजनुष्पूरथान्खरांश्च

नागान्दहयांश्चैव कुलप्रभूतान् ॥ ३२ ॥

इति द्वयशीतितमः सर्गः ॥

अनन्तर घर घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने ऊँट, रथ, खच्चर और अन्त्रे जाति के हाथी और घोड़ों को तैयार करने लगे ॥ ३२ ॥

अयोध्याकाण्ड का व्यासीवां सर्ग समाप्त हुआ ।



१ कुले कुले—गृहे गृहे । ( गो० ) २ वृषलाः—शूद्राः । ( गो० )



## त्र्यशीतितमः सर्गः

—: ० :—

ततः समुत्थितः काल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम् ।

प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदर्शनकाङ्क्षया ॥ १ ॥

तदनन्तर सबेरा होते ही भरत जी उठे और सुन्दर रथ पर सवार हो कर, श्रीरामचन्द्र के दर्शन की कामना किये हुए शीघ्रता से रवाना हुए ॥ १ ॥

अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोधसः ।

अधिरूढ हयैयुक्तान्स्थान्मूर्ध्वरथोपमान् ॥ २ ॥

भरत जी के रथ के आगे आगे सब मंत्री और पुरोहित घोड़ों के रथों में, जो सूर्य नारायण के रथ के समान चमकीले थे, बैठ कर चले ॥ २ ॥

नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि ।

अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् ॥ ३ ॥

और अच्छी तरह सजे हुए ६ हजार हाथी इक्ष्वाकुकुलनन्दन भरत जी के रथ के पीछे चले ॥ ३ ॥

षष्ठी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः ।

अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम् ॥ ४ ॥

और साठ हजार रथा में बैठ कर विविध अस्त्रधारी, धनुर्धर यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीछे चले ॥ ४ ॥

शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम् ।

अन्वयुर्भरतं यान्तं सत्यसन्धं जितेन्द्रियम् ॥ ५ ॥

श्रीर घोड़ों पर चढ़े हुए, एक लाख युद्धसवार जितेन्द्रिय एवं सत्यप्रतिज्ञ भरत जी के साथ चले ॥ ५ ॥

कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी ।

रामानयनसंहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६ ॥

कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या जी, श्रीरामचन्द्र जी को लौटा जाने के लिये प्रसन्न हो, परम दीप्तमान् रथों पर चढ़ कर चलीं ॥ ६ ॥

प्रयाताश्चार्यसङ्घाता<sup>१</sup> रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम् ।

तस्यैव च कथारिचित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७ ॥

द्विजातियों के झुण्ड के झुण्ड श्रीरामचन्द्र जी को देखने के लिये ( अयोध्या से ) रवाना हुए । वे लोग आपस में श्रीरामचन्द्र जी ही का विचित्र वृत्तान्त कहते सुनते और प्रसन्न होते हुए चले जाते थे ॥ ७ ॥

मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दृढव्रतम् ।

कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम् ॥ ८ ॥

वे कहते थे कि, हम लोग उन मेघश्याम, महाबाहु, दृढव्रत, स्थिरव्यवसायी और जगत का शोक नाश करने वाले श्रीरामचन्द्र को कब देखेंगे ॥ ८ ॥

१ आर्यसंघाताः— त्रैवर्णिकसंघाः । ( गो० )

दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः ।

तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः ॥ ९ ॥

जैसे सूर्य उदय होते ही त्रिभुवन के अन्धकार को नाश कर देते हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्र जो महाराज अपने दर्शन मात्र से हम लोगों के शोक को दूर करेंगे ॥ ९ ॥

इत्येवं कथयन्तस्ते संप्रहृष्टाः कथाः शुभाः ।

परिष्वजानाश्चन्योन्यं ययुर्नागरिका जनाः ॥ १० ॥

उस समय नगर के रहने वाले, सब लोग आपस में इस प्रकार शुभ कथा कहते और मारे हर्ष के एक दूसरे के गले से भेंटते हुए, चले जाते थे ॥ १० ॥

ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता<sup>१</sup> ये च नैगमाः ।

रामं प्रतिययुर्हृष्टाः सर्वाः प्रकृतयस्तथा ॥ ११ ॥

अयोध्यावासी जिन प्रसिद्ध वनियों को भरत जी ने चलने की आज्ञा दी थी और जिनको आज्ञा नहीं दी थी, वे भी, वनिये तथा अन्य सब प्रजाजन प्रसन्न मन से श्रीरामदर्शनार्थ चले जाते थे ॥ ११ ॥

मणिकाराश्च ये केचित्कुम्भकाराश्च शोभनाः<sup>३</sup> ।

सूत्रकर्मकृतश्चैव ये च शस्त्रोपजीविनः ॥ १२ ॥

प्रजाजनों में से कोई चतुर जड़िया थे, कोई चतुर कुम्हार थे, कोई कपड़ा बिनने वाले कारी थे और कोई हथियार बनाने वाले कारीगर थे ॥ १२ ॥

१ सम्मताः—प्रसिद्धाः । ( १० ) २ प्रकृतयः—श्रेणयः । ( १० )

३ शोभनाः—स्वकार्यदक्षाः । ( १० ) ४ सूत्रकर्मकृतः—तन्तुवायादयः । ( १० )

मायूरकाः क्राकचिका रोचका<sup>१</sup> वेधकास्तथा ।

दन्तकाराः सुधाकारास्तथा गन्धोपजीविनः ॥ १३ ॥

कोई मेरुपट्टी बनाने वाले, कोई शरीर से लकड़ी चोरने वाले और कोई कलईगर थे, अथवा कोई काच की शीशी बनाने वाले, कोई मणियों और मोतियों का बेधने वाले, कोई हाथी दांत का काम बनाने वाले, कोई अस्त्रकारों करने वाले, और कोई गंधी थे ॥ १३ ॥

सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलधावकाः ।

स्नापकोच्छादका<sup>२</sup> वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा ॥ १४ ॥

कोई प्रसिद्ध सुनार थे, कोई कंबल बनाने वाले या धोने वाले थे, कोई शरीर में तेल उबटन कर गर्म जल से स्नान कराने वाले थे, कोई पगचप्पो ( पैर दवाने वाले ) थे, कोई वैद्य थे, कोई घर में धूप दे कर घर का वायु शुद्ध करने वाले थे और कोई कलार ( शराब बेचने वाले ) थे ॥ १४ ॥

रजकास्तुन्नवायाश्च<sup>४</sup> ग्रामघोषमहत्तराः ।

शैलूपाश्च<sup>६</sup> सह स्त्रीभिर्ययुः कैवर्तकास्तथा ॥ १५ ॥

उनमें कोई घोषी थे, कोई दर्जी थे, कोई गांवों के मुखिया थे, कोई अहीरों के मुखिया थे, कोई नट अपनी स्त्रियों सहित थे ( ये नट

१ रोचकाः—काचकृप्यादिकर्तारः इति कतकः । २ स्नापकाः—तैलान्यज्ञादिस्नानकारिणः । ( गो० ) ३ उच्छादकाः—अङ्गमर्दकाः । ( गो० ) ४ तुन्नवायाः—सूच्यालीवनकर्तारः । ( रा० ) ५ ग्रामघोषमहत्तराः—ग्राममहत्तराः घोषमहत्तराश्च । ( गो० ) ६ शैलूपाः—भूमिकाधारिणः स्त्रीजीविनाश्च । ( गो० )

अजीवी होने के कारण ही स्त्रियों सहित गये थे ) और कोई मल्लाह थे ॥ १५ ॥

समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः ।

गोरथैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः ॥ १६ ॥

सहस्रों सदाचारी वेदपाठी ब्राह्मणों जिनका मन श्रीराम में लगा था, ढ़कड़ों पर बैठ भरत जी के पीछे हो लिये थे ॥ १६ ॥

सुवेषाः शुद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपनाः ।

सर्वे ते विविधैर्यानिः शनैर्भरतमन्वयुः ॥ १७ ॥

सब ही सुन्दरवेश बनाये, सुन्दर वस्त्र पहिने और लाल चन्दन लगाये और तरह तरह की सवारियों पर सवार, धीरे धीरे भरत जी के पीछे चले जाते थे ॥ १७ ॥

प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात्केकयीसुतम् ।

भ्रातुरानयने यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम् ॥ १८ ॥

इस प्रकार जब कैकेयीनन्दन एवं भ्रातृवत्सल भरत, श्रीराम-चन्द्र को लौटा लाने के लिये चले, तब सैनिक लोग भी हर्षित होते हुए भरत जी के साथ चले जाते थे ॥ १८ ॥

ते गत्वा दूरमध्वानं स्थयानाश्वकुञ्जरैः ।

समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गिवेरपुरं प्रति ॥ १९ ॥

वे लोग, रथों, पालकियों, ढ़कड़ों आदि सवारियों तथा घोड़ों और हाथियों पर सवार हो, बहुत दूर चलने के बाद, शृङ्गिवेरपुर में गङ्गा जी के तट पर पहुँचे ॥ १९ ॥

यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृतः ।

निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन् ॥ २० ॥

जहाँ पर श्रीरामचन्द्र जी का मित्र गुह, अपनी जाति के लोगों के साथ, सावधानी के साथ, उस देश का पालन करता हुआ निवास करता था ॥ २० ॥

उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चक्रवाकैरलंकृतम् ।

व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१ ॥

भरत जी के पीछे चलने वाली वह सेना चक्रवाकों से सुशोभित मागीरधी गङ्गा के तट पर पहुँच कर, वहीं टिक रही ॥ २१ ॥

निरीक्ष्यानुगतां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम् ।

भरतः सचिवान्सर्वानब्रवीद्वाक्य कोविदः ॥ २२ ॥

बचन बोलने में चतुर भरत जी अपने साथ चलने वाली सेना को टिकी हुई देख व सुखद गङ्गाजल को निहार सब मंत्रियों से कहने लगे ॥ २२ ॥

निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः ।

विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः स्व इदानीमिमां नदीम् ॥२३॥

मैं चाहता हूँ कि, मेरी सेना आज यहीं पर अपने लिये अनुकूल स्थान देख टिके, कल सब इस नदी के पार उतरेंगे ॥ २३ ॥

दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः ।

और्व्यदेहनिमित्तार्थमवतीर्योदकं नदीम् ॥ २४ ॥

मैं चाहता हूँ कि, मैं स्वर्गवासी महाराज दशरथ को, उनकी और्द्धदेहिक क्रिया के निमित्त, कल इस नदी को पार करने के समय जल दूँ अर्थात् गङ्गाजल से तर्पण करूँ ॥ २४ ॥

तस्यैवं ब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः ।

न्यवेशयस्तांश्छन्देन<sup>१</sup> स्वेनस्वेन पृथक्पृथक् ॥ २५ ॥

जब भरत जी ने इस प्रकार कहा, तब मंत्रियों ने “ जो आज्ञा ” कह, बड़ी सावधानी से सब लोगों को उनकी इच्छानुसार अलग अलग टिका दिया ॥ २५ ॥

निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं

चमूँ विधानैः परिवर्हशोभिनीम्<sup>२</sup> ।

उवास रामस्य तदा महात्मनो

विचिन्तयानो भरतो निवर्तनम् ॥ २६ ॥

इति अश्लीतितमः सर्गः ॥

महात्मा भरत जी, महानदी गङ्गा के तट पर यथाविधान पाश्र्वोपयुक्त ( अथवा तंबू, खीमों में ) अपनी सेना को टिका, श्रीरामचन्द्र जी के लौटाने की चिन्ता करते हुए, वहाँ निवास करते हुए ॥ २६ ॥

अयोध्याकाण्ड का तिरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



१ छन्देन—इच्छया । (गो०) २ परिवर्हशोभिनीम्—परिवर्होयात्रोपयुक्त-पटवेऽमाद्युपकरणं । ( गो० )

## चतुरशीतितमः सर्गः

—:०:—

ततो निविष्टां ध्वजिनीं<sup>१</sup> गङ्गामन्वाश्रितां नदीम् ।

निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीन्सन्त्व<sup>२</sup>रितोऽब्रवीत् ॥ १ ॥

भरत जी की चतुरङ्गिनी सेना को गङ्गा जी के किनारे टिकी हुई देख और सशङ्कित हो गुह ने अपनी जाति वालों से कहा ॥१॥

महतीऽयमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते ।

\*तस्यान्तं नाधिगच्छामि मनसाऽपि विचिन्तयन् ॥ २ ॥

यहाँ पर यह बड़ी सेना समुद्र के समान पड़ी हुई देख पड़ती है । मैं कल्पना कर के भी इसका अन्त नहीं पा सकता अर्थात् गणना नहीं कर सकता ॥ २ ॥

यथा तु खलु दुर्बुद्धिर्भरतः स्वयमागतः ।

स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥

मैं समझता हूँ कि, निश्चय ही भरत बुरे चित्तार से स्वयं आये हैं, क्योंकि इस महाकाय रथ पर, कोविदार ( कचनाराकार ) इक्ष्वाकुकुल की ध्वजा, फहरा रही है ॥ ३ ॥

वन्धयिष्यति वा दाशानथ<sup>३</sup> वाऽस्मान्वधिष्यति ।

अथ<sup>४</sup> दाशरथिं रामं पित्रा राज्याद्विवासितम्<sup>५</sup> ॥४॥

१ ध्वजिनी—सेना । ( गो० ) २ संस्वरितः—ससंभ्रमः । ( गो० )  
३ दाशानस्मान् । ( गो० ) ४ अथ—अथवा । ( गो० ) ५ विवासितं—  
दुर्बलं । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ नास्यान्तमधिगच्छामि ” ।



अतः या तो भरत जी मुझे गिरफ्तार करेंगे अथवा मेरा वध करेंगे । अथवा पिता के राज्य से निकाले हुए असहाय दुर्बल श्री-रामचन्द्र जी का वध करेंगे ॥ ४ ॥

सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम् ।

भरतः कैकयीपुत्रो हन्तुं तमुपगच्छति ॥ ५ ॥

सो क्या कैकेयी के पुत्र भरत यह परमदुर्लभ राजश्री को भली भाँति अपने अधिकार में कर लेने के विचार से, कहीं श्रीरामचन्द्र जी को मार डालने के लिये तो नहीं जा रहे ॥ ५ ॥

भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम ।

तस्यार्थकामाः<sup>१</sup> सन्नद्धा<sup>२</sup> गङ्गानूपे प्रतिष्ठत ॥ ६ ॥

परन्तु वह दशरथनन्दन श्रीराम, मेरे स्वामी, अथवा सखा सभी कुछ हैं, अतएव तुम सब लोग श्रीराम के प्रयोजन के लिये, कवच पहिन और हथियार ले, गङ्गा के कढ़ार में तैयार रहो ॥ ६ ॥

तिष्ठन्तु सर्वे दाशाश्च गङ्गामन्वाश्रिता नदीम् ।

बलयुक्ताः<sup>३</sup> नदीरक्षा<sup>४</sup> मांसमूलफलाशनाः ॥ ७ ॥

मेरे अधीन के सब नौकर, सेना सहित, फल, मूल एवं मांस खाते हुए, गङ्गा जी के पास उतारे के घाटों की रक्षा करते रहें ॥७॥

नानां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम् ।

सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत् ॥ ८ ॥

१ अर्थकामाः—प्रयोजन सिद्धिविषयकेच्छावन्तः । (शि०) २ सन्नद्धा—  
धृतकवचाः । ( शि० ) ३ बलयुक्ताः—सेनायुक्ताः । ( गो० ) ४ नदीरक्षाः—  
नदीतरणमार्गरक्षन्तः । ( गो० )

घाटों को रखवाली के लिये गुह ने कहा कि, पांच सौ नावें रहें और उनमें से प्रत्येक नाव पर सौ सौ जवान मछुआह कवच पहिन और हथियार ले, तैयार रहें ॥ ८ ॥

यदा तुष्टु भरतो रामस्येह भविष्यति ।

सेयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति ॥ ९ ॥

यदि भरत जी, श्रीरामचन्द्र के विषय में मुझे सन्तुष्ट जान पड़ेंगे, तो ही उनकी सेना, सकुशल गङ्गा को पार कर सकेगी ॥ ९ ॥

इत्युक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च ।

अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गुहः ॥ १० ॥

इस तरह अपने नौकरों और सैनिकों को सावधान कर, निषादपति गुह मछलियाँ, मांस, और शहद भरत जी को भेंट करने के लिये अपने साथ ले कर, चला ॥ १० ॥

तमायान्तं तु सम्प्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान् ।

भरतायाचचक्षेऽथ विनयज्ञो विनीतवत् ॥ ११ ॥

प्रतापी और विनीतवान् सुमंत्र ने निषाद को आते देख, विनीत भाव से भरत जी से कहा ॥ ११ ॥

एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः<sup>१</sup> परिवारितः ।

कुशलो दण्डकारण्ये<sup>२</sup> वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥ १२ ॥

यह गुह यहाँ का राजा है और अपने सहस्रों विरादरी के लोगों को साथ लिये हुए आता है । यह वृद्ध गुह दण्डकारण्य का घूमने

१ स्थपतिः—प्रभुः । ( गो० ) २ दण्डकारण्येकुशलः—तत्रसञ्चरण समर्थइत्यर्थः । ( गो० )

फिरने वाला होने के कारण, वहाँ का रत्ती रत्ती हाल जानता है और तुम्हारे भाई श्रीरामचन्द्र का मित्र है ॥ १२ ॥

तस्मात्पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुहः ।

असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ १३ ॥

अतः हे काकुत्स्थ ! तुम निषादों के राजा गुह से भेंट करो । क्योंकि निश्चय ही यह वह स्थान जानता है, जहाँ वे दोनों श्रीराम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं ॥ १३ ॥

एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद्भरतः शुभम् ।

उवाच वचनं शीघ्रं गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४ ॥

सुमंत्र से ये शुभ वचन सुन, भरत बोले कि, अच्छा, गुह से तुरन्त जा कर कहो कि, वह मुझसे मिले ॥ १४ ॥

लब्ध्वाभ्यनुज्ञां संहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः ।

आगम्य भरतं प्रहो गुहो वचनमब्रवीत् ॥ १५ ॥

भरत को आज्ञा पा, गुह अपने जाति बिरादरी के लोगों के साथ, भरत जी के पास आ, प्रसन्न होता हुआ बोला ॥ १५ ॥

निष्कुटश्चैव<sup>१</sup> देशोज्यं वञ्चिताश्चापि<sup>२</sup> ते वयम् ।

निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस ॥ १६ ॥

हे प्रभो ! यह देश आपके घर की चाटिका ( नजरवाग ) के तुल्य है । आपने अपने आने की सूचना हमें नहीं दी ; अतः हम

१ निष्कुट—गृहारामभूतः । ( गो० ) २ वञ्चिताः—अत्र गमनानिवेदनेन वञ्चिता इत्यर्थः । ( गो० )

लाग आपका यथाविधि स्वागत करने से वञ्चित रहे । यह सम्पूर्ण राज्य आपका है और हम सब भी आपके हैं । अतः आप अपने हास के घर में वास कीजिये ॥ १६ ॥

अस्ति मूलं फलं चैव निपादैः समुपाहृतम् ।

आर्द्रं च मांसं शुष्कं च वन्यं चोच्चावचं महत् ॥१७॥

निपाद लोगों के लाये हुए फल मूल, ताज़ा और सूखा मांस तथा वन में उत्पन्न होने वाली अन्य थोड़ी बहुत भक्ष्य वस्तुएँ ये उपस्थित हैं ॥ १७ ॥

आशंसैः स्वाशिताः सेना वत्स्यतीमां विभावरीम् ।

अर्चितौ विविधैः कामैः श्वः ससैन्यो गमिष्यसि ॥१८॥

इति चतुरशीतितमः सर्गः ॥

मेरी प्रार्थना है कि, आज सेना मेरे यहाँ अच्छी तरह (मेरे अर्पण किये हुए) भोजन कर, रात भर यहीं रहे और हम लोग यहाँ हर तरह से सेवा करें । तदनन्तर आप सेना सहित कल यात्रा करें ॥ १८ ॥

अयोध्याकाण्ड का चौरासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❖:—

पञ्चाशीतितमः सर्गः

—:०:—

एवमुक्तस्तु भरतो निपादाधिपतिं गुहम् ।

प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्यसंहितम् ॥ १ ॥

१ आशंसैः—प्रार्थयामि । (गो०) २ स्वाशिता—सुष्टुभोजिता । (गो०)

निषादाधिपति गुह के वचन सुन, महाप्राज्ञ भरत ने अपना अभिप्राय जनाने के लिये युक्तियुक्त वचन कहे ॥ १ ॥

ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे ।

यो मे त्वमीदृशीं सेनामेकोऽभ्यर्चितुमिच्छसि ॥ २ ॥

हे ज्येष्ठ भ्राता के मित्र ! तुम जो अकेले ही मेरी इतनी बड़ी सेना की पट्टुनाई करना चाहते हो—सो यह तो निश्चय ही तुम्हारा बड़ा भारी मनोरथ है । ( अर्थात् तुम्हारे इस आदर से ही हम अपने को सत्कारित मानते हैं ) ॥ २ ॥

इत्युक्त्वा तु महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् ।

अब्रवीद्भरतः श्रीमान्निषादाधिपतिं पुनः ॥ ३ ॥

परम तेजस्वी श्रीमान् भरत जो गुह से इस प्रकार श्रेष्ठ वचनों द्वारा बातचीत कर, फिर बोले ॥ ३ ॥

कतरेण? गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह ।

गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपोऽ दुरत्ययः ॥ ४ ॥

हे निषादराज ! भला यह तो बतलाओ कि, हम किस मार्ग से भरद्वाज के आश्रम को जायँ । क्योंकि हम देखते हैं कि, यह गङ्गा का जलप्रायदेश अत्यन्त दुष्प्रवेश्य अथवा दुर्गम है ॥ ४ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ।

अब्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ ५ ॥

१ कतरेण—केनमार्गेण । ( गो० ) २ भृशंगहनः—अत्यन्तदुष्प्रवेशः । ( गो० ) ३ अनुपोदेशः—जलप्रायोदेशः । ( गो० )

शुद्धिमान राजकुमार भरत का यह प्रश्न सुन, सब दुर्गम स्थानों का रास्ता जानने वाला गुह, हाथ जोड़ कर, भरत जी से बोला ॥ ५ ॥

दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहिताः ।

अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ ॥

हे महायशस्वी राजकुमार ! आप इसके लिये कुछ भी विन्ता न करें। जो इस प्रान्त का रत्नी रत्नी हाल जानते हैं, वे आपकी रखवाली के लिये धनुष बाण ले, वड़ी सावधानता पूर्वक आपके साथ आयेंगे और मैं स्वयं भी आपके पीछे पीछे चलूँगा ॥ ६ ॥

कच्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः ।

इयं ते महती सेना शङ्खां जनयतीव मे ॥ ७ ॥

किन्तु, आपकी इस विशाल सेना को देख, मेरे मन में यह सन्देह उत्पन्न हो गया है कि, कहीं आप अक्लिष्टकर्मा श्रीराम के पास किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे ॥ ७ ॥

तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः ।

भरतः श्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत् ॥ ८ ॥

गुह के ऐसा कहने पर आकाश की तरह निर्मल स्वभाव के भरत जी निपाद से (ऐसा सन्देह करने के लिये नाराज़ हो कर कड़े वचन नहीं बोले, प्रत्युत ) मधुर वचन बोले ॥ ८ ॥

मा भूत्स कालो यत्कष्टं न मां शङ्कितुमर्हसि ।

राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥ ९ ॥

हे गुह ! वह बुरा समय न आवे, जब मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो जाय । तुमको भी मेरे सम्बन्ध में ऐसा अनुचित सन्देह करना उचित नहीं । क्योंकि मैं तो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ ॥ ९ ॥

तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम् ।

बुद्धिरन्या न ते कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १० ॥

हे गुह ! मैं तो वनवासी श्रीरामचन्द्र को लौटाने के लिये जा रहा हूँ । इस सम्बन्ध में तुमको अन्यथा न समझना चाहिये । मैं यह बात तुमसे सत्य ही सत्य कहता हूँ ॥ १० ॥

स तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम् ।

पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११ ॥

भरत जी के यह वचन सुन, गुह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो, पुनः भरत जी से कहने लगा ॥ ११ ॥

धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले ।

अयन्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२ ॥

हे भरत ! आप धन्य हैं । आपके समान इस धराधाम पर मुझे दूसरा कोई नहीं देख पड़ता । क्योंकि, आप बिना प्रयत्न किये हाथ लगे हुए राज्य का, त्याग करना चाहते हैं ॥ १२ ॥

शाश्वती खलु ते कीर्त्तिलोकाननुचरिष्यति ।

यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥

निश्चय ही आपकी यह कीर्ति सदा इस लोक में बनी रहैगी । क्योंकि आप कष्ट पाते हुए श्रीराम को लौटा लाना चाहते हैं ॥ १३ ॥

एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा ।

वभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४ ॥

इस प्रकार गुह की भरत से बातचीत हो रही थी कि, इतने में सूर्य का प्रकाश नष्ट हो गया ( अर्थात् सूर्य अस्त हो गये ) और रात हो गई ॥ १४ ॥

सन्निवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः ।

शत्रुघ्नेन सह श्रीमाञ्जयनं पुनरागमत् ॥ १५ ॥

गुह की बातचीत और खातिरदारी से सन्तुष्ट हो भरत जी, अपनी सेना को टिका कर, शत्रुघ्न सहित पुनः लौटने को चले गये ॥ १५ ॥

[ “ शयनं पुनरागमत् ” से जान पड़ता है कि, गुह से भेंट करने के पूर्व भी भरत जी लेटे हुए आराम कर रहे थे । ]

रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः<sup>१</sup> ।

उपस्थितो ह्यनर्हस्य<sup>२</sup> धर्मप्रेक्षस्य<sup>३</sup> तादृशः<sup>४</sup> ॥ १६ ॥

परन्तु दुःखी न होने के योग्य उन भरत जी को भी, जो बड़े धैर्यवान् थे, तथा शोकमूलक पाप से शून्य थे, श्रीरामचन्द्र जी के चिन्तारूपी अति दुस्सह शोक ने घेर लिया ॥ १६ ॥

अन्तर्दाहेन दहनः सन्तापयति राघवम् ।

वनदाहाभिसन्तप्तं<sup>५</sup> गूढोऽग्निरिव<sup>६</sup> पादपम् ॥ १७ ॥

१ महात्मन—महाधीरस्यापि । ( गो० ) २ अनर्हस्य—नशोकयोग्यस्य । ( शि० ) ३ धर्मप्रेक्षस्य—शोकमूलपापशून्यस्य । ( गो० ) ४ तादृशः—अति-दुस्सहः । ( शि० ) ५ सन्तप्तं—शुष्कं । ( गो० ) ६ गूढोऽग्निरिव—कोटराग्निरिव । ( गो० )



और वह शोकरूपी आग भरत जी को भीतर ही भीतर उसी प्रकार दग्ध करने लगी, जिस प्रकार वनाग्नि से सूखे हुए पेड़ को उसके खोड़र को आग दग्ध करती है ॥ १७ ॥

प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसम्भवम् ।

यथा सूर्याशुसन्तप्तो हिमवान्प्रसृतो हिमम् ॥ १८ ॥

शोकाग्नि से उत्पन्न पसीना, भरत जी के सारे शरीर से उसी प्रकार निकलने लगा, जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से पिघल कर हिमालय से बर्फ गिरता है ॥ १८ ॥

[ आदि कवि ने भरत के शोक की उपमा पर्वत से दी है—वे कहते हैं ]

ध्याननिर्दरशैलेन विनिःश्वसितधातुना ।

दैन्यपादपसङ्गेन शोकायासाधिःशृङ्गिणा ॥ १९ ॥

भरत के शोक रूपी पर्वत की, श्रीरामचन्द्र जी का उत्सुकता पूर्वक ध्यान ही मानों झिद्ररहित शिजाएँ हैं, बारबार लिये हुए दीर्घ श्वास मानों गेरुआदि की धाराएँ हैं, दीनता मानों पेड़ों का समूह है, और शोक से उत्पन्न हुई मन की थकावट, मानों उस पर्वत के शृङ्ग ( चोटियाँ ) हैं ॥ १९ ॥

प्रमोहानन्तसत्त्वेन सन्तापौषधिवेणुना ।

आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २० ॥

और अत्यन्त मोह ही मानों अनेक वनैले जीव जन्तु हैं, तथा सन्ताप उस पर्वत की औषधियाँ तथा वाँस हैं। ऐसे दुःखरूपी पर्वत के नीचे कैकेयीनन्दन भरत दब गये ॥ २० ॥

---

१ शोकायासाधि—शोकजाचित्तग्रान्तयः । ( १० ) २ अनन्तसत्त्वानि—  
वन्यप्राणिनायस्मिंस्तेन । ( १० )

विनिःश्वसन्वै भृशदुर्मनास्ततः

प्रमूढसंज्ञः परमापदं गतः ।

शमं न लेभे हृदयज्वरार्दितो

नरर्षभो यूथगतो यथर्षभः ॥ २१ ॥

इस प्रकार भरत जी के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आयी—वे ऊँची साँसे लेने लगे और बहुत उदास हो गये। उनको अपने शरीर की सुध न रही। वे मानसिक जोकज्वर से अत्यन्त पीड़ित थे। वे, अपनी हेड़ से विछुड़े हुए बैल की तरह, किसी प्रकार भी शान्ति न पा सके ॥ २१ ॥

१ गुहेन सार्धं भरतः समागतो

महानुभावः सजनः२ समाहितः३ ।

सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुनः

गुहः समाश्वासयदग्रजं प्रति ॥ २२ ॥

इति पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥

गुह से आलिङ्गन किये हुए भरत को, जो श्रीरामचन्द्र जी के वनगमन के कारण बहुत उदास थे, गुह ने अपने भाईवंदों सहित एकाग्रचित्त हो, पुनः धीरे धीरे समझाया ॥ २२ ॥

अयोध्याकाण्ड का पचासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।



१ गुहेनसार्धं समागतः—गुहेनआलिङ्गितोयोभरतः । (शि०) २ सजनः—  
सपरिवारः । ( गो० ) ३ समाहितः—एकाग्रचित्तः । ( गो० )

## षडशीतितमः सर्गः

—:०:—

आचक्षेऽथ सद्भार्वं लक्ष्मणस्य महात्मनः ।

भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १ ॥

अनन्तर दुर्गम वन में रहने वाले गुह, अमित गुणशाली भरत जी से, श्रीरामचन्द्र जी के प्रति महात्मा लक्ष्मण जी का जो सद्भाव ( प्रीति ) या वह कहने लगे ॥ १ ॥

तं जाग्रतं भ्रुणैर्युक्तं वरचापेषुधारिणम् ।

भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमब्रवम् ॥ २ ॥

हे प्रभो ! जब भाई की रखवाली के लिये तीर और कमान लें कर, भ्रातृभक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रहे थे, तब मैंने उनसे कहा ॥ २ ॥

इयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता ।

प्रत्याश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥

हे तात ! आपके सोने के लिये यह सुख की देने वाली सेज तैयार है, हे राघवनन्दन ! आप सुख से इस पर सोइये ॥ ३ ॥

उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः ।

धर्मात्मस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम् ॥ ४ ॥

आप तो सुख पाने के योग्य हैं । दुःख तो सहने योग्य हम लोग हैं । सो हम लोग श्रीरामचन्द्र की रखवाली के लिये जागते रहेंगे ॥४॥

---

१ गुणैः—भ्रातृभक्त्यादिगुणैः । ( गो० )

न हि रामात्प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन ।

मेत्सुकोऽभूर्ब्रवीम्येतदप्यसत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥

( यह मत समझना कि, हम रखवाली करने में असावधानी करेंगे, क्योंकि ) इस संसार में श्रीरामचन्द्र जी से बड़-कर प्रिय मेरे लिये और दूसरा कोई नहीं है । मैं आपके सामने यह बात सत्य ही कहता हूँ । आप श्रीरामचन्द्र को रखवाली के लिये ज़रा भी किसी बात की चिन्ता न करें ॥ ५ ॥

अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहद्यवः ।

धर्मावाप्तिं च विपुलामर्यावाप्तिं च केवलाम् ॥ ६ ॥

श्रीरामचन्द्र ही की कृपा से मैं इस लोक में बड़े यश की और विपुल धर्म तथा कामोपार्जित धन पाने की आशा करता हूँ ॥ ६ ॥

सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया ।

रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैर्ज्ञातिभिः सह ॥७॥

अतः हे लक्ष्मण ! मैं धनुष ले कर अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्र जी को, जो सीता सहित सो रहे हैं, अपना विरादरो के साथ रक्षा करूँगा ॥ ७ ॥

न हि मेऽविदितं किञ्चिदनेऽस्मिन्श्वरतः सदा ।

चतुरङ्गं त्वपि बलं प्रसहेम वयं युधि ॥ ८ ॥

इस प्रान्त का रत्ती रत्ती हाल मुझे मालूम है । क्योंकि मैं यहाँ के वन में सदा घूमा फिरा ही करता हूँ । कदाचित् श्रीराम के

ऊपर आक्रमण करने को चतुरङ्गिनी सेना भी आ जाय, तो भी मैं युद्ध में एक बार उसे रोक सकता हूँ ॥ ८ ॥

एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना ।

अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ ९ ॥

हे प्रभो ! मेरी ये बातें सुन, धर्म में निष्ठा रखते हुए महात्मा लक्ष्मण जी, हम सब को यह सिखाने लगे ॥ ९ ॥

कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया ।

शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥१०॥

जब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, सीता जी सहित पृथिवी पर पड़े सो रहे हैं, तब मैं किस तरह इस सुखसेज पर सो सकता हूँ । मैं प्राणों को कैसे रख सकता हूँ (और प्राणों को सुख देने वाले), सुखों को कैसे भोग सकता हूँ । ॥ १० ॥

यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि ।

तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥

देखो न जिन श्रीरामचन्द्र के सामने युद्ध में क्या देवता और क्या असुर कोई भी नहीं डहर सकता, वे ही श्रीराम, सीता सहित घासफूस के विस्तरे पर पड़े हैं ॥ ११ ॥

महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः ।

एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः ॥ १२ ॥

बड़ी तपस्या करने के बाद और विविध प्रयत्न करके महाराज दशरथ ने अपने जैसे लक्षणों वाला यह एकमात्र पुत्र पाया है ॥ १२ ॥

अस्मिन्प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति ।  
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३ ॥

अतएव मैं कह सकता हूँ कि, इनको वन में भेज, महाराज बहुत दिनों जीवित न रह सकेंगे और निश्चय ही यह पृथिवी शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ १३ ॥

विनद्य मुमहानादं श्रमेणोपरताः त्रियः ।  
निर्योषोपरतं नूनमद्य राजानिवेशनम् ॥ १४ ॥

स्त्रियाँ उच्चस्वर से रोते रोते यज्ञ कर अब चुप हो गयी होंगी और अब राजनवन में सन्नाटा छाया होगा ॥ १४ ॥

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम ।  
नाशसे यदि जीवेयुः सर्वे ते शर्वरीमिमाम् ॥ १५ ॥

मुझे आशा नहीं कि, महाराज, कौशल्या और मेरी माता आज की रात में जीवित बच जाय ॥ १५ ॥

जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्वान्वेषय्या ।  
दुःस्विता या तु कौसल्या वीरमूर्तिनिशिष्यति ॥ १६ ॥

सम्भव है शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा करती हुई मेरी माता जीवते रहे, परन्तु वीरप्रतापिनी माता कौशल्या का इस दुःख से जीवित रहना असम्भव है ॥ १६ ॥

अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् ।  
राज्ये राममनिशिष्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १७ ॥

महाराज पिता जी का कितने दो दिनों से मनोरथ था कि, श्रीरामचन्द्र को राज्य सिंहासन पर बैठावें, किन्तु अब उनका यह मनोरथ उनके मन ही में चला जायगा ॥ १७ ॥

सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन्काले ह्युपस्थिते ।

प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् ॥ १८ ॥

जब मेरे पिता जी प्राणत्याग देंगे, तब जो उनके शव को दग्ध करेंगे, वे अपना जन्म सफल करेंगे ॥ १८ ॥

रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम् ।

हर्म्यप्रासादसम्पन्नां सर्वरत्नविभूषिताम् ॥ १९ ॥

जिस पुरी के चबूतरे और वैठक बड़े सुन्दर बने हैं, जिसमें मनोहर राजमार्ग हैं और जिसमें अच्छे अच्छे ऊँचे मकान सुशोभित हैं और जो सर्वप्रकार के रत्नों से भूषित हैं ॥ १९ ॥

गजाश्वरथसम्वाधां तूर्यनादविनादिताम् ।

सर्वकल्याणसम्पूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २० ॥

जो हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण है, जिसमें विविध भोगों के तुरही भेरी आदि वाजे बजा करते हैं और जिसमें सब प्रकार का सुख है और जो हृष्ट पुष्ट जनों से भरी है ॥ २० ॥

आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशाळिनीम् ।

सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१ ॥

जो वाटिकाओं और उपवनों से भूषित है, समार्य और उत्सव जहाँ सदा होते ही रहते हैं—ऐसी मेरे पिता की राजधानी में, जो लोग सुखी हो कर विचरेंगे, वे ही लोग धन्य हैं ॥ २१ ॥

अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयम् ।

निवृत्ते समये ह्यस्मिन्सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥

हे गुह ! चौदहवर्ष वीतने पर इस व्रत को पालन कर, क्या हम लोग भी सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुशलपूर्वक अयोध्या-पुरी में सुख से प्रवेश करेंगे ? ॥ २२ ॥

परिदेवयमानस्य तस्यैव सुमहात्मनः ।

तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥ २३ ॥

गुह ने कहा—हे भरत ! राजकुमार और महात्मा लक्ष्मण जी तोर कमान हाथ में ले, खड़े रहे और इस प्रकार विलाप करते ही करते व खड़े ही खड़े सबेरा हो गया ॥ २३ ॥

प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभौ ।

अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं सन्तारितौ मया ॥ २४ ॥

प्रातःकाल सूर्य के उदय होने पर दोनों भाइयों ने, इन्हीं भागीरथी के तट पर, जटा बनाई । तब मैंने बड़े आराम से उनको पार उतारा ॥ २४ ॥

जटाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ

महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ ।

वरेशुचापासिधरौ परन्तपौ

व्यवेक्षमाणौ सह सीतया गतौ ॥ २५ ॥

इति एकाशीतितमः सर्गः ॥

महाबली, तेजस्वी और शत्रुओं के दमन करने वाले वे दोनों भाई, सीता को साथ ले और मस्तक पर जटा बनाये, वृत्त के



द्विलकों के वस्त्र पहिने हुए, तरकस और धनुष धारण किये हुए तथा मेरी ओर देखते हुए, गजराज की तरह चले गये ॥ २५ ॥

अयोध्याकाण्ड का द्वियालीवां सर्ग पूरा हुआ ।

—:❖:—

## सप्ताशीतितमः सर्गः

—:०:—

गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृशमप्रियम् ।

ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र<sup>१</sup> तच्छ्रुतमप्रियम् ॥ १ ॥

भरत जी ने ज्योंही गुह के ऐसे दुःखप्रद वचन सुने त्योंही, वे श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करने लगे ॥ १ ॥

सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः ।

पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः ॥ २ ॥

तदनन्तर सुकुमार, बड़ी भुजाओं वाले, केहरी के समान कंधे वाले, महाधैर्यवान्, कमलनयन, तरुण और मनोहर दर्शन वाले ॥२॥

प्रत्याश्वस्य मुहूर्तं तु कालं परमदुर्मनाः ।

पपात सहसा<sup>२</sup> तोत्रैर्ह<sup>३</sup>तिविद्ध इव द्विपः ॥ ३ ॥

भरत जी, जब दो घड़ी बाद सचेत हुए, तब बहुत उदास हो, हृदय में अङ्गुश खायें हुए हाथों की तरह अचानक मूर्च्छित हो, पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३ ॥

१ यत्रतत्रैव—यत्रक्षणेअप्रियं श्रुतं तत्रैवेत्यर्थः । ( गो० ) २ तोत्रैः—  
अङ्गुशैः । ( रा० ) ३ हृदि—हृदयदेशे । ( रा० )

तदवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नोऽनन्तरस्थितः ।

परिष्वज्य रुरोदोच्चैर्विसंज्ञः शोककर्षितः ॥ ४ ॥

भरत जी की ऐसी दशा देख, निरन्तर भरत जी के पास रहने वाले शत्रुघ्न जी अत्यन्त दुःखित एवं संज्ञाहीन हो, भरत जी के शरीर से लिपट कर, उच्चस्वर से विलाप कर राने लगे ॥ ४ ॥

ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः ।

उपवासकृशा दीना भर्तुर्व्यसनकर्षिताः ॥ ५ ॥

तब भरत जी की सब माताएँ, जो उपवास करने के कारण शरीर से कृश और पति की मृत्यु होने से शोकातुर हो रही थीं, (भरत जी को मूर्छित हुआ सुन) उनके पास दौड़ी हुईं गयीं ॥ ५ ॥

ताश्च तं पतितं भूमौ रुदन्त्यः पर्यवारयन् ।

कौशल्या २ त्वनुसृत्यैनं दुर्मनाः परिष्वजे ॥ ६ ॥

और भरत जी को भूमि पर (मूर्छित) पड़ा देख, वे उनको चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गयीं। कौशल्या ने भरत जी के निकट जा और अधिक विकल हो, भरत जी को उठा कर अपने हृदय से लगा लिया ॥ ६ ॥

वत्सला स्व यथा ३ वत्समुपगृह्य तपस्विनी ।

परिपप्रच्छ भरतं रुदन्ती शोककर्षिता ॥ ७ ॥

---

१ अनन्तरस्थितः—निरन्तरसमीपस्थितः । ( रा० ) २ अनुसृत्य—समीप प्राप्य । ( गो० ) ३ उपगृह्य—परिष्वज्य । ( गो० )

तदनन्तर पुत्रवत्सल एवं तपस्विनी कौशल्या, अपने निज गर्भजात पुत्र के समान, भरत जी को अपने हृदय से लगा, शोकाकुल हो, रो रो कर उनसे पूँछने लगी ॥ ७ ॥

पुत्र व्याधिर्न ते कच्चिच्छरीरं परिवाधते ।

अद्य राजकुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम् ॥ ८ ॥

बेटा ! क्या तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी उठ खड़ी हुई है ? देखो, अब इस राजकुल का जीना मरना तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है ॥ ८ ॥

त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते ।

वृत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥ ९ ॥

हे वत्स ! लक्ष्मण जी को साथ ले श्रीरामचन्द्र तो वन में चले ही गये, अब तो मैं तुम्हारा ही मुख देख कर जी रही हूँ । अब महाराज दशरथ के बाद, एक तुम्हीं हम लोगों के रक्षक हो ॥ ९ ॥

कच्चिन्नु लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किञ्चिदप्रियम् ।

पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥ १० ॥

हे बेटा ! लक्ष्मण जी के बारे में तो तुमने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी ? अथवा मेरे एकमात्र पुत्र, जो स्त्री सहित वन में गया है, उसके विषय में तो कोई अमङ्गल समाचार नहीं सुना ? ॥ १० ॥

स मुहूर्तात्समाश्वस्य\* रुदन्नेव महायशाः ।

कौसल्यां परिसान्त्वयेदं गुहं वचनमब्रवीत् ॥ ११ ॥

महायशस्वी भरत जी दो घड़ी बाद सचेत हुए । तब उन्होंने रुदन करती हुई कौशल्या को धीरज बंधाया और गुह से कहने लगे ॥ ११ ॥

\* पाठान्तरे—“ स मुहूर्तं समाश्वस्य ” ।

भ्राता मे कावसद्रात्रौ क सीता क च लक्ष्मणः ।

अस्वपच्छयने कस्मिन्कि भुक्त्वा गुह शंस मे ॥ १२ ॥

हे गुह ! मेरे भाई श्रीराम ने रात कहीं बिताई थी, उन्होंने भोजन क्या किया था और किस दिव्यीने पर वे सोये थे ; सीता और लक्ष्मण कहीं रहे थे ? तुम मे सब वृत्तान्त मुझसे कहो ॥ १२ ॥

सोऽब्रवीद्भरतं हृष्टो<sup>१</sup> निषादाधिपतिर्गुहः ।

यद्विधं<sup>२</sup> प्रतिपेदे<sup>३</sup> च रामे प्रियहितेऽतिथौ ॥ १३ ॥

निषादराज गुह ने, प्रसन्न हो, ( प्रसन्न इसलिये कि उसे श्रीराम जी के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ ) श्रीराम जैसे प्रिय और हितैषी अतिथि का जैसा सत्कार किया था—सो कहा ॥ १३ ॥

अन्नमुच्चावचं<sup>४</sup> भक्षाः फलानि विविधानि च ।

रामायाभ्यवहारार्थं बहु चोपहृतं मया ॥ १४ ॥

हे भरत ! मैंने तरह तरह के अन्न, भक्ष्य, और बहुत से फल मूल ला कर भोजन करने के लिये श्रीराम के आगे रखे थे ॥ १४ ॥

तत्सर्वं<sup>५</sup> प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः ।

न तु तत्प्रत्यगृह्णात्स क्षत्रधर्मं<sup>६</sup> अनुस्मरन् ॥ १५ ॥

१ गुहः हृष्टः—रामवृत्तान्तकीर्तनस्यावकाशोच्छ्रितिसंजातहर्षःसन् । ( गो० ) २ रामे यद्विधं—यादृशमुपचारादिकं । ( गो० ) ३ प्रतिपेदे—भक्षरोदिति । ( गो० ) ४ उच्चावचं—अनेकविधं । ( शि० ) ५ प्रत्यनुज्ञासीत्—मदनुग्रहार्थमेव लभन्नीकृत्यपुनर्महामेव दत्तवान् । ( रा० ) ६ क्षत्रधर्मं—भागीरथी तीरं तत्रयोधर्मः अन्यदीयवस्तुग्रहणाग्निघृत्तिस्तं । ( शि० )

किन्तु सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने मुझ पर अनुग्रह करने के लिये सब चीजें वचन मात्र से ग्रहण कीं और मुझे क्षत्रिय धर्म का स्मरण करा कर ( कि गङ्गा के तट पर क्षत्रियों को किसी को दी हुई वस्तु ग्रहण करना अनुचित है ) वे सब वस्तुएँ मुझको लौटा दीं ॥ १५ ॥

[ नोट—किसी किसी टीकाकार का मत है कि, श्रीरामचन्द्र के उपवास करने का कारण तीर्थविधि का पालन था—अर्थात् तीर्थ में जा कर प्रथम दिन उपवास करना चाहिये । इसी लिये उन्होंने गुह की भेंट ग्रहण नहीं की थी । किन्तु आगे के श्लोक से यह अनुमान सिद्ध नहीं होता । ]

न ह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा ।

इति तेन वयं राजन्ननुनीता महात्मना ॥ १६ ॥

और मुझसे कहा—हे सखे ! हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है कि, सदा सब को सब कुछ दिया तो करें, किन्तु जें कुछ भी नहीं । हे राजन् ! उन महात्मा श्रीराम ने हम लोगों से यह कहा ॥ १६ ॥

लक्ष्मणेन समानीतं पीत्वा वारि महामनाः\* ।

औपवास्यं तदाऽकार्षीद्राघवः सह सीतया ॥ १७ ॥

महामना श्रीराम, लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल, सीता सहित पी कर, उस रात उपवास करके रह गये ॥ १७ ॥

ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा ।

२वाग्यतास्ते त्रय सन्ध्यांः समुपासत संहिताः† ॥१८॥

१ अनुनीता—प्रत्युक्ता । शि० ) २ वाग्यतः—नियनवाचः । ( गो० )

३ सीतायाःअविसन्ध्यायांध्यानजपादिकमत्स्येव । ( गो० ) ४ संहिताः—समाहिताः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“महायज्ञः” ।

तदनन्तर लक्ष्मण जी ने भी, जो जल वच रहा था, सो पी लिया । तदनन्तर तीनों ने मौन और एकाग्रचित्त हो, सन्ध्यावन्दन किया ॥ १८ ॥

[ नोट—तीनों ने सन्ध्योपासन किया । तीन की संख्या में किसी किसी ने तो श्रीराम, लक्ष्मण और सुमंत्र की गणना की है, और किसी ने श्रीराम, लक्ष्मण और सीता की । जिस प्रकार सूतजातीय होने के कारण सुमंत्र को शास्त्रतः वैदिक सन्ध्योपासन करने का निषेध हो सकता है, उसी प्रकार स्त्रीजाति की होने के कारण सीता जी भी वैदिक सन्ध्योपासन करने की अधिकारिणी नहीं है । अतः जो समाधान सुमंत्र के लिये है, वही जानकी जी के लिये भी । श्रीगोविन्दराज जी का मत है कि, सीता ने जो सन्ध्योपासन किया उसमें केवल परमात्मा का ध्यान और उनके नाम का जप किया था । स्त्रियों तथा शूद्रों के लिये परमात्मा का ध्यान करने और उनका नाम जपने का निषेध नहीं है । यहाँ पर एक शङ्का और उठती है । वह यह कि, जलपान के बाद सन्ध्योपासन कैसा ? इसका समाधान भूषणटीका में इस प्रकार किया गया है कि, गुह ने भरत के इस प्रश्न के उत्तर में कि, श्रीराम ने क्या खाया था, कहा कि, मेरे लाये हुए फलादि को छौटा-लक्ष्मण के लाये हुए जल को पी कर, श्रीराम रहे । यह प्रसङ्गानुसार प्रश्न का उत्तर है । इससे यह न समझना चाहिये कि, जल पीने के अनन्तर श्रीरामचन्द्र ने सन्ध्योपासन किया था । ]

सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं शुभम् ।

स्वयमानीय वहाँपि क्षिप्रं राघवकारणात् ॥ १९ ॥

तदनन्तर महात्मा लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र के सोने के लिये तुरन्त कुश ला कर विद्या दिये ॥ १९ ॥

तस्मिन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया ।

प्रक्षाल्य च तयोः पादावपचक्राम लक्ष्मणः ॥ २० ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः

और जब उन पर श्रीरामचन्द्र जी सीता सहित लेटे, तब लक्ष्मण उन दोनों के पैर धो कर, वहाँ से कुछ दूर हट कर, चले आये ॥ २० ॥

एतत्तदिङ्गुदीमूलमिदमेव च तत्तृणम् ।

यस्मिन्नामश्च सीता च रात्रिं तां शयितावुभौ ॥२१॥

हे राजकुमार ! देखो यही तो वह इंगुदी का पेड़ है और यही वह तृणशय्या है । इसी पर उस रात में श्रीराम और सीता—दोनों साथे थे ॥ २१ ॥

नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवा-

ञ्चारैः सुपूर्णाविषुधीं परन्तपः ।

महद्धनुः सज्यमुपोह्य लक्ष्मणो

अनिशामतिष्ठत्परितोऽस्य केवलम् ॥ २२ ॥

उस रात में शत्रुओं को दमन करने वाले लक्ष्मण, तीर से भरे दो तरकस बांध, हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहिन और हाथ में शंदा चढ़ा हुआ बड़ा धनुष ले, श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिये उनकी तृणशय्या ( से कुछ हट ) उसके चारों ओर घूम घूम कर पहरा देते रहे ॥ २२ ॥

ततस्त्वहं चोत्तमवाणचापधृ-

त्स्थितोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः ।

१ नियम्य—बध्वा । ( गो० ) २ इषुधी—तूणीरद्वयं । ( गो० )  
३ उपोह्य—छत्वा । ( गो० ) ४ अस्तपरितोतिष्ठत्—सर्वतो रक्षणार्थं प्रदक्षिणं  
चचारैर्यथः । ( गो० )

अतन्द्रिभिर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकैः

सहेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा ॥ २३ ॥

इति सप्तशीतितमः सर्गः ॥

मैं भी एक वदिया धनुष हाथ में ले, अपनी विरादरी के धनुष-धारी लोगों के साथ, उन इन्द्र तुल्य श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली करता हुआ लक्ष्मण जी के साथ यहाँ रात भर जागता रहा ॥ २३ ॥

अयोध्याकाण्ड का सत्तासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

अष्टाशीतितमः सर्गः

—: \* :—

तच्छ्रुत्वा निपुणं<sup>१</sup> सर्वं भरतः सह मन्त्रिभिः ।

इङ्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्ष्य ताम् ॥ १ ॥

गुह के वचन सुन भरत जी मंत्रियों सहित, सावधानतापूर्वक इंगुदी वृत्त के नीचे गये और श्रीरामचन्द्र जी की तुल्यशय्या को देखने लगे ॥ १ ॥

अब्रवीज्जननीः सर्वा इह तेन<sup>२</sup> महात्मना ।

शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम् ॥ २ ॥

और अपनी माताओं से बोले कि, महात्मा श्रीरामचन्द्र ने उस रात, इसी पर यहाँ शयन किया था । यह कुश उन्हींके शरीर से मर्दन किये हुए हैं ॥ २ ॥

१ निपुणं—सावधानं । ( गो० ) २ तेन—रामेण । ( गो० )



महाभागकुलीनेन महाभागेन धीमता ।

जातो दशरथेनोर्व्या<sup>१</sup> न रामः स्वप्तुमर्हति ॥ ३ ॥

परम भाग्यवान्, कुलीन और बुद्धिशाली महाराज दशरथ से उत्पन्न हो, श्रीरामचन्द्र ने पृथिवी पर शयन किया सो यह अत्यन्त अनुचित हुआ ॥ ३ ॥

<sup>१</sup>अजिनोत्तरसंस्तीर्णं वरास्तरणसंवृतं\* ।

शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शैते महीतले ॥ ४ ॥

जो श्रीराम, सदा ही राजाओं के सोने योग्य केलों की झाल के बने अति कोमल विज्ञान से युक्त सेजों पर सोते रहे हैं, वे भला, किस तरह भूमि पर सोते होंगे ॥ ४ ॥

प्रासादाग्रविमानेषु बलभीषु<sup>२</sup> च सर्वदा ।

हैमराजतभौमेषु<sup>३</sup> वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥

६पुष्पसञ्चयचित्रेषु चन्दनागरुगन्धिषु ।

पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु शुक्लसङ्घस्तेषु च ॥ ६ ॥

प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु ।

जप्त्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु ॥ ७ ॥

गीतवादित्रनिर्घोषैर्वराभरणनिःस्वनैः ।

मृदङ्गचरशब्दैश्च सततं प्रतिवोधितः ॥ ८ ॥

<sup>१</sup> अजिन—दग्धेन कदल्याद्यजिनं विवक्षितं । ( गो० ) <sup>२</sup> बलभीषु—  
कूटागारेषु । ( गो० ) <sup>३</sup> वरास्तरणशालिषु—चित्रकम्बलाशालिषु । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“सञ्चये ।”

जिस सातखने राजभवन की चौखण्डी की भूमि सोने और चाँदी की बनी हुई है और जिस पर अच्छे अच्छे रंग विरगी ऊनी गलीचे बिछे हुए हैं, जिन पर पुष्पों से चित्र विचित्र रचनाएँ की जाती हैं और जो शयनगृह चन्दन और अगार की सुगन्ध से सुवासित हैं, जो सफेद उजले बादल की तरह दीख पड़ता है, जहाँ पर तोता मैना आदि पक्षी बोलते, जो राजभवनों में सब से श्रेष्ठ हैं, जहाँ पर आवश्यकतानुसार ठंडक पहुँचायी जा सकती है ( अर्थात् जब चाहे तब कमरे में ठंडक हो जाय ) अथवा जिसमें सदा शीतल और सुन्धित पवन का सञ्चार हुआ करता है, जिसकी ऊँची दीवारों सोने चाँदी के काम से खचित होने के कारण मेरु पर्वत जैसी जान पड़ती हैं—ऐसे उत्तम शयनागार में सोने वाले श्रीरामचन्द्र जी जो मधुर गान और उत्तम मृदङ्गादि वाजों के शब्दों से तथा सुन्दर स्त्रियों की पायजेव, नूपुर आदि गहनों के लुमलुम शब्द से बगाये जाते थे ॥ ५ ॥ ३ ॥ ७ ॥ = ॥

वन्दिभिर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः ।

गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपः ॥ ९ ॥

और जागने के बाद, प्रातःकाल शत्रुओं के दमन करने वाले श्रीराम, जिनकी अनेक सूत, मागध और वंदीगण अनेक प्रकार की सुन्दर ( पूर्व पुष्टियों की ) गाथाओं और स्तुतियों से वंदना करते थे ॥ ९ ॥

अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मे\* ।

मुद्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः ॥ १० ॥

१ काले—शतःकाले । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ ना । ”

वें ज़मीन पर सोते, और शृगाल एवं अन्य जन्तुओं का भयङ्कर चीत्कार सुन जागें—इस बात पर मुझे न तो विश्वास ही होता है और न यह मुझे सत्य ही जान पड़ती है। क्योंकि इसकी कल्पना मात्र से मुझे भ्रम होने लगता है और स्वप्न सा जान पड़ता है ॥ १० ॥

न नूनं दैवतं किञ्चित्कालेन<sup>१</sup> वलवत्तरम् ।

यत्र दाशरथी रामो भूमावेव शयीत सः ॥ ११ ॥

निश्चय ही परमात्मा की इच्छा से बढ़ कर कोई देवता नहीं है। नहीं तो महाराज दशरथ के पुत्र हो कर भी श्रीराम ज़मीन पर क्यों सोते ॥ ११ ॥

विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदर्शना ।

दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्य च ॥ १२ ॥

राजा जनक की बेटा, महाराज दशरथ की बहू जो अति सुन्दरी है और जिस पर महाराज दशरथ की बड़ी कृपा थी, हाय ! ज़मीन पर सोती है !! ॥ १२ ॥

इयं शय्या मम भ्रातुरिदं हि परिवर्तितम् ।

स्थण्डिले<sup>२</sup> कठिने सर्वं गात्रैर्विमृदितं तृणम् ॥ १३ ॥

हे माता ! देखो मेरे भाई की यह सेज है ! देखो, जैसे जैसे बर्ताने करवटें बदली हैं, वैसे ही वैसे कड़ी भूमि पर बिछे हुए तृण उनके शरीर से दब दब कर कुचल गये हैं ॥ १३ ॥

१ कालेन—कालात् परमात्मेच्छया । ( शि० ) २ स्थण्डिले—भूतले ।

मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञ्शयनोत्तमे ।

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकविन्दवः ॥ १४ ॥

मुझे जान पड़ता है, गहने पहिने हुए सीता सोई थी । इसीसे तो जहाँ तहाँ सोने के रोना ( दाने ) पड़े हुए देख पड़ते हैं ॥ १४ ॥

उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा ।

तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥ १५ ॥

हे माता ! जान पड़ता है, यहाँ पर सीता की ओढ़नी उलझ गयी थी — क्योंकि यहाँ रेशम के धागे उलझे हुए हैं ॥ १५ ॥

मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन बाला तपस्विनी ।

सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली ॥ १६ ॥

पति की सेज ( कैसी ही क्यों न हो अर्थात् चाहे वह कोमल हो चाहे कठोर ) स्त्रियों के लिये सदा सुखदायिनी होती है, देखो ! इसीसे तो उस सुकुमारी तपस्विनी पतिव्रता बाला सीता को इस पर सोने से कुछ भी कष्ट न हुआ ॥ १६ ॥

हा हतोऽस्मि नृशंसोऽहं यत्सभार्यः कृते मम ।

ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते ब्रूनाथवत् ॥ १७ ॥

हा ! मैं तो जीते जी ही मर गया । मैं बड़ा निर्दयी हूँ । मेरे ही पीछे तो श्रीरामचन्द्र को अपनी स्त्री सहित, अनाथ की तरह, ऐसी शय्या पर सोना पड़ा ॥ १७ ॥

सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकस्य सम्मतः ।

सर्वलोकप्रियस्त्यक्त्वा राज्यं सुखमनुत्तमम् ॥ १८ ॥

सम्राट् के कुल में जन्म ले कर, सब को सुख देने वाले और सर्वप्रिय हो कर भी वे उत्तम राज्यसुख से वञ्चित किये गये ॥१८॥

कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः ।

सुखभागी न दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः ॥१९॥

हा ! नील कमल के समान श्यामल शरीर वाले तथा रक्तवर्ण नेत्र वाले, देखने में मनोहर, जिन्होंने सदा सुख ही भोगा है और जो कभी दुःख भोगने योग्य नहीं है—वे श्रीरामचन्द्र किस प्रकार जमीन पर सोये ॥ १९ ॥

धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः ।

भ्रातरं विपमे काले यो राममनुवर्तते ॥ २० ॥

इस समय तो शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जो ही धन्य हैं और बन्हींको बड़भागो समझना चाहिये कि, जो ऐसे बुरे समय में भी अपने भाई श्रीराम का साथ दे रहे हैं ॥ २० ॥

सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं याज्जुगता वनम् ।

वयं संशयिताः<sup>१</sup> सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥

और वैदेही जानकी का भी जन्म सफल है जो अपने पति के साथ वन में गयी । हम लोग श्रीरामचन्द्र जो से केवल हीन ही नहीं हैं, किन्तु हमें इस बात का भी सन्देह है कि, श्रीराम हम लोगों की सेवा अङ्गीकार करें या न करें ॥ २१ ॥

अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति माम्\* ।

गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमाश्रिते ॥ २२ ॥

१ संशयिताः—अस्मात्सेवाराभोऽङ्गीकरिव्यतिनवेतिसंशयताः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ मा ” ।

महाराज दशरथ के स्वर्गवासी होने से तथा श्रीरामचन्द्र जी के वनवासी होने से, विना मांझी की नाव की तरह, यह पृथिवी, मुझे सुनी दिखलायी पड़ती है ॥ २२ ॥

न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसाऽपि वसुन्धराम् ।

वनेऽपि वसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम् ॥ २३ ॥

श्रीरामचन्द्र जी वनवास कर रहे हैं तो क्या हुआ, यह पृथिवी उन्हींके भुजबल से रक्षित होने के कारण, दूसरा इसे लेने की, अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकता ॥ २३ ॥

शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विषाम् ।

अपावृतपुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम् ॥ २४ ॥

यद्यपि इस समय अयोध्या की चहारदीवारी की रक्षा जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हो रही, हाथो घोड़े भी जहाँ तहाँ छूटे हुए घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ कर कोई बाँधने वाला नहीं है। पुर के फाटक भी खुले पड़े हैं अतएव राजधानी अरक्षित है ॥ २४ ॥

१अप्रहृष्टवलां न्यूनां २विषमस्थामनावृताम् ४ ।

शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्षान्विषकृतानिव ॥ २५ ॥

क्योंकि वहाँ की सेना उदास है, उसे पुरी की रक्षा करने की सुधि नहीं है। अतः अयोध्यापुरी इस समय साधनहीन है, दुर्दशा-पन्न है और बाहिर से भी उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है ;

१ अप्रहृष्टवल्बत्वमरक्षितत्वेहेतुः । ( गो० ) २ न्यूनां—साधनविहीनां । ( गो० ) ३ विषमस्थां—दुर्दशापन्नां । ( गो० ) ४ अनावृतां—बाह्यरक्षरहितान् । ( गो० )

तथापि शत्रुलोक, श्रीरामचन्द्र के प्रताप के कारण, उसको ओर देखते हुए वैसे ही डरते हैं, जैसे कोई निपैले भोजन को देख कर डरता है ॥ २५ ॥

अद्यप्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा ।

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् ॥२६॥

आज से मैं भी खाली ज़मीन पर अथवा चटाई पर ही सोऊँगा, और नित्य फल मूल ही खाऊँगा और जटा चीर धारण करूँगा ॥ २६ ॥

तस्यार्थमुत्तरं कलं निवत्स्यामि सुखं वने ।

तं प्रतिश्रवमामुच्य नास्य मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥

श्रीरामचन्द्र को वन से लौटा कर उनके बदले में वन में बसूँगा—क्योंकि वनवास की जो अक्षयि अभी शेष है, उसे मैं पूरी करूँगा जिससे बड़े भाई की चौदह वर्ष वनवास करने की प्रतिज्ञा मिथ्या न होने पावे ॥ २७ ॥

वसन्तं भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुष्वत्स्यति ।

लक्ष्मणेन सह त्वार्यो ह्ययोध्यां पालयिष्यति ॥२८॥

भाई के बदले वन में वास करने पर शत्रुघ्न जी मेरे साथ वन में रहेंगे और लक्ष्मण के सहित श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या में जा राज्यशासन करेंगे ॥ २८ ॥

अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः ।

१अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम् ॥ २९ ॥

ब्राह्मण लोग अयोध्या में श्रीरामचन्द्र का राज्याभियेक करेंगे । देवताओं से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि, वे मेरा मनोरथ पूरा करें ॥ २९ ॥

प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं<sup>१</sup>

बहुप्रकारं यदि नाभिपत्स्यते<sup>२</sup> ।

ऋततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवं

वने वसन्नार्हति मामुपेक्षितुम् ॥ ३० ॥

इति अष्टाशीतितमः सर्गः ॥

चरणों में सीस रखने तथा अनेक प्रकार से मेरे स्वयं मनाने पर भी, यदि श्रीरामचन्द्र मेरी बात अंगीकार न करेंगे ( और पिता की आज्ञा का स्वयं पालन ही करेंगे ) तो मैं भी चिरकाल तक श्रीरामचन्द्र जी का सेवक वन उनके साथ वन में बाल करूँगा । पर मुझे विश्वास है कि, श्रीरामचन्द्र जी भक्तवत्सल हैं, अतः वे अपने दास की उपेक्षा कभी न करेंगे ॥ ३० ॥

अयोध्याकाण्ड का अष्टासीवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥



१ स्वयंनतुमंत्रिमुखेन । ( रा० ) २ नाभिपत्स्यते—नाङ्गीकरिष्यति । ( गो० ) ३ अनुवत्स्यामि—तदनुचरोभवामि । ( गो० )



## एकोनवतितमः सर्गः

—:०:—

व्युष्य रात्रिं<sup>२</sup> तु तत्रैव<sup>३</sup> गङ्गाकूले स राघवः ।

भरतः \*काल्यमुत्थाय शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥

रघुकुलोत्पन्न भरत जी ने उसी स्थान पर जहाँ श्रीरामचन्द्र जी सोये थे, रात्रि व्यतीत की और जब सबेरा हुआ तब उठ कर शत्रुघ्न से कहा ॥ १ ॥

शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहम् ।

शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम् ॥ २ ॥

शत्रुघ्न उठो ! सबेरा हो चुका । अब कर्म पड़े सो रहे हो । तुम्हारा कल्याण हो । तुम जा कर तुरन्त निषादराज गुह को यहाँ बुला लाओ, जिससे वह हमारी सेना को पार उतारे ॥ २ ॥

जागमिं नाहं स्वपिमि तमेवार्यं विचिन्तयन् ।

इत्येवमब्रवीद्भ्रात्रा शत्रुघ्नोऽपि प्रचोदितः ॥ ३ ॥

यह सुन शत्रुघ्न ने भी कहा—हे भ्राता ! मैं सो नहीं रहा— जाग रहा हूँ और जिस प्रकार आप श्रीरामचन्द्र जी का चिन्तन करते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हींका चिन्तन कर रहा हूँ ॥ ३ ॥

इति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः ।

आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो भरतमब्रवीत् ॥ ४ ॥

१ व्युष्य—उपित्वा । ( गो० ) २ रात्रिं—रात्रौ । ( गो० ) ३ तत्रैव यत्र रामोऽपि पित्तत्रैव । ( गो० ) ४ काल्यं—प्रलूषः । ( गो० )

इस प्रकार दोनों पुरुषसिंह वातचीत कर ही रहे थे कि, इतने में निषादराज गुह ठीक समय पर पहुँच और हाथ जोड़ कर भरत जी से बोला ॥ ४ ॥

कच्चित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम् ।

कच्चित्ते सहसैन्यस्य तावत्सर्वमनामयम् ॥ ५ ॥

हे काकुत्स्थ ! आप नदी के तट पर रात को सुखपूर्वक तो रहे । आपको या आपको सेना में से किसी को किसी प्रकार का क्लेश तो नहीं हुआ ॥ ५ ॥

गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम् ।

१रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमब्रवीत् ॥ ६ ॥

गुह के ऐसे स्नेह-सने वचन सुन, भरत जी ने भी गुह से यह कहा ॥ ६ ॥

सुखा नः शर्वरी राजन्पूजिताश्चापि ते वयम् ।

गङ्गां तु नौभिर्वहीभिर्दाशाः<sup>२</sup> सन्तारयन्तु नः ॥ ७ ॥

हे राजन् ! यह रात हम सब की सुख से बीती और तुमने हमारा भली भाँति आदर सत्कार भी किया । अब तुम अपने मल्लाहों को आज्ञा दो कि, बहुत सी नावों द्वारा हम लोगों को उस पार पहुँचा दें ॥ ७ ॥

ततो गुहः सन्त्वरितं श्रुत्वा भरतशासनम् ।

प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमब्रवीत् ॥ ८ ॥

१ रामस्य अनुवशः—रामस्य अनुचरः । ( शि० ) २ दाशाः—  
कैवर्तिकाः । ( शि० )

भरत जी की ऐसी आज्ञा पा कर गुह ने वड़ी शीघ्रता से पुनः अपने नगर में प्रवेश किया और वहाँ जा कर अपनी जातिवालों ( मल्लाहों ) से कहा—॥ ८ ॥

उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु च वः सदा ।

नावः समनुकर्षध्वं तारयिष्याम वाहिनीम् ॥ ९ ॥

भाइयो ! उठो ! जागो ! सदा तुम्हारा मङ्गल हो । नावों को किनारे पर ला कर, सेना को पार उतारो ॥ ९ ॥

ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् ।

पञ्च नावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥

गुह द्वारा ऐसा कहे जाने पर मल्लाह लोग उठ खड़े हुए और अपने राजा के आज्ञानुसार उन लोगों ने इधर उधर से जोड़ बंदोर कर ५०० नावें ला कर, घाट पर लगा दी ॥ १० ॥

अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधरा वराः ।

शोभमानाः पताकाभिर्युक्तवाताः<sup>१</sup> सुसंहताः<sup>२</sup> ॥११॥

इनके अतिरिक्त राजघरों के चढ़ने योग्य “ स्वस्तिक ” नामक कई एक वज्र नावें भी लायी गयीं । इन स्वस्तिक नावों में घण्टे टंगे हुए थे । पताकाएँ शोभायमान थीं । हवा छाने जाने के लिये खिड़कियाँ बनी थीं, और नाव की तली में कीलें आदि ऐसी सावधानी से जड़ी थीं कि, उनमें एक बूँद भी जल नाव के भीतर नहीं आ सकता था ॥ ११ ॥

१ युक्तवाताः—फलककुड्यकरणेन मध्ये मध्येगवाक्षनिर्मणितच महावात-  
निवारणादुचितवाताः । ( गो० ) २ सुसंहिताः—राजारोहणस्थानत्वेनायसकीला  
दिभिर्दंडसन्धिबन्धाः । ( गो० )

ततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम् ।

१सनन्दिघोषां २कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत् ॥१२॥

उन स्वस्तिक नाम के वज्रों में लफेद ऊनी कालीन बिछे हुए थे । जब वे चलायी जाती थीं, तब उनमें झोटी झोटी घंटियां बजती थीं, वे देखने में बड़ी सुन्दर जान पड़ती थीं । ऐसी एक नाव को गुह स्वयं लाया था ॥ १२ ॥

तामारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महायशाः\* ।

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१३॥

इस वजरे पर महायशस्वी भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, तथा अन्य जो रानियां थीं, सवार हुई ॥ १३ ॥

पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये ।

अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः ॥ १४ ॥

भरत आदि के नाव में बैठने के पूर्व पुरोहित तथा अन्य गुरु-जन ब्राह्मण पहिले ही चढ़ चुके थे । तदनन्तर कौशल्यादि रानियां नाव में बैठी थीं । उनके बैठने के बाद सामान से लदे ढ़कड़े नावों पर बोम्बे गये थे ॥ १४ ॥

३आवासमादीपयतां४ तीर्थ५ चाप्यवगाहताम् ।

६भाण्डानि चाददानानां घोषस्त्रिदिवमस्पृशत् ॥ १५ ॥

१ सनन्दिघोषां—हर्षजनकङ्किष्ण्यादिवोपयुक्तं । ( गो० ) २ कल्याणीं—शोभनां । ( गो० ) ३ आवास—सेनानिवेशं । ( गो० ) ४ आदीपयतां—अग्निनाज्वलयतां । ( गो० ) ५ तीर्थं—अवतरणप्रदेशं । ( गो० ) ६ भाण्डानि—उपकरणानि । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“महाबलः” ।

चलते समय झावनी में जो घास फूस था वह जला दिया गया । फिर गङ्गा जी में स्नान करने वालों का कोलाहल, तथा नावों पर सामान लादने वालों का चीत्कार शब्द ऐसा हुआ कि, आकाश प्रतिध्वनित हो उठा । अर्थात् वहाँ से सेना के कूँच के समय और नावों में सामान लादते समय बड़ा हो हल्ला हुआ ॥ १५ ॥

पताकिन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशैरधिष्ठिताः ।

वहन्त्यो जनमाखुदं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ १६ ॥

वे पालवाली नावें, जिन पर माँझी लोग बैठे हुए रखवाली कर रहे थे, नावों पर सवार लोगों को लिये हुए, बड़े वेग से चली जाती थीं ॥ १६ ॥

नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्काश्चिच्च वाजिनाम् ।

काश्चिदत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं<sup>१</sup> महाधनम्<sup>२</sup> ॥ १७ ॥

कितनी ही नावों में तो स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ बैठी थीं और कितनी ही नावों में घोड़े ही घोड़े भरे थे । कई एक नावों पर रथ बैल ढकड़े, घोड़े, खच्चर—जो बड़े बड़े मेल के थे भरे थे ॥ १७ ॥

ताः स्म गत्वा परं तीरमवरोप्य च तं जनम् ।

निवृत्ताः<sup>३</sup> काण्डचित्राणि<sup>४</sup> क्रियन्ते दाशबन्धुभिः ॥ १८ ॥

धीरे धीरे ये सब नावें गङ्गा के दूसरे पार पर जा लगीं और आरोहियों को उतारा । लौटते समय, गुह के बन्धु मल्लाह लोग, नौका ले जल में विविध प्रकार के खेल करते जाते थे ॥ १८ ॥

१ यानयुग्यं—यानानिरथशकटादीनि युग्यानि—अश्वतरवकीवर्दादीनि ।  
 ( गो० ) २-महाधनं—बहुमूल्यं । ( गो० ) ३ काण्डे—वारिणि । ( गो० )  
 ४ चित्राणि—चित्रगमनानि । ( गो० )

सर्वैजयन्तास्तु गजा गजारोहप्रचोदिताः ।

तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सध्वजाः इव पर्वताः ॥ १९ ॥

महावत लोग ध्वजा सहित हाथियों को जल में पैरा कर पार उतारते थे । उस समय वे हाथी चलते फिरते पर्वतों की तरह जान पड़ते थे ॥ १९ ॥

नावश्चारुरुहुश्चान्ये प्लवैस्तेरुस्तथा परे ।

अन्ये कुम्भप्रटैस्तेरुन्ये तेरुश्च बाहुभिः ॥ २० ॥

कोई कोई तो टोटी नावों पर बैठ कर पार उतरे, कोई वांस आदि के बेंड़ों के साहरे, कोई घरनई से और कोई स्वयं तैर कर उस पार पहुँचे ॥ २० ॥

सा पुण्या<sup>२</sup> ध्वजिनी<sup>३</sup> गङ्गां दाशैः सन्तारिता स्वयम् ।

मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम् ॥ २१ ॥

गुह के नौकर मल्लाहों ने स्वयं गङ्गास्नान से पवित्र हुई सेना को पार उतार दिया । वह सेना सूर्योदय से तीसरे मैत्र नामक मुहूर्त में परम मनोहर वन को प्रस्थानित हुई ॥ २१ ॥

४आश्वासयित्वा च चर्म<sup>५</sup> महात्मा<sup>६</sup>

निवेशयित्वा च यथोपजोषम्<sup>७</sup> ।

१ सध्वजाः—सगमनाः । ( गो० ) २ पुण्या—गङ्गास्नानादिनापुता । ( गो० ) ३ ध्वजिनी—सेना । ( गो० ) ४ आश्वासयित्वा—सान्त्वयित्वा । ( गो० ) ५ चर्म—महाजन । ( गो० ) ६ महात्मा—महामतिः । ( गो० ) ७ यथोपजोषम्—यथासुखं । ( गो० )

द्रष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्य-

१मृत्विग्धृतः सन्भरतः प्रतस्थे ॥ २२ ॥

प्रयाग में पहुँच, महामति भरत ने सब सेना तथा साधियों को मधुर वचनों से सान्त्वना प्रदान कर, जहाँ जिसको सुविधा जान पड़ी, वहाँ टिकाया। तदनन्तर भरत जी, वशिष्ठादि ऋषियों को साथ ले, भरद्वाज जी के दर्शन करने को उनके आश्रम की ओर प्रस्थानित हुए ॥ २२ ॥

स २ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य

३महात्मनो ४देवपुरोहितस्य ।

ददर्श रम्योत्तमवृक्षपण्डं

महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम् ॥ २३ ॥

इति एकोनवतितमः सर्गः ॥

उन वेदवित् महाज्ञानी देवपुरोहित बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज के आश्रम में पहुँच, भरतादि ने भरद्वाज जी की रमणीय पर्याशाला और सघन वृक्षों से सुशोभित बड़े वन को देखा ॥ २३ ॥

अयोध्याकाण्ड का उनवासीर्वा सर्ग समाप्त हुआ ।



१ ऋत्विग्भिः—वशिष्ठादिभिः । (१०) २ ब्राह्मणस्य—ब्रह्मवेदः तदधीते ब्राह्मणः । (गो०) ३ महात्मनो—महाज्ञानस्य । (गो०) ४ देवपुरोहितस्य— बृहस्पति पुत्रत्वेन देवपुरोहितत्वं "भास्माद्वै पुत्र नामासि" इतिन्यायात् । (गो०)

## नवतितमः सर्गः

—:०:—

भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा क्रोशादेव नरर्षभः ।

वलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १ ॥

पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः ।

वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोधसम् ॥ २ ॥

धर्मज्ञ पुरुषोत्तम भरत आश्रम से कोस भर के अन्तर पर सेना आदि को टिका कर, मंत्रियों को साथ ले, अस्त्र शस्त्र छोड़ एवं राजसी पोशाक उतार, केवल रेशमी वस्त्र धारण कर, तथा पुरोहितों को आगे कर, पैदल ही, भरद्वाज जी के दर्शन करने को गये ॥ १ ॥ २ ॥

ततः सन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः ।

मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम् ॥ ३ ॥

अनन्तर जब भरत जी ने दूर से भरद्वाज जी को देखा तब मंत्रियों को भी पीछे छोड़ आप अकेले ही वशिष्ठ जी के पीछे पीछे जाने लगे ॥ ३ ॥

वसिष्ठमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः ।

१सञ्चालासनात्तूर्णं शिष्यानर्घ्यमिति२ ब्रुवन् ॥ ४ ॥

महातपस्वी भरद्वाज ने वशिष्ठ जी को देखते ही शिष्यों को अर्घ्यादि लाने की आज्ञा दी और वे तुरन्त आसन छोड़ खड़े हो गये ॥ ४ ॥

१ संचाल—बदतिष्ठत् । (गो०) २ अर्घ्यं आनयतेतिशेषः । (गो०)



समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः ।

अबुध्यत<sup>१</sup> महातेजाः सुतं दशरथस्य तम् ॥ ५ ॥

और आगे वढ़ वशिष्ठ जी से मिले । भरत जी ने भरद्वाज को प्रणाम किया । मुनि भरद्वाज ने जान लिया कि, वे महातेजस्वी ( भरत ) दशरथनन्दन हैं ॥ ५ ॥

ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानि च ।

आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले<sup>२</sup> ॥ ६ ॥

धर्मात्मा भरद्वाज जी ने उनके लिये भी अर्घ्य सामग्री मँगवा कर, उन दोनों को अर्घ्य और पाद्य दिया । तदनन्तर भोजन के लिये फल दिये । पीछे क्रमपूर्वक उनसे उनके घर का कुशलप्रश्न पूँछा ॥ ६ ॥

अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु ।

जानन्दशरथं वृत्तं न राजानमुदाहरत् ॥ ७ ॥

अयोध्या में भी सेना, धनागार, मित्रों और मंत्रियों के सम्बन्ध में कुशलप्रश्न पूँछा, तदनन्तर महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मालूम होने के कारण उनका नाम न लिया ॥ ७ ॥

वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्छतुरनामयम् ।

शरीरेऽग्निषु वृक्षेषु शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ८ ॥

तदनन्तर वशिष्ठ जी और भरत जी ने भी भरद्वाज से उनके शरीर, अग्नि, शिष्य, मृग और पक्षियों के विषय में कुशलप्रश्न पूँछा ॥ ८ ॥

१ अबुध्यतेति वसिष्ठसाहचर्यादितिभावः । ( गो० ) २ कुले—गृहे ।

तथेति तत्प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महातपाः ।

भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहवन्धनात् ॥ ९ ॥

तब महातपस्वी भरद्वाज ने अपना सब का कुशल मङ्गल वृत्तान्त बतला, श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह के कारण ( न कि भरत जी के दोष दिखाने के उद्देश्य से ) भरत जी से कहा ॥ ९ ॥

किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः ।

एतदाचक्ष्व मे सर्वं न हि मे शुध्यते<sup>१</sup> मनः ॥ १० ॥

हे राजकुमार ! तुम तो राज्य का शासन कर रहे हो । फिर यहाँ आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी । यह सब मुझसे कहा । क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे विश्वास नहीं होता ॥ १० ॥

सुषुवे यममित्रघ्नं कौसल्या \*नन्दवर्धनम् ।

भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनम् । ११

नियुक्तः स्त्रीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः ।

वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥ १२ ॥

कुञ्चिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि ।

अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥ १३ ॥

महायशस्वी कौशल्या के आनन्द बढ़ाने वाले जिस श्रीराम को, स्त्री के कहने से, महाराज दशरथ ने भार्या सहित चौदह वर्ष के लिये वनवास दिया, उस निर्दोष राजकुमार के बारे में और उसके झेंडे भाई के विषय में, निष्कण्टक राज्य भोग की

१ न शुध्यते—शुद्धिं न प्राप्नोति । नविश्वसीतियावत् । ( गी० )

\* पाठान्तरे—“ नन्दिवर्धनम् ” ।

इच्छा से, क्या आप उन देशों का कुछ अनभङ्ग तो करना नहीं चाहते ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥

एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह ।

पर्यश्रुनयनो दुःखाद्वाचा संसज्जमानया<sup>१</sup> ॥ १४ ॥

भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर, भरत जी ने दुःखी होने के कारण श्रांखों में श्रांख भर और गद्गद कण्ठ हो कहा ॥ १४ ॥

१हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि<sup>२</sup> मन्यते ।

मत्तो न दोशमाशङ्के नैवं मामनुशाधि हि ॥ १५ ॥

हे भगवन् ! सब कुछ जान कर भी ( भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो कर भी ) यदि आप ऐसा समझ रहे हैं, तो मेरा जीना क्या है । मेरा तो इस उपस्थित विपत्ति से कुछ भी जगाव नहीं है । मेरे मन में तो इसको कभी कल्पना भी नहीं थी । अतः आप मुझसे ऐसा कठोर वचन न कहिये ॥ १५ ॥

चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे ।

नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे<sup>३</sup> ॥ १६ ॥

मेरी माता ने भी जो मेरे बारे में महाराज से कहा, वह भी न तो मेरा इष्ट था और न मैं उससे सन्तुष्ट हूँ और न उसका कहना मुझे स्वीकार ही है ॥ १६ ॥

अहं तु तं नरव्याघ्रमुपयातः प्रसादकः ।

प्रतिनेतुमयोध्यां च पादौ तस्याभिवन्दितुम् ॥ १७ ॥

१ संसज्जमानया—हलन्त्या । ( गो० ) २ हतोऽस्मि—न्यर्थजन्मास्मि ।  
३ भगवानपि—भूतभविष्यद्वर्तमानज्ञोपीत्यर्थः । ४ नाददे—नाङ्गीकृतवानस्मि ।  
( गो० )

मैं तो उस पुरुषसिंह को प्रसन्न कर अयोध्या में लौटा लाने तथा उसको प्रणाम करने को जा रहा हूँ ॥ १७ ॥

त्वं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि ।

शंस मे भगवन् रामः क सम्प्रति महीपतिः ॥ १८ ॥

हे भगवन् ! मेरा इस प्रकार का मनोभिप्राय जान कर, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे बतावें कि, वे पृथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्र जी इस समय कहाँ हैं ? ॥ १८ ॥

वसिष्ठादिभिर्ऋत्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः ।

उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्भरतं वचः ॥ १९ ॥

तदनन्तर वसिष्ठादि ऋत्विजों ने भी भरद्वाज से श्रीरामचन्द्र जी का पता बतलाने की प्रार्थना की, तब भगवान् भरद्वाज जी भरत की बातों से प्रसन्न हो बोले ॥ १९ ॥

त्वय्येतत्पुरुषव्याघ्र युक्तं राघववंशजे ।

१गुरुवृत्तिर्दमश्चैव २ साधूनां चानुयायिता ३ ॥ २० ॥

हे पुरुषसिंह ! तुम्हारा जन्म सुप्रसिद्ध रघुकुल में हुआ है । अतः वड़ों के कहने में चलना, इन्द्रियों का नियंत्रण और साधुजनों का अनुगामी होना । ये तीनों बातें तुम में होनी ही चाहिये ॥ २० ॥

जाने चैतन्मनःस्थं ते दृढीकरणमस्त्विति ।

अपृच्छं त्वां तथात्यर्थं कीर्त्तिं समभिवर्धयन् ॥ २१ ॥

१ गुरुवृत्तिः—ज्येष्ठानुवर्तनं ( गो० ) २ दम—इन्द्रियनिग्रहः । ( गो० )

३ साधूनां चानुयायिता—सच्चिदानुवर्तनं । ( गो० )

यद्यपि योगद्वारा मैं जानता था कि, तुम्हारा ऐसा मनोगत भाव है, तथापि लोगों के सामने प्रकट होने पर वह और भी अधिक बढ़ हो जाय और इसके द्वारा तुम्हारी कीर्ति दिगन्तव्यापिनी हो, इस अभिप्राय से मैंने तुमसे वैसा प्रश्न किया था ॥ २१ ॥

जाने च रामं<sup>१</sup> धर्मज्ञं ससीतं सहलक्ष्मणम् ।

असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ ॥ २२ ॥

सीता और लक्ष्मण सहित धर्म के जानने वाले श्रीरामचन्द्र, जहाँ रहते हैं, मुझे मालूम है । वे इस समय चित्रकूट नामक महा-पर्वत पर वास करते हैं ॥ २२ ॥

श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः ।

एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं<sup>२</sup> कामार्थकोविद<sup>३</sup> ॥ २३ ॥

हे इष्टप्रद कोविद ! आप कल वहाँ जाना । आज मंत्रियों के सहित यहाँ ठहरिये । आपको मेरी यह बात अवश्य माननी होगी ॥ २३ ॥

ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः

प्रतीतिरूपौ भरतोऽब्रवीद्वचः ।

चकार बुद्धिं च तदा तदाश्रमे

निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २४ ॥

इति नवतितमः सर्गः ॥

१ रामंजाने—देवविशेषेस्थितंरामंजानमित्यर्थः । ( गो० ) २ कामं—  
अभीष्टं । ( गो० ) ३ कामार्थकोविदः—कौशितार्थप्रदानदक्षेत्यर्थः । ( गो० )  
४ प्रतीतिरूपः—प्रसिद्धकीर्तिः । ( गो० )

जब भरद्वाज ने इस प्रकार कहा तब उदारदर्शन एवं प्रसिद्ध कर्ति वाले राजकुमार भरत जी ने ऋषि का कहना मान रात भर ऋषि के आश्रम में रहने का विचार प्रकट किया ॥ २४ ॥

अयोध्याकाण्ड का नव्वेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

### एकनवतितमः सर्गः

—:०:—

कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा ।

भरतं कैकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत् ॥ १ ॥

जब कैकेयीनन्दन भरत ने वहाँ टिकना निश्चय कर लिया, तब भरद्वाज ने उनको आतिथ्य ग्रहण के लिये निमंत्रण दिया ॥ १ ॥

अत्रवीद्वरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम् ।

पाद्यमर्घ्यं तथाऽऽतिथ्यं वने यदुपपद्यते ॥ २ ॥

तब भरत जी बोले—आप तो अर्घ्य, पाद्य तथा वन के फल मूलों से मेरा ययोचित आतिथ्य कर ही चुके। मैं इससे सन्तुष्ट हूँ ॥ २ ॥

अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव ।

जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येनकेनचित् ॥ ३ ॥

यह सुन भरद्वाज ने मुसक्या कर कहा कि, यह तो मैं जानता हूँ कि, प्रीतिपूर्वक दी हुई किसी भी वस्तु से आप प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥

सेनायास्तु तवैतस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम् ।  
मम प्रीतिर्यथारूपा त्वमर्हो मनुजाधिप ॥ ४ ॥

किन्तु हे नरनाथ ! मैं तो आपकी समस्त सेना की पहुनई करना चाहता हूँ । अतः मुझे जिससे सन्तोष हो, आपको वह करना उचित है ॥ ४ ॥

किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः ।  
कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्षभ ॥ ५ ॥

हे पुरुषप्रवर ! आप अपनी सेना को दूर छोड़, अकेले क्यों मेरे पास आये । सेना सहित मेरे आश्रम में न आने का क्या कारण है ? ॥ ५ ॥

भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम् ।  
ससैन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन्भगवद्भयात् ॥ ६ ॥

यह सुन भरत जी ने हाथ जोड़ कर भरद्वाज जी से कहा—हे भगवन् ! आप कहीं क्रुपित न हों—इसी भय से मैं सेना सहित नहीं आया ॥ ६ ॥

राज्ञा च भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा सदा ।  
यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनाम्\* ॥ ७ ॥

राजा हो वा राजपुत्र हों, उसे यही उचित है कि, अपने राज्य में बसने वाले ऋषियों के आश्रमों को यत्नपूर्वक छोड़ दे अर्थात् आश्रमों से दूर रहै ॥ ७ ॥

१ विषयेषु तपस्विनां—स्वकीयदेशेषु वर्तमानान् ऋषयः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ तपस्विनः ” ।

वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः ।

प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम् ॥ ८ ॥

हे भगवन् ! मेरे साथ बड़े बड़े घोड़े बहुत से मनुष्य और मतवाले हाथी हैं, जिनके टिकने के लिये बहुत सी जगह अपेक्षित होती है ॥ ८ ॥

ते वृक्षानुदकं भूमिमाश्रमेषु<sup>१</sup>टजांस्तथा ।

न हिंस्युरिति तेनाहमेकएव समागतः ॥ ९ ॥

वे आश्रम के वृक्षों को तालाव अथवा कुएँ के जल को, आश्रम भूमि को और पर्णशाला को कहीं नष्ट न कर डालें, यह विचार कर मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ ॥ ९ ॥

आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा ।

ततस्तु चक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम् ॥ १० ॥

तब महर्षि भरद्वाज जी ने कहा—आप अपनी सेना को यहीं बुला लीजिये । महर्षि की आज्ञा पा कर, भरत जी ने अपनी सेना वहीं बुलवा ली ॥ १० ॥

अग्निशालां प्रविश्याथ<sup>२</sup>पीत्वाऽपः परिमृज्य<sup>३</sup> च ।

आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्विश्वकर्माणमाह्वयत् ॥ ११ ॥

तदनन्तर भरद्वाज जी ने अग्निशाला में जा तीन बार आचमन किया और यथाविधि मार्जन कर ( जल को मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर छिड़का ) भरत जी की पहुनाई करने के लिये विश्वकर्मा का आवाहन किया ॥ ११ ॥

१ उदजान्—पर्णशालाः । ( गो० ) २ अपःपीत्वा त्रिरितिशेषः । ( गो० ) ३ त्रिराचामेत् ॥ इतिश्रुतेः । ( गो० ) ३ परिमृज्य— यथाविधि मार्जनं कृत्वा । ( शि० )



आह्वये विश्वकर्माणमहं<sup>१</sup> त्वष्टारमेव<sup>२</sup> च ।

आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम् ॥ १२ ॥

(आवाहन करते समय) वे कहने लगे कि, मैं भरत का आतिथ्य करने के लिये विश्वकर्मा और त्वष्टा का आवाहन करता हूँ। अतः वे आ कर सेना आदि के लिये घर आदि बनावें ॥ १२ ॥

आह्वये लोकपालास्त्रीन्देवाञ्चक्रमुखांस्तथा ।

आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम् ॥ १३ ॥

मैं भरत की पहुनाई करना चाहता हूँ। अतः मैं तीनों लोकपाल यम, वरुण तथा कुबेर एवं इन्द्रादि देवताओं का आवाहन करता हूँ। वे आ कर पहुनाई की तैयारी करें ॥ १३ ॥

प्राक्स्रोतसश्च या नद्यः प्रत्यक्श्रोतस एव च ।

पृथिन्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः ॥ १४ ॥

पृथिवी और आकाश में पूर्व से पश्चिम को और पश्चिम से पूर्व को बहने वाली जो नदियाँ हैं, वे सब आज यहाँ आवें ॥ १४ ॥

अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् ।

अपराश्वोदकं शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम् ॥ १५ ॥

वे नदियाँ आ कर कोई तो मैरेय नाम की शराब, कोई सुरा नाम की उत्तम शराब और कोई शीतल और ऊख के रस जैसे मीठे जल को यहाँ बहा कर प्रकट करें ॥ १५ ॥

१ विश्वकर्मा—सर्वशिल्पकर्ता । ( गो० ) २ त्वष्टातु तक्षणेनगृहादि निर्माता । ( गो० ) ३ श्रीलोकपालान्—यमवरुणकुबेरान् । ( गो० )

आह्वये १देवगन्धर्वान्विश्वावसुहहाहुहृन् ।

तथैवाप्सरसो २देवीर्गन्धर्वीश्वापि ३ सर्वशः ॥ १६ ॥

मैं विम्बावसु, हाहा, हृह नामक देवगन्धर्वों को और देव जाति में उत्पन्न गन्धर्वियों को तथा सब अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ ॥ १६ ॥

घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुसाम् ।

नागदन्तां च हेमां च हिमामद्रिकृतस्थलाम् ॥ १७ ॥

इनके अतिरिक्त घृताची, विम्बाची, मिश्रकेशी, अलंबुसा, नागदन्ता, हेमा, और हिमान्तवासिनो ( सोमा ) ॥ १७ ॥

शक्रं यारचोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च योषितः ।

सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥

और इन्द्र को सभा तथा ब्रह्मा को सभा में नाचने वाली सब अप्सराओं को, अन्त्रे बल धारण किये हुए तुम्बुरु के साथ, मैं आवाहन करता हूँ ॥ १८ ॥

वनं कुरुषु यदिव्यं वासोभूषणपत्रवत् ।

दिव्यनारीफलं शश्वत्तत्कौवेरमिद्वैतु च ॥ १९ ॥

कुवेर का चैत्ररथ नामक, उत्तरकुरु वाला दिव्य वन, जिसके वृक्षों के पत्ते, दिव्य चक्र और दिव्यनारी रूप हैं, यहाँ प्रकट हों ॥ १९ ॥

---

१ देवगन्धर्वान्—मनुष्यगन्धर्वमिच्छान् । (गो०) २ देवीः—देवजातीः ।  
( गो० ) ३ गन्धर्वीः—गन्धर्वजातीः ।

इह मे भगवान्सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम् ।

भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु ॥२०॥

इनके अतिरिक्त विविध भाति के श्रौर बहुत से भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहादि अन्न, भगवान् चन्द्रदेव यहाँ आ कर उत्पन्न करें ॥ २० ॥

विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि<sup>१</sup> च ।

सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ २१ ॥

( वं ) ताजे फूलों को चित्र विचित्र पुष्प मालाएँ, सुरा आदि पीने के पदार्थों को श्रौर तरह तरह के मांसों को शीघ्र ही प्रस्तुत करें ॥ २१ ॥

एवं समाधिना<sup>२</sup> ३युक्तस्तेजसाऽप्रतिमेन च ।

शीक्षास्वरसमायुक्तं<sup>४</sup> तपसा चाब्रवीन्मुनिः ॥ २२ ॥

इस प्रकार अनुपम शाणानुग्रह समर्थ भरद्वाज मुनि ने योगबल से श्रौर ज्ञानबल से उपयुक्त स्वर श्रौर यथाविधि वर्णोच्चारणपूर्वक सब का आवाहन किया ॥ २२ ॥

५मनसा ध्यायतस्तस्य<sup>६</sup> प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः<sup>७</sup> ।

आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक्पृथक् ॥२३॥

१ पादपप्रच्युतानि—नवानीति भावः ( गो० ) २ समाधिना—योगेन । ( गो० ) ३ तेजसा—अनागमेदण्डनसामर्थ्ये च युक्तेन । ( गो० ) ४ तपसा—ज्ञानेन । ( गो० ) ५ मनसा—अनन्य परेणेत्यर्थः । ( गो० ) ६ ध्यायतः—निरन्तरचिन्तयतः । ( गो० ) ७ कृताञ्जले—आह्वानमुद्रोक्ताः । ( गो० )

भरद्वाज जी के पूर्व की ओर मुख कर बैठ कर आवाहन मुद्रा से, एकाग्रमन हो और कुछ काल तक निरन्तर चिन्तन करते ही, वे सब देवता एक एक कर भरद्वाज जी के सामने आ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥

मलयं दर्दुरं चैव ततः स्वेदनुदोऽनिलः ।

उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः<sup>१</sup> ॥२४॥

उस समय मलय और दर्दुर पर्वतों को स्पर्श करता हुआ सुखद पवन, शीतल मंद और सुगन्धयुक्त हो, गरमी को नाश करता हुआ चलने लगा ॥ २४ ॥

ततोऽभ्यवर्तन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः ।

दिव्यन्दुदुभिषोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे ॥ २५ ॥

दिव्य मेघों ने पुष्पों की वर्षा की । देवताओं के नगाड़ों का शब्द सब दिशाओं में सुनाई पड़ने लगा ॥ २५ ॥

प्रववुश्चोत्तमा वाता नृतुश्चाप्सरोगणाः ।

प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान् ॥ २६ ॥

सुखद समीर के झोके आने लगे । अप्सरायें नाचने लगीं । देव गन्धर्वों का गाना और वीणाओं की झनकार सुनाई पड़ने लगी ॥ २६ ॥

स शब्दे घां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च ।

विवेशोच्चारितः श्लक्ष्णः समो लयगुणान्वितः ॥२७॥

१ शिवः—शीतलः । ( गो० )

इस प्रकार से मधुर, सम, और जय युक्त शब्द से आकाश, भूमि और प्राणियों के कान पूर्ण हो गये ॥ २७ ॥

तस्मिन्नुपरते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम् ।

ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः ॥ २८ ॥

सुनने में मधुर ये शब्द हो हो रहे थे कि. इतने में भरत की सेना विश्वकर्मा की कारीगरी देखने लगी. ॥ २८ ॥

वभूव हि समा भूमिः समन्तात्पञ्चयोजना ।

शाद्वलैर्वहुभिश्छन्ना नीलवैडूर्यसन्निभैः ॥ २९ ॥

उन्होंने देखा कि, वहाँ की भूमि चारों ओर पाँच योजना तक बराबर एकसी और नील वैडूर्य मणि की तरह चमकीली हरीहरी दूब से ढकी हुई है ॥ २९ ॥

तस्मिन्विल्याः कपित्थाश्च पनसा वीजपूरकाः ।

आमलक्यां वभूवुश्च चूताश्च फलभूषणाः ॥ ३० ॥

और जगह जगह बेल, कैया, कटहर, विजौरा, आमला और आम के वृक्ष फलों से लदे हुए सुशोभित हैं ॥ ३० ॥

उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् ।

आजगाम नदी दिव्या तीरजैर्वहुभिर्वृता ॥ ३१ ॥

स्वर्गस्थ लोगों के उपभोग के योग्य, उत्तर कुरुदेश से, वहाँ एक वन भी उपस्थित हो गया। एक दिव्य नदी भी वहाँ बहने लगी। इस नदी के उभय तटों पर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे ॥ ३१ ॥

चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम् ।

हर्म्यप्रासादसम्वाधास्तोरणानि शुभानि च ॥ ३२ ॥

वहाँ पर अनेक सुन्दर श्वेतवर्ण घर, हस्तिशालाएँ और ग्रन्थ शालाएँ बनी हुई देख पड़ने लगीं। महल और अटारियों से युक्त मङ्गल रूपों मत्तोहर तोरण देख पड़ने लगे ॥ ३२ ॥

सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणम् ।

दिव्यमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम् ॥ ३३ ॥

सफेद बादल जैसी सफेद बंदनवारों से भूषित, सफेद गुप्पों की माला से सुशोभित, सुवासित जल से छिड़के हुए अनेक राजभवन वहाँ देख पड़ने लगे ॥ ३३ ॥

चतुरश्रसम्बार्धं शयनासनयानवत् ।

दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवत्त्वत् ॥ ३४ ॥

इन भवनों में चौकान और सोने, बैठने तथा पालकी आदि रखने के लिये ( अलग अलग ) विशाल कमरे बने हुए थे। कितने ही कमरों में शर्करा आदि रस, उत्तम मिर्हान चावल आदि अन्न और मिर्हान कपड़े भरे हुए थे ॥ ३४ ॥

उपकल्पितसर्वान्नं धैतनिर्मलभाजनम् ।

कलूषसर्वासनं श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम् ॥ ३५ ॥

उन कमरों में पुड़ी, पुआ, कचौड़ी आदि नाना प्रकार के व्यञ्जन तथा मजे धुले साफ बरतन रखे हुए थे। यथास्थान पूजन एवं

१ समुक्षितं—सिक्तं । ( गो० ) २ चतुरश्र—चतुष्कोणं । ( गो० )  
३ असम्बार्धं—विशालं । ( गो० ) ४ दिव्यभोजनानि—सुक्ष्ममाल्यन्तादीनि ।  
( गो० ) ५ दिव्य वस्त्राणि—सुक्ष्मवस्त्राणि । ( गो० ) ६ उपकल्पितानि—  
सर्वान्नानि नानाविधा पूजादीनियस्मिस्तत् । ( गो० )

करने के लिये आसन विछे हुए थे । सुन्दर सेजों पर साफ सुथरे एवं कोमल विस्तरे विछे हुए थे ॥ ३५ ॥

प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञातो महर्षिणा ।

वेश्म तद्रत्नसम्पूर्णं भरतः केकयीसुतः ॥ ३६ ॥

इस प्रकार के वने हुए और उत्तम सामग्री से भरे पूरे घर में, कैकेयीनन्दन महाबाहु भरत जी ने, महर्षि भरद्वाज की आज्ञा पा कर प्रवेश किया ॥ ३६ ॥

अनुजग्मुश्च तं सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः ।

वभूवुश्च मुदा युक्ता दृष्ट्वा तं वेश्मसंविधिम् ॥३७॥

भरत जी के पीछे मंत्री तथा पुरोहित उस भवन में जा और उसकी बनावट और सजावट देख, आनन्द में मग्न हो गये ॥ ३७ ॥

तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च ।

भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत<sup>१</sup> राजवत्<sup>२</sup> ॥ ३८ ॥

उस घर में राजाओं के बैठने योग्य एक राजसिंहासन था, जिसके समीप दास लोग छत्र और चमर लिये खड़े थे । मंत्रियों सहित भरत जी ने उस सिंहासन को प्रदक्षिणा की ॥ ३८ ॥

आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च ।

वालव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिदासने ॥ ३९ ॥

( उस राजसिंहासन पर मानों श्रीरामचन्द्र जी विराजमान हैं, इस कारण से ) भरत जी ने उस राजसिंहासन को प्रणाम कर उसका पूजन किया । तदनन्तर एक छोटा पल्ला हाथ में ले भरत जी

१ अभ्यवर्तत—प्रदक्षिणं कृतवान् । ( गो० )

राजसिंहासन के नीचे मंत्री के बैठने योग्य एक आसन पर बैठ गये ॥ ३९ ॥

आनुपूर्व्यान्निपेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ।

ततः सेनापतिः<sup>१</sup> पश्चात्पशास्ता<sup>२</sup> च निपेदतुः ॥ ४० ॥

उनके बैठते ही मंत्री, पुरोहित, सेनापति और शिविर-नियन्ता ( झावनी का शासक अर्थात् कैटोमॅट मेजिस्ट्रेट ) ये सब भी यथा-क्रम अपने अपने स्थानों पर बैठ गये ॥ ४० ॥

ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः ।

उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात् ॥ ४१ ॥

सब लोगों के बैठ चुकने के थोड़ी ही देर बाद भरद्वाज मुनि की आज्ञा से गाढ़ी गाढ़ी खीर की नदियाँ वहाँ बहने लगीं ॥ ४१ ॥

तासामुभयतःकूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः ।

रम्याश्वावसथा दिव्या ब्रह्मणस्तु प्रसादजाः ॥ ४२ ॥

भरद्वाज के अनुग्रह से, उन नदियों के दोनों तटों पर, अनेक रमणीय एवं अच्छे सफेद चूने से पुते घर देख पड़ने लगे ॥ ४२ ॥

तैनेव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः ।

आगुर्विशतिसाहस्राः कुबेरप्रदिताः स्त्रियः ॥ ४३ ॥

उसी समय चतुर्मुख ब्रह्मा की भेजी हुई बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहनों से सजी हुई बीस हजार स्त्रियाँ वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥

---

१ सेनापतिः—दण्ड-नायकः । ( गो० ) २ पशास्ता—शिविरनियन्ता । ( गो० ) ३ मुहूर्तेन—अवकाशेन । ( गो० )



सुवणमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः ।

आगुर्विंशतिसाहस्राः कुबेरप्रहिताः स्त्रियः ॥ ४४ ॥

तदनन्तर वीस ही हजार स्त्रियाँ, जो सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मृगों से अपने शरीर को सजाये हुए थीं, और जिन्हें कुबेर ने भेजा था, वहाँ आयीं ॥ ४४ ॥

याभिर्युहीतः<sup>१</sup> पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते ।

आगुर्विंशतिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥ ४५ ॥

नन्दनवन से आयी हुईं वीस हजार अप्सराएँ ऐसी सुन्दरीयों कि, जिस पुरुष को वे आलिङ्गन करतीं, वह पुरुष पागल सा देख पड़ने लगता था ॥ ४५ ॥

नारदस्तुम्बुरुर्गोपप्रवराः सूर्यवर्चसः ।

एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥ ४६ ॥

नारद, तुम्बुरु और गोप ये सब जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं और गन्धर्वराज कहलाते हैं, भरत के सामने जा गाने लगे ॥ ४६ ॥

अलम्बुसा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना ।

उपानृत्यस्तु भरतं भरद्वाजस्य शासनात् ॥ ४७ ॥

भरद्वाज जी की आज्ञा से अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना नाम की अप्सराएँ, भरत के आगे जा कर नाचने लगीं ॥ ४७ ॥

यानि मलयानि देवेषु यानि चैत्ररथे बने ।

प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा<sup>२</sup> ॥ ४८ ॥

१ गृहीतः—आलिङ्गितः । ( गो० ) २ तेजसा—प्रभावेन । ( गो० )

जो फूल देवताओं के वगीचों में और चैत्रग्र नामक वन में फूलते हैं, वे सब महर्षि भरद्वाज के प्रभाव से प्रयाग में देख पड़ते थे ॥ ४८ ॥

विल्वा मार्दङ्गिका आसन्कांस्यग्राहा\* विभीतकाः ।

अश्वत्या नर्तकाश्चासन्भरद्वाजस्य शासनात् ॥ ४९ ॥

महर्षि भरद्वाज के तपोवल से बेल के पेड़ों ने पखावज्रियों का, बहेड़े के पेड़ों ने मजोरा वजाने वालों का और पीपल के वृक्षों ने नाचने वालों का रूप धरा ॥ ४९ ॥

ततः †सरलतालाश्च तिलका नक्तमालकाः‡ ।

प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाऽथ वामनाः ॥ ५० ॥

इनके अतिरिक्त देवदारु, ताल, चुरक, करंज के पेड़ हर्षित हो, कुवड़े और बौने का रूप धर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ५० ॥

शिशुपामलकीजम्बो यारञ्चान्याः काननेषु ताः ।

मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः ॥५१॥

शोशम, आंवला, जामुन के पेड़ तथा वन की मालती, मल्लिका आदि लताएँ, ॥ ५१ ॥

प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमेऽवसन् ।

सुराः सुरापाः पिवत पायसं च बुभुक्षिताः ॥ ५२ ॥

स्त्रियों का रूप धर भरद्वाज के आश्रम में जा बसों और पुकार पुकार कर लोगों से कहने लगीं, हे मद्य पीने वालो ! तुम मदिरा पियो ! हे भूख के सताये लोगो ! तुम खीर खाओ ॥ ५२ ॥

\* सरलाः—देवदारुविशेषाः । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“आसन्कांस्यग्राहाः ।” † पाठान्तरे—“ऽवदन्” ।

मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छथ ।

उच्छाद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वहगुषु ॥ ५३ ॥

अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ।

संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो रुचिरलोचनाः ॥ ५४ ॥

सुन्दर और खाने योग्य मांस जितनी जिसको इच्छा हो उतना खाओ । एक एक पुरुष को सात सात आठ आठ स्त्रियाँ मिल कर तेल की मालिश कर मनाहर नदियों के तट पर स्नान कराती और अनेक बड़े बड़े नेत्र वाली स्त्रियाँ पुरुषों के शरीरों को मलती थीं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ।

हयान्गजान्खरानुष्ट्रांस्तथैव सुरभेः सुतान् ॥ ५५ ॥

जब वे स्नान कर चुकते, तब कितनी ही सुन्दर स्त्रियाँ मिल कर उनके गीले शरीर को पोंछती थीं और उनके अमृत तुल्य शरवत पिताती थीं । घोड़ों, हाथियों, खिच्चरों, ऊँटों और बैलों को ॥ ५५ ॥

अभोजयन्वाहनपास्तेपां भोज्यं यथाविधि ।

इक्षूश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् ॥ ५६ ॥

इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ।

नाश्वन्धोऽश्वमाजानान्न गजं कुञ्जरग्रहः ॥ ५७ ॥

उनके रखवाले दाना चारा यथाविधि खिला रहे थे । इनमें इक्ष्वाकुवंशीय प्रधान योद्धाओं की सवारी के जो पशु थे, उनके

महावली मालिकों ने ऊँख की गड़ेरियाँ और मीठी खीलों उनके खाने के लिये भेजी थीं, जो उनको खिलायी जा रही थीं। सईस व चरकट अपने अपने घोड़ों और हाथियों को पहचान तक न सके ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

मत्तप्रमत्तमुदिता चमूः सा तत्र संम्बभौ ।

तर्पिताः सर्वकामैस्ते रक्तचन्दनरूपिताः ॥ ५८ ॥

क्योंकि उस समय वह सेना नशा पी कर मतवाली हो आनन्द में मग्न हो रही थी। सब लोग इच्छानुसार तृप्ति लाभ कर लाल चन्दन शरीर में लगाये ॥ ५८ ॥

अप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदैरयन् ।

नैवायोध्यां गमिष्यामि न गमिष्यामि दण्डकान् ॥ ५९ ॥

और अप्सराओं से रमण कर मतवालों जैसी बातें कहने लगे। वे कहते अब हम न तो यहाँ से अयोध्या ही जायेंगे और न दण्डकवन ही जायेंगे ॥ ५९ ॥

कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम् ।

इति पादातयोधाश्य हस्त्यश्वारोहवन्धकाः ॥ ६० ॥

भरत जी भी मौज करे और श्रीरामचन्द्र जी भी सुखपूर्वक वन में रहें। पैदल सैनिक, चरकटे और सईस ॥ ६० ॥

अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदैरयन् ।

सम्प्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः ॥ ६१ ॥

१ अनाथाः—स्वतंत्रा इति । ( गो० ) २ तंविधिं—सत्कारं । ( गो० )  
३ विनेदुः—जगर्जुः । ( गो० )

भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चाब्रुवन् ।

वृत्यन्ति स्म हसन्ति स्म गायन्ति स्म च सैनिकाः ॥६२॥

इस प्रकार को पहुनई से, स्वतंत्र हो, ऊँटपटांग बकने लगे । भरत जी की सेना के हज़ारों आदमी अतिशय हर्षित हो यह कह कर गर्ज रहे थे कि, वस—यही स्वर्ग है । सैनिकों में कोई कोई तो नाच रहे थे, कोई गा रहे थे और कोई हँस ही रहे थे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

समन्तात्परिधावन्ति माल्योपेताः सहस्रशः ।

ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नममृतोपमम् ॥ ६३ ॥

हज़ारों सैनिक गले में मालाएँ पहिने हुए, इधर उधर दौड़ रहे थे । यद्यपि अमृत समान स्वादिष्ट भोजन कर वे लोग तृप्त हो गये थे ॥ ६३ ॥

दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्भक्षणे मतिः ।

प्रेष्याश्चेत्यश्च<sup>१</sup> वध्वश्च<sup>२</sup> बलस्थाश्च सहस्रशः ॥६४॥

तथापि उन दिव्य भोज्य पदार्थों को देख उनकी इच्छा पुनः भोजन करने की होती थी । उस सेना में जो सहस्रों दास दासी और सिपाहियों की स्त्रियाँ थीं ॥ ६४ ॥

वभूवुस्ते भृशं दृप्ताः सर्वे चाहतवाससः<sup>४</sup> ।

कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोश्वाश्च मृगपक्षिणः ॥ ६५ ॥

वे सबको सब नये नये बख्त धारण कर अत्यन्त गर्वीली हो गयी थीं । हाथी, खच्चर, ऊँट, बैल, घोड़े, मृग और पक्षी (सैनिक लोग अपने पालतू मृग पक्षी अपने साथ ले गये थे) ॥ ६५ ॥

१ प्रेष्याः—परिचारकाः । ( गो० ) २ चेत्योदात्तः । ( गो० ) ३ वध्वा-  
योधाह्वनाः । ( गो० ) ४ अहतवाससः—नूतनबन्धाः । ( गो० )

बभूवुः सुभृतास्तत्र नान्यो ह्यन्यमकल्पयत् ।

नाशुक्लवासास्तत्रासीत्क्षुधितो मलिनोऽपि वा ॥६६॥

सब के सब मुनि के दिये हुए पदार्थों से अघाए हुए थे । किसी को अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु स्वयं जुटानो न पड़ी । उस समय भरत की सेना में मैले कपड़े पहने अथवा भूखा अथवा मैला कुचैला ॥ ६६ ॥

रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिद्दृश्यत ।

आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसंचयैः ॥ ६७ ॥

अथवा धूलधूसरित केशों वाला एक भी आदमी नहीं देख पड़ता था । वहाँ बकरों और शूकरों के माँसों के तथा अन्य अच्छे अच्छे व्यञ्जनों के ढेरों से, ॥ ६७ ॥

फलनिव्यूहसंसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः ।

पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ॥६८॥

दृश्युर्विस्मितास्तत्र नरा लौहीः सहस्रशः ।

बभूवुर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ॥ ६९ ॥

जो फलों के रसों में बनाये गये थे ; होंग, लोंग, जीरा आदि सुगंधित मसालों से झोंकी हुई दालों से और अत्युत्तम प्रकार के भातों से भरी, सहस्रों पेसी कढ़ाइयों का, जिनमें शोभा के लिये फूलों की झड़ियाँ लगायी गयी थीं—देख देख कर लोग चकित हो रहे थे । उस पाँच योजन घेरे में जितने कुपड़े थे, वे सब गाढ़ी गाढ़ी खीर से भरे हुए थे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

१ सुभृताः—सुतृताः । (गो०) २ निष्ठानवरसंचयैः—व्यञ्जनश्रेष्ठसमूहैः ।

( गो० )

ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्वासन्मधुसूतः ।

वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्दृताः ॥ ७० ॥

प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरकौक्कुटैः ।

१ पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां २ नियुतानि ३ च ॥ ७१ ॥

जितनी गौवें थी, वे कामधेनु के समान जो मांगो सो देती थीं । जितने वृत्त थे, वे सब शहद चुआ रहे थे । कुण्ड या बावली मैरेय नाम की शराब से भरी हुई थीं । हिरन, भोर और मुर्गे के अच्छी तरह पकाये और साफ किये हुए मांस के ढेर लगे हुए थे । अन्न भरने के लिये हज़ारों बरतन थे और भोज्य पदार्थ रखने के लिये लाखों थाल थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥

न्यर्बुदानि च पत्राणि ४ शातकुम्भमयानि च ।

स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृता ॥ ७२ ॥

दस करोड़ सोने के थाल और कलसे थे तथा थाली, लुटियाँ दही रखने के कलई किये बरतन जिनमें दही भरा हुआ था, वहाँ मौजूद थे ॥ ७२ ॥

५ यौवनस्थस्य गौरस्य ६ कपित्थस्य ७ सुगन्धिनः ।

हृदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वेतस्य चापरे ॥ ७३ ॥

बभ्रुवुः पायसस्यान्ये शर्करायाश्च सञ्चयाः ।

कल्कांश्चूर्णकषायाश्च स्नानानि विविधानि च ॥ ७४ ॥

१ पात्रीणां—अन्नधानकुम्भीनां । ( गी० ) २ स्थालीनां—न्यस्तनपात्राणां । ( गी० ) ३ नियुतानि—लक्षाणि । ४ पत्राणि—भोजनपात्राणि । ५ यौवनस्थस्य—नातिनूतनस्य नातिपुराणस्येत्यर्थः । ( गी० ) ६ गौरस्य—शुभ्रस्य । ( गी० ) ७ कपित्थस्य—तक्रस्य । ( रा० )

बहुत से बरतनों में कुछ देर का तैयार किया हुआ सफेद ( सादा ) मट्टा भरा हुआ था, वहुतों में ज़ीरा लोंग सोंठ आदि सुगन्धित मसालों से युक्त मट्टा भरा हुआ था । वहाँ के अनेक कुण्डों में शिखरन, दही और दूध भरा हुआ था । चीनी की ढेरियाँ देख पड़ती थीं । स्नानोपयोगी विविध प्रकार के सूखे मसाले तथा मसालों के काथ, ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः ।

१ शुक्लानंशुमतश्चापि दन्तधावनसञ्चयान् ॥ ७५ ॥

नदियों के घाटों पर बरतनों में भरे हुए लोगों ने देखे । ( घाटों पर ) साफ और कूचो बनी हुई दंतों के ढेर लगे थे ॥ ७५ ॥

शुक्लान्श्चन्दनकल्पांश्चः ४ समुद्रगेष्ववतिष्ठतः ।

दर्पणान्परिमृष्टान्श्च वाससां चापि सञ्चयान् ॥ ७६ ॥

घिसा हुआ सफेद चन्दन कटोरों में भरा हुआ रखा था । साफ दर्पणों और कपड़ों के ढेर लगे थे ॥ ७६ ॥

पादुकोपानहां चैव युग्मानि च सहस्रशः ।

५ आज्ञनीः ६ कङ्कतान्कूर्वाञ्शस्त्राणि च धनूषि च ॥ ७७ ॥

खड़ाऊँओं और जूतों की हजारों जोड़ियाँ रखी थीं । सुरमा-दानियाँ, कंधे, शूश, छत्र, धनुष ॥ ७७ ॥

१ शुक्लान्—निर्मलान् । ( गो० ) २ अंशुमतः—कूर्चवतः । ( गो० )

३ चन्दनकल्कान्—चन्दनपट्टान् । ( गो० ) ४ समुद्रगेषु—संप्रदकेषु ।

( गो० ) ५ आज्ञनीः—अज्ञनयुक्ताः करण्डिकाः । ( गो० ) ६ कङ्कतान्—केश-

मार्जनान् । ( गो० )



मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ।

प्रतिपानहृदान्पूर्णांखरोष्ट्रगजवाजिनाम् ॥ ७८ ॥

कवच तथा तरह तरह की बेंचे और स्टूल कुर्सियाँ यथास्थान सजा कर रखे हुए थे । खाये हुए भ्रम को पचाने के लिये ओषधि रूपी जल से भरे हुए कुण्ड भी थे । गधे, ऊँट हाथी और घोड़े ॥ ७८ ॥

अवगाह्य सुतीर्थाश्च हृदान्सेत्पलपुष्करान् ।

आकाशवर्णप्रतिमान्स्वच्छतोयान्मुखप्लवान् ॥ ७९ ॥

जहाँ सुख से उतर कर स्नान कर सकें अथवा जल पी सकें ऐसे घाटों वाले तथा फूले हुए कमल के फूलों से भरे आकाश की तरह निर्मल जल से पूर्ण अनेक तालाव भी थे ॥ ७९ ॥

नीलवैडूर्यवर्णाश्च मृदून्यवससञ्चयान् ।

निर्वापार्थान्पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः ॥ ८० ॥

नील और वैडूर्य मणियों के रंग जैसे रंग की कोमल घास की ढेरियाँ लगी थीं और जगह जगह पशुओं के विश्राम के लिये स्थान देख पड़ते थे ॥ ८० ॥

व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतम् ।

दृष्ट्वातिथ्यं कृतं तादृग्भरतस्य महर्षिणा ॥ ८१ ॥

महर्षि भरद्वाज जी ने भरत जी को पहुनाई के लिये जो ये सब स्वप्न सदृश चमत्कार पूर्ण तैयारियाँ की थीं, इनको देख देख, भरत के साथ वाले लोग विस्मित हो रहे थे ॥ ८१ ॥

इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने ।

भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिर्व्यत्यवर्तते ॥ ८२ ॥

नन्दनवन में विहार करते हुए देवताओं की तरह, रमणीय भरद्वाज के आश्रम में विहार करती हुई भरत की सेना ने वह रात बिताई ॥ ८२ ॥

प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम् ।

भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ॥ ८३ ॥

प्रातःकाल होते ही वे सब नदियाँ गन्धर्व और अप्सराएँ मुनि से विदा हो, अपने अपने स्थान को चली गयीं ॥ ८३ ॥

तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः

तथैव दिव्यागुरुचन्दनोक्षिताः ।

तथैव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः

पृथक्प्रकीर्णा मनुजैः प्रमर्दिताः ॥ ८४ ॥

इति पकनवतितमः सर्गः ॥

परन्तु भरत जी के अनुगामी वे सब मतवाले लोग वैसे ही गर्वीले और मदमत्त थे और उसी प्रकार शरीर में चन्दन लगाये हुए थे। तरह तरह की श्रेष्ठ और दिव्य पुष्पमालाएँ और पुष्प, जो इधर उधर बिखरे पड़े थे, लोगों के पैरों से कुचले जाने पर भी, पूर्ववत् ज्यों के त्यों देख पड़ते थे ॥ ८४ ॥

अयोध्याकाण्ड का पञ्चानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

## द्विनवतितमः सर्गः

—:०:—

ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः ।  
कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम<sup>१</sup> ह ॥ १ ॥  
सपरिवार भरत जी, भरद्वाज जी की पहुनाई में वह रात बिता,  
सबेरा होते ही, श्रीरामदर्शन की कामना से, भरद्वाज जी के पास  
गये ॥ १ ॥

तमृषिः पुरुषव्याघ्रं प्राञ्जलिं प्रेक्ष्य चागतम् ।  
हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥  
पुरुषसिंह भरत को हाथ जोड़े अपने समीप खड़ा देख, अग्नि-  
होत्र पूरा कर, भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा ॥ २ ॥

कच्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता ।  
समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३ ॥  
हे अनघ ! मेरे आश्रम में यह रात तुम्हारी सुख से तो कटी ?  
तुम्हारे साथ के सब लोग मेरे आनिथ्य से भली भाँति सन्तुष्ट तो  
हुए ? ॥ ३ ॥

तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च ।  
आश्रमादभिनिष्क्रान्तमृषिमुत्तमतेजसम् ॥ ४ ॥  
यह कहते हुए तेजस्वी महर्षि भरद्वाज जब आश्रम से बाहर  
आये, तब भरत जी ने हाथ जोड़ कर उनको प्रणाम किया और  
बोले ॥ ४ ॥

१ कामात्—रमप्राप्तीच्छया । ( गो० )

सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्रवलवाहनः ।

तर्पितः सर्वकामैश्च सामात्यो 'वलवत्त्वया ॥ ५ ॥

हे भगवन् ! मैं सेना सहित इस आश्रम में सुख से रहा और हर प्रकार से आपने हम सब को अतिशय तृप्त किया ॥ ५ ॥

अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः ।

अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः ॥ ६ ॥

हम सब लोगों ने सुखपूर्वक रात बिताई । अच्छे अच्छे घरों में वास किया, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन किये । रास्ते में जो कुछ थकावट हुई थी, वह सब हमारी दूर हो गयी ॥ ६ ॥

आमन्त्रयेऽहं भगवन्कामं त्वामृषिसत्तम ।

समीपं प्रस्थितं भ्रातृमैत्रेणेष्व चक्षुषा ॥ ७ ॥

हे ऋषिश्रेष्ठ ! अइ मैं आपसे विदा हो कर, भाई के पास जाना चाहता हूँ । आप मुझे कृपादृष्टि से देखिये ॥ ७ ॥

आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः ।

आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥

हे धर्मज्ञ ! यह बतलाइये कि, उन महात्मा धार्मिक श्रीरामचन्द्र जी का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के लिये कौनसा मार्ग है ॥ ८ ॥

इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शनलालसम् ।

प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः ॥ ९ ॥

भरत जी का ऐसा वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की लाजसा रखने वाले भरत से महातेजस्वी एवं परम तपस्वी भरद्वाज जी बोले ॥ ९ ॥

भरतार्धवृत्तीयेषु योजनेष्वजने वने ।

चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिर्दरकाननः ॥ १० ॥

हे भरत ! यहाँ से अर्धवृत्त योजन के अन्तर पर टूटेफूटे पत्थरों वाले निर्जन वन में चित्रकूट नामक एक रमणीय पहाड़ है ॥ १० ॥

उत्तरं पार्श्वभासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी ।

पुष्पितद्रुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥ ११ ॥

इस पर्वत की उत्तर तरफ मन्दाकिनी नदी बहती है । इस नदी के उभय तटों पर पुष्पित वृक्ष लगे हुए हैं और वह नदी रमणीय पुष्पित वन में हो कर बहती है ॥ ११ ॥

अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकूटश्च पर्वतः ।

तयो पर्णकुटी तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम् ॥ १२ ॥

हे तात ! उसीसे मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है । उसी पर्वत पर एक पर्णकुटी में तुम दोनों भाइयों को निश्चय ही वास करते हुए पाओगे ॥ १२ ॥

दक्षिणेनैव मार्गेण सव्यदक्षिणमेव वा ।

गजवाजिरयाकीर्णा वाहिनी वाहिनीपते ॥ १३ ॥

वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम् ।

प्रयाणमिति तच्छुस्वाराजराजस्य योषितः ॥ १४ ॥

हे महाभाग ! हे वाहिनीपते ! यमुना के दक्षिण वाले मार्ग से कुछ दूर जाने वाले दो मार्ग मिलेंगे । आप दहिनी ओर वाले मार्ग से हाथी घोड़ों से युक्त अपनी सेना को यदि ले जाओगे तो तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन हो जायगा । प्रस्थान करने का विचार सुन महाराज दशरथ की रानियों ने ॥ १३ ॥ १४ ॥

हित्वा यानानि यानार्हा ब्राह्मणं पर्यवारयन् ।

वेपमाना कुशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५ ॥

कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः ।

असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता ॥ १६ ॥

अपनी अपनी सवारियां छोड़ दीं और जो रानियां सदा सवारी पर ही चला करती थीं, वे पैदल चल कर आयीं और भरद्वाज को घेर कर खड़ी हो गयीं । उनमें से थरथर कांपती हुई दीन और दुर्बल महारानी कौशल्या ने सुमित्रा सहित भरद्वाज जी के पैर छुए । तदनन्तर असफल मनोरथ और लोकनिन्दित ॥ १५ ॥ १६ ॥

कैकेयी तस्य जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा<sup>१</sup> ।

तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम् ॥ १७ ॥

कैकेयी ने लज्जित हो महर्षि के चरण छुए और उन पेश्वर्यवान महर्षि की परिक्रमा कर ॥ १७ ॥

अदूराद्भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा ।

ततः पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो दृढव्रतः ॥ १८ ॥

१ सव्यपत्रपा—सलजा । ( गो० )

द्विनवतितमः सर्गः

दुःखित चित्त हो भरत जी के निकट जा खड़ी हुई। तब दूक-  
प्रतधारी भरत : ने भरत से पूँछा ॥ १८ ॥

विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव ।  
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥ १९ ॥

हे भरत ! मैं तुम्हारी माताओं का परिचय जानना चाहता हूँ ।  
जब धार्मिक भरद्वाज ने यह पूँछा ॥ १९ ॥

उवाच प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यं वचनकोविदः ।  
यामिमां भगवन्दीनां शोकानशनकर्षिताम् ॥ २० ॥

तब वचन कहने में चतुर भरत जी ने हाथ जोड़ कर कहा—  
हे भगवन् ! जो यह दीन, शोक और उपवास के कारण  
दुर्बल ॥ २० ॥

पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि ।

एषा तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनम् ॥ २१ ॥

मेरे पिता की पटरानी तथा देवता के समान देख पड़ती हैं, सो  
यही उन पुरुषसिंह एवं विक्रमयुक्त सिंह की तरह चलने वाले ॥२१॥

कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा ।

अस्या वामभुजं श्लिष्टा यैषा तिष्ठति दुर्मनाः ॥ २२ ॥

श्रीरामचन्द्र को प्रसव करने वाली कौशल्या हैं। जैसे अदिति  
ने प्रजापति को उत्पन्न किया था वैसे ही इन्होंने नरश्रेष्ठ श्रीराम  
को उत्पन्न किया है और इनकी बाईं भुजा से लपटी हुई ( अर्थात्  
सहारा लिये हुए ) जो उदास खड़ी हैं ॥ २२ ॥

कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पा वनान्तरे ।  
 एतस्यास्तु सुता देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ ॥ २३ ॥  
 उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ।  
 यस्याः कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ ॥ २४ ॥

और जो कनेर वृक्ष की पुष्पहीन शाखा की तरह देख पड़ती हैं, देवताओं के समान दोनों वीर एवं सत्यपराक्रमी राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी ( सुमित्रा ) हैं। हे मुनि ! जिसकी करतूत से उन दोनों पुरुषसिंहों का जीवन सङ्कट में पड़ा हुआ है ॥ २३ ॥ २४ ॥

राजापुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः ।  
 क्रोधनामकृतप्रज्ञां दृष्ट्वां सुभगमानिनीम् ॥ २५ ॥

तथा महाराज दशरथ पुत्रवियोग जनित शोक के कारण स्वर्ग-वासी हुए हैं। वह यही क्रोधयुक्त स्वभाव वाली, बुद्धिहीन, गर्विली, अपने को सुभगा मानने वाली ॥ २५ ॥

ऐश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम्<sup>२</sup> ।  
 ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम् ॥ २६ ॥

ऐश्वर्य प्राप्ति की चाह रखने वाली और असती हो कर भी अपने को सती समझने वाली इस निष्ठुरा और पापिन कैकेयी को आप मेरी माता समझिये ॥ २६ ॥

१ सुभगमानिनीम्—सुभगासुन्दरोमात्मानंमन्यत इति । २ आर्यरूपिणीं—सतीमिव प्रतिभासमानां । ( १० )



यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः ।  
 इत्युक्त्वा नरशार्दूलो वाष्पगद्गदया गिरा ॥ २७ ॥  
 स निशश्वास ताम्राक्षो नागः क्रुद्ध इव श्वसन् ।  
 भरद्वाजो महर्षिस्तं द्रुवन्तं भरतं तथा ॥ २८ ॥  
 प्रत्युवाच 'महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवत् ॥  
 न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया ॥ २९ ॥

इसके कारण मुझको इस महादुःख में पड़ना पड़ा है। यह कह पुरुषसिंह भरत जी गद्गद वाणी हो और लाल नेत्र कर, क्रुद्ध हुए नाग की तरह जोर से सांसे लेने लगे। तब महर्षि और भावी को जानने वाले भरद्वाज ने भरत जी को इस प्रकार कहते देख भरत जी से यह अर्थयुक्त वचन बोले—हे भरत ! तुम कैकेयी को दोषी मत ठहराओ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

रामप्रव्राजं ह्येतत्सुखोदकं<sup>२</sup> भविष्यति ।

देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥३०॥

क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी का यह वनवास आगे चल कर सुखकारी होगा। देखो, देव, दानव और बड़े बड़े महर्षियों की ॥ ३० ॥

हितमेव भविष्यद्भि रामप्रव्राजनादिह ।

अभिवाद्य तु संसिद्धः<sup>३</sup> कृत्वा चैनं प्रदक्षिणाम् ॥३१॥

श्रीरामचन्द्र के वनगमन से भलाई ही होगी। यह सुन, भरत जी ने भरद्वाज जी को प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी परिक्रमा की ॥ ३१ ॥

१ महाबुद्धिः—मविज्ञः । ( गो० ) २ सुखोदकं—सुखोत्तरं । ( गो० )

३ संसिद्धः—उऽऽशीर्वादः । ( गो० )

आमन्त्र्य<sup>१</sup> भरतः सैन्यं युज्यतामित्यचोदयत् ।

ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमपरिष्कृतान् ॥ ३२ ॥

अध्यारोहत्प्रयाणार्थीं वहून्वहुविधो जनः ।

रगजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः<sup>२</sup> पताकिनः ॥ ३३ ॥

तदनन्तर भरत जी ने महर्षि से विदा माँग प्रस्थान के लिये तैयारी करने की सेना को आज्ञा दी। भरत जी आज्ञा पा कर सब सैनिक घोड़ों पर तथा सुनहले रथों पर सवार हो, यात्रा करने लगे। सेने की जंजीरों से कसी हुई अंगारियों से तथा पताकाओं युक्त हथिनियों और हाथियों पर, वे लोग सवार हो कर जा रहे थे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

जीमूता इव घर्मान्ते सघोषाः<sup>४</sup> सम्प्रतस्थिरे ।

विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च ॥ ३४ ॥

प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरेव पदातयः ।

अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्याप्रमुखाः स्त्रियः ॥ ३५ ॥

जिस प्रकार वर्षा के अन्त में बादलों की गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार हाथी हथिनियों के चलते समय, उनकी पीठ पर लटकते हुए घंटों का शब्द होता हुआ चला जाता था। इनके अतिरिक्त बड़ी छोटी तथा बहुमूल्य की और भी बहुत सी अनेक प्रकार की सवारियाँ थीं, जिन पर सवार हो लोग चले जाते थे ।

१ आमन्त्र्य—आप्रच्छद्य । (गो०) २ गजकन्याः—करेणवः । (गो०)

३ हेमकक्ष्याः—हेममयवन्धनरज्जवः । (गो०) ४ सघोषाः—घण्टाघोष युक्ताः । (गो०) ५ यानप्रवेकैः—यानोत्तमैः । (गो०)

जो पैदल चला करते थे, वे पैदल ही रवाना हो गये थे । तदनन्तर  
कौशल्यादि रानियाँ उत्तम उत्तम सवारियों में बैठ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा ।

चन्द्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम् ॥३६॥

आस्थाय प्रययौ श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः ।

सा प्रयाता महासेना गजवाजिरथाकुला ।

दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थितः ॥ ३७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को देखने की इच्छा से प्रसन्न होतो हुई चली  
जाती थीं । सूर्य अथवा चन्द्रमा के समान प्रमायुक्त पालकी में बैठ  
सपरिवार भरत जी चले जाते थे । हाथी घोड़ों से युक्त वह महासेना  
वहाँ से दक्षिण दिशा को मेघ की घटा की तरह ढकती हुई, आगे  
चली ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः ।

गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वपि नदीषु च ॥ ३८ ॥

उस समय वह सेना हिरनों और पक्षियों से भरे हुए वनों को  
तथा भागीरथी गङ्गा के पश्चिम तटवर्ती पहाड़ों और नदियों को  
मझाती हुई, चली जाती थी ॥ ३८ ॥

सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियोधा

वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान् ।

महद्वनं तत्प्रतिगाहमाना

रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३९ ॥

इति द्विनवतितमः सर्गः ॥

उस सेना के हाथों और घोड़े बहुत प्रसन्न जान पड़ते थे, किन्तु वनवासी नृग पक्षों इस सेना को देख कर, भयभीत हो गये थे। उस समय भरत जी को वह सेना वन में प्रवेश कर, बड़ी शोभित हुई ॥ ३२ ॥

अयोध्याकाण्ड का वानवेवां सर्ग समाप्त हुआ।

—\*—

### त्रिनवतितमः सर्गः

—:०:—

तथा महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः ।

अर्दिता यूयपा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रुतुः ॥ १ ॥

जब उस महासेना ने वन में हो कर, प्रस्थान किया; तब वनवासी मतवाले यूयपति हाथों पीड़ित हो, अपने अपने यूयों (सुन्नों) के साथ ले, चारों ओर भागने लगे ॥ १ ॥

ऋक्षाः पृषतसङ्गाश्च हरवश्च समन्ततः ।

दृश्यन्ते वनरार्जाषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २ ॥

नदियों के तटों पर, पर्वतों के जिलखों पर तथा वनों में, रोहड़, चित्तल, आदि वनवासी जन्तु विकल हो कर, इधर उधर भागते हुए देख पड़े ॥ २ ॥

स सम्पत्स्ये धर्मात्मा प्रीतो दशरयात्मजः ।

वृत्तो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३ ॥

दशरथनन्दन महात्मा भरत जी गर्जन करती हुई विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ प्रसन्न मन हो चलने लगे ॥ ३ ॥

सागरौघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः ।

महीं संच्छादयामास प्राट्टपि धामिवाम्बुदः ॥ ४ ॥

जिस प्रकार वर्षाऋतु में मेघमण्डल आकाश को ढक लेता है, वही प्रकार महात्मा भरत जी की सागरौघम सेना, जहरों की तरह उमड़ती हुई पृथिवी को आच्छादन करती हुई चली जाती थी ॥ ४ ॥

तुरङ्गौघैरवतता वारणैश्च महाजवैः ।

अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन्काले बभूव भूः ॥ ५ ॥

वहाँ की भूमि उन घोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक गयी थी कि, बहुत देर तक दिखलाई नहीं पड़ती थी ॥ ५ ॥

स यात्वा दूरमध्वानं सुपरिश्रान्तवाहनः ।

उवाच भरतः श्रीमन्वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम् ॥ ६ ॥

भरत जी जब बहुत दूर निकल गये, तब वाहनों को थके हुए देख, वे मन्त्रिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगे ॥ ६ ॥

यादृशं लक्ष्यते रूपं तथा चैव श्रुतं मया ।

व्यक्तं प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमब्रवीत् ॥ ७ ॥

इस स्थान का जैसा रूप देख पड़ता है और जैसा कि, इसके विषय में, मैंने सुन रखा है, इससे तो यही जान पड़ता है कि, हम लोग उस स्थान पर पहुँच गये, जो भरद्वाज जी ने बतलाया था ॥ ७ ॥

अयं गिरिशिचक्रकूट इयं मन्दाकिनी नदी ।

एतत्प्रकाशते दूरान्नीलमेघनिभं वनम् ॥ ८ ॥

देखिये वह तो चित्रकूट पर्वत है और यह मन्दाकिनी नदी है और यही वन है जो दूर से नील मेघ की तरह देख पड़ता है ॥ ८ ॥

गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति ।

वारणैरवमृद्यन्ते<sup>१</sup> मामकैः पर्वतोपमैः ॥ ९ ॥

यही चित्रकूट पर्वत के रमणीय शिखर हैं, जो मेरे पर्वत सदृश ऊँचे हाथियों द्वारा मर्दित हो रहे हैं। ( अर्थात् साथ के हाथी उस रमणीयता को नष्ट कर रहे हैं ) ॥ ९ ॥

मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु ।

नीला इवातपापाये<sup>२</sup> तोयं तोयधरा घनाः ॥ १० ॥

यह देखिये, जिस प्रकार वर्षाकाल में सजल श्यामल मेघ-मण्डल जल बरसाता है, वैसे ही चित्रकूट के वृक्ष, हाथियों की सूँड़ों के आघात से हिल कर, पर्वत के शिखरों पर फूलों को वर्षा कर रहे हैं ॥ १० ॥

किन्नराचरितं देशं\* पश्य शत्रुघ्न पर्वतम् ।

मृगैः समन्तादाकीर्णं मकरैरिव सागरम् ॥ ११ ॥

हे शत्रुघ्न ! किन्नरों से सेवित स्थान की तरह इस चित्रकूट पर्वत को देखो। जिस प्रकार समुद्र में मगर घूमा करते हैं, वैसे ही इस पर्वत पर जिधर देखो उधर मृग समूह शोभायमान हो रहा है ॥ ११ ॥

एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः ।

वायुप्रविद्धा शरदि मेघराजिरिवाम्बरे ॥ १२ ॥

१ अवमृद्यन्ते—भज्यन्ते । ( गो० ) २ आतपापाये—वर्षाकाले । ( गो० )

३ किन्नराचरितंदेशं—किन्नराचरितदेशरूपं पर्वतं । ( गो० ) \* पाठान्तरे—  
“किन्नराचरितोदेशं” ।

शरत्काल में जिन प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेघसमूह आकाश में सुशोभित होता है, उसी प्रकार हमारी सेना से प्रेरित हो, ये मृगसमूह शोभायमान हो रहा है ॥ १२ ॥

कुर्वन्ति १कुसुमापीडाञ्जिरःसु सुरमीनमी२ ।

मेघप्रकाशैः ३फलकैर्दाक्षिणात्या यथा नराः ॥ १३ ॥

जिस प्रकार दक्षिणी लोग अपने मस्तकों को फूल की मालाओं से सजाया करते हैं—उसी प्रकार हमारे सैनिकों ने कुसुम के गुच्छों से अपने मस्तक सजा लिये हैं ॥ १३ ॥

निष्कृजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदर्शनम् ।

अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मा ॥ १४ ॥

हे शत्रुघ्न ! देखो यह भयानक वन पहले कैसा साँय साँय करता था, किन्तु इस समय मेरी सेना की भीड़भाड़ से यह अयोध्या जैसा देख पड़ता है ॥ १४ ॥

खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति ।

तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियम् ॥ १५ ॥

घोड़ों के सुमों और बैलों के खुरों से उड़ाई हुई धूल आकाश में छा जाती है। किन्तु पवन उसे शीघ्र ही हटा देता है, मानों मेरी आँखों के सामने की रुकावट दूर कर, ( श्रीरामचन्द्र की पर्याशाला दिखा कर ) मुझे प्रसन्न करना चाहता है ॥ १५ ॥

१ कुसुमपीडान्—कुसुमशोखरान् कुर्वन्ति । ( गो० ) ५ अभी—भटाः ।  
( गो० ) ३ मेघप्रकाशैः—फलकैः केशवन्धविशेषैः । ( गो० )

स्यन्दांस्तुरगोपेतान्मृतमुख्यैरधिष्ठितान् ।

एतान्सम्पततः<sup>१</sup> शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने ॥ १६ ॥

हे शत्रुघ्न ! देखो, ये घोड़े सारथी सहित रथों को लिये हुए इस वन में कैसी तेज़ी से दौड़े चले जा रहे हैं ॥ १६ ॥

एतान्वित्रासितान्पश्य बर्हिणः प्रियदर्शनान् ।

एतमाविशतः शीघ्रमधिवासं पतत्रिणः<sup>२</sup> ॥ १७ ॥

यह देखो, सुन्दर और बड़े पर वाले भोर डर के मारे दौड़ कर इस पर्वत पर अपने निज स्थानों में कैसे जा रहे हैं ॥ १७ ॥

अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मा ।

तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो<sup>३</sup> यया ॥ १८ ॥

हे अन्व ! तपस्वियों के रहने का यह स्वर्ग जैसा स्थान, मुझे बड़ा मनोहर जान पड़ता है ॥ १८ ॥

मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता<sup>४</sup> वने ।

मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः ॥ १९ ॥

बहुत से चित्तोदार नरहिरन अपनी मादाओं के साथ घूमते हुए कैसे सुन्दर मालूम पड़ते हैं, मानों फूलों से इनकी चित्र विचित्र रचना की गयी है ॥ १९ ॥

१ सम्पततः—सम्यग्गच्छतः । ( गी० ) २ पतत्रिणः प्रशस्तपद्मान्तितिवर्हिणो बर्हिणः । ( गी० ) ३ स्वर्गपथोयया—स्वर्गप्रदेश इव । ( गी० ) ४ पृषता—  
विन्दुमृगाः । ( गी० )



१साधुसैन्याः प्रतिघ्नन्तां२ विचिन्वन्तु च कानने ।

यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ ॥ २० ॥

योग्य सैनिक वन में जा कर पता लगावें जिससे वे दोनों पुरुषसिंह श्रीराम लक्ष्मण जिस जगह रहते हों वह स्थान मिल जाय ॥ २० ॥

भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः ।

विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं३ ददृशुस्ततः ॥ २१ ॥

भरत जी का ऐसा वचन सुन, अपने अपने शस्त्रों को हाथ में लिए हुए वीरों ने वन में प्रवेश किया और कुछ ही दूर जा कर एक स्थान पर उन्होंने धुआँ निकलता हुआ देखा ॥ २१ ॥

ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः ।

नामनुष्ये भवत्यग्निर्यत्कमत्रैव राघवौ ॥ २२ ॥

उस धुएँ को देख उन लोगों ने लौट कर भरत जी से कहा, इस स्थान में मनुष्य को छोड़ अग्नि कौन जला सकता है। अतः जान पड़ता है, वे दोनों भाई यहाँ रहते हैं ॥ २२ ॥

अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपौ ।

अन्ये\* रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ॥ २३ ॥

यदि शत्रुदमनकारी पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र तथा बलवान् लक्ष्मण न भी हों, तो श्रीराम के समान कोई अन्य तपस्वी यहाँ रहते हैं ( अर्थात् यदि श्रीराम न भी हों तो वहाँ चलने से श्रीराम के रहने के स्थान का पता तो अवश्य ही चल जायगा ) ॥ २३ ॥

१ साधुसैन्याः—उचिताः सैनिकाः । ( गो० ) २ प्रतिघ्नन्तां—गच्छन्वित्यर्थः ॥

.. ० ) ३ धूमाग्रं— धूमाशिला । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“ अन्ये ”

तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम् ।

सैन्यानुवाच सर्वास्तानमित्रबलमर्दनः ॥ २४ ॥

शत्रुओं के बल को मघन करने वाले भरत जी, उन सैनिकों का यह शिष्टसम्मत वचन सुन, उन सब से कहने लगे ॥ २४ ॥

यत्ता<sup>१</sup> भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः ।

अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो गुदरेव च ॥ २५ ॥

अच्छा अब आप लोग चुपचाप यहीं डहरे रहिये। यहां से आगे न जाइये। सुमंत्र और गुद वशिष्ठ जी को साथ ले, मैं ही आगे जाऊंगा ॥ २५ ॥

एवमुक्त्वास्ततः सर्वे तत्र तस्थुः समन्ततः ।

भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समादधे\* ॥ २६ ॥

जब भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा, तब वे सब उसी स्थान पर इधर उधर डहरे गये। भरत जी ने उस और देखा जिस और धुआँ उठता दिखलाई पड़ता था ॥ २६ ॥

व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूः

निरीक्षमाणाऽपि च धूममग्रतः ।

वभूव हृष्टा नचिरेण जानती ।

प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २७ ॥

इति त्रिनवतितमः सर्गः ॥

उस समय भरत जी के कहने से वे सब सैनिक वहीं ठिक रहे और उस धुएँ को उठते देख, वे जान गये कि, अब परम प्रीति

१ यत्ताः—निःशब्दाः। (गो०) \* ताडन्तरे—‘समादधौ’; ‘समादधात्’।

भाजन श्रीरामचन्द्र जी के साथ समागम होने में बहुत विजम्ब नहीं है । यह विचार कर, वे हर्षित हो गये ॥ २७ ॥

अयोध्याकाण्ड का तिरानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

### चतुर्नवतितमः सर्गः

—:०:—

दीर्घकालोपितस्तस्मिन्निरौ गिरिवनप्रियः ।

वैदेयाः प्रियमाकाङ्क्षन्स्वं च चित्तं विलोभयन् ॥१॥

अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत् ।

भार्याममरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ २ ॥

उधर श्रीरामचन्द्र जी को उस पर्वत पर रहते बहुत दिन हो चुके थे । वे सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिये, सीता को चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे । उस समय उन दोनों की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र और इन्द्राणी की होती है ॥ १ ॥ २ ॥

न राज्याद्भ्रंशानं भद्रे न सुहृद्विर्विनाभवः ।

मनो मे वाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम् ॥ ३ ॥

श्रीरामचन्द्र जी बोल—हे भद्रे ! इस रमणीय पर्वत की शोभा देखने से, राज्यानाश एवं सुहृद्वियोग जन्य दुःख मुझे अब नहीं सताता ॥ ३ ॥

पश्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम् ।

शिखरैः स्वमिवोद्विद्धैर्धातुमद्विर्विभूषितम् ॥ ४ ॥

हे मद्रे ! नाना प्रकार के पत्तियों से परिपूर्ण, और गगनस्पर्शी एवं तरह तरह की धातुओं से युक्त शिखरों से विभूषित इस पर्वत की शोभा को देखो ॥ ४ ॥

केचिद्रजतसङ्काशाः<sup>१</sup> केचित्तक्षतजसन्निभाः ।

पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ ५ ॥

इस पर्वत के कोई कोई शृङ्ग तो चांदी जैसे सफेद और चमकीले हैं और कोई कोई रक्त की तरह लाल वर्ण हैं, कोई कोई पीले और मजीठ के रंग जैसे देख पड़ते हैं और कोई उत्तम मणियों की प्रभा जैसे प्रभायुक्त देख पड़ते हैं ॥ ५ ॥

पुष्पार्क<sup>२</sup>केतकाभाश्च<sup>३</sup> केचिज्ज्योतीरसप्रभाः ।

विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ ॥

इस पर्वत के धातुओं से विभूषित शृङ्ग पुष्पराग, स्फटिक, केतकी और पारि के समान रंगवाले और नक्षत्रों की तरह चमकीले देख पड़ते हैं ॥ ६ ॥

नानामृगगण<sup>४</sup>द्वीपितरक्षु<sup>५</sup>क्षगणैर्वृतः ।

अदुष्टैर्भात्ययं शैलो बहुपक्षिसमायुतः ॥ ७ ॥

यद्यपि यह पर्वत अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्याघ्रों और रीछों से परिपूर्ण है, तथापि तपस्त्रियों के तपःप्रभाव से इन भयङ्कर जन्तुओं ने अपना दुष्ट हिंसालु-स्वभाव त्याग दिया है। इस पर्वत पर तरह तरह के पक्षी अपने अपने घोंसले बना कर निवास कर रहे हैं ॥ ७ ॥

१ क्षतज—रुधिर । ( गो० ) २ अर्कः—स्फटिकः । ( गो० ) ३ केत-  
कामाः—ईषत्पाण्डुराः । ( गो० ) ४ द्वीपी—महाभ्याघ्रः । ( गो० ) ५ तरक्षुः—  
क्षुद्रव्याघ्रः । ६ अदुष्टैः—हिंसादिदोषरहितैः । ( गो० )

आम्रजम्ब्वसनैर्लोध्रैः प्रियालैः पनसैर्धवैः ।

अङ्गोलैर्भव्यतिनिशैर्विल्वतिन्दुकवेषुभिः ॥ ८ ॥

काश्मर्यरिष्टवरुणैर्मधुकैस्तिलकैस्तथा ।

वदर्यामलकैर्नीपैर्वेत्रधन्वनवीजकैः ॥ ९ ॥

पुष्पवद्भिः फलोपेतैश्छायावद्भिर्मनोरमैः ।

एवमादिभिराकीर्णैः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १० ॥

आम्र, जामुन, असना, लोध, चिरौंजी, कटहर, ढाक, अंकोल, मन्थ, तिमिग, विल्व, तिन्दुक ( तेंदुआ ) बांस, काश्मीरी नीम, सखुआ, महुआ, तिलक, वैर, आंवला, कदम्ब, वेत, विजौरा, नीबू आदि ले कर और अनेक प्रकार के फूल फलों वाले और ज्ञायायुक्त मनोहर वृक्षों के समूहों से भरा पुरा यह पर्वत शोभायमान है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्रोमहर्षणान् ।

किन्नरान्द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान्मनस्विनः ॥ ११ ॥

हे भद्रे ! इस पर्वत के रमणीय शिखरों पर शरीर पुलकित करने वाले स्थानों को देखो । यहाँ मनस्वी किन्नर लोग अपनी अपनी किन्नरियों के साथ विहार कर रहे हैं ॥ ११ ॥

शाखावसक्तान्खड्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च ।

पश्य विद्याधरस्त्रीणां क्रीडोद्देशान्मनोरमान् ॥ १२ ॥

देखो उन्हींकी ये तलवारें और सुन्दर रंग विरंगे पहिने के कपड़े वृक्षों की डालियों में लटक रहे हैं । इन विद्याधरों की स्त्रियों के मनोहर क्रीडास्थलों को देखो ॥ १२ ॥

जलप्रपातैरुद्धेदैर्निष्यन्दैश्च कचित्कचित् ।

स्रवद्भिर्भात्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्विपः ॥ १३ ॥

स्थान स्थान पर जल के झरने और ज़मीन से निकले हुए जल के सोते वह रहे हैं। इनसे यह पर्वत मद चुभाने वाले गजेन्द्र की तरह शोभायमान हो रहा है ॥ १३ ॥

गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान्वहन् ।

घ्राणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत् ॥ १४ ॥

पर्वत की कण्ठराश्रों से निकला हुआ नाना पुष्पों की सुगन्धि से युक्त पवन जो नासिका को तृप्त कर रहा है, वह किस के मन को हर्षित नहीं करेगा ॥ १४ ॥

यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते ।

लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रथक्ष्यति ॥१५॥

हे अनिन्दिते ! यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ बहुत वर्षों तक भी मुझे यहाँ रहना पड़े तो भी मुझे ज़रा सा भी शोक सन्ताप नहीं सतावेगा ॥ १५ ॥

बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते ।

विचित्रशिखरे ह्यस्मिन् रतवानस्मि भामिनि ॥ १६ ॥

हे भद्रे ! अनेक प्रकार के पुष्पों और फलों से सम्पन्न, अनेक जाति के पक्षियों से परिपूर्ण और विचित्र शिखरों से युक्त यह रमणीय चित्रकूट मुझे बड़ा पसन्द है ( अर्थात् चित्रकूट में रहने से कभी मेरा जी नहीं ऊबेगा ) ॥ १६ ॥

अनेन वनवासेन मया प्राप्तं फलद्वयम् ।

पितृश्चानृणता धर्मे भरतस्य मियं तथा ॥ १७ ॥

इस वनवास से मुझे दो फल मिलें । एक तो धर्म सम्बन्धी फल पिता के ऋण से उऋण होना और दूसरा फल भरत जी को प्रसन्न करना ॥ १७ ॥

वैदेहि रमसे कच्चिच्चित्रकूटे मया सह ।

पश्यन्ती विविधान्भावान्मनोवाक्कायसंयतान् ॥ १८ ॥

हे वैदेही ! मेरे साथ इस चित्रकूट पर्वत पर मन, वचन और देह को वश में कर लेने वाले इन विविध साधनों को देख, तेरा मन प्रसन्न होता है कि, नहीं ? ॥ १८ ॥

इदमेवामृतं प्राहू राज्ञि राजर्षयः परे ।

वनवासं भवार्याय<sup>१</sup> प्रेत्य ये प्रपितामहाः ॥ १९ ॥

हे राज्ञि ! इस प्रकार नियमपूर्वक वनवास राजाओं के लिये मोक्ष का साधन कहा जाता है । यही नहीं वल्कि हमारे मन्वादि पूर्वपुरुषों ने देवादि की देह प्राप्ति के लिये भी, वनवास ही को उत्कृष्ट साधन माना है ॥ १९ ॥

शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः ।

बहुला बहुलैर्वर्णैर्नीलपीतसितारुणैः ॥ २० ॥

देखो, इस पर्वत की मैकड़ों विशाल शिलाएँ जो नीली, पीली, सफेद आदि विविध रंगों की हैं; चारों ओर कैसी शोभा दे रही हैं ॥ २० ॥

निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव ।

ओषध्यः स्वप्रभालक्ष्या आजमानाः सहस्रशः ॥ २१ ॥

१ अमृतप्राहुः—मोक्षसाधनं प्राहुः । (रा०) २ प्रेत्यभवार्याय—देवादि-देहान्तरपरिग्रहरूपप्रयोजनाय च प्राहुः । (गो०)

रात के समय इस पर्वत पर उत्पन्न हज़ारों जड़ी वृष्टियाँ, अपनी प्रभा से दीप्त हो, अग्निशिखर की तरह प्रकाश कर शोभायमान होती हैं ॥ २१ ॥

केचित्क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसन्निभाः ।

केचिदेकशिला भ्रान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि ॥ २२ ॥

हे भामिनी ! देखो इस पर्वत पर कोई स्थान तो घर जैसा, कोई फुलवाड़ी जैसा और कोई स्थान एक ही शिला का दिखलाई पड़ता है । ये सभी इस पर्वत की शोभा बढ़ाने वाले हैं ॥ २२ ॥

भिक्ष्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः सुमुत्थितः ।

चित्रकूटस्य कूटोऽसौ दृश्यते सर्वतः शुभः ॥ २३ ॥

पेसा जान पड़ना है मानों यह चित्रकूट पर्वत पृथिवी को फोड़ कर निकला हो । इस पर्वत का अग्रभाग चारों ओर से कैसा सुहावना देख पड़ता है ॥ २३ ॥

कुष्ठपुन्नागस्थगरभूर्जपत्रोत्तरच्छदान् ।

कामिनां स्वास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान् ॥२४॥

हे भद्रे ! कामी लोगों के इन विद्युतों को तो देखो । इनके नीचे तो कमलों के पत्ते बिछे हैं और पत्तों के ऊपर कूट, पुत्रजीवक और भोजपत्र की जालें बिछी हुई हैं ॥ २४ ॥

मृदिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः ।

कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ २५ ॥



यह देवो कामी जनों की पहनी हुई कुम्हलाई और त्यागी हुई कमल के फूलों की मालाएँ इधर उधर पड़ी हैं और उन लोगों के खाये हुए अनेक प्रकार के फल पड़े हैं ॥ २५ ॥

वस्वौकसारां नलिनीम<sup>१</sup>त्येतीवोत्तरान्कुरून् ।

पर्वतश्चित्रकूटोऽसौ बहुमूलफलोदकः ॥ २६ ॥

विविध प्रकार के मूल, फल और स्वच्छ जल सम्पन्न चित्रकूट पर्वत ने, कुवेर की आज्ञाकापुरी. इन्द्र की अमरावती और उत्तर कुरुदेश को रमणीयता में मात कर दिया है ॥ २६ ॥

इमं तु कालं वनिते विजहिवां-<sup>२</sup>

स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन च ।

रतिं प्रपत्स्ये 'कुलधर्मवर्धनी'<sup>३</sup>

सतां पथि स्वैर्नियमैः परैः स्थितः ॥ २७ ॥

इति चतुर्नवतितमः सर्गः ॥

हे सीते ! यदि मैं सज्जनों के मार्ग पर स्थित हो अपने श्रेष्ठ नियमों का पालन करता हुआ तुम्हारे और लक्ष्मण जी के साथ, चौदह वर्ष तक यहाँ रह पाया तो पीछे प्रजापालन रूपी धर्म को बढ़ाने वाला राज्यसुख मुझे अवश्य प्राप्त होगा ॥ २७ ॥

अयोध्याकाण्ड का चौरानवेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥

—:❖:—

१ अल्लोवीव—रमणीयतयाभक्तिप्रामतीय । (गो०) २ विजहिवान्—विहृत-वान् । (गो०) ३ रतिं—राज्यसुखं । ४ कुलधर्मः—प्रजापालनं । (गो०)

## पञ्चनवतितमः सर्गः

—:०:—

अथ शैलाद्विनिष्क्रम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः ।

अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम् ॥ १ ॥

तदनन्तर काशलपति श्रीरामचन्द्र जो पर्वत की शोभा दिखाने से निवृत्त हो और पर्वत से निकल निर्मल जल वाली रमणीय मन्दाकिनी नदी दिखाने लगे ॥ १ ॥

अब्रवीच्च वरारोहां चारुचन्द्रनिभाननाम् ।

विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २ ॥

कमलनयन श्रीरामचन्द्र चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली, स्त्रियों में श्रेष्ठ जनकनया से बाले ॥ २ ॥

विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम् ।

कमलैरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम् ॥ ३ ॥

हे वैदेही! इस विचित्र तट वाली, रमणीय हंस सारसादि पक्षियों से संवित मन्दाकिनी नदी को देखो ॥ ३ ॥

नानाविधैस्तीररुहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः ।

राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः ॥ ४ ॥

इस नदी के उभय तट फल फूल वाले अनेक जाति के वृक्षों से परिपूर्ण हैं। उनसे इस नदी की शोभा वैसी ही हो रही है जैसी कि कुवेर की सौगन्धिका नाम्नी नदी की ॥ ४ ॥

मृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसिं साम्प्रतम् ।

तीर्थानि रमणीयानि रतिं<sup>१</sup> संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥

इस नदी के सब घाट बड़े रमणीय हैं। अतः वहाँ जा कर स्नान करने की मेरी इच्छा हो रही है। अभी मृगों के झुण्ड इन घाटों पर जल पी कर गये हैं। अतः वहाँ का जल गँदला हो रहा है ॥५॥

जटाजिनधराः काले<sup>२</sup> बल्कलोत्तरवाससः ।

ऋषयस्त्ववगाहन्ते<sup>३</sup> नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥

हे प्रिये ! देखो, जटा और मृगचर्म धारण किये और वृत्तों की छाल पहिने हुए ऋषि लोग इस नदी में यथासमय स्नान करते हैं ॥ ६ ॥

आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्ववाहवः ।

एते परे विशालाक्षि मुनयः संशितव्रताः<sup>४</sup> ॥ ७ ॥

हे विशालाक्षि ! इस ओर ये सब तीक्ष्ण नियमों का पालन करने वाले मुनिगण नियमानुसार ऊपर की बाँह कर, सूर्य भगवान का उपस्थान कर रहे हैं ॥ ७ ॥

मारुतोद्धूतशिखरैः प्रनृत्त इव पर्वतः ।

पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजद्भिरभितो नदीम् ॥ ८ ॥

देखो पवन से कम्पित इन वृत्तों के हिलने से यह पर्वत नाचता हुआ सा मालूम पड़ता है और वृत्तों के हिलने से उनके जो पुष्प गिरते हैं सो चिभ्रकूट पर्वत मानों नदी को पुष्पाञ्जलि दे रहा है ॥८॥

१ रतिः—भवगाहनविषयां प्रीतिं । ( गो० ) २ काले—स्वनियमो-चित काले । ( गो० ) ३ भवगाहन्ते—मज्जन्ति । ( गो० ) ४ संशितव्रताः—तीक्ष्णनियमाः । ( गो० ) ५ मारुतोद्धूत शिखरैः—वायुकम्पितशालैः । ( गो० )

कचिन्मणिनिकाशोदां कचित्पुलिनशालिनीम् ।

कचित्सिद्धजनाकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीम् ॥ ९ ॥

हे भद्रे ! देखो, कहीं तो मन्दाकिनी का जल मणि की तरह उज्ज्वल है, कहीं कहीं रेत शोभा दे रहा है, और कहीं कहीं सिद्ध लोगों की भीड़ लगी है ॥ ९ ॥

निर्धूतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसञ्चयान् ।

पोप्लूयमानानपरान्पश्य त्वं जलमध्यगान् ॥ १० ॥

हे भद्रे ! वायु के झोंकों में नदी के तट पर बिखरे हुए पुष्पों के ढेर को देखो और जो दूसरे फूल जल में उड़ कर जा गिरे हैं, वे पानी पर कैसे उतरा रहे हैं, उन्हें भी तुम देखो ॥ १० ॥

१तांश्चातिवल्गुवचसो२ रथाङ्गाह्वयना द्विजाः ।

अधिरोहन्ति कल्याणि विक्रजन्तः शुभा गिरः ॥ ११ ॥

हे कल्याणो ! फूलों के ढेरों पर चढ़े हुए चक्रवाक रति के लिये अपनी माशाओं को बुलाने के लिये कैसी मधुर बाली बाल रहे हैं ॥ ११ ॥

दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने ।

अधिकं पुरवासाद्य मन्ये तव च दर्शनात् ॥ १२ ॥

हे शोभने ! इस चित्रकूट पर्वत और मन्दाकिनी नदी के देखने से और तुम्हारे साथ रहने से मुझे अयोध्यापुरी में रहने से भी बढ़ कर, यहाँ सुख जान पड़ता है ॥ १२ ॥

१ तान्—पुष्पसञ्चयान् । ( गो० ) २ वल्गुवचसः—रथयाङ्गानकाङ्किक-  
रम्यवचसः । ( गो० )

विधूतकलुषैः सिद्धैस्तपोदमशमान्वितैः ।

१नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥ १३ ॥

हे सीते ! अब तुम इस मन्दाकिनी नदी में, जिसमें शम, दम और तप से युक्त एवं पापरहित सिद्धलोग नित्य स्नान किया करते हैं, चल कर मेरे साथ स्नान करो ॥ १३ ॥

२सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम् ।

३कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि४ च भामिनि ॥१४॥

हे सीते ! तुम जैसे अपनी सखियों के साथ निःशङ्क जलक्रीड़ा करती थीं, वैसे ही मेरे साथ भी इस मन्दाकिनी में लाल सफेद कमल के फूलों को डुबोती हुई जलक्रीड़ा करो ॥ १४ ॥

[ नोट—लाल सफेद कमल के फूलों से भूषणटीकाकार ने यह अभिप्राय बतलाया है—

सनजघनाघातजनित तरणैरितिभावः

किन्तु शिरामण्टीकाकार का कथन है कि, क्रीड़ा के लिये लाल सफेद रंग के कमलों से मन्दाकिनी के जल को ढूँढ दो । ]

त्वं पौरजनवद्<sup>५</sup>द्व्यालानयोध्यामिव पर्वतम् ।

मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम् ॥ १५ ॥

१ नित्यविक्षोभितजलां—सदातत्स्नानेनतत्वादरेणुधन्यामन्दाकिनीं । (गो०)

२ सखीवच्च—सख्यायथासलिलमवगाहसे तथा मया सह विगाहस्व । (गो०)

३ कमलानि—रकाञ्जानि । (गो०) ४ पुष्कराणि—सिताम्भोजानि । (गो०)

५ व्यालान्—वनचरान् । ( शि० )

हे प्रिये ! तुम यहाँ के वनवासियों को अयोध्यावासियों की तरह, इस पर्वत को अयोध्या की तरह और मंदाकिनी को सरयू की तरह समझे ॥ १५ ॥

लक्ष्मणश्चापि धर्मात्मा मन्दिदेशे व्यवस्थितः ।

त्वं चानुकूला वैदेहि प्रीतिं जनयतो मम ॥ १६ ॥

वे वैदेही ! यह धर्मात्मा लक्ष्मण मेरे आज्ञाकारी हैं और तुम भी सदा मेरी आज्ञा के अनुसार काम किया करती हो । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १६ ॥

१ उपस्पृशंस्त्रिषवणं२ मधुमूलफलाशनः ।

नायोध्यायै न राज्याय स्पृहयेऽद्य त्वया सह ॥१७॥

त्रिकाल स्नान, और तुम्हारे साथ मधु मूल और फल का भोजन करता हुआ, मैं, अयोध्या के वास की और राज्य की आकांक्षा नहीं करता ॥ १७ ॥

इमां हि रम्यां मृगयूथशालिनीं

निपीततोयां गजसिंहवानरैः ।

सुपुष्पितैः पुष्पधरैरलंकृतां

न सोऽस्ति यः स्यादगतक्लमः सुखी ॥१८॥

जो गजों के यूथों से युक्त है और जिसका जल हाथी, सिंह और बन्दर पिया करते हैं, उस रमणीय एवं सुन्दर पुष्पों से युक्त वृक्षों द्वारा शोभित मंदाकिनी नदी का सेवन कर, वह कौन पुरुष है जो दुःखों से झूट, सुखी न हो ॥ १८ ॥

१ उपस्पृशन—स्नानं कुर्वन् । ( गो० ) २ त्रिषवणं—त्रिसन्ध्यं । ( गो० )

इतीव रामो बहुसंगतं<sup>१</sup> वचः  
 प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन् ।  
 चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं  
 स चित्रकूटं रघुवंशवर्धनः ॥ १९ ॥  
 इति पञ्चनवतितमः सर्गः ॥

रघुवंशवर्धन श्रीरामचन्द्र ने सीता जी से मंदाकिनी नदी के सम्बन्ध में इस प्रकार की बहुत सी उत्तम बातें कहीं । तदनन्तर उस रमणीय और नील वर्ण चित्रकूट पर्वत पर सीता को साथ लिये हुए विचरने लगे ॥ १९ ॥

अयोध्याकाण्ड का पञ्चानवेवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

पराशरवतितमः सर्गः

—: #:—

तां तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम् ।  
 निषसाद् गिरिप्रस्थे<sup>४</sup> सीतां मांसेन च्छन्दयन्<sup>५</sup> ॥१॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखा कर, पर्वत की एक शिला पर बैठ गये और मांस का स्वाद बतला सीता को प्रमत्त करने लगे ॥ १ ॥

१ इतीव—एतादृश । ( शि० ) २ संगतं—समीचीन । ( शि० ) ३  
 नयनाञ्जनप्रभं—नीलवर्णविशिष्ट । ( शि० ) ४ गिरिप्रस्थे—पर्वतकशिलायां ।  
 ( शि० ) ५ छन्दयन्—तन्मीतिमुत्पादयन् । ( शि० )

इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टुमिदमग्निना ।

एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः ॥ २ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने सीता से कहा—देखो, यह मांस पवित्र है, और अग्नि में भूजने से यह स्नादिष्ट हो गया है। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सीता सहित वहाँ बैठे हुए थे कि ॥ २ ॥

तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः ।

सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभःस्पृशौ ॥ ३ ॥

इतने में उनके पास आती हुई भरत जी की सेना के चलने से उड़ी हुई धूल और सैनिकों का कोलाहल आकाश को छूते हुए प्रकट हुए ॥ ३ ॥

एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः ।

अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः ॥ ४ ॥

उस महाकोलाहल से त्रस्त हो वड़े वड़े यूथपति गजेन्द्र विकल हो अपने अपने यूथों को ले इधर उधर भागने लगे ॥ ४ ॥

स तं सैन्यसमुद्भूतं शब्दं शुश्राव राघवः ।

तांश्च विप्रद्रुतान्सर्वान्यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उस सेना के कोलाहल को सुना और हाथियों को भागते हुए देखा ॥ ५ ॥

तांश्च विद्रवतो दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निःस्वनम् ।

उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम् ॥ ६ ॥

उन हाथियों को भागते देख और सेना का कोलाहल सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने तेजस्वी लक्ष्मण जी से कहा ॥ ६ ॥



हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया ।

भीमस्तनितगम्भीरस्तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥ ७ ॥

हे लक्ष्मण ! तुमसे पुत्र को पा कर सुमित्रा देवी सुपुत्रवती है । देखो तो यह भयङ्कर वादल की गड़गड़ाहट जैसा गंभीर तुमुल शब्द कहीं सुन पड़ता है ॥ ७ ॥

गजयूथानि वाऽरण्ये महिषा वा महावने ।

वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रदृता दिशः ॥ ८ ॥

जिसको सुन, सघन वनवासी हाथियों के झुण्ड, जंगली भैंसे और मृगों के झुण्ड सिंहों सहित भयभीत हो बड़ी तेज़ी से इधर उधर भाग रहे हैं ॥ ८ ॥

राजा वा राजमात्रो<sup>१</sup> वा मृगयामटते वने ।

अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित्सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि ॥ ९ ॥

क्या कोई राजा या राजा के समान कोई पुरुष वन में शिकार खेलने आया है ? अथवा कोई महाभयङ्कर और घातक जन्तु इस वन में आ गया है ? हे लक्ष्मण ! ज़रा इस बात का पता तो लगाओ ॥ ९ ॥

सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण ।

सर्वमेतद्यथातत्त्वमचिराज्ज्ञातुमर्हसि ॥ १० ॥

हे लक्ष्मण ! इस पर्वत पर अब पक्षी भी तो भली भाँति नहीं घूम सकते । अतएव तुम शीघ्र इस बात का ठीक ठीक पता लगाओ ॥ १० ॥

१ राजमात्रः—राज्यतुल्य । ( गो० )

स लक्ष्मणः सन्त्वरितः सालमात्स्य पुष्पितम् ।  
 प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमुर्देक्षत ॥ ११ ॥

श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन सुन, लक्ष्मण जी तुरन्त एक फूले हुए साल वृक्ष पर चढ़ गये और चारों ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा ॥ ११ ॥

तदङ्मुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूम् ।  
 रथाश्वगजसम्बन्धां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः ॥ १२ ॥

फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हें उस ओर एक बड़ी सेना, जिसमें हाथी घोड़ों, रथों और सजे सजाये पैदल सिपाहियों की भीड़ देख पड़ी ॥ १२ ॥

तामश्वगजसम्पूर्णा रथश्वजविभूषिताम् ।  
 शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत् ॥ १३ ॥

हाथी घोड़ों से युक्त, रथ की पताकाओं से भूषित, उस सेना का वृत्तान्त निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १३ ॥

अग्निं संगमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम् ।  
 सज्यं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥ १४ ॥

आप अग्नि बुझा दीजिये, सीता जी से कहिये कि वे गुफा के भीतर जा बैठें । आप कवच पहिन लीजिये और धनुष तथा बाणों को सम्हालिये ॥ १४ ॥

तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह ।

अङ्गावेक्षस्य सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम् ॥ १५ ॥

यह सुन पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा हे वत्स सौमित्र ! ध्वज चिन्हों को देख यह तो निश्चय करो कि, यह सेना है किसकी ॥ १५ ॥

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् ।

दिधक्षन्निव तां सेनां रूपितः पावको यथा ॥ १६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन, लक्ष्मण जी क्रोध के मारे अग्नि के समान हो, उस सेना को मारों भस्म कर डालने के लिये यह बोले ॥ १६ ॥

सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् ।

आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥

साफ देख पड़ता है कि, कैकेयी का पुत्र भरत, राज्याभिषेक पा कर भी अकष्टक राज्य करने की कामना से, हम दोनों का वध करने के लिये आता है ॥ १७ ॥

एष वै सुमहाञ्श्रीमान्विटपी सम्प्रकाशते ।

विराजत्युद्गतस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥ १८ ॥

देखिये, वह जो बड़ा और शोभायमान वृक्ष देख पड़ता है, उसके पास जो रथ है, उस पर उजली शाखायुक्त कचनार वृक्ष के आकार की ध्वजा फहरा रही है ॥ १८ ॥

भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुह्य शीघ्रगान् ।

एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः<sup>२</sup> ॥ १९ ॥

१ भजन्ति—इमं देशं प्राप्नुवन्ती । (गो०) २ सादिनः—गजशोहाः । (गो०)

बड़े तेज़ चलने वाले घोड़ों पर चढ़े हुए सवार इधर ही आ रहे हैं और हाथियों के सवार भी हाथियों पर हथिन हो बैठे हुए हैं ॥ १९ ॥

गृहीतधनुषौ चात्रां गिरिं वीर श्रयावहै ।

अथ वेहैव तिष्ठावः सन्नद्राबुधतायुधौ ॥ २० ॥

अब हे वीर ! हम दोनों धनुष बाण ले इस पर्वत पर चढ़ चलें अथवा दोनों जन, कवच पहिन और हथियार ले यहीं खड़े रहें ॥ २० ॥

अपि नौ वशमागच्छेत्कोविदारध्वजो रणे ।

अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् ॥ २१ ॥

कोविदार ध्वजा वाले उन भरत को निश्चय ही हम लोग युद्ध में अपने वश में कर लेंगे जिसके कारण यह निर्वात्त पड़ी है, आज हम उसे समझ लेंगे ॥ २१ ॥

त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा ।

यन्निमित्तं भवान् राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात् ॥ २२ ॥

हे रघुनन्दन ! जिसके लिये तुम्हें, मुझे और सीता को इस दुर्दशा में पड़ना पड़ा है और जिसके कारण तुम सनातन राज्य से च्युत किये गये हो ॥ २२ ॥

सम्प्राप्तोऽयमरिर्वीर भरतो बध्य एव मे ।

भरतस्य वधे दोषं न हि पश्यामि राघव ॥ २३ ॥

वही भरत शत्रुभाव से आया है । अतः वह मार डालने योग्य है । हे राघव ! भरत के मार डालने में मुझे कुछ भी पाप नहीं जान पड़ता ॥ २३ ॥

पूर्वापकारिणां १ त्यागे न ह्यधर्मो विधीयते ।

पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तधर्मश्च राघव ॥ २४ ॥

क्योंकि पूर्व अपकारी को मार डालने में कुछ भी पाप नहीं लगता । हे राघव ! यह भरत पूर्व में अपकार कर चुका है अतः इसको मार डालने ही में पुण्य है ॥ २४ ॥

एतस्मिन्निहते कृत्स्नामनुशाधि वसुन्धराम ।

अथ पुत्रं हतं संख्ये<sup>२</sup> कैकेयी राज्यकामुका ॥ २५ ॥

इसको मार कर आप सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य भोग कीजिये । आज वह कैकेयी जो राज्य पाने की कामना किये हुए है, अपने पुत्र को युद्ध में मरा हुआ देखेगी ॥ २५ ॥

मया पश्येत्सुदुःखार्ता हस्तिभग्नमिव द्रुमम् ।

कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां<sup>३</sup> सवान्धवाम् ॥ २६ ॥

हाथी के तोड़े हुए वृक्ष की तरह, मेरे हाथ से भरत को मरा हुआ देख, कैकेयी अत्यन्त दुःखित होगी । मैं उस कैकेयी को भी उसके भाईबन्धों और मंधरादि सहित मार डालूँगा ॥ २६ ॥

कलुपेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम् ।

अद्ये<sup>४</sup> संयतं<sup>५</sup> क्रोधमसत्कारं<sup>६</sup> च मानद ॥ २७ ॥

जिससे कि यह पृथिवी उस कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पा जाय । हे मान के देने वाले ! आज बहुत दिनों के रोके हुए क्रोध को और कैकेयी के किये हुए तिरस्कार को ॥ २७ ॥

१ त्यागे—वधे । ( गो० ) २ संख्ये—युद्धे । ( गो० ) ३ सानुबन्धां—  
मंधराद्यनुबंधसहिता । ( गो० ) ४ संयतं—स्तम्भितं । ( गो० )  
५ असत्कारं—तिरस्कारं । ( गो० )

मोक्षयामि शत्रुसैन्येषु <sup>१</sup>कक्षेष्विव हुताशनम् ।

अद्यैतच्चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः ॥ २८ ॥

शत्रु की सेना के ऊपर वैसे ही छोड़ूँगा जैसे सुखे तृणों के ढेर पर आग छोड़ी जाती है । आज ही मैं चित्रकूट के वन को अपने तीखे बाणों से ॥ २८ ॥

भिन्दञ्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम् ।

शरैर्निर्भिन्नहृदयान्कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ।

श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्मया ॥ २९ ॥

शत्रुओं के शरीरों को काट काट कर उनके शरीर से निकले हुए रक्त से सोचूँगा । बाणों से चीरे हुए हृदय वाले हाथी घोड़ों को तथा मेरे मारे हुए मनुष्यों को जंगलों जानवर घसीटेंगे ॥ २९ ॥

शराणां धनुषश्चाहमनृणोऽस्मि महामृधे ।

ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥

इति पण्डितमः सर्गः ॥

आज मैं इस महासंग्राम में सेना सहित भरत का वध कर अपने धनुष और बाणों के ऋण से उन्मृण हो जाऊँगा—इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३० ॥

अयोध्याकाण्ड का त्रियानवेवां सर्ग पूरा हुआ ।

—:❀:—

## ससनवतितमः सर्गः

—:०:—

सुसंरब्धं तु सौमित्रिं लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितम् ।

रामस्तु परिसान्त्वयाथ वचनं चेदमब्रवीत् ॥ १ ॥

इस प्रकार कुपित और लड़ने के लिये उद्यत लक्ष्मण को देख, उन्हें शान्त करने के लिये श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे ॥ १ ॥

किमत्र धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा ।

महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥

हे लक्ष्मण ! बड़ा धनुष धारण करने वाले और बड़े परिद्धत भरत जी जब स्वयं आये हैं, तब उनके सामने तुम्हारे धनुष और ढाल तलवार की ज़रूरत ही क्या है ( अर्थात् उनसे तुम जीत नहीं सकते ) ॥ २ ॥

पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमागतम् ।

किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥

मैं पिता को उस सत्यवाणी को मान कर भी यदि भरत जी का वध कर मैं राज्य प्राप्त करूँ भी तो ऐसे अपवाद युक्त राज्य को ले मैं करूँगा ही क्या ? ॥ ३ ॥

यद्द्रव्यं वान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत् ।

नाहं तत्प्रतिशृद्धीयां भक्षान्विपकृतानिव ॥ ४ ॥

जो धन, वस्तु वान्धवों और इष्ट मित्रों का वध करने से प्राप्त हो, उसे मैं तो ग्रहण नहीं कर सकता । क्योंकि मैं तो उसे विष मिले हुए भोजन की तरह त्याज्य समझता हूँ ॥ ४ ॥

धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण ।

इच्छामि भवतामर्थ एतत्प्रतिश्रुणोमि ते ॥ ५ ॥

हे लक्ष्मण ! मैं तुमसे यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि, मैं तो केवल अपने भाइयों ही के लिये धर्म, अर्थ, काम अथवा पृथिवी का राज्य चाहता हूँ ॥ ५ ॥

भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण ।

राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥

हे लक्ष्मण ! मैं मत्स्य मत्स्य अपने हगियारों को कू कर तुमसे कहता हूँ कि, मैं जो राज्य की कामना करता सो अपने भाइयों के पालन और सुख के लिये ही करता हूँ ॥ ६ ॥

नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा ।

न हीच्छेयमधर्मेण शकृत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥

हे सौम्य ! ससागरा पृथिवी का राज्य हस्तगत करना मेरे लिये दुर्लभ नहीं, किन्तु पृथिवी तो है ही क्या, मैं अधर्मपूर्वक इन्द्रपद को भी लेना नहीं चाहता ॥ ७ ॥

यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्नं चापि मानद ।

भवेन्मम सुखं किञ्चिद्भस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥

हे मान देने वाले ! तुम्हारे बिना, भरत के बिना और शत्रुघ्न के बिना मुझे जिस किसी वस्तु से सुख मिलता हो, उसे अग्निदेव भस्म कर डालें ॥ ८ ॥

मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलः ।

मम प्राणात्प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन् ॥ ९ ॥



श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावलकलधारिणम् ।

जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषर्षभ ॥ १० ॥

स्नेहेनाक्रान्तहृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः ।

द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ ११ ॥

मुझे तो यह जान पड़ता है कि, मेरा प्राणप्रिय और भ्रातृ, वरमल भाई जब ननिहाल से अयोध्या में आया और हम तीनों का जटा चकल धारण कर वन में आना सुना, तब स्नेह से पूर्ण हृदय और शोक से विकल हो तथा इस कुलधर्म को ( कि बड़े का राज्याभिषेक इस कुल में सदा से होता आया है ) स्मरण कर, हम लोगों से मिलने आया है। उसके यहाँ आने का अन्य कोई अभिप्राय तो नहीं जान पड़ता ॥ १० ॥ ११ ॥

अभ्यां च कैकेयीं रुष्य परुषं चाप्रियं वदन् ।

प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥ १२ ॥

( बहुत सम्भव है कि ) अम्मा कैकेयी के ऊपर क्रुद्ध हो और उसको क्रुद्ध कठोर वचन कह तथा पिता को मना कर, मुझे मनाने को आया हो ॥ १२ ॥

प्राप्तकालं यदेषोऽस्मान्भरतो द्रष्टुमिच्छति ।

अस्मासु मनसाऽप्येष नाप्रियं किञ्चिदाचरेत् ॥ १३ ॥

यह उचित ही है कि, भरत आ कर हमसे मिलें, परन्तु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि, भरत हमारे अनिष्ट की मन में कभी कल्पना भी करें ॥ १३ ॥

विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किम् ।

ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं योऽत्र शङ्कसे ॥ १४ ॥

क्या भरत ने इससे पूर्व कभी तुम्हारा कुछ अहित किया था जो तुम उसकी ओर से भय की शङ्का कर रहे हो ॥ १४ ॥

न हि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः ।

अहं ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥ १५ ॥

भरत के विषय में ऐसे कठोर और अप्रिय वचन तुम्हें न कहने चाहिये । क्योंकि भरत के बारे में जो कुछ तुम खरी छोटी बातें कहोगे या उसका कुछ अहित करोगे तो मानों वह तुमने मुझीसे कठोर वचन कहे और मेरा ही अहित किया ॥ १५ ॥

कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि ।

भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥ १६ ॥

हे लक्ष्मण ! ज़रा सोचो तो । चाहे कैसी भारी विपत्ति क्यों न आन पड़े, पिता किसी भी दशा में अपने पुत्र का या भाई प्राण के समान अपने भाई का वच नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे ।

वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम् ॥ १७ ॥

और यदि तुमने ये सब बातें राज्यप्राप्ति के लिये ही कहीं हों तो मैं भरत से कह कर राज्य तुमको दिजवा दूँगा ॥ १७ ॥

उच्यमानोऽपि भरतो मया लक्ष्मण तत्त्वतः ।

राज्यमस्मै प्रयच्छेति वाढमित्येव वक्ष्यति ॥ १८ ॥

हे लक्ष्मण ! मैं सत्य कहता हूँ कि, मेरे यह कहते ही कि "राज्य इसे दे दो" भरत सिवाय "बहुत अच्छा" कहने के ना तो कभी कहेगा ही नहीं ॥ १८ ॥

तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः ।

लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया ॥ १९ ॥

जब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने ऐसा कहा, तब उनके हितैषी लक्ष्मण जी बहुत लज्जित हुए और सकुड़ कर ऐसे हो गये, मानों शरीर के अंगों में घुसे जाते हो ॥ १९ ॥

तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह ।

त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम् ॥ २० ॥

अनन्तर लक्ष्मण जी ने लज्जित हो यह उत्तर दिया कि, मुझे तो यह जान पड़ता है कि, महाराज दशरथ स्वयं ही, तुमको देखने आये हैं ॥ २० ॥

व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाच ह ।

एष मन्ये महाबाहुरिहास्मान्द्रष्टुमागतः ॥ २१ ॥

लक्ष्मण को लज्जित देख (उनकी बात को पुष्ट करते हुए) श्रीरामचन्द्र जी ने कहा—मैं भी यही समझता हूँ कि, मेरे पिता ही मुझे देखने को यहाँ आये हैं ॥ २१ ॥

अथवा नौ ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ ।

वनवासमनुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२ ॥

अथवा हम दोनों को सुख में रहने योग्य मान, और वनवास के दुःखों को स्मरण कर, निश्चय ही हमें घर लौटा ले जायेंगे ॥ २२ ॥

इमां वाऽप्येष वंदेहीमत्यन्तमुखसेविनीम् ।

पिता मे राघवः श्रीमान्वनादादाय यास्यति ॥ २३ ॥

अथवा यह भी हो सकता है कि, इन सीता को, जो अत्यन्त सुख पाने के योग्य हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ वन से लौटा कर इन्हें अपने साथ ले जाय ॥ २३ ॥

एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ<sup>१</sup> मनोरमौ ।

वायुवेगसमौ वीर जवनीं तुरगोत्तमौ ॥ २४ ॥

यह देखो श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुए सुन्दर वायु के समान शीघ्र-गामी, उनके दोनों और उत्तम घोड़े अब साफ साफ देख पड़ते हैं ॥ २४ ॥

स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे ।

नागः शत्रुञ्जयो नाम वृद्धस्तातस्य शीमतः ॥ २५ ॥

देखो, बुद्धिमान पिता जी के चढ़ने का वह बड़े डीलडौल वाला और ऊँचा शत्रुञ्जय नामक हाथी भी, सेना के आगे आगे श्रमता हुआ चला आता है ॥ २५ ॥

न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं<sup>२</sup> लोकसत्कृतम् ।

पितुर्दिव्यं महाबाहो संग्रयो भवतीह मे ॥ २६ ॥

किन्तु हे महाबाहो ! पिता जी का लोकोत्तर, दिव्य एवं श्रेष्ठ शत्रु न देखने से मेरे मन में सन्देह होता है ॥ २६ ॥

१ गोत्रवन्तौ—प्रशस्तनामानौ । यद्वाप्रशस्तकुलसूनी । (गो०) २ वृद्धः—वृद्धतः । (गो०) ३ लोकसत्कृतं—लोकोत्तरं । (गो०)

वृक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्रुचः ।

इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रिं तमुवाच ह ॥ २७ ॥

हे लक्ष्मण ! अब तुम मेरा कहा मान वृक्ष से उत्तर आओ ।  
जब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से इस प्रकार कहा ॥ २७ ॥

अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समितिञ्जयः ।

लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः ॥२८॥

तव युद्ध में जीतने वाले लक्ष्मण जी उस शाल के पेड़ से  
उतर हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी के पास आ खड़े हुए ॥ २८ ॥

भरतेनापि संदिष्टा संमर्दा न भवेदिति ।

समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत् ॥ २९ ॥

उधर भरत जी ने सेना वालों को यह आज्ञा दी कि यहाँ  
श्रीरामाश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ या भीड़भाड़ न होने पावे ।  
यह कह उन्होंने उस पर्वत के चारों ओर सेना टिका दी ॥ २९ ॥

अध्यर्धमिक्ष्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य सा ।

पार्श्वे न्यविशदावृत्य गजवाजिरथाकुला ॥ ३० ॥

हाथी घाड़ों से पूर्ण वह सेना पहाड़ के चारों ओर छः कोस के  
घेरे में टिक रही ॥ ३० ॥

सा चित्रकूटे<sup>१</sup> भरतेन सेना

धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पम् ।

१ चित्रकूटे—चित्रकूट समीपे । ( गो० )

प्रसादनार्यं रघुनन्दनस्य

विराजते नीतिमता प्रणीता<sup>१</sup> ॥ ३१ ॥

इति सप्तनवतितमः सर्गः ॥

नीतिमान् भरत ने धर्ममार्ग से श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिये अपना अहङ्कार त्यागा और चित्रकूट पर्वत के पास सेना ला कर ठहरा दी ॥ ३१ ॥

अयोध्याकाण्ड का सप्तानवेचाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

अष्टनवतितमः सर्गः

—:०:—

निवेश्य सेनां तु विभुः पद्भ्यां पादवतां<sup>२</sup> वरः ।

अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुह्वर्तिनम्<sup>३</sup>\* ॥ १ ॥

प्राणधारिणों में श्रेष्ठ और गुरु को शुश्रूषा करने वाले भरत जी सेना को इस भाँति से टिका कर श्रीरामचन्द्र जी से मिलने के लिये स्वयं पैदल ही चले ॥ १ ॥

निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् ।

भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् ॥ २ ॥

भरत जी की आज्ञानुसार जब सेना ठहर गयी, तब भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा ॥ २ ॥

१ प्रणीता—आनीता । (गो०) २ पादवतांवरः—चरत्राग्निनांश्रेष्ठः । (रा०)

३ गुह्वर्तिनं—गुह्यश्रुपापरम् (रा०) \* पाठान्तरं—‘गुह्वर्तकम् ।’

छिप्रं वनमिदं सौम्य नरसङ्घैः समन्ततः ।

लुब्धैश्च<sup>१</sup> सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमर्हसि ॥ ३ ॥

हे सौम्य ! तुम शीघ्र इन सब लोगों को और इन वहेलियों को साथ ले इस वन में चारों ओर घूम फिर कर श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम का पता लगाओ ॥ ३ ॥

गुहो ज्ञातिसहस्रेण शरचापासिधारिणा ।

समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्परिवृतः स्वयम् ॥ ४ ॥

गुह भी अपने सहस्रों जाति वाले को साथ ले और तीर कमान एवं तलवार धारण कर ( वन के जानवरों से आत्मरक्षार्थ ) स्वयं उन दोनों को खोजे ॥ ४ ॥

अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः ।

वनं सर्वं चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयम् ॥ ५ ॥

मैं स्वयं भी इन मंत्रियों, पुरवासियों गुरुओं और ब्राह्मणों को साथ ले पैदल ही इस सारे वन को मक्काऊंगा ॥ ५ ॥

यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम् ।

वैदेहीं वा महाभारतां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६ ॥

जब तक मैं श्रीरामचन्द्र जी को, महाबली लक्ष्मण को और महामायवती सीता को न देख लूँगा, तब तक मुझे शैन न पड़ेगा ॥ ६ ॥

यावन्न चन्द्रसङ्काशं द्रक्ष्यामि शुभमाननम्\* ।

भ्रातुः पद्मपलाशाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ७ ॥

१ लुब्धैः—ग्यावै । ( गा० ) • पाठान्तरे—“यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम् ।”

जब तक मैं चन्द्रमा के समान और कमलनयन बड़े भाई श्रीरामचन्द्र के प्रसन्नमुख के दर्शन न कर लूँगा, तब तक मुझे चैन न पड़ेगा ॥ ७ ॥

यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्यिव्यञ्जनान्विता ।

शिरसा धारयिष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ८ ॥

जब तक मैं श्रीरामचन्द्र जी के राजचिन्हों से युक्त चरणयुगल अपने मस्तक पर धारण न कर लूँगा तब तक मेरा मन शान्त न होगा ॥ ८ ॥

यावन्न राज्ये राज्याहः पितृपैतामहे स्थितः ।

अभिषेकजलङ्घितो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ९ ॥

जब तक राज्य करने योग्य श्रीरामचन्द्र जी उस पितृपितामह के राज्य पर अभिषेक द्वारा अभिषेक के जल से धार्द्र ( भंगि ) न होंगे, तब तक मेरा जी ठिकाने न होगा ॥ ९ ॥

सिद्धार्यः खलु सौमित्रिर्यश्चन्द्रविमलपमम् ।

मुखं पश्यति रामस्य राजीवासे महाद्युति ॥१०॥

धन्य है लक्ष्मण, जो श्रीरामचन्द्र के उस निर्मल चन्द्रापम महाद्युति युक्त एवं कमल सङ्ग नेत्र वाले मुख को देखा करते हैं ॥१०॥

कृतकृत्या महाभागा वंदेही जनकात्मजा ।

भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या याऽनुगच्छति ॥११॥

वे महामाम्यवती जानकी जो धन्य हैं, जो सागरय पृथिवी के स्वामी श्रीरामचन्द्र जी को अनुगामिनी हैं ॥ ११ ॥



मुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः ।

यस्मिन्वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥ १२ ॥

हिमालय पर्वत के समाना यह चित्रकूट पर्वत भी धन्य है। क्योंकि इस पर श्रीरामचन्द्र जी उसी प्रकार वास करते हैं, जिस प्रकार कुबेर चैत्ररथ वन में रहते हैं ॥ १२ ॥

कृतकार्यमिदं दुर्गं वनं व्यालनिषेवितम् ।

यदध्यास्ते महातेजा रामः शस्त्रभृतांवरः ॥ १३ ॥

यह वन जो सर्पों से सेवित होने के कारण दुर्गम है, कृतार्थ हुआ, जिसमें शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र रहते हैं ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा महातेजा भरतः पुरुषर्षभः ।

पद्भ्यामेव महाबाहुः प्रविवेश महद्वनम् ॥ १४ ॥

इस प्रकार कहते कहते, महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ भरत ने उस वन में पैदल ही प्रवेश किया ॥ १४ ॥

स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु ।

पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतांवरः ॥ १५ ॥

बालने वालों में श्रेष्ठ महात्मा भरत जो पर्वत के शिखरों पर लगे हुए फूले फले वृत्तों के समूहों के बीच में जा पहुँचे ॥ १५ ॥

स गिरेश्चित्रकूटस्य सालभासाद्य पुष्पितम् ।

रामाश्रमगतस्याग्नेर्ददर्श ध्वजमुच्छ्रितम् ॥ १६ ॥

वहाँ एक साखू के वृक्ष के ऊपर चढ़ कर, श्रीरामचन्द्र के आश्रम में जलती हुई अग्नि का बहुत ऊँचा उडता हुआ धुआँ देखा ॥ १६ ॥

तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान्मुमोद\* सहवान्धवः ।

अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥ १७ ॥

तब तो भरत जी अपने बान्धवों सहित हर्षित हुए और यहाँ श्रीरामचन्द्र जी रहते हैं—यह निश्चय कर, मानों समुद्र के पार हुए ॥ १७ ॥

स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य

रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम् ।

गुह्येन सार्धं त्वरितो जगाम

पुनर्निवेश्यैव चर्मं महात्मा ॥ १८ ॥

इति अष्टमवतितमः सर्गः ॥

इस प्रकार उस गिरिराज चित्रकूट पर तपस्वियों से सेवित, श्रीरामाश्रम को पा कर, महात्मा भरत जी, गुह्य को साथ ले और सेना को यथास्थान फिर ठहरा शीघ्रता से आश्रम की ओर गये ॥ १८ ॥

अयोध्याकाण्ड का अष्टमवतितमः सर्ग समाप्त हुआ ।

—:\*:—

एकोनशततमः सर्गः

—:०:—

निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्तदा ।

जगाम भ्रातं द्रष्टुं शत्रुघ्नमनुदर्शयन् ॥ १ ॥

\* पाठान्तरं—“मुमोह” ।

सेना के टिक जाने पर, भरत जी उत्सुक हो, शत्रुघ्न जी को श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम के चिन्हादि दिखाते हुए, भाई के दर्शन की कामना से, चले ॥ १ ॥

ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृमे शीघ्रमानय ।

इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २ ॥

भरत ने वसिष्ठ जी से कहा कि, आप मेरी माताओं को शीघ्र ले आइये, ( मैं आगे चलता हूँ ) यह कह गुरुवत्सल भरत शीघ्रता से आगे चले ॥ २ ॥

सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुघ्नमदूरादन्वपद्यत ।

रामदर्शनजस्तर्षा भरतस्येव तस्य च ॥ ३ ॥

इतने में सुमन्त्र भी शत्रुघ्न को भरत के पीछे जाते देख, स्वयं शत्रुघ्न के पीछे हो लिये । क्योंकि भरत की तरह सुमन्त्र को भी श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन की उत्कंठा हो रही थी ॥ ३ ॥

गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम् ।

भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुत्जं च ददर्श ह ॥ ४ ॥

भरत जी ने जाते जाते देखा कि, तपस्वियों के आश्रम के बीच में भाई की पर्णकुटी बनी हुई है ॥ ४ ॥

शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा ।

१काष्ठानि चावभग्नानि २पुष्पाण्यपचितानि च ॥ ५ ॥

---

१ काष्ठानि—रात्रौप्रकाशायज्वलनीयानि । (गो०) २ पुष्पाणि पूजार्थानि ।  
( गो० )

भरत जी ने यह भी देखा कि, उस पर्णशाला के सामने ही (रात में प्रकाश करने के लिये) दूटो लकड़ियाँ और पूजन के लिये फूल चुन चुन कर रखे हुए हैं ॥ ५ ॥

सलक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रममीयुषः ।

कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचीरैः क्वचित्क्वचित् ॥ ६ ॥

और आश्रम की पहिचान के लिये आश्रमवासी श्रीराम लक्ष्मण ने कहीं कहीं वृक्षों में कुश और चीर बांध कर चिन्ह कर दिये हैं ॥ ६ ॥

ददर्श च वने तस्मिन्महतः सञ्चयान्कृतान् ।

मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात् ॥ ७ ॥

भरत जी ने देखा कि, शीत से बचने के लिये अथवा तापने के लिये, मृगों और भैंसों के गोबर के सुखे कण्डों के ढेर लगे हैं ॥ ७ ॥

गच्छन्नेव महाबाहुर्द्युतिमान्भरतस्तदा ।

शत्रुघ्नं चाब्रवीद्धृष्टस्तानमात्यांश्च सर्वशः ॥ ८ ॥

मन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमब्रवीत् ।

नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥

महाबाहु धृतिवान् भरत जी ने चलते चलते प्रसन्न हो अपने सब मंत्रियों और शत्रुघ्न से कहा—जान पड़ता है, हम लोग उस स्थान पर पहुँच गये जिसे भरद्वाज जी ने बतलाया था। मैं समझता हूँ कि, यहाँ से मन्दाकिनी नदी कहीं समीप ही है ॥ ८ ॥ ९ ॥

उच्चैर्वद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् ।

अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥

यहाँ इतनी ऊँचाई पर लक्ष्मण ने चीरों को बाँधा है । यह इस लिये कि, रातविरात में जब लक्ष्मण को पानी लाने के लिये जाना पड़ता होगा, तब इन चीरचिन्हों को देख, वे आश्रम में आ जाते होंगे ॥ १० ॥

इदं चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम् १ ।

शैलपाश्वरे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम् ॥ ११ ॥

वेगवान एवं बड़े बड़े दाँतों वाले हाथी जो बड़ा नाद किया करते हैं, पर्वत के पास यह उन्हींके आने जाने का रास्ता जान पड़ता है ॥ ११ ॥

यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने ।

तस्यासौ दृश्यते धूमः सङ्कुलः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२ ॥

तपस्वी लोग सायंप्रातः होम करने के लिये सदा जिस आग्नि को स्थापित रखा करते हैं, उसीका यह काला काला धुआँ देख पड़ता है ॥ १२ ॥

अत्राहं पुरुषव्याघ्रं गुरुसंस्कारकारिणम् ।

आर्यं द्रक्ष्यामि संहृष्टो महर्षिमिव राघवम् ॥ १३ ॥

अतः इसी स्थान पर उस पुरुषसिंह एवं श्रेष्ठ संस्कार करने वाले श्रीराम को, हर्ष युक्त महर्षि के समान बैठा हुआ मैं देखूँगा ॥ १३ ॥

१ विकाले—अकाले सायंकालादौ । ( गो० ) २ तरस्विनां—वेगवतां ।

( गो० ) ३ गुरुसंस्कारकारिणम्—गुरुसंस्कारः श्रेष्ठसंस्कारः मन्त्रोपदेशादिः तत्कारिणं । ( गो० )

अथ गत्वा मुदूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः ।

मन्दाकिनीमनुभासस्तं जनं<sup>१</sup> चेदमब्रवीत् ॥ १४ ॥

तदनन्तर भरत जो कुछ समय तक आगे चल, मन्दाकिनी नदी के समीप चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँचे और जनुभादि अपने साथियों से कहने लगे ॥ १४ ॥

२जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्तं वीरासनं रतः ।

जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य धिङ्मे जन्म सजीवितम् ॥१५॥

देखो वह पुरुषसिंह और नरेन्द्र हो कर पृथिवी पर वीरामन से बैठे हैं और इस निर्जनस्थान में रहते हैं। हा! मेरे जीवन और जन्म का धिक्कार है ॥ १५ ॥

मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः ।

सर्वान्कामान्परित्यज्य वनं वसति राघवः ॥ १६ ॥

हा! मेरे ही पीछे, सब के स्वामी और महाद्युतिमान श्रीरामचन्द्र जी, दारुण दुःखस्था में पड़े हैं और सब प्रकार के सुखभागों से वञ्चित हो, वन में वास करते हैं ॥ १६ ॥

इति लोकसमाक्रुष्टः पादेष्वद्य प्रसाद्यन् ।

रामस्य निपतिष्यामि सीतायाश्च पुनः पुनः\* ॥ १७ ॥

इससे मेरी सब में बड़ी बदनामी हुई है ( अतः उस बदनामी को दूर करने के लिये ) मैं बार बार श्रीरामचन्द्र और सीता के चरणों पर गिर, उनको प्रसन्न करूँगा ॥ १७ ॥

१ तंजनं—सहागतं जनुभादिभ्यम् । (गो०) २ जगत्यां—भूमौ । (गो०)

\* पादान्तरे—“सीताया लक्ष्मणस्य ।”

एवं स विलपंस्तस्मिन्वने दशरथात्मजः ।

ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम् ॥ १८ ॥

इस प्रकार वन में विलाप करते हुए भरत जो ने उस विशाल पवित्र एवं मनोहर ( उम ) पर्णकुटी को देखा, ॥ १८ ॥

सालतालाश्वकर्णानां पर्णैर्वह्निभिरावृताम् ।

विशालां मृदुभिस्तीर्णां कुशैर्वदिमिवाध्वरे ॥ १९ ॥

जो साखू, ताल और अश्वकण नाम के वृक्षों के बहुत से पत्तों से ढायी गयी थी और खूब लंबी चौड़ी और कोमल थी, देखने पर वह ऐसी जान पड़ती, मानों यज्ञवेदी कुशों से ढकी हुई है ॥ १९ ॥

शक्रायुधनिकाशैश्च कार्मुकैर्भारसाधनैः<sup>१</sup> ।

रुक्मपृष्ठैर्महासारैः शोभितां शत्रुवाधकैः ॥ २० ॥

उसमें जहाँ तहाँ, इन्द्र के वज्र के समान, युद्ध में बड़े बड़े काम करने वाले और सुवर्णरचित पीठ वाले, बड़े भारी भारी तथा शत्रु को बाधा देने वाले धनुष, दँगे हुए शोभायमान हो रहे थे ॥ २० ॥

अर्करश्मिप्रतीकाशैर्घोरैस्तूणीगतैः शरैः ।

शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैर्भोगवतीमिव ॥ २१ ॥

उनके पास ही तरकसों में भरे सूर्य की किरणों के समान चमकीले एवं भयङ्कर वाण शोभा दे रहे थे । मानों प्रदीप्त मुख सर्पों से भोगवती नास्ती नगरी सुशोभित हो ॥ २१ ॥

१ भारसाधनैः—गुरुतरणकार्यसाधनभूतैः । ( गो० )

महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम् ।

रुक्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम् ॥२२॥

वहाँ पर दो तलवारें भी रखी थीं, जिनको सोने की म्यानें थीं और उनके पास ही दो डालें भी रखी थीं, जिन पर सोने के फूल बने हुए थे ॥ २२ ॥

गोधाङ्गुलित्रैरासक्तैश्चित्रैः काञ्चनभूषितैः ।

अरिसङ्घैरनाधृष्यां मृगैः २सिंहगुहामिव ॥ २३ ॥

वहाँ कितने ही गोधा के चाम के और काञ्चनभूषित तरह तरह के अंगुलिप्राण ( दस्ताने ) भी शोभित हो रहे थे । जिस पर्णशाला में इस प्रकार के गल्ल रखे थे, वह शत्रुओं द्वारा उसी प्रकार अभेद्य थी, जिस प्रकार सिंह की गुफा, हिरनों के झुण्डों के लिये अभेद्य होती है ॥ २३ ॥

प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम् ।

ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ ॥

तदनन्तर भरत जो ने श्रीरामचन्द्र जो के वासस्थान में प्रज्वलित अग्निपुत्र ईशानकेण में अति विशाल एवं पवित्र वेदी देखी ॥ २४ ॥

निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् ।

उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम् ॥ २५ ॥

भरत जो एक मुहूर्त तक तो पर्णशाला की वनावट और सजावट देखते रहे, तदनन्तर उन्होंने पर्णशाला में बैठे हुए और जटा जूट धारण किये हुए बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जो को देखा ॥ २५ ॥

१ महारजतवासोभ्यां—स्वर्णमयकोशाभ्यां । (गो०) २ सिंहगुहामिवपर्णशालां ददर्शोत्पन्नवयः । ( रा० )



तं तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कलवाससम् ।  
ददर्श राममासीनमभितः<sup>१</sup> पावकोपमम् ॥ २६ ॥

भरत जी ने अग्नि की तरह ( दुर्दर्श ) श्रीरामचन्द्र को ऊपर से काले हिरन का चाम ओढ़े और कमर पर चीर वल्कल पहिने हुए, कुटी के पास ही बैठा देखा ॥ २६ ॥

सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणम् ।  
पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् ॥२७॥

उनकी भुजाएँ घुटनों तक लंबी, उनके कंधे सिंह के कंधों के समान ऊँचे और नेत्र कमल के समान थे । वे ससागरा पृथिवी के स्वामी और धर्मचारी थे ॥ २७ ॥

उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम् ।  
स्यण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २८ ॥

उनको भरत ने सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर, कुश के आसन के ऊपर, शाश्वत ब्रह्म की तरह बैठा हुआ देखा ॥ २८ ॥

तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान्दुःखशोकपरिप्लुतः ।  
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः कैकयीसुतः ॥ २९ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को ( इस प्रकार ) बैठा हुआ देख, कैकेयीनन्दन धर्मात्मा भरत, दुःख और मोह से विकल हो, उनकी ओर दौड़े ॥ २९ ॥

दृष्ट्वै विललापार्तो वाष्पसन्दिग्धया गिरा ।  
अशक्नुवन्धारयितुं धैर्याद्वचनमब्रवीत् ॥ ३० ॥

श्रीरामचन्द्र को देखते ही भरत जी का कण्ठ अति दुःखित होने के कारण गद्गद हो गया और वे विलाप करने लगे । उस दुःख के वेग को रोकना यद्यपि उनके लिये कठिन था, तथापि किसी प्रकार धैर्य धारण कर, वे यह बोले ॥ ३० ॥

यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेद्युक्त<sup>१</sup> उपासितुम् ।  
वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१ ॥

हाय ! जो राजसभा में बैठ मंत्रियों द्वारा उपासना किये जाने योग्य हैं, वे मेरे बड़े भाई आज वन्यमृगों द्वारा उपासित हो, बैठे हैं । अर्थात् जो श्रीरामचन्द्र राजसभा में मंत्रियों के बीच बैठने योग्य हैं, वे वनजन्तुओं के बीच बैठे हैं ॥ ३१ ॥

वासोर्भिवहुसाहस्रैर्यो<sup>२</sup> महात्मा पुरोचितः ।  
मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन् ॥ ३२ ॥

जो कितने ही हजारों के मूल्य वाले वस्त्र धारण करने योग्य हैं, वे महात्मा मेरे ज्येष्ठ भ्राता धर्माचरण के लिये हिरन का चाम छोड़े हुए ( यहाँ ) बसे हुए हैं ॥ ३२ ॥

अधारयद्यो विविधाश्चित्राः सुमनसस्तदा ।  
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम् ॥ ३३ ॥

१ संसदि—सभायां । ( गो० ) २ युक्तः—अर्हः । ( गो० ) ३ बहु-साहस्रैः—बहुसङ्ख्यमूल्यैः । ( गो० )

जो सदा तरह तरह के चित्र विचित्र पुष्पां की माला धारण करते थे, वही श्रीरामचन्द्र आज इस जटाभार को किस प्रकार सहन कर रहे हैं ॥ ३३ ॥

यस्य यज्ञैर्यथोद्दिष्टैर्युक्तो धर्मस्य सञ्चयः ।  
शरीरकेशसंभूतं स धर्मं परिमार्गते ॥ ३४ ॥

जिनको ऋषि के द्वारा यथाविधि किये गये यज्ञों से पुण्य-सञ्चय करना उचित था, वे श्रीरामचन्द्र अपने ही शरीर को कष्ट दे कर पुण्यसञ्चय कर रहे हैं ॥ ३४ ॥

चन्दनेन महार्हेण यस्याङ्गमुपसेवितम् ।  
मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ॥ ३५ ॥

जिनके शरीर में मूल्यवान् चन्दन का लेप किया जाता था, वन मेरे ज्येष्ठ भ्राता का शरीर देखो तो कैसा मैला हो रहा है ॥३५॥

मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः ।  
धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् ॥ ३६ ॥

हा ! मेरे ही पीछे, इन सुखों का उपभोग करने वाले श्रीराम-चन्द्र यह कष्ट भोग रहे हैं । हा ! मुझ नृशंस और लोकनिन्दित के इस जीवन को धिक्कार है ॥ ३६ ॥

इत्येवं विलपन्दीनः प्रस्विन्नमुखपङ्कजः ।  
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन् ॥ ३७ ॥

इस प्रकार विलाप करते हुए भरत, दुःखी थे । उनका मुख-कमल पसीने से तर था । उन्होंने चाहा कि, दौड़ कर श्रीरामचन्द्र

के चरणों में गिरें, किन्तु वहाँ तक न पहुँच, वे रो कर बीच ही में मूर्छित हो गिर पड़े ॥ ३७ ॥

दुःस्वाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः ।

उक्त्वार्येऽति सकृद्दीनं पुनर्नोवाच किञ्चन ॥ ३८ ॥

उच्च समय दुःख सन्तप्त और कातर होने के कारण महाबली राजकुमार भरत केवल एक बार “आर्य” शब्द का उच्चारण कर, फिर और कुछ न बोल सके ॥ ३८ ॥

वाष्पापिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् ।

आर्येत्येवाथ संक्रुश्य व्याहर्तुं नाशकत्ततः\* ॥ ३९ ॥

क्योंकि यशस्वी श्रीरामचन्द्र को देख कर, भरत जी का कण्ठ रुद्ध हो गया था । वे केवल “आर्य” कह कर वाक्शक्ति-रहित से हो गये ॥ ३९ ॥

शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुद्धन् ।

तावुभौ स समालिङ्ग्य रामश्चाश्रुण्यवर्तयत् ॥ ४० ॥

रोते हुए शत्रुघ्न ने श्रीरामचन्द्र जी के चरणों को प्रणाम किया । तब श्रीरामचन्द्र जी इन दोनों भाइयों को ज्ञाती से लगा स्वयं रोने लगे ॥ ४० ॥

ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव

समीयतू राजसुतावरण्ये ।

दिवाकरश्चैव निशाकरश्च

यथाऽम्बरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम् ॥ ४१ ॥

तदनन्तर सुमंत्र और गृह भी श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी से मिले । मानों आकाश में सूर्य और चन्द्र, शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों ॥ ४१ ॥

तान्पार्थिवान्वारणयूथपाभान्

समागतांस्तत्र महत्यरण्ये ।

वनौकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वे-

ऽप्यश्रुण्यमुञ्चन्प्रविहाय हर्षम् ॥ ४२ ॥

इति एकैनशततमः सर्गः ॥

उस समय हाथियों पर सवारी करने योग्य इन राजकुमारों ( श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ) को उस महावन में पैदल आये हुए देख, वहाँ के वनवासी भी दुःखी हो, रोने लगे ॥ ४२ ॥

अयोध्याकाण्ड का निन्यानवेचाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

शततमः सर्गः

—:०:—

जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ।

ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा ॥ १ ॥

जटाजूट धारण किये और चीर पहिने श्रीरामचन्द्र ने भरत जी को हाथ जोड़, पृथिवी पर पड़ा हुआ देखा । मानों प्रलय कालीन दुर्दर्श सूर्य तेजहीन हो पृथिवी पर पड़ा हो ॥ १ ॥

कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशम् ।

भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह बाहुना ॥ २ ॥

बड़ा कठिनाई से विवर्ण मुख और अत्यन्त दुबले पतले भाई भरत को पहिचान, श्रीरामचन्द्र जो ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर उठाया ॥ २ ॥

आश्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवः ।

अङ्कं भरतमारोप्य पर्यपृच्छत्समाहितः ॥ ३ ॥

अनन्तर श्रीरामचन्द्र जो ने उनके मस्तक को लुँथ, उनको छाती से लगा और उनके अग्रको गोटों में बिठा, सावधानतापूर्वक उनसे यह बात पूँछी ॥ ३ ॥

कं नु तंऽभूत्पिता तात यदरुण्यं त्वमागतः ।

न हि त्वं जीवितस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि ॥ ४ ॥

हे तात ! तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जो तुम इस वन में आये हो ? ( क्योंकि ) उनके जीवित रहने तुम वन में नहीं आ सकते थे ॥ ४ ॥

चिरस्य वत पश्यामि दूराद्दरतमागतम् ।

१ दुग्धतीक्ष्णरुण्येऽस्मिन्किं तात वनमागतः ॥ ५ ॥

बड़े खेद की बात है कि, बहुत दिनों बाद और बहुत दूर से चल कर आने के कारण विवर्ण मुख एवं कृश भरत को मैं कठिनाई से पहिचान पाया । हे भाई ! तुम इस वन में किस लिये आये हो ? ॥ ५ ॥

कञ्चिद्भारवने तात राजा यत्त्वमिदागतः ।

कञ्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥

१ दुग्धतीक्ष्णं—वैवर्ण्यादिनाद्दुग्धेयावयवं । ( गो० )

हे भाई ! तुम जो यहाँ आये हो सो यह तो कहो कि, पिता जी तो मजे में हैं ? कहीं शोक से विकल हो महाराज अचानक लोका-  
न्तरित तो नहीं हुए ॥ ३ ॥

कच्चिसौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतम् ।

कच्चिल्लुश्रूपसे तात पितरं सत्यविक्रमम् ॥ ७ ॥

हे सौम्य ! तुम अभी बालक हो, सो कहीं उस सनातन राज्य  
में तो कुछ गड़बड़ो नही हुई ? हे सत्यविक्रम ! तुम पिता की सेवा  
तो भली भाँति करते हो ? ॥ ७ ॥

कच्चिदशरथो राजा कुशली<sup>१</sup> सत्यसङ्गरः ।

राजमूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्चयः ॥ ८ ॥

राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के करने वाले, धर्म में निश्चित  
बुद्धि रखने वाले, एवं सत्यप्रतिज्ञ महाराज तो स्वस्थ हैं ? ॥ ८ ॥

स कच्चिद्राह्मणो विद्वान्धर्मनित्यो महाद्युतिः ।

इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ९ ॥

क्या उस विद्वान एवं महातेजस्वी ब्राह्मण का, जो नित्य धर्म-  
कार्यों में तत्पर रहता है और इक्ष्वाकुकुल का उपाध्याय है, यथा-  
वत् सत्कार किया जाता है ? ॥ ९ ॥

सा तात कच्चित्कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती ।

सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकयी ॥ १० ॥

हे तात ! माता कौशल्या और सुपुत्रवती माता सुमित्रा तो  
प्रसन्न हैं ? और परमश्रेष्ठा देवी कैकयी तो आनन्द से हैं ? ॥ १० ॥

१ कुशली—अनामयः । ( गो० )

कच्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः ।

अनसूयुरनुद्रष्टा<sup>१</sup> सत्कृतस्ते<sup>२</sup> पुरोहितः<sup>३</sup> ॥ ११ ॥

हे तात ! चिनम्र, अनुभवी, सत्कुलोत्पन्न एवं असूयारहित और समस्त सत्कर्मानुष्ठानों में निपुण, हमजाली और पुरोहित वशिष्ठ जी के पुत्र का सत्कार तो तुम करते हो न ? ॥ ११ ॥

कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानृजुः ।

हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते<sup>४</sup> सदा ॥ १२ ॥

अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त, हवन की विधियों को साङ्गोपाङ्ग जानने वाला, मतिमान और सरल स्वभाव पुरोहित, हवनकाल उपस्थित होने पर, तुमको सदा सूचना देता रहता है कि, नहीं ? ॥ १२ ॥

कच्चिद्देवान्पितृन्मातृगुरुन्पितृसमानपि ।

वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥ १३ ॥

हे तात ! देवता, पिता, माता, गुरु और पिता के समान पूज्य, बड़े बूढ़ों, वैद्यों और ब्राह्मणों को सब तरह से तुम मानते हो न ? ॥ १३ ॥

इष्वस्त्र<sup>५</sup>वरसम्पन्नम<sup>६</sup>अर्थशास्त्रविशारदम् ।

सुधन्वानमुपाध्याय<sup>७</sup> कच्चित्त्वं तात मन्यसे ॥ १४ ॥

१ कुलपुत्रः—सत्कुलप्रसूतः । ( गो० ) २ अनुद्रष्टा—सकल सत्कर्म निपुणः । ( शि० ) ३ ते तव सबयस्कः । ( शि० ) ४ पुरोहितः—वसिष्ठपुत्रः । ( शि० ) ५ वेदयते—तुभ्यंज्ञापयति क्वचित् । ( गो० ) ६ इषवः—अमंत्रका-वाणाः । ( गो० ) ७ अघ्राणिः—समंत्रकः । ८ अर्थशास्त्रं—नीति-शास्त्रं । ( गो० ) ९ उपाध्यायं—धनुर्वेदाचार्यं । ( गो० )



हे तात ! अस्त्र ( जो मंत्रबल से चलाये जाय ) शस्त्र ( जो बिना मंत्र के चलाये जाय ) से सम्पन्न, नीति-शास्त्र-विशारद, सुधन्वा नाम के धनुर्वेदाचार्य का तो यथोचित मान तुम करते हो ? ॥ १४ ॥

कच्चिदात्मसमा<sup>१</sup> शूराः<sup>२</sup> श्रुतवन्ता<sup>३</sup> जितेन्द्रियाः<sup>४</sup> ।

कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः ॥ १५ ॥

हे तात ! विश्वसनीय, धीर, नीतिशास्त्रज्ञ, लालच में न फँसने वाले और प्रामाणिक कुलोत्पन्न लोगों को तुमने अपना मंत्री बनाया कि नहीं ? ॥ १५ ॥

मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव ।

सुसंवृतो मन्त्रधरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः ॥ १६ ॥

क्योंकि हे राघव ! नीतिशास्त्रनिपुण एकान्त भेद की सलाह करने योग्य मंत्रियों द्वारा रक्षित, गुप्त परामर्श ही, राजाओं के लिये विजय का मूल है । ( अर्थात् जिन राजाओं के मंत्री परामर्शों को गुप्त रखने वाले होते हैं या जिन राजाओं के परामर्श गुप्त रहते हैं उन्हीं राजाओं की जीत होती है ) ॥ १६ ॥

कच्चिन्निद्रावशं नैषीः कच्चित्काले प्रबुध्यसे ।

कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्<sup>८</sup> ॥ १७ ॥

१ आत्मसमाः—विश्वसनीया इति । ( गो० ) २ शूराः—धीराः । ( गो० ) ३ श्रुतवन्तः—नीतिशास्त्रज्ञाः । ४ जितेन्द्रियाः—परैरलोभनीया इति । ( गो० ) ५ कुलीनाः—प्रामाणिककुलोत्पन्नाः । ( गो० ) ६ सुसंवृतः—सुतरांगुप्तः । ( गो० ) ७ शास्त्रकोविदैः—नीतिशास्त्रनिपुणैः । ( गो० ) ८ अर्थनैपुणम्—अर्थसम्पादन रीतिम् । ( शि० )

तुम निद्रा के वश में तो नहीं रहते ? यथा समय जाग तो जाते हो ? तुम पिछली रात में अर्थ की प्राप्ति के उपाय तो विचारा करते हो ? ॥ १७ ॥

कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह ।

कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति ॥ १८ ॥

अकेले तो किसी विषय पर विचार नहीं करते अथवा बहुत से लोगों के बीच बैठ कर तो सलाह नहीं करते ? तुम्हारा विचार कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व दूसरे राजाओं को विदित तो नहीं हो जाता ॥ १८ ॥

[ नोट—राजा को अकेले अथवा बहुत से लोगों में बैठ कोई सलाह न करनी चाहिये और न उसके विचार अपयुक्त समय के पूर्व प्रकट ही होने चाहिये । ]

कच्चिदर्थः विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम् ? ।

क्षिप्रमारभसे कर्तुं न दीर्ययसि राघव ॥ १९ ॥

अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाले और बड़ा फल देने वाले कार्य को करने का निश्चय कर, उसका करना तुम तुरन्त आरम्भ कर देते हो कि नहीं ? उसे पूरा करने में देर तो नहीं लगाते ? ॥ १९ ॥

कच्चित्ते सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः ।

विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः<sup>३</sup> ॥ २० ॥

१ अर्थ—कार्य । ( गो० ) २ महोदयं—महाफलं । ( गो० )

३ पार्थिवाः—सामंतनृपाः । ( गो० )

तुम्हारे निश्चित किये हुए सब कार्य भली भाँति पूरे हो जाने पर अथवा पूरे होने ही पर छोटे राजा जान पाते हैं न ? कार्य पूरे होने के पूर्व तो उनको वे कहीं नहीं जान लेते ? ॥ २० ॥

कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या<sup>१</sup> वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः<sup>२</sup> ।

त्वया वा तव वाऽमात्यैर्वुध्यते तात मन्त्रितम् ॥ २१ ॥

मंत्रियों के साथ की हुई तुम्हारी अप्रकाशित सलाह को, दूसरे लोग, तर्क से अथवा अनुमान से तो कहीं नहीं ताड़ लेते ॥ २१ ॥

कच्चित्सहस्रान्मूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम् ।

पण्डितो ऽर्थाकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं<sup>४</sup> महत् ॥ २२ ॥

तुम हज़ार मूर्खों को त्याग कर एक पण्डित ( सलाहकार ) का आश्रय ग्रहण करते हो न ? क्योंकि यदि सङ्कट के समय एक भी पण्डित पास हो, तो बड़े पेश्वर्य की प्राप्ति होती है । अर्थात् बड़ा लाभ होता है ॥ २२ ॥

सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः ।

अथवाऽप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ २३ ॥

राजा भले ही हज़ार या दस हज़ार मूर्खों को अपने पास रखे, परन्तु उन मूर्खों से उस राजा को कुछ भी साहाय्य नहीं मिल सकता ॥ २३ ॥

१ युक्त्यावा—अनुमानेनवा । ( गो० ) २ अपरिकीर्तिताः—अनुक्ताः  
ह्यज्ञतादयः । ( गो० ) ३ अर्थाकृच्छ्रेषु—कार्यसङ्कटेषु । ( गो० ) ४ महत्—  
निःश्रेयसं महदैश्वर्यं । ( गो० )

एकोऽप्यमात्यो मेधावी 'शूरो दक्षो' विचक्षणः ।

राजानं राजपुत्रं\* वा प्रापयेन्महतीं श्रियम् ॥ २४ ॥

किन्तु यदि एक भी बुद्धिमान, स्थिरबुद्धि, विचारकुशल और नीतिशास्त्र में अभ्यस्त मंत्री हो, तो राजा को वा राजकुमार को बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा देता है ॥ २४ ॥

कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः ।

जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः ॥२५॥

हे तात ! तुम, उत्तम जाति के नौकरों को उत्तम कार्य में, मध्यम जाति के नौकरों को मध्यम कार्य में और छोटी जाति के नौकरों को छोटे कामों में लगाते हो न ? ॥ २५ ॥

अमात्यानुपधातीतान्पितृपैतामहाञ्शुचीन् ।

श्रेष्ठाञ्श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु ॥ २६ ॥

तुम उन मंत्रियों को, जो ईमानदार हैं, जो कुलपरंपरा से मंत्री होते आते हैं, जो शुद्ध हृदय और श्रेष्ठ स्वभाव के हैं, श्रेष्ठ कार्यों में नियुक्त करते हो न ? ॥ २६ ॥

कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजितप्रजम् ।

राष्ट्रं तवानुजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत ॥ २७ ॥

हे कैकयीनन्दन ! तुम्हारे राज्य में उग्रदण्ड से उत्तेजित प्रजा कहीं तुम्हारा या तुम्हारे मंत्रियों का अपमान तो नहीं करती ॥ २७ ॥

१ शूरः—स्थिरबुद्धिः । ( गो० ) २ दक्षः—विचारसमर्थः । ( गो० )

३ विचक्षणः—अभ्यस्तनीतिशास्त्रः । ४ पितृपैतामहान्—कुलक्रमागतान् ।

( गो० ) \* पाठान्तरे—“ राजमात्रं ” ।

कच्चित्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं<sup>१</sup> यथा ।

उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः ॥ २८ ॥

जिस प्रकार स्त्रियां परस्त्रीगमन करने वाले पुरुष को पतित समझ उसका अनादर करती हैं, या जिस प्रकार यज्ञ करने वाले यज्ञ-कर्म से पतित का अनादर करते हैं, उस प्रकार कहीं अधिक कर लेने से प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ॥ २८ ॥

उपायकुशलं वैद्यं<sup>२</sup> भृत्यसंदूषणे रतम् ।

३शूरमैश्वर्यकामं च यो न हन्ति स वध्यते<sup>४</sup> ॥२९॥

जो राजा, विशेष धन के लालच में फँस, कुटिल नीति विशारद पुरुष को, सज्जनों में द्रोह लगाने वाले नौकर को और राजा तक को मार डालने में भय न करने वाले पुरुष को नहीं मारता, वह स्वयं मारा जाता है। सो हे भाई! तुम कहीं ऐसे लोगों को तो अपने पास नहीं रखते? ॥ २९ ॥

कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च मतिमान्धृतिमाञ्जुचिः ।

कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ ३० ॥

हे भरत! तुमने किसी ऐसे पुरुष को, जो व्यवहार में चतुर, शत्रु को जीतने वाला, सैनिक कार्यों में (व्यूहादि रचना में) चतुर, विपत्ति के समय धैर्य धारण करने वाला, स्वामी का विश्वासपात्र, सत्कुलोद्भव, स्वामिमत्त, और कार्यकुशल हो, अपना सेनापति बनाया है कि नहीं? ॥ ३० ॥

१ पतितं—यष्टुकामंपतितं । ( गो० ) २ वैद्यं—कणिकोक्तकुटिल-  
नीतिविद्याविदं । ( गा० ) ३ शूरं—राजहिंसनेपिनिर्भयं । ( गो० )  
४ वध्यते—राज्याद्भूयो भवति । ( गो० )

बलवन्तश्च कश्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः ।

दृष्टापदाना<sup>१</sup> विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥३१॥

अत्यन्त बलवान्, प्रसिद्ध, युद्धविद्या में निपुण और जिसके बल की परीक्षा ली जा चुकी है और जो पराक्रमी है ऐसे पुरुषों को पुरस्कृत कर तुमने उत्साहित किया है कि नहीं ? ॥ ३१ ॥

कच्चिद्वलस्य भक्तं<sup>२</sup> च वेतनं च यथोचितम् ।

सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ ३२ ॥

तुम सेना वालों को कार्यान्तरूप भोजन और वेतन यथासमय देने में विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३२ ॥

कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः ।

भर्तुः कुप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽन<sup>३</sup> सुमहान्स्मृतः ॥३३॥

क्योंकि भोजन और वेतन समय पर न मिलने से, नौकर लोग कुपित होते हैं और मालिक की निन्दा करते हैं। नौकरों का ऐसा करना, एक बड़े भारी अनर्थ की बात है ॥ ३३ ॥

कच्चित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः<sup>४</sup> प्रधानतः<sup>५</sup> ।

कच्चित्प्राणांस्तवार्येषु सन्त्यजन्ति समाहिताः ॥ ३४ ॥

भला सब राजपूत और सरदार तो तुम्हारे ऊपर अनुराग रखते हैं ? और क्या समय पर वे तुम्हारे लिये सावधानता पूर्वक अपने प्राण दे डालने को तैयार हो सकते हैं ? ॥ ३४ ॥

१ दृष्टापदाना—अनुभूत पौरुषं । ( रा० ) २ भक्तं—भक्तं वेतनं । ( रा० )

३ कुलपुत्राः—क्षत्रियकुलप्रसूताः । ( गो० ) ४ प्रधानतः—प्रधानाः । ( गो० )

कच्चिज्जानपदो १ विद्वान्दक्षिणः २ प्रतिभानवान् ।

यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ ३५ ॥

अपने ही राज्य के रहने वाले, दूसरे के अभिप्राय को जानने वाले, समर्थ, हाज़िरजवाब, ( प्रत्युत्पन्नमति ), यथोक्तवादी और दूसरे की कही बातों को तर्क से खगड़न करने वाले पुरुष को, तुमने अपना दूत बनाया है कि, नहीं ? ॥ ३५ ॥

कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च ।

त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वैत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६ ॥

अन्य राज्यों के अठारह पदाधिकारी और अपने राज्य के तीन ( मंत्री, पुरोहित, युवराज ) छोड़ शेष, पन्द्रह राज्याधिकारियों का, हाल जानने के लिये प्रत्येक के पास तीन तीन पैसे भेदिया जो आपस में एक दूसरे को न जानते हैं, नियुक्त कर, इन सब की कारवाइयों का हाल तुम जानते रहते हो न ? ॥ ३६ ॥

[ नोट—अठारह पदाधिकारी ये हैं—

१ मंत्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वारपाल, ६ अन्तःपुराधिकारी ७ बंधनगृहाधिकारी ( दरोगा जेल ) ८ घनाध्यक्ष, ९ राजा की आज्ञानुसार नौकरों को आज्ञा देने वाला, १० प्राड्विवाक ( वकील ) ११ घर्माध्यक्ष, १२ सेना को वेतन बाटने वाला, १३ ठेकेदार, १४ नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), १५ राष्ट्रान्तपाल ( सीमान्त का भफसर ) १६ दुष्टों को दण्ड देने वाला ( मजिस्ट्रेट ) १७ जल, पर्वत, वन का रक्षक और १८ दुर्गों का रक्षक । ]

१ विद्वान्—परामिप्रायज्ञः । ( गो० ) २ दक्षिणः—समर्थः । ( गो० )

कच्चिद्व्यपास्तान् हिताग्रतियातांश्च<sup>२</sup> सर्वदा ।

दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ॥ ३७ ॥

हे रिपुसूदन ! उन शत्रुओं को जिनको तुमने अपने राज्य से निकाल दिया था और फिर किसी तरह लौट कर आ गये हैं, उनको दुर्बल समझ, उनकी ओर से तुम कहीं असावधान तो नहीं रहते ? ॥ ३७ ॥

कच्चिन्न लौकायतिकान्ब्राह्मणांस्तात सेवसे ।

<sup>३</sup>अनर्थकुशला ह्येते वालाः पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥

तुम कहीं नास्तिक ब्राह्मणों को तो अपने पास नहीं रखते ? क्योंकि ये लोग अपने को बड़ा पण्डित लगाते हैं, परन्तु वास्तव में मूर्ख होने के कारण वे यथावत् ज्ञानवन्त नहीं होते अथवा शास्त्र के तत्व को न जानने के कारण धर्मानुष्ठान से लोगों का चित्त हटा कर, लोगों को नरक भेजने में बड़े कुशल होते हैं ॥ ३८ ॥

धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्वुधाः<sup>४</sup> ।

<sup>५</sup>बुद्धिमान्त्रीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥

मुख्य मुख्य प्रामाणिक धर्मशास्त्रों के विद्यमान रहते भी, उनकी बुद्धि सदा वेदविरुद्ध तर्कों ही की ओर दौड़ा करती है और शुष्क तर्क वितर्क करने की आदत पड़ जाने से वे सदा अनर्थकारी वचन ही बोलता करते हैं ॥ ३९ ॥

[ नोट—अतः ऐसे नास्तिक दुर्वुद्धियों से सदा दूर रहना ही उचित है । ]

१ व्यपास्तान्—निष्कासितान् । ( गो० ) २ प्रतिघातान्—पुनरागतान् । ( गो० ) ३ अनर्थकुशला—यथाविज्ञानवन्तःतेनभवन्तीत्यनर्थकुशलाः । ( गो० ) ४ दुर्वुधाः—वेदमार्गविपरीतबुद्धयः । ( गो० ) ५ आन्विक्षिकींबुद्धिं प्राप्य—शुष्कतर्कविषयांबुद्धिमास्थाय । ( गो० )



वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः ।

सत्यनामां दृढद्वारां हस्त्यश्वरथसङ्कुलाम् ॥ ४० ॥

ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्मानिरतैः सदा ।

जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्घृतामार्यैः सहस्रशः ॥ ४१ ॥

प्रासादैर्विविधाकारैर्वृतां वैद्यजनाकुलाम् ।

कच्चित्समुदितां<sup>२</sup> स्फीतामयोध्यां परिरक्षसि ॥ ४२ ॥

हे तात ! तुम उस अयोध्या की तो भली भाँति रक्षा करते हो, जो हमारे पिता पितामहादि वीर पुरुषों की भोगी हुई, अपने नाम को चरितार्थ करने वाली, दृढ़ द्वारों वाली, हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई, वर्णानुसार धर्म कार्यों में सदा तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों से युक्त, जितेन्द्रिय और महाउत्साही हजारों आर्य जनों से सुशोभित, विविध आकार प्रकार के भवनों से पूर्ण, विद्वज्जनों से भरी हुई और जो दिन दिन उन्नतावस्था को प्राप्त हो रही है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

कच्चिच्चैत्यशतैर्जुष्टः<sup>३</sup> सुनिविष्टजनाकुलः ।

देवस्थानैः प्रपाभिश्च<sup>४</sup> तटाकैश्चोपशोभितः ॥ ४३ ॥

प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः ।

सुकृष्टसीमा पशुमान्दिसाभिरभिवर्जितः<sup>५\*</sup> ॥ ४४ ॥

१ वैद्य जनाकुलां—विद्वज्जनाः तैरावृता । ( गो० ) २ समुदितां—सुसन्तु-  
ष्टजनाः । ( गो० ) ३ सुनिविष्टजनाकुलः—सुप्रनिष्ठितजनव्याप्तः । ( गो० )  
४ प्रपाभिः—पानीयशालाभिः । ( गो० ) ५ सुकृष्टसीमा—अकृष्टार्द्धपत्कृष्टाच  
मूर्ध्निर्नतत्रासीत् । ( गो० ) ६ हिंसाभिः ईतिभिः पद्भिः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ परिवर्जितः ” ।

अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः ।

परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः ॥ ४५ ॥

विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः ।

कच्चिज्जनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ॥ ४६ ॥

हे राघव ! जिस देश में अनेक यज्ञानुष्ठान हो चुके हैं, जहाँ सुप्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो अनेक देवालयों पौंसलों और तड़ागों से शोभित हैं, जो हर्षित स्त्री पुरुषों से और सामाजिक उत्सवों से शोभायमान हैं, जहाँ पर तिल बराबर भी ज़मीन बिना जुती नहीं है, जहाँ पर हाथी, घोड़े, गाय, बैल आदि पशु भरे पड़े हैं, जहाँ १ ईति का कभी भय नहीं होता, जहाँ के लोग मेघजल ही के ऊपर निर्भर नहीं हैं, ( अर्थात् मरयू का तटवर्ती देश होने के कारण छेतों को सिंचाई के लिये वर्षाजल पर ही किसान निर्भर नहीं हैं ), जो रमणीक है, जो हिंसक पशुओं से रहित हैं, जो चोरी आदि सब भयों से रहित हैं, जो नाना खानों से शोभित है, जहाँ पापीजन एक भी नहीं है, जो उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त है तथा जो मेरे पूर्व-पुरुषों से सुरक्षित है, वह देश तो सुखी है ? ॥४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥

[ १ ईति—अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मुषिकाः शलभाः खगाः ।

अत्यासन्नाश्वराजानः पडेताईतयः स्मृताः । ( गो० ) ]

कच्चित्ते दयिताः<sup>१</sup> सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः<sup>२</sup> ।

वार्त्तायां संश्रितस्तात लोको हि सुखमेधते ॥ ४७ ॥

हे तात ! जो लोग खेती कर और पशुओं को पाल, अपना गुज़ारा करते हैं, उन पर तुम प्रसन्न तो रहते हो ? क्योंकि ये लोग जैन दैन के कार्य में नियुक्त रह कर धनधान्य युक्त होते हैं ॥ ४७ ॥

१ दयिताः—प्रियाः । (शि०) २ कृषिगोरक्षजीविनः—वैश्याः । (गो०)

तेषां गुप्तिपरीहारैः कच्चित्ते भरणं कृतम् ।

रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ॥ ४८ ॥

तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु दे तथा उनका अरिष्ट दूर कर उनका भरण पोषण तो करते हो ? क्योंकि राजा को उचित है कि, वह अपने राज्य में बसने वालों की धर्म से ( ईमानदारी से ) रक्षा करे ॥ ४८ ॥

कच्चित्स्त्रियः सान्त्वयसि<sup>१</sup> कच्चित्ताश्च सुरक्षिताः ।

कच्चिन्न श्रद्धास्यासां कच्चिद्गुह्यं न भाषसे ॥ ४९ ॥

क्या तुम स्त्रियों को प्रसन्न रखते हो ? उनकी भली भाँति रक्षा करते हो कि नहीं ? उनका विश्वास तो नहीं कर लेते ? कभी स्त्रियों को अपना गुप्त भेद तो नहीं बतला देते ? ॥ ४९ ॥

कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः<sup>२</sup> ।

कच्चिन्न गणिकाश्वानां<sup>४</sup> कुञ्जराणां विभूषितम्\* ॥५०॥

जिन चनों में हाथी हैं वे भली भाँति रखाये तो जाते हैं ? जो हथिनियाँ, हाथियों को पकड़वाती हैं, उनका पालन पोषण तो ठीक ठीक होता है ? तुम हाथी हथिनियों और घोड़ों के लाभ से तृप्त तो नहीं होते ? ॥ ५० ॥

कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मनुष्याणां विभूषितम् ।

उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे<sup>५</sup> ॥ ५१ ॥

१ गुप्तपरीहारैः—दृष्टप्रापणानिष्टनिवारणैः । ( गो० ) २ सान्त्वयसि—  
अनुकूलतयावर्तसे । ( गो० ) ३ धेनुकाः—गजग्रहण साधनभूताः करिष्यः ।  
( गो० ) ४ गणिकाः—करिष्यः । ( गो० ) ५ महापथे—सभायां । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ चतुष्यसि ” ।

हे राजपुत्र ! तुम अपने को सर्व प्रकार से भूपित कर दोपहर से पहिले ही, सभा में जा, प्रजा जनों से मिलते हो कि नहीं ॥ ५१ ॥

कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया ।

सर्वे वा पुनस्तसृष्टां मध्यमेवात्र कारणम् ॥ ५२ ॥

तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वे निर्भय हो तुम्हारे निकट तो सदा नहीं चले आया करते या मारे डर के तुमसे अति दूर तो नहीं रहते । क्योंकि ये दोनों ही बातें लाभप्रद नहीं हैं । अतः काम करने वाले के साथ मध्यम व्यवहार करना उचित है । ( अर्थात् इनका कभी कभी तो तुम्हारे पास आना और कभी कभी दूर रहना ही वाञ्छनीय है ) ॥ ५२ ॥

कच्चित्सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः ।

यन्त्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः<sup>१</sup> ॥ ५३ ॥

तुम्हारे सब किले तो धन, धान्य, हथियार, जल, कल, क्रिया-कुशल तीर चलाने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण हैं कि नहीं ? ॥ ५३ ॥

आयस्ते विपुलः कच्चित्कच्चिदल्पतरो व्ययः ।

अपात्रेषु न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव ॥ ५४ ॥

हे राघव ! तुम्हारे कोश में आमदनो अधिक और आमदनी से कम व्यय है कि नहीं, तुम्हारे कोश का धन कहीं नाबन्ने गाने वालों को तो नहीं लुटाया जाता ? ॥ ५४ ॥

देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च ।

योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्गच्छति ते व्ययः ॥ ५५ ॥

१ शिल्पिधनुर्धरैः—क्रियाकुशलधनुर्दारिभिः । ( शि० ) २ अपात्रेषु—नटविटगायकेषु । ( गो० )

देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा और मित्रगण—इन सब के लिये तुम्हारे कोश का धन व्यय किया जाता है कि, नहीं ? ॥ ४४ ॥

कच्चिदार्यो विशुद्धात्माऽऽक्षारितश्चोरकर्मणा ।

अपृष्टः शास्त्रकुशलैर्न लोभाद्बध्यते शुचिः ॥ ५६ ॥

जब अच्छे चरित्र वाले माधु लोग, जो झूठे चोरी आदि अपवादों से दूषित हो, विचारार्थ, न्यायालय में उपस्थित किये जाते हैं, तुम्हारे नीतिशास्त्रकुशल लोग उनसे जिरह कर सत्यासत्य का निर्णय किये बिना ही, लालच में फस, उनको कहीं दण्ड तो नहीं दे देते ? ॥ ४६ ॥

शूहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः ।

कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ ॥ ५७ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! जो चोर चोरी करते समय पकड़ा गया और जिरह से जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका, वह चोर, कहीं घूस के लालच से झेड़ तो नहीं दिया जाता ॥ ४७ ॥

व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्गतस्य च राघव ।

अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ५८ ॥

धनी और गरीब का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुश्रुत (अनुभवी) सचिव, लोभरहित हो, दोनों का मुकद्दमा, न्यायपूर्वक फैसल करते हैं कि नहीं ? ॥ ४८ ॥

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्त्राणि राघव ।

तानि पुत्रपशून्गन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ ५९ ॥

क्योंकि हे राघव ! झूठे दोषारोपण के लिये दण्डित लोगों के नेत्रों से गिरे हुए आँसू उस राजा के, जो केवल अपने शारीरिक सुख ( पेश आराम ) के लिये राज्य करता है और न्याय की आंर ध्यान नहीं देता, पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं ॥ ५९ ॥

कच्चिद्वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यमुख्यांश्च राघव ।

दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्वुभूपसे ॥ ६० ॥

हे राघव ! तुम वृद्धों, बालकों, वैद्यों और मुखिया लोगों को, (१) उनकी अभ्यष्ट वस्तु प्रदान करके, (२) उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करके और (३) उनसे आश्वासन सूचक वचन कह—(इन) तीन तरह से राजी तो रखते हो ? ॥ ६० ॥

कच्चिद्गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान्देवतातिथीन् ।

चैत्यांश्च सर्वान्सिद्धार्थान्ब्राह्मणांश्च नमस्यसि ॥ ६१ ॥

तुम गुरु, वृद्ध, तपस्वि, देवता, अतिथि, चौराहे के बड़े वृत्तों और विद्या-तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हो ? ॥ ६१ ॥

कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः ।

उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन च न वाधसे ॥ ६२ ॥

कहीं धर्मानुष्ठान के समय को अर्थोपाजन में अथवा अर्थोपाजन के समय को धर्मानुष्ठान में तो नष्ट नहीं कर देते ? अथवा सुखा-भिलाष के लिये विषयवासना में फस, अर्थोपाजन और धर्मानुष्ठान दोनों का समय तो नहीं गँवा देते ? ॥ ६२ ॥

१ दानेन—अभिमतवस्तुप्रदानेन । (गो०) २ मनसा—स्नेहेन । (गो०)

३ वाचा—सान्त्ववचनेन । (गो०) ४ चैत्यान्—देवतावासभूतचतुष्पथस्य महावृक्षान् । (गो०)

कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयतांवर ।

विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्भरत सेवसे ॥ ६३ ॥

हे ज्ञातने वालों में श्रेष्ठ ! हे कालज्ञ भरत ! धर्म अर्थ और काम इन तीनों को समय विभाग कर किया करते हो कि नहीं ? (प्रातःकाल दानादिधर्म में, तदनन्तर राजकाज में, और रात—काम के लिये ) अर्थात् कहीं एक ही काम में तो सारा समय नहीं बिता देते ॥ ६३ ॥

कचित्ते ब्राह्मणाः शर्म<sup>१</sup> सर्वशास्त्रार्थकोविदाः ।

<sup>२</sup>आशांसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥ ६४ ॥

हे महाप्राज्ञ ! पुरजन, जनपदवासी और धर्मशास्त्र के सम्पूर्ण अर्थों को जानने वाले पण्डित तुम्हारे सुख के लिये प्रार्थना तो किया करते हैं ॥ ६४ ॥

नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् ।

अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं <sup>१</sup>पञ्चवृत्तिताम् ॥ ६५ ॥

एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम् ।

निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम् ॥ ६६ ॥

मङ्गलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं<sup>४</sup> च सर्वतः ।

कच्चिच्च<sup>५</sup> वर्जयस्येतान्राजदोषांश्चतुर्दश ॥ ६७ ॥

हे भरत ! १. नास्तिकपना, २ असत्यभाषण, ३ क्रोध, ४ अनवधानता, ५ दीर्घसूत्रता, ६ ज्ञानियों से न मिलना, ७ आलस्य, ८

१ शर्म—सुखं । ( गो० ) २ आशांसन्ते—प्रार्थयन्ते ३ पञ्चवृत्तिताम्—पञ्चेन्द्रियपरवशता । ( गो० ) ४ प्रत्युत्थानंचसर्वतः—नीचस्थानीचस्याप्यागमने प्रत्युत्थानमित्यर्थः । ( गो० )

इन्द्रियों की परवशता, ६ मंत्रियों को अवहेला कर न्ययं प्रकृते ही राज्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना, १० अशुभ चिन्तकों अथवा उल्टी बात सुनाने वालों से सलाह करना, ११ निश्चित किये हुए कामों को आरम्भ न करना, १२ सलाह को न छिपाना, १३ मङ्गल कृत्यों का परित्याग, और १४ नीच ऊँच सब को देख उठ खड़ा होना या सब को अभ्युत्थान देना अथवा चारों ओर युद्ध करते फिरना—इन चौदह राजदोषों को तो तुमने त्याग दिया है ?  
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

दश पञ्च चतुर्वर्गान्सप्तवर्गं च तत्त्वतः ।

अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघव ॥ ६८ ॥

हे भरत ! १ शिकार, २ जुआ, ३ दिन का सोना, ४ निन्दा करना, ५ खो, ६ मद, ७ नृत्य, ८ गीत, ९ वाद्य और १० वृथा इधर उधर घूमना ( ये दश कामज दोष हैं )—इनको ; १ जल सम्बन्धी २ पर्वत सम्बन्धी ३ वृक्ष सम्बन्धी ४ ऊसर सम्बन्धी और ५ निर्जल देश सम्बन्धी, इन पाँच प्रकार के दुर्गों को ; १ साम २ दाम ३ दण्ड और ४ भेद—इन चार नीतियों को ; १ स्वामी २ मंत्री ३ राष्ट्र ४ दुर्ग, ५ कोश ६ सेना ७ मित्रराज्य, इन सात अंगों को—तुम भली भाँति जानते और इन पर विचार किया करते हो कि नहीं ? १ चुगुलपन, २ दुःसाहस, ३ द्रोह, ४ डाह ॥ ६८ ॥

इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्या पाद्गुण्यं दैवमानुषम् ।

कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलम् ॥ ६९ ॥

५ गुण में दोष देखना, ६ अर्थ में दोष लगाना, ७ कठोरवचन, ८ तीक्ष्णदण्ड देना, ( ये क्रोधज आठ दोष हैं )—इनका ; १ धर्म २ अर्थ और ३ काम—इन तीनों को ; तीन प्रकार की विद्याओं



कां ( तीनों वेदों का पढ़ना ) ; १ मन्थि, २ विप्रश्न, ३ चढ़ाई, ४ समय को प्रतांक्षा करते रहना, ५ शत्रुओं में फूट फैलाना, और ६ किसी ग़ली का अपना महायज्ञ बनाना इन ऋषियों को ; १ अग्नि २ जल, ३ व्याधि ४ दुर्भिक्ष और महामारी इन पांच तरह की दैविक विपत्तियों का तुम भगो भाति जानते तो हो ? अधिकारियों से, चोरों से, शत्रुओं से, राजा के कृपापात्रों से और राजा के लालच से उत्पन्न हुई विपत्तियों का तुम भली भाँति जानते और उन पर ध्यान तो देते हो ? १ बालक २ वृद्ध ३ दीर्घ रोगी ४ जातिवहिष्कृत, ५ डापोंक, ६ दूमरों को डरवाने वाला, ७ लोभी ८ लोभी का संबन्धी, ९ प्रजा जिससे विरक्त हो, १० इन्द्रियासक्त, ११ बहुत लोभों के साथ परामर्श करने वाला १२ देव-ब्राह्मण-निन्दक १३ भाग्यहीन १४ भाग्य पर निर्भर रहने वाला १५ अकाल का मारा, १६ विदेश में मारा मारा फरने वाला, १७ बहुत शत्रुओं वाला १८ यथासमय काम न करने वाला १९ सत्य धर्म में जो तत्पर नहीं २० और सेना का सत्ताया दुश्मा या बड़ा पहलवान—इन बीसों का ; राज्य, खौ, स्थान, देश, जाति और धन जिनके हीन लिये गये हों ( यह प्रकृति मण्डल है )—इनको : शत्रु, मित्र, शत्रुका भली भाँति का शत्रु और परममित्र ये राजमण्डल हैं—इनको ; तुम मित्र, मित्र जानते और इन पर ध्यान देते हो ? ॥ ६६ ॥

यात्रादण्डविधानं<sup>१</sup> च द्वियोनी<sup>२</sup> सन्धिविग्रहौ ।

कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ ७० ॥

१ यात्रादण्ड विधानं—यात्रा यानं दण्डस्यसैन्यस्यविधानं संविधानं व्यूहभेद विधानं । ( गो० ) २ द्वियोनी—संधिविग्रहयानासनद्वैधीभावसमाश्रयो संघे रूपं । ( गो० )

हे महाप्राज्ञ ! यात्राविधान, दण्डविधान, सन्धि, विग्रह, करने न करने वालों को परख लेना—इन बातों को तुम भली भाँति जानते हो कि नहीं ? ७० ॥

मन्त्रिभिस्त्वं यथादिष्टैश्चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा ।

कच्चित्सयस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्रं मन्त्रयसे मियः ॥ ७१ ॥

हे मतिमान् ! तुम नीतिशास्त्र के अनुसार तीन या चार मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ, अथवा उनसे अलग अलग गुप्त परामर्श करते हो ? ॥ ७१ ॥

कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः ।

कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं श्रुतम् ॥७२॥

क्या तुम अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करके वेदाध्ययन को सफल करते हो ? दान और भोग में लगा कर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो ? यथाविधि सन्तानोत्पत्ति कर स्त्रियों को तुम सफल करते हो ? तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है उसके अनुसार आचरण कर तुम शास्त्रश्रवण को अर्थितार्थ करते हो ॥ ७२ ॥

[ महाभारत में लिखा है—

अग्निहोत्रसफलावेदाः, दत्तमुच्छफलं धनं ।

रत्तिभुजसफलादाराः शीलवृत्तफलं श्रुतं ॥

०२वें श्लोक का आशय इन श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है । ]

कच्चिदेषैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव ।

आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता ॥७३॥

१ मियः—रहसि मंत्रं मन्त्रयसेकच्चित् । ( गो० )

धर्म, अर्थ तथा काम के सम्बन्ध में जो बातें मैंने तुमसे अभी कही हैं और जिनके अनुसार चलने से यश और आयु बढ़ती है, वे तुम्हें पसंद है कि नहीं ? ॥ ७३ ॥

यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहाः ।

तां वृत्तिं वर्तसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥

सन्मार्गानुसारिणी और अतिन्दता, जिससे हमारे पूर्वज पिता पितामहादि चलने थे, उसी वृत्ति को अवलंबन कर तुम भी चलते हो न ? ॥ ७४ ॥

कच्चित्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव ।

कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि ॥ ७५ ॥

हे भरत ! तुम स्वादिष्ट भोजन अकेले ही तो नहीं खा लेते ? जो मित्र खाते समय उपस्थित हो उनको दे कर खाते हो न ? ॥ ७५ ॥

राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा

महामतिर्दण्डधरः प्रजानाम् ।

अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव-

दितश्च्युतः<sup>१</sup> स्वर्गमुपैति विद्वान् ॥ ७६ ॥

इति शततमः सर्गः ॥

देखो जो नीतिज्ञ और शासनदण्डधारी राजा धर्मानुसार प्रजा का पालन करता है—वह ज्ञानी राजा पूर्वराजाओं की तरह मशपूर्ण पृथिवी का स्वामी हो, मरने पर स्वर्ग में जा वास करता है ॥ ७६ ॥

अयोध्याकाण्ड का सौवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:\*:—

१ च्युतः—प्राण्य कर्मावसाने मृत इत्यर्थः । ( गो० )

## एकोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह ।

किं मे धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन भरत जो बोले कि, मैं तो स्वकुलोचित रीति से रहिन हूँ—अतः राजधर्म का उपदेश मेरे लिये किल काम का ॥ १ ॥

शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरर्षभ ।

ज्येष्ठपुत्रे स्थिते राजन्न कनीयान्नपो भवेत् ॥ २ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! हमारे कुल में तो सदा से यह रीति चली आती है कि, बड़े पुत्र के सामने छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता ॥ २ ॥

स समृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव ।

अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३ ॥

अतः हे राघव ! आप मेरे साथ धनधान्यपूर्ण अयोध्यापुरी में चलिये और अपना राज्याभिषेक करवा कर, हमारे कुल का कल्याण कीजिये ॥ ३ ॥

राजानं मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम ।

यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तमाहुरमानुषम् ॥ ४ ॥

---

१ धर्मविहीनस्य—स्वकुलोचितरीतिःविहीनस्य । ( शि० ) २ भवाय—भद्राय । ( गो० )

लोग राजा को भले ही मनुष्य कहा करें, किन्तु मैं तो राजा को देवता समझता हूँ । क्योंकि उसके धर्म और अर्थ से अनुमोदित चरित्र लोकोत्तर होते हैं । अर्थात् साधारण मनुष्य से भिन्न होते हैं ॥ ४ ॥

केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते ।

दिवमार्यो गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ ॥

जब मैं अपनी ननिहाल केकयराज्य में था और आप वन चले आये थे, तब अनेक यज्ञ करने वाले तथा साधु सज्जन लोगों से प्रशंसित महाराज दशरथ स्वर्ग को सिधारे ॥ ५ ॥

निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे ।

दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात् ॥ ६ ॥

सीता और लक्ष्मण के साथ आपके अयोध्या छोड़ते ही महाराज दुःख और शोक से ऐसे विकल हुए कि, वे स्वर्ग को चले गये ॥ ६ ॥

उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः ।

अहं चायं च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ ॥

हे पुरुषसिंह ! अब आप इस समय उठिये और पिता जी को जलाञ्जलि दीजिये । शत्रुघ्न और मैं तो पहिले ही जलाञ्जलि दे चुका हूँ ॥ ७ ॥

प्रियेण खलु दत्तं हि पितृलोकेषु राघव ।

अक्षय्यं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥ ८ ॥

हे राघव ! लोग कहा करते हैं कि, प्यारे पुत्र का दिया हुआ पियेड और जल पितृलोह में अक्षय्य हो कर बना रहता है, सो आप ही पिता जी के प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥

त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेप्सु-

स्वय्येव सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम् ।

त्वयाविहीनस्तव शोकरुणः<sup>१</sup> ।

त्वां संस्मरन्स्वर्गमवाप\* राजा ॥ ९ ॥

इति एकोत्तरशततमः सर्गः ॥

क्योंकि आप ही को सोचते, आप ही के दर्शन की इच्छा करते, आपही को स्मरण करते, आप ही के वियोगजनित दुःख से विकल और आप ही का नाम लेते पिता जी स्वर्ग पधारें हैं ॥ ९ ॥

अयोध्याकाण्ड का एकसौ एकवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

द्व्युत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

तां श्रुत्वा करुणां<sup>२</sup> वाचं पितुर्मरणसंहिताम् ।

राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी के मुख से पिता के मरने की जब शोकप्रद बात सुनी, तब वे अचेत हो गये ॥ १ ॥

१ रुग्णः—पीड़ित इत्यादि । (गो०) २ करुणा—शोकावर्हा । (गो०)

\* पाठान्तरे—“सस्मरन्नेवगतः” ।

तं तु वज्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणा ।

वाग्वज्रं भंरतेनोक्तममनोज्ञं परन्तपः ॥ २ ॥

जैसे दैत्यों के शत्रु इन्द्र दैत्यों पर युद्धकाल में वज्र का प्रहार करते हैं, वैसे ही भरत जी के वज्ररूपी वचन का प्रहार श्रीरामचन्द्र पर हुआ ॥ २ ॥

प्रगृह्य वाहूँ रामो वै पुष्पिताग्रो यथा द्रुमः ।

वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह ॥ ३ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ( पङ्कतावे से ) दोनों हाथ मलते हुए, फरसे से काटे हुए पुष्पित वृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३ ॥

तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम् ।

कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् ॥ ४ ॥

जगतपति श्रीरामचन्द्र जी पृथिवी पर ऐसे मूर्च्छित पड़े थे, मानों कोई मतवाला हाथी नदी का तट ढहाते ढहाते थक कर पड़ा हुआ सो रहा हो ॥ ४ ॥

भ्रातरस्ते महेष्वारसं सर्वतः शोककर्षितम् ।

रुदन्तः सह वैदेह्या सिषिच्युः सलिलेन वै ॥ ५ ॥

तब श्रीरामचन्द्र जी को मूर्च्छित हुआ देख सब भाई जानकी जी सहित शोक से विकल हो रोते रोते उन महाधनुषधारी श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर जल छिड़क उनकी मूर्च्छा भङ्ग करने का प्रयत्न करने लगे ॥ ५ ॥

स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामास्रमुत्सृजन् ।

उपाक्रमत\* काकुत्स्थः कृपणं बहु शापितुम् ॥ ६ ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी सचेत हुए, तब वे रोते रोते बहुत विलाप करने लगे ॥ ६ ॥

स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम् ।

उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम् ॥ ७ ॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी यह सुन कर कि, पिता जी स्वर्ग सिधारे हैं, भरत जी धर्मसङ्गत यह वचन बोले ॥ ७ ॥

किं करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते ।

कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥

जब पिता जी ही स्वर्ग चले गये, तब मैं अयोध्या जा कर ही क्या करूँगा। उन राजश्रेष्ठ के बिना अयोध्या का शासन कौन करेगा ॥ ८ ॥

किन्तु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः ।

यो मृतो मम शोक्रेण मया चापि न संस्कृतः ॥ ९ ॥

मेरा जैसा निरर्थक जन्म धारण करने वाला पुत्र, उन महात्मा पिता के लिये क्या कर सकता है। मेरे नियोगजन्य शोक से तो उनका देहान्त हुआ और मैं उनका अन्तिम संस्कार भी न कर पाया ॥ ९ ॥

अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वयाऽनघ ।

शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १० ॥



हे निष्पाप भरत ! तुम्हीं अच्छे रहे कि, तुमने और शत्रुघ्न ने पिता जी के सम्पूर्ण अन्येषिकर्म तो कर लिये ॥ १० ॥

निष्पथानामनेकाग्रां<sup>१</sup> नरेन्द्रेण विनाकृताम् ।

निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥

अभी क्या, मैं तो वनवास से लौट कर भी उन प्रधान पुरुषहीन स्वास्थ्यवर्जित अयोध्या में जाना नहीं चाहता ॥ ११ ॥

समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परन्तप ।

कोऽनु शासिष्यति<sup>२</sup> पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१२॥

क्योंकि हे परन्तप ! मैं वनवास की अवधि पूरी कर यदि अयोध्या जाऊँ भी तो वहाँ अब मुझे हिताहित का उपदेश देने वाला है ही कौन ॥ १२ ॥

पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन् ।

वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम् ॥१३॥

मेरे मद् आचरणों को देख, पिता जी मुझे स्नेहपूर्वक जो उपदेश देंगे थे, अब उन कर्णसुखदायी उपदेशों को मैं वहाँ किससे सुनूँगा ? ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः ।

उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ १४ ॥

१ अनेकाग्रां—स्वास्थ्यरहितां । ( शि० ) २ अनुशासिष्यति—हिताहित विषय प्रवृत्ति निवृत्तिकारिष्यति । ( रा० )

शोकसन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से यह कह कर सीता की ओर मुख कर उन पूर्णमासी के चन्द्रमा सदृश मुख वाली जानकी जी से बोले ॥ १४ ॥

सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनोऽसि लक्ष्मण ।

भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गतं पृथिवीपतिम् ॥ १५ ॥

हे सीते ! तुम्हारे ससुर स्वर्ग सिधारे । हे लक्ष्मण ! तुम पिता-हीन हो गये । क्योंकि महाराज के स्वर्गवास का यह दुःखदायी संवाद मुझे भरत जी से अवगत हुआ है ॥ १५ ॥

ततो बहुगुणं तेषां वाष्पोः\* नेत्रेष्वजायत ।

तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम् ॥ १६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर, सब बहुगुणी एवं यशस्वी राजकुमार रोने लगे ॥ १६ ॥

ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य राघवम् ।

अब्रुवञ्जगतीर्भर्तुः क्रियतामुदकं पितुः ॥ १७ ॥

तदनन्तर उन सब भाइयों ने शोक से निकल श्रीरामचन्द्र को बहुत समझाया बुझाया और कहा अब आप महाराज को जला-ञ्जलि दीजिये ॥ १७ ॥

सा सीता श्वशुरं श्रुत्वा स्वर्गलोकगतं नृपम् ।

नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामशकन्नेक्षितुं पतिम् ॥ १८ ॥

सीता जी के नेत्रों में, ससुर के देहान्तरित होने का संवाद सुनने से, इतने आंसु भर गये कि, वे अपने पति को न देख सकीं ॥ १८ ॥

सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम् ।

उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ १९ ॥

तव रुदन करती हुई जानकी जी को श्रीरामचन्द्र जी ने समझा बुझा कर धीरज बंधाया । फिर शोक से विकल हो, श्रीरामचन्द्र जी ने, दुःखित लक्ष्मण जी से कहा ॥ १९ ॥

आनयेद्गुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम् ।

जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २० ॥

हे लक्ष्मण ! तुम इस समय इंगुदी के बीजों ( हिंगोट ) को पीस कर ले आओ और एक नया चोर मेरे पहिने के लिये ले आओ । अब मैं पिता जी को जलाञ्जलि देने को चलता हूँ ॥ २० ॥

सीता पुरस्ताद्ब्रजतु त्वमेनामभितो ब्रज ।

अहं पश्चाद्गमिष्यामि गतिर्ह्येषा सुदारुणा ॥ २१ ॥

सीता आगे आगे चले और तुम इनके पीछे चलो और मैं सब के पीछे चलूँगा क्योंकि इस दारुण समय में चलने का यही विधान है ॥ २१ ॥

[ नोट—ऐसे समय में चलने के लिये धर्मसूत्र का यह प्रमाण है—

“ सर्वेकनिष्ठप्रथमाभनु पूर्वहृत्तरेखियोमे । ” ]

ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः ।

मृदुर्दान्तश्च शान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् ॥ २२ ॥

सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः सार्धमाशवास्य राघवम् ।

अनातारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम् ॥ २३ ॥

तदनन्तर इक्ष्वाकु राजघराने के पुराने अनुचर, ज्ञानी, महामति, कोमलहृदय, जितेन्द्रिय, गान्तस्वभाव और श्रीराम में दृढ़ भक्ति रखने वाले सुमंत्र, उन राजकुमारों को अनेक प्रकार से समझा कर, उन्हें निर्मल जलवाली अथवा पुण्यसन्तिला मन्दाकिनी नदी पर ले गये ॥ २२ ॥ २३ ॥

ते सुतीर्यां ततः कृच्छ्रादुपागम्य यशस्विनः ।

नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम् ॥२४॥

रमणीय और सदा फूलों हुए वन में हो कर बहने वाली मन्दाकिनी के सुन्दर घाट पर, वे लोग अंत कष्ट से गिरते पड़ते पहुँचे ॥ २४ ॥

शीघ्रस्रोतसमासाद्य तीर्थं शिवमकर्मम् ।

सिषिचुस्तूदकं राज्ञे तत्रैतत्ते<sup>२</sup> भवत्विति ॥ २५ ॥

तदनन्तर उस कोचड़ रहित और शीघ्र बहने वाली तथा कल्याणप्रद मन्दाकिनी नदी के घाट पर पहुँच और "पतद्भवतु" (यह जल आपको मिले) कह कर महाराज दशरथ को जलाञ्जलि देने लगे ॥ २५ ॥

प्रगृह्य च महीपालो जलपूरितमञ्जलिम् ।

दिशं याम्यामभिसुखोरुदन्वचनमब्रवीत् ॥ २६ ॥

उस समय महाराज धीरामचन्द्र जी अञ्जली में जल भर और दक्षिण की ओर मुख कर रुदन करते हुए बोले ॥ २६ ॥

१ शिवं—कल्याणप्रदं । ( शि० ) २ तत्रैतत्ते—हे तात पतजलंभवतु त्वसन्निधौतिष्ठतु । ( शि० )

एतत्ते राजशार्दूल विमलं तोयमक्षयम् ।

पितृलोकगतस्याद्य महत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥

हे राजशार्दूल ! आज यह मेरा दिया हुआ जल, पितृलोक में  
आपका अक्षय्य हो कर मिले ॥ २७ ॥

ततो मन्दाकिनीतीरात्प्रत्युत्तीर्य स राघवः ।

पितृश्चकार तेजस्वी निवापं\* भ्रातृभिः सह ॥ २८ ॥

तदनन्तर तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने भाइयों सहित मन्दाकिनी  
के तट से ऊपर आ कर, महाराज को पिण्ड दिये ॥ २८ ॥

ऐङ्गुदं वदरीमिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे ।

न्यस्य रामः सुदुःखार्तो रुदन्वचनमब्रवीत् ॥ २९ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने वेर फलों को इंगुदी के आटे में मिला पिण्ड  
बनाये और कुश दिखा कर उन पिण्डों को उन कुशों पर रख, दुःखी  
हो रते हुए यह कहा ॥ २९ ॥

इदं भुङ्क्त्व महाराज प्रीतो यदशना वयम् ।

यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ ३० ॥

हे महाराज ! आज कल हम लोग जो खाते हैं, वही इस समय  
आप भोजन कीजिये । क्योंकि मनुष्य जो स्वयं खाता है, उसीसे  
वह अपने देवतों को भी सन्तुष्ट करता है ॥ ३० ॥

ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य नदीतटात् ।

आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम् ॥ ३१ ॥

१ निवापं—पिण्डप्रदानं । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“निवापं” ।

फिर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी जिस मार्ग से नदी के किनारे पर उतर कर आये थे, उसी मार्ग से नदी के तट को छोड़, उस मनेाहर शिखर वाले पर्वत पर चढ़ गये ॥ ३१ ॥

ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः ।

परिजग्राह वाहुभ्यामुभौ भरतलक्ष्मणौ ॥ ३२ ॥

वहाँ वे अपनी पर्णकुटी के द्वार पर पहुँच भरत और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं से धाम राने लगे ॥ ३२ ॥

तेषां तु रुदतां शब्दात्प्रतिश्रुत्कोऽभवद्गिरौ ।

आतृणां सह वैदेह्या सिंहनामिव नर्दताम् ॥ ३३ ॥

उस समय चारों राजकुमारों और सीता जी के, गर्जते हुए सिंहों का दहाड़ जैसे राने के शब्द से पर्वत गूँज उठा ॥ ३३ ॥

महावलानां रुदतां कुर्वतामुदकं पितुः ।

विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः ॥ ३४ ॥

पिता जी का जलदान कर चारों भाइयों के राने का शब्द सुन, भरत की सेना के लोग डर गये ॥ ३४ ॥

अब्रुवन्श्चापि रामेण भरतः सङ्गता ध्रुत्रम् ।

तेषामेव महाशब्दः शोचतां पितरं मृतम् ॥ ३५ ॥

वे आपस में कहने लगे कि श्रीरामचन्द्र से भरत की भेंट अवश्य हो गयी । क्योंकि पिता के मरने से वे अत्यन्त शोकाकुल हो विलाप कर रहे हैं ॥ ३५ ॥

अथ वासान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिमुखाः स्वनम् ।

अप्येकमनसो! जगुर्यथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ ॥

वे सब सैनिक अपने डेरों को छोड़ जिस ओर से राने का शब्द सुन पड़ता था, उस ओर मुख कर और एक मन हो दौड़ पड़े ॥ ३६ ॥

हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंकृतैः ।

सुकुमारास्तथैवान्ये पद्मिरेव नरा ययुः ॥ ३७ ॥

उनमें से बहुत ने लोग जो सुकुमार थे वे घोड़े, हाथी और अच्छे अच्छे एवं सजे हुए रथों पर सवार हो और कितने ही पैदल ही उस शब्द की ओर बढ़े ॥ ३७ ॥

अचिरप्रोपितं रामं चिरविप्रोपितं यथा ।

द्रष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाऽऽश्रमम् ॥ ३८ ॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी को अयोध्या छोड़े अभां बहुत दिन नहीं हुए थे; तथापि उन सब को ऐसा जान पड़ता था कि, मानों श्रीराम को अयोध्या छोड़े बहुत दिन बीत गये हैं। अतएव श्रीरामचन्द्र जी को देखने की उत्कण्ठा से वे सब उनके आश्रम में पहुँचे ॥३८॥

भ्रातॄणां त्वरितास्तत्र द्रष्टुकामाः समागमम् ।

ययुर्वहुविधैर्यानैः खुरनेमिस्त्रिणाकुलैः ॥ ३९ ॥

चारों भाइयों का समागम देखने के लिये लोग अनेक प्रकार के वाहनों पर सवार हो कर गये। उन वाहनों के पशुओं खुरों और पहियों से बड़ा शब्द हुआ ॥ ३९ ॥

सा भूमिर्वहुभिर्यानैः खुरनेमिसमाहता ।

मुमोच तुमुलं शब्दं धौरिवाभ्रसमागमे ॥ ४० ॥

उस समय उन वाहनों के पशुओं खुरों और पहियों को आहत से वह स्थान उसी प्रकार शब्दायमान हुआ, जिस प्रकार मेघों के समागम में, आकाश शब्दायमान होता है ॥ ४० ॥

तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः ।

आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१ ॥

उस शब्द से डर कर हयिनियों सहित हाथी अपने मद की गन्धि से वन को सुवासित करते, वह वन छोड़ दूसरे वन में चले गये ॥ ४१ ॥

वराहवृकसङ्घाश्च महिषाः सर्पवानराः ।

व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रेसुः पृषतैः सह ॥ ४२ ॥

शूकर और भेड़ियों के झुंड, भैंसा, सर्प, व्याघ्र, गोकर्ण नीलगाय और पृषत जाति के हिरन बहुत डर गये ॥ ४२ ॥

रथाङ्गसाह्वानत्यूहा हंसाः कारण्डवाः पुषाः ।

तथा पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥ ४३ ॥

चक्रवाक, जलमुर्ग, हंस, कारण्डव, पुष नामक जलपक्षी, कोकिल, क्रौंच ये सब पक्षी उस शब्द से, मूर्च्छित से हो इधर उधर भाग गये ॥ ४३ ॥

तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्षिभिर्वृतम् ।

मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रवभौ तदा ॥ ४४ ॥

उस शब्द से व्रस्त पक्षियों से ढका हुआ आकाश और मनुष्यों से अच्छादित पृथ्वी दोनों ही अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४४ ॥



ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनमकल्मषम्\* ।

आसीनं स्थण्डिले रामं ददर्श सहसा जनः ॥ ४५ ॥

तदनन्तर उन सब लोगों ने सहसा जा कर, वहाँ देखा कि, यशस्वी, दोषरहित और पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र चवूतरे पर बैठे हैं ॥ ४५ ॥

विगर्हमाणः कैकेयीं सहितो मन्थरामपि ।

अभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णांमुखोऽभवत् ॥ ४६ ॥

उनको उस दशा में बैठा देख, सब लोग कैकेयी व मन्थरा की निन्दा करने लगे और श्रीरामचन्द्र के निकट जा, वे सब के सब रोने लगे ॥ ४६ ॥

तान्नरान्वाष्पपूर्णाक्षान्समीक्ष्याथ सुदुःखितान् ।

पर्यष्वजत धर्मज्ञः पितृवन्मातृवच्च सः ॥ ४७ ॥

उन लोगों को रुदन करते और दुखी देख, धर्मज्ञ श्रीराम जी बटे और उनको ज्ञाती से लगा, उनसे ऐसे मिले, जैसे कोई माता पिता से मिलता है ॥ ४७ ॥

स तत्र कांश्चित्परिष्वजे नरान्

नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन् ।

चकार सर्वान्सवयस्यवान्धवान्

यथार्हमासाद्य तदा नृपात्मजः ॥ ४८ ॥

मिलने योग्य मनुष्यों से श्रीरामचन्द्र जी गले गले मिले ; किसी किसी ने उनको प्रणाम किया । उस समय, राजकुमार

\* पाठान्तरे—“अरिन्दमम्” ।

श्रीरामचन्द्र ने अपनी वरावर की उमर वाले और भाईवंदों से यथायोग्य व्यवहार किया ॥ ४८ ॥

स तत्र तेषां रुदतां महात्मनां  
भुवं च खं चानुनिनादयन्स्वनः ।  
गुहा गिरीणां च दिशश्च सन्ततं  
मृदङ्गघोषप्रतिमः प्रशुश्रुवे ॥ ४९ ॥  
इति द्वयुत्तरशततमः सर्गः ॥

मिलने के समय उन लोगों के रोने के शब्द से पृथिवी व आकाश शब्दायमान हो गया। पर्वत की कन्दराओं तथा सब दिशाओं में वह रोने का शब्द, मृदङ्ग के शब्द की तरह सुनाई पड़ने लगा ॥ ४९ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ दूसरा सर्ग पूरा हुआ ।

—:❖:—

त्र्युत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च ।

अभिचक्राम तं देशं रामदर्शनतर्पितः ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र के दर्शन करने की अभिलाषा से वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर, श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम को और गये ॥ १ ॥

१ रामदर्शनतर्पितः—रामदर्शनसज्जाताभिलाषः । ( गो० )

राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति ।  
ददृशुस्तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम् ॥ २ ॥

मन्दाकिनी नदी को और मंद मंद चाल से चलती हुई, कौशल्यादि रानियों ने श्रीरामवन्द और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा ॥ २ ॥

कौसल्या वाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता ।  
सुमित्रामब्रवीदीना याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥

उस घाट को देख कर देवी कौशल्या का मुख, मारे शोक के सूख गया । वे रा कर सुमित्रा तथा अन्य रानियों से कहने लगीं ॥ ३ ॥

इदं तेषांमनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकर्मणाम् ।  
वने प्राक्केवलं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः ॥ ४ ॥

देखो, हमारे अनाथ, लोकोत्तर कर्म करने वाले तथा (कैकेयो द्वारा ) राज्य से च्युत श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी के स्नानादि करने का यह घाट है ॥ ४ ॥

इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः ।  
स्वयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात् ॥ ५ ॥

हे सुमित्रा ! जान पड़ता है, इसी घाट से मेरे पुत्र के लिये, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, निरालस्य हे- स्वयं जल भर कर ले जाता है ॥ ५ ॥

जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्हितः ।

भ्रातुर्यदर्थं सहितं सर्वं तद्विहितं गुणैः ॥ ६ ॥

यद्यपि पानी भरना झोटा काम है, तथापि इस काम को करने से वह निन्द्य नहीं है । क्योंकि अपने बड़े भाई की सेवा करना प्रशंसा करने योग्य कार्य है ॥ ६ ॥

अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः ।

नीचानर्थसमाचारं सज्जं कर्म प्रमुञ्चतुः ॥ ७ ॥

अब ( भरत के अनुरोध से ) श्रीरामचन्द्र के अयोध्या लौट चलने पर, सदा सुख भोग ने योग्य अथवा कष्ट सहने के अयोग्य तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण को, ये सब हीन पुरुषों के करने योग्य कष्टदायी कार्य नहीं करने पड़ेंगे ॥ ७ ॥

दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले ।

पितुरिङ्गुदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥

तदनन्तर बड़े बड़े नेत्रवाली देवी कौशल्या जी ने दक्षिणाग्र कुर्जों पर रखा हुआ और पिता के लिये दिया हुआ इंगुदी का पिण्ड देखा ॥ ८ ॥

तं भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा ।

उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथस्त्रियः ॥ ९ ॥

जब कौशल्या जी ने देखा कि, श्रीरामचन्द्र ने धार्त हो कर पिता के लिये भूमि में वह पिण्ड रखा है, तब वे अन्य सब रानियों से बोलीं ॥ ९ ॥

इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः ।

राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतैतद्यथाविधि ॥ १० ॥

इच्छाकुनाथ महाराज दशरथ के जिये, श्रीरामचन्द्र ने यथा-  
विधि जो यह पिण्ड दिया है, इसे देखो ॥ १० ॥

तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः ।

नैतदौपयिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम् ॥ ११ ॥

मैं तो समझती हूँ कि, देवताओं के समान भोग भोगने वाले  
महात्मा दशरथ जी के योग्य यह भोजन नहीं है ॥ ११ ॥

चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसदृशो विभुः ।

कथमिङ्गुदिपिण्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः ॥ १२ ॥

चारों समुद्रों तक सारी वसुधा को इन्द्र के समान भोग करने  
वाले महाराज, किस तरह यह इंगुदो का पिण्ड खायेंगे ॥ १२ ॥

अतो दुःखतरं लोके न किञ्चित्प्रतिभाति मा ।

यत्र रामः पितुर्दद्यादिङ्गुदीक्षोद'मृद्धिमान् ॥ १३ ॥

हे रानियों ! मुझे तो इससे बढ़ कर और कोई दुःख नहीं जान  
पड़ता कि, बुद्धिमान् श्रीराम ने अपने पिता के जिये इंगुदो की पिट्टी  
का पिण्ड दिया ॥ १३ ॥

रामेणेङ्गुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे ।

कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा ॥ १४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के दिये हुए इस इंगुदो की पिट्टी के पिण्ड  
को देख, मेरा हृदय क्यों नहीं हजार खगड हो कर फट जाता ॥ १४ ॥

श्रुतिस्तु स्वल्पियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मा ।

यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः<sup>२</sup> ॥ १५ ॥

१ क्षोदं—पिष्टम् । ( रा० ) २ देवताः इति प्रुतिः सत्येऽन्वयः । ( गो० )

लोग यह कहावत ठीक ही कहा करते हैं कि, मनुष्य जो कुछ स्वयं खाता है, वहीं वह अपने देव और पितरों को अर्पण करता है ॥ १५ ॥

एवमार्ता सपत्न्यस्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा ।

ददृशुश्चाश्रमे रामं स्वर्गच्युतमिवामरम् ॥ १६ ॥

इस प्रकार के कौशल्या जी के वचन सुन वे रानियां महारानी कौशल्या को धीरज बँधाती, श्रीरामाश्रम में पहुँचीं और वहाँ श्रीरामचन्द्र जी को स्वर्ग से नीचे आये हुए देवता की तरह, बैठा देखा ॥ १६ ॥

सर्वभोगैः परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः ।

आर्ता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्षिताः ॥ १७ ॥

उन्होंने देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी सब सुखोपयोगी भोग्य पदार्थों को त्यागे बैठे हुए हैं। तब तो वे सब की सब अत्यन्त दुःखी हो कर, उच्चस्वर से रोने लगीं ॥ १७ ॥

तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाञ्जुभान् ।

मातृणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसङ्गरः ॥ १८ ॥

सत्यप्रतिज्ञ और पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्र जी ने माताओं को देखते ही उठ कर, उन सब के चरण छुए ॥ १८ ॥

ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैर्मृद्वङ्गुलितलैः शुभैः ।

प्रमार्जूर् रजः पृष्ठाद्रामस्यायतलोचनाः ॥ १९ ॥

तब बड़े बड़े नेत्रों वाली सब रानियों ने अपनी कोमल अतएव कूने पर सुख देने वाली हथेलियों से श्रीरामचन्द्र जी की पीठ की धूल पोछी ॥ १९ ॥

सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातुः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः ।

अभ्यवादयतासक्तं शनै रामादनन्तरम् ॥ २० ॥

तदनन्तर लक्ष्मण जी भी माताओं को देख, अत्यन्त दुःखी हुए और उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी के वाद धीरे धीरे अविरत सब माताओं को प्रणाम किया ॥ २० ॥

यथा रामे तथा तस्मिन्सर्वा ववृतिरे त्रियः ।

वृत्तिं दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१ ॥

जिस प्रकार उन रानियों ने श्रीरामचन्द्र की पीठ की धूल पोंछी थी, उसी प्रकार उन सब ने शुभलक्षण वाले लक्ष्मण जी की पीठ की भी धूल पोंछी, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो महाराज दशरथ ही के पुत्र थे ॥ २१ ॥

सीतापि चरणांस्तासामुपसंगृह्य दुःखिता ।

श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सा वभूवाग्रतः स्थिता ॥ २२ ॥

तदनन्तर सीता जी ने भी दुःखित हो, आँखों में आँसु भर साँसों के पैर पकड़े और उनके सामने वे जा खड़ी हुई ॥ २२ ॥

तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा ।

वनवासकृशां दीनां कौशल्या वाक्यमब्रवीत् ॥ २३ ॥

दुःख से पीड़ित और वनवास के कष्टों के कारण कृश एवं दीन सीता जी को, देवी कौशल्या ने अपने हृदय से उसी प्रकार लगाया जिस प्रकार माता अपनी बेटो को हृदय से लगाती है। छाती से लगा कर, कौशल्या जी यह बात कहने लगी ॥ २३ ॥

विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च ।

रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता निर्जने वने ॥ २४ ॥

हा ! विदेहराज की बेटी, महाराज दशरथ की बहू और श्रीराम-चन्द्र की धर्मपत्नी सीता—इस निर्जन वन में कैसे कैसे कष्ट भोग रही है ॥ २४ ॥

पद्ममातपसन्तप्तं परिक्लिष्टमिवोत्पलम् ।

काञ्चनं रजसा ध्वस्तं क्लिष्टं चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥२५॥

हे जानकी ! धूप से मुझीये हुए कमल की तरह व मीजे हुए लाल कमल की तरह, अथवा धूलधूसरित सुवर्ण की तरह अथवा बदली में क्लिष्टे चन्द्रमा की तरह ॥ २५ ॥

मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्याग्निरिताश्रयम्<sup>१</sup> ।

भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः ॥ २६ ॥

तेरे मुख को देख, शोकाग्नि मुझे जलाये डालता है । जिस प्रकार काष्ठ को अग्नि दग्ध करता है, उसी प्रकार दुःख रूपी अरणि से उत्पन्न अग्नि मेरे मन को बिल्कुल भस्म किये डालता है ॥ २६ ॥

ब्रुवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताग्रजः ।

पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः ॥ २७ ॥

महारानी कौशल्या दुःखित हो इस प्रकार कह रही थीं कि, भरत जी के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र ने वशिष्ठ जी के पास जा, उनके चरणकमल स्पर्श किये ॥ २७ ॥

१ आश्रयं—आश्रयभूतंकाष्ठादिकं । ( गो० )



पुरोहितस्याग्निसमस्य वै तदा  
वृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः ।

प्रगृह्य पादौ सुसमृद्धतेजसः  
सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥ २८ ॥

इन्द्र जिस प्रकार अपने गुरु वृहस्पति के चरण कूते हैं, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी अग्निसम तेजस्वी पुरोहित वशिष्ठ के चरण स्पर्श कर, उनके साथ आसन पर बैठ गये ॥ २८ ॥

ततो<sup>१</sup> जघन्यं सहितैः समन्त्रिभिः  
पुरप्रधानैश्च सहैव सैनिकैः ।

जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवान्  
उपोपविष्टो भरतस्तदाऽग्रजम् ॥ २९ ॥

तदनन्तर धर्मात्मा भरत जी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों और सेनापतियों के साथ श्रीरामचन्द्र के पास, उनके नीचे आसन पर बैठे ॥ २९ ॥

उपोपविष्टस्तु तदा स वीर्यवां-  
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम् ।

श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलिः  
यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम् ॥ ३० ॥

पराक्रमी भरत तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के समीप बैठ कर, मुनिवेषधारी श्रीरामचन्द्र जी की ओर वैसे ही हाथ जोड़ कर

१ ततोऽजघन्यं—वसिष्ठरामोपवेशादनन्तरं । ( गो० )

देखते थे, जैसे देवराज इन्द्र, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़ कर बैठते और उनकी ओर देखते हैं ॥ ३० ॥

किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं

प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति ।

इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो

वभूव कौतूहलमुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥

उस समय वहाँ जितने विशिष्टजन उपस्थित थे, वे अपने अपने मन में यही सोच रहे थे और उनको यह जानने के लिये बड़ा कौतुक हो रहा था कि, देखें भरत जी हाथ जोड़े हुए आदरपूर्वक श्रीरामचन्द्र जी से क्या कहते हैं ॥ ३१ ॥

स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो

महानुभावो भरतश्च धार्मिकः ।

वृताः सुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे

यथा सदस्यैः सहितान्नयोऽग्रयः ॥३२॥

इति श्युत्तरशततमः सर्गः ॥

उस समय सत्यवादी और धृतिवान श्रीरामचन्द्र महानुभाव लक्ष्मण जी और धर्मात्मा भरत जी नव सुहृदों के साथ शोभित हो रहे थे, मानों यज्ञ में सभासदों के साथ तीनों अग्नि सुशोभित हों ॥ ३२ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ।

## चतुरत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

तं तु रामः समाज्ञाय<sup>१</sup> भ्रातरं गुस्वत्सलम्<sup>२</sup> ।

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र जी भरत जी को अपने में भक्तिमान जान, लक्ष्मण के साथ, भरत जी से पूछने लगे ॥ १ ॥

किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया ।

यस्मात्त्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ ॥

हे भरत ! तुम चीर जटा और मृगचर्म धारण कर, इस वन में आये हो, सो इसका जो कारण हो वह मुझे सुनाओ ॥ २ ॥

\*यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः ।

हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥

तुम राज्य छोड़, काले मृग का चर्म श्राद्ध और जटा धारण कर जिस जिये यहाँ आये हो—सो सब मुझे बतलाओ ॥ ३ ॥

इत्युक्तः कैकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना ।

प्रगृह्य वलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥

महात्मा श्रीराम ने जब भरत से इस प्रकार पूँछा, तब भरत जी अतिकष्ट से शोक के वेग को रोक, हाथ जोड़ कर बोले ॥ ४ ॥

आर्यं तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ।

गतः स्वर्गं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५ ॥

१ समाज्ञाय—ज्ञात्वा । (गो०) २ गुस्वत्सलं,—गुरौस्वस्मिन् भक्तं । (गो०)

\* पाठान्तरे—“ किन्निमित्तमिमं । ”

हे आर्य ! महाराज पिता जी मेरी माता कैकेयी के कहने में आ,  
दुष्कर कर्म कर और पुत्रशोक ने विकल हो, स्वर्गवासी हुए ॥ ५ ॥

स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप ।

चकार सुमहत्पापमिदमात्मयशोहरम् ॥ ६ ॥

हे परन्तप ! मेरी माता कैकेयी ने अपने यश को नाश करने  
वाली यह महापाप कर डाला है ॥ ६ ॥

सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्षिता ।

पतिष्यति महायोरे निरये जननी मम ॥ ७ ॥

सो वह मेरी माता राज्यरूपी फल को न पाने के कारण शोका-  
कुल और विधवा हो, घोर नरक में गिरेगी ॥ ७ ॥

तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ।

अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥ ८ ॥

यद्यपि मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, तथापि हूँ आपका दास । सो आप  
मुझ पर प्रसन्न हो कर आज ही अपना राज्याभिषेक करावें और  
इन्द्र की तरह राजसिंहासन पर विराजें ॥ ८ ॥

इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः ।

त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ ९ ॥

देखिये, ये प्रजाजन और ये सब विधवा माताएँ आपके पास  
आयी हुई हैं, अतएव आप प्रसन्न हों (अथवा कहना मान  
जें) ॥ ९ ॥

तदानुपूर्व्याः युक्तं च युक्तं चात्मनि मानद ।

राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान्सुहृदः कुरु ॥ १० ॥

१ अनुपूर्व्यायुक्तं—ज्येष्ठानुक्रमेणसंगतं । (गो०)

हे मानद ! आप ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के अधिकारी हैं और आप ही को राजगद्दी पर बैठना उचित भी है। अतएव धर्मानुसार राज्यभार ग्रहण कर सुहृदजनों की कामना पूरी कीजिये ॥ १० ॥

भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया ।

शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११ ॥

जिस प्रकार शरदऋतु की रात विमल चन्द्रमा के द्वारा सधवा होती है, उसी प्रकार यह ससागरा पृथिवी आपको अपना पति वरण कर सधवा हो जायगी ॥ ११ ॥

एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया ।

भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥ १२ ॥

मैं आपका केवल भाई ही नहीं हूँ, प्रयुत शिष्य और दास भी हूँ। सो मैं इन मंत्रियों सहित आपको प्रणाम कर आपसे यह भिक्षा माँगता हूँ या प्रार्थना करता हूँ, अतः आप इनकी प्रार्थना पर ध्यान दें ॥ १२ ॥

तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्वं प्रकृतिमण्डलम्<sup>१</sup> ।

पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमर्हसि ॥ १३ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! परम्परा से मंत्रिपद प्राप्त एवं प्रतिष्ठा पाने योग्य इन सब मंत्रियों की प्रार्थना आप अस्वीकृत न कीजिये ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा महाबाहुः सवाष्पः कैकयीसुतः ।

रामस्य शिरसा पादौ जग्राह विधिवत्पुनः ॥ १४ ॥

१ प्रकृतिना—मंत्रिप्रभृतीनां । ( गो० ) २ मण्डलं—समूहं । ( गो० )

यह कह महाबाहु कैकेयीनन्दन भरत जी ने नेत्रों में आँसु भर कर श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में पुनः विधिवत् अपना सिर रख दिया ॥ १४ ॥

तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ।

भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमत्रवीत् ॥ १५ ॥

तब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत को, जो बार बार मत्त हाथी की तरह साँस ले रहे थे, हृदय से लगा कर यह बात कही ॥ १५ ॥

कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः ।

राज्यहेतोः कथं पापमाचरेत्त्वद्विधो जनः ॥ १६ ॥

हे भरत ! तुम जैसा कुलवान्, सतो गुणी व्रतधारी पुण्य राज्य के लिये क्यों अपने बड़े भाई के प्रतिकूल आचरण कर, पाप का भागी बनना पसंद कर सकता ॥ १६ ॥

न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन ।

न चापि जननीं वाल्यात्वं<sup>१</sup> विगर्हितुमर्हसि ॥ १७ ॥

हे अरिसूदन ! मुझे तो तुममें ज़रासा भी दोष नहीं देख पड़ता । तुमको बिना समझे वृक्षे अपनी माता की भी निन्दा न करनी चाहिये ॥ १७ ॥

कामकारो<sup>२</sup> महाप्राज्ञ गुरुणां सर्वदाऽनघ ।

उपपन्नेषु<sup>४</sup> दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८ ॥

१ सत्त्वसम्पन्न—सत्त्वगुण सम्पन्नः । ( गो० ) २ वाल्यात्—भंजनात् । ( गो० ) ३ कामकारः—स्वच्छन्दकरणं । ( गो० ) ४ उपपन्नेषु—शिष्य-दासादिषु । ( गो० )

हे पापरहित ! हे महाप्राज्ञ ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनुगत शिष्य दास और स्त्री के साथ सदा इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं ॥ १८ ॥

वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः ।

भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमनुज्ञातुमर्हसि ॥ १९ ॥

संसार में साधु लोग स्त्री पुत्र और शिष्यों को जिस प्रकार आज्ञाकारी कह कर मानते हैं, वस वैसे ही, पिता के लेखे हम भी हैं । यह बात तुम्हें जान लेनी चाहिये ॥ १९ ॥

वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् ।

राज्ये वाऽपि महाराजे मां वासयितुमीश्वरः ॥ २० ॥

हे सौम्य ! महाराज हम लोगों के नियन्ता हैं, वे चाहें हमें चीर वसन और मृगचर्म धारण करा, वन में रखें अथवा राज्य में रखें ॥ २० ॥

यावत्पितरि धर्मज्ञे गौरवं लोकसत्कृतम् ।

तावद्धर्मभृतांश्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम् ॥ २१ ॥

हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ ! जितना गौरव लोकपूजित पिता का है, उतना ही माता का भी है अर्थात् जितना आदर सन्मान पिता का करना चाहिये उतना ही आदर और सन्मान माता का भी करना चाहिये ॥ २१ ॥

एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव ।

मातापितृभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥ २२ ॥

हे भरत ! जब इन दोनों धर्मात्मा माता और पिता ने मुझसे कहा कि, वन जाओ, तब भला मैं किस प्रकार उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर अन्यथा कर सकता हूँ ॥ २२ ॥

त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम् ।  
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ २३ ॥

अतः हे भरत ! तुम अयोध्या में जा कर लोगों की सभ्यति से राजसिंहासन पर बैठो और मैं वल्कल धारण कर दण्डकवन में वास करूँगा ॥ २३ ॥

एवं कृत्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधौ ।  
व्यादिश्य च महातेजा दिवं दशरथा गतः ॥ २४ ॥

क्योंकि इसी प्रकार से महाराज, लोगों के सामने तुम्हारा और मेरा वदवारा कर स्वर्गवासी हुए हैं ॥ २४ ॥

स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव ।  
पित्रा दत्तं यथा भागमुपभोक्तुं त्वमर्हसि ॥ २५ ॥

इस समय वे धर्मात्मा महाराज लोकों के और तुम्हारे भी गुरु हैं और उनको ऐसा करने का अधिकार है। अतः हे भरत ! तुम पिता के दिये हुए राज्य का उपभोग करो ॥ २५ ॥

चतुर्दश समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रितः ।  
उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥ २६ ॥

हे सौम्य ! मैं भी चौदह वर्ष दण्डकवन में वास कर, महात्मा पिता जी का दिया हुआ हिस्सा उपभोग करूँगा ॥ २६ ॥



यद्ब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः

पिता महात्मा बुबुधाधिपोपमः ।

तदेव मन्ये परमात्मनो हितं

न सर्वलोकेश्वरभावमप्यहम् ॥ २७ ॥

इति चतुस्त्रशततमः सर्गः ॥

सब लोगों से पूजित महाराज पिता जी ने जो मुझसे कहा है, उसीको मैं अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ। पिता की आज्ञा या इच्छा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर का पद भी मैं अपने लिये हितकारी नहीं समझता ॥ २७ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ चौथा सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

पञ्चोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहृद्गणैः ।

शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १ ॥

इस प्रकार बन्धु बान्धव और मित्रों के साथ उन राजकुमारों की—जो अत्यन्त दुःखित थे, रात सोच ही सोच में बीती ॥ १ ॥

रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः ।

मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन् ॥ २ ॥

जब सबेरा हुआ, तब उन भाइयों ने बंधुबान्धवों के साथ मन्दाकिनी नदी पर जा जप होम किया। तदनन्तर वे सब के सब श्रीरामचन्द्र जी के आश्रम में उपस्थित हुए ॥ २ ॥

तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित्किञ्चिद्ब्रवीत् ।

भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमब्रवीत् ॥ ३ ॥

सब के सब चुपचाप श्रीरामचन्द्र जी के पास बैठे थे, कोई किसी से बातचीत नहीं करता था। मन्नाटा सा ज्ञाया हुआ था कि, इतने में सुहृदों के बीच में भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ३ ॥

सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम ।

तद्दामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् ॥ ४ ॥

हे भाई ! वरदान द्वारा महाराज ने जो राज्य मेरी माता को दे, उसे शान्त किया था, वह राज्य माना ने मुझे दे डाला है। अब मैं वही राज्य आपको अर्पण करता हूँ। अब आप इस निष्कण्टक राज्य का उपभोग कीजिये ॥ ४ ॥

महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे ।

दुरावारं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत् ॥ ५ ॥

वर्षाकाल में जल की थपेड़ों से जब बांध टूट जाता है, तब ( सिवाय उस बांध के ) और कोई उस पानों को नहीं रोक सकता उसी प्रकार आपके सिवाय इस बड़े राज्य की रक्षा करने की शक्ति अन्य किसी में नहीं है ॥ ५ ॥

गतिं खर इवाश्वस्य तार्क्ष्यस्येव पतत्रिणः ।

अनुगन्तुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते ॥ ६ ॥

हे महिपाल ! जिस प्रकार गया घोड़े की अथवा अन्य पक्षी गवड़ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी आपके

राज्यपालन की सामर्थ्य नहीं पा सकता। अर्थात् जैसी योग्यता राज्यशासन की आपमें है, वैसी मुझमें नहीं है ॥ ६ ॥

सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते ।

राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति ॥ ७ ॥

हे राम ! जिस राजा की सेवा अन्य लोग करते हैं, जोना उसी का अन्धा है; किन्तु जो राजा औरों की सेवा कर के जीता है, उसका जीवन दुःखमय है। अथवा जिसके पीछे अनेक लोग जीते हैं उसी पुरुष का जीना, जीना है और जो दूसरों के सहारे जीता है, उसका जीना न जीना बराबर है ॥ ७ ॥

यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः ।

वृक्षकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८ ॥

स यथा पुष्पितो भूत्वा फलानि न निदर्शयेत्\* ।

स तां नानुभवेत्प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ ९ ॥

जैसे, किसी आदमी ने वृक्ष लगाया और उसे जल से सींच कर बढ़ा किया। वह वृक्ष अपनी डारों और शाखाओं को फैला कर ऐसा महावृक्ष हो गया कि, उस पर छोटे डीलडौल का आदमी नहीं चढ़ सकता। वही वृक्ष जब पुष्पित तो हो, किन्तु फल न दे, तो जिस आदमी ने वह पेड़ लगाया था, वह क्योंकर सन्तुष्ट रह सकता है ? ॥ ८ ॥ ९ ॥

एपोपमा महावाहो तमर्थं वेत्तुमर्हसि ।

यदि त्वमस्मान्पृथगे भर्ता भृत्यान् शान्तिं हि ॥१०॥

हे महाबाहो ! यह एक उपमा है । इसका अर्थ आप समझ सकते हैं । अतः यदि सर्वश्रेष्ठ स्वामी हो कर आप हम भृत्यों का शासन नहीं करते ( तो हम लोगों को, उस पुरुष की तरह जिसने फल प्राप्ति के लिये वह महावृत्त लगाया था, फल न पाने से, हताश होना पड़ेगा ) ॥ १० ॥

श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्र्याश्च सर्वशः ।

प्रतपन्तमिवादित्यं राज्ये स्थितमरिन्दमम् ॥ ११ ॥

तवाऽनुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः ।

अन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः ॥ १२ ॥

हे महाराज ! ऐसा कीजिये जिससे ये प्रजा के लोग शत्रुओं के नाश करने वाले आपको, राज्यासन पर तपते हुए सूर्य की तरह बैठा हुआ देखें तथा ये मत्त हाथी चिंथारते हुए आपके पीछे पीछे चले और रनवास में सब स्त्रियाँ शान्ति पा कर हर्षवन्नि करें ॥ ११ ॥ १२ ॥

तस्य साध्वित्यमन्यन्त नागरा विविधा जनाः ।

भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ ॥

श्रीरामचन्द्र जी से भरत जी की की हुई प्रार्थना सुन, सब नगरवासों साधु साधु कहने लगे ॥ १३ ॥

तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम् ।

रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान् ॥ १४ ॥

उन यशस्वी भरत को, दुःखी और विलाप करते हुए देख, धैर्यवान् श्रीरामचन्द्र, समझा कर कहने लगे ॥ १४ ॥

१नात्मनः २कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनोऽवरः ३ ।

इतश्चेतरवश्वेनं कृतान्तः परिकर्षति ॥ १५ ॥

हे भरत ! मनुष्य का कुछ वश नहीं है । क्योंकि यह परतंत्र है । काल ( मृत्यु ) इसको इधर से उधर और उधर से इधर खींचा करता है । अर्थात् नाच नचाया करता है ॥ १५ ॥

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः ।

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जोवितम् ॥ १६ ॥

यावत् सञ्चित पदार्थ जाशवान् हैं, जितने उच्चस्थित जोव हैं, वे ( पुण्यक्षय होने पर ) नीचे गिरने वाले हैं, पुत्र, मित्र, कलत्रादि जिनसे संयोग होता है, अन्त में उनसे वियोग भो होता है, और जितने जोवधारी हैं, वे सब मरणशाल हैं । अथवा संग्रह और क्षय, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग एवं जन्म और मरण का अटूट सम्बन्ध है ॥ १६ ॥

यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाद्भयम् ।

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम् ॥ १७ ॥

जिस प्रकार पके हुए फल को गिरने से डरना न चाहिये, उसी प्रकार उत्पन्न हुए नर को मरण से डरना न चाहिये । अर्थात् पका हुआ फल गिरता ही है और जो पैदा हुआ है वह मरता ही है ॥ १७ ॥

यथाऽगारं दृढस्थूणं जोर्णं भूत्वाऽवसीदति ।

तथैव सीदन्ति नरा जराऽमृत्युवशंगताः ॥ १८ ॥

१ आत्मनः—पुरुषस्य । ( गो० ) २ कामकार ऐच्छिक व्यापारोऽस्ति । ( गो० ) ३ अनोऽवरः—अस्वतन्त्र इत्यर्थः । ( गो० )

जिस प्रकार मज्जवून खंभों पर अवलंबित घर पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बुढ़ापे और मृत्यु के वश में हो, नष्ट हो जाता है ॥ १८ ॥

अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते ।

यात्येव यमुना पूर्णा समुद्रमुदकाकुलम् ॥ १९ ॥

हे भरत ! जो रात बीत गयी वह फिर नहीं लौटती । यमुना का जल जो एक बार समुद्र में मिल गया, वह फिर लौट कर जमुना में नहीं आता ॥ १९ ॥

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह ।

आयूषि क्षयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० ॥

देवो ! ये दिन और रात जो बीतते चले जाते हैं, सो प्राणियों की आयु की अवधि को शीघ्र शीघ्र कम करते जाते हैं । जैसे ग्रीष्म काल में सूर्य की किरनें, जल को सुखा कर कम कर देती हैं ॥ २० ॥

आत्मानमनुशाच त्वं किमन्यमनुशोचसि ।

आयुस्ते हीयते यस्य स्थितस्य च गतस्य च ॥२१॥

अतः हे भरत ! तुम अपने लिये ( अर्थात् अपने आत्मा के उद्धार के लिये ) सोचो, तो सोचो, दूसरों के लिये सोच क्यों करते हो ? आयु तो सभी की खटाती है, चाहे कोई बैठा रहे, चाहे चला फिरा करे ॥ २१ ॥

सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निपीदति ।

गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते ॥ २२ ॥

मौत मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और दूर जाने पर भी साथ नहीं छोड़ती और साथ जा कर साथ ही लौट भी आती है ॥ २२ ॥

गात्रेषु बलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः ।

जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत् ॥२३॥

जब शरीर में झुर्रियां पड़ गयीं, सिर के केश सफेद हो गये और शरीर जरा से जर्जरित हो गया, तब मनुष्य कर ही क्या सकता है अथवा तब उसके रोके मौत कैसे रुक सकती है अथवा वह किस बल वृत्ते पर दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकता है ॥२३॥

नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ ।

आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम् ॥ २४ ॥

मनुष्य सूर्य के उदय होने पर और अस्त होने पर नित्य ही प्रसन्न होते हैं, किन्तु इससे उनकी आयु घटती है—इस बात को वे नहीं समझते ॥ २४ ॥

हृष्यन्त्युत्सुखं दृष्ट्वा नवं नवमिहागतम् । <sup>दृष्ट्वा नवीनं नृत्यं सुखं</sup>

ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २५ ॥

इसी प्रकार नसन्तादि नयी नयी ऋतुओं को देख, मनुष्य प्रसन्न होते हैं, किन्तु ऋतुओं की इस अदल बदल से उनकी उम्र घटती है—यह वे नहीं जानते ॥ २५ ॥

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे ।

समेत्य च व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन ॥ २६ ॥

एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च ।

समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विनाभवः ॥२७॥

जिस प्रकार महासागर में अन्य स्थानों से वह कर आयी हुई दो लकड़ियाँ एक स्थान पर पहुँच कर मिल जाती हैं और फिर काल पा कर पृथक् हो इधर उधर बहती चली जाती जाती हैं, इसी प्रकार भार्या, पुत्र, भाईवन्द और धन सम्पत्ति जो आ कर अपने को मिलते हैं, इन सब का कालान्तर में वियोग होना भी निश्चय ही है ॥ २६ ॥ २७ ॥

नात्र कश्चिद्यथाभावं प्राणी समभिवर्तते ।

तेन तस्मिन् सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥

हे भरत ! इस संसार में कोई भी प्राणी यथाभिलाष अपने भाई बन्धों के साथ मद नही रह सकता, अतः मृतपुरुष के लिये, उसकी मौत को रोकने की सामर्थ्य किसको है जो मरे हुए के लिये शोक किया जाय । अथान् मौत पर किसी का बश नहीं । अतः मरे हुए के लिये शोक करना व्यर्थ है ॥ २८ ॥

यथा हि सार्थं गच्छन्तः व्रूयात्कश्चित्पथि स्थितः ।

अहमध्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २९ ॥

जिस प्रकार यात्रियों का दल रास्ते पर चला जाता हो और राह में बैठा हुआ कोई मनुष्य कहे कि तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आते हैं ॥ २९ ॥

१ विनाभवः—वियोगः । ( गो० ) २ यथाभावं—न समभिवर्तते । यथाभिलाषं बन्धुभिः सह न वर्तते । ( गो० ) ३ गच्छन्तं सार्थं—पथिक-समूहं । ( गो० )



एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहो ध्रुवः ।

तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३०॥

इसी प्रकार वायु दाह परदादों के चलने हुए मार्ग पर आरूढ़ पुरुष को क्यों सोच करना चाहिये । क्योंकि उस मार्ग पर चलने के अतिरिक्त और तो कोई गति ही नहीं है ॥ ३० ॥

वयसः पतमानस्य स्रोतसो वाग्निवर्तिनः ।

आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृताः ॥३१॥

जिस प्रकार नदी की धार आगे हो बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु केवल जाता हो है अर्थात् घटती ही है, और आतो नहीं अर्थात् बढ़ती नहीं । अतः यह देख कर आत्मा को सुख के साधनभूत धर्मकृत्यों में लगाना उचित है । क्योंकि यह प्रजा सुखभोगो ही कही गयी है अर्थात् मनुष्यजन्म धर्मकृत्य करते हुए सुख भोगने के लिये ही कहा गया है अथवा मनुष्यजन्म सुख भोगने ही को होता है ॥ ३१ ॥

धर्मात्मा सशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः ।

धूतपापो गतः स्वर्गं पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥

हमारे महाराज पिता जी तो अच्छे मङ्गलरूपी और दक्षिणा-युक्त यज्ञों को कर निष्पाप हो स्वर्ग सिधारे हैं ॥ ३२ ॥

भृत्यानां भरणात्सम्यक्प्रजानां परिपालनात् ।

अर्थादानाच्च धर्मेणः पिता नस्त्रिदिवं गतः ॥ ३३ ॥

भृत्यों का भली भाँति भरण पोषण कर, प्रजा का भली भाँति पालन कर और उनसे धर्मपूर्वक कर ले कर, हमारे पिता स्वर्ग सिधारे हैं ॥ ३३ ॥

कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः। क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः ।

स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३४ ॥

चौराहों पर तालाज वावड़ों आदि बनवा, प्रजाजनों के श्रमोद्य पूरे कर, तथा विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ कर हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे हैं ॥ ३४ ॥

इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैर्भोगांश्चावाप्य पुष्कलान् ।

उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ ॥

अनेक प्रकार के यज्ञ कर, हर तरह के बहुत से भोग भोग कर और अच्छी आयु भोग कर, महाराज स्वर्ग सिधारे हैं ॥ ३५ ॥

आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः ।

स न शोच्यः पिता तातः स्वर्गतः सत्कृतः सताम् ॥३६॥

हे तात ! अच्छी आयु पा कर, अच्छे भोगों को भोग कर और सत्तनों से सम्मान पा कर महाराज स्वर्ग सिधारे हैं, अतः उनके लिये शोक करना उचित नहीं ॥ ३६ ॥

स जीर्णं मानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः ।

दैवीमृद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम् ॥ ३७ ॥

हमारे पिता जीर्ण शरीर को त्याग कर, ब्रह्मलोक में सुख भोगने वाले देवताओं के शरीर को प्राप्त हुए होंगे ॥ ३७ ॥

१ इष्टैः--जनानां स्वल्पचाभिमर्तैः । ( गो० ) २ शुभैःकर्मभिः--महा-  
पथेषुतटाकनिर्माणादिभिः । ( गो० )

तं तु नैवंविधः कश्चित्प्राज्ञः शोचितुमर्हति ।

तद्विधो यद्विधश्चासि\* श्रुतवान्बुद्धिमत्तरः ॥ ३८ ॥

अतएव उन पिता जो के लिये शोक करना तुम जैसे बुद्धिमान शास्त्रवेत्ता और ज्ञानो पुरुष के लिये उचित नहीं ॥ ३८ ॥

एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तथा ।

वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥ ३९ ॥

तुम बुद्धिमान, तथा धैर्यवान हो, अतः तुमको इस प्रकार शोकान्वित हो, विलाप करना हर हालत में त्यागना चाहिये ॥३९॥

स स्वस्थो भव मां शोको यात्वा चावस तां पुरीम् ।

तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना† वदतांवर ॥ ४० ॥

तुम स्वस्थ हो और शोक को त्याग कर, अयोध्यापुरी में जा कर वास करा । हे वाग्मिवर ! पिता जो तुमको अयोध्यापुरी में स्वतंत्रतापूर्वक रहने को आज्ञा दे गये हैं ॥ ४० ॥

यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा ।

तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम् ॥ ४१ ॥

वह पुण्य कर्मों के करने वाले पूज्य पिता मुझको जैसी आज्ञा दे गये हैं, तदनुसार मैं भी वैसा ही करूँगा ॥ ४१ ॥

न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिन्दम ।

तत्त्वयाऽपि सदा मान्यं स वै बन्धुः स नः पिता ॥४२॥

† वशिना—स्वतंत्रेण । ( शि० \* पाठान्तरं—“ अपि ” । † पाठान्तरे—“ शोचीयात्वा । ”

हे शत्रुओं के दमन करने वाले ! मुझको उनको ब्राह्मण का उल्लंघन करना उचित नहीं । क्योंकि हमारे पिता, बन्धु और शासनकर्त्ता होने के कारण वे हमारे, तुम्हारे दानों के लिये सदा मान्य हैं ॥ ४२ ॥

तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणः ।

कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३ ॥

अतएव मैं तो पिता जो को उम्मी ब्राह्मण का, जो धर्माचरण करने वालों के सम्मत है, वन में वाम करके पालन करूँगा ॥ ४३ ॥

धार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुस्वर्तिना ।

भवितव्यं नरव्याघ्र परलोक जिगीषता ॥ ४४ ॥

हे पुरुषमिह ! जो मनुष्य धार्मिक एवं दयालु हैं तथा अपना परलोक बनाने के अभिलाषी हैं, उनको बड़े लोगों का ब्राह्मणकारी होना चाहिये ॥ ४४ ॥

आत्मानमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ ।

निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥ ४५ ॥

हे नरश्रेष्ठ ! तुम पिता जी की सत्यप्रतिज्ञा को स्मरण कर, अपने मन में अब राजधर्म को स्थापित करो अर्थात् पिता जी की सत्यप्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये अयोध्या जा कर राज्य करो ( शिरोमणिटीकानुसार ) ॥ ४५ ॥

इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा

पितुर्निदेशप्रतिपालनार्थम् ।

यवीयसं भ्रातरमर्थवच्च

प्रभुर्मुहूर्ताद्विरराम रामः ॥ ४६ ॥

इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥

महात्मा श्रीरामचन्द्र, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये अपने झोटे भाई भरत से इस प्रकार के अर्थ गर्वित वचन कह कर, मुहूर्त भर तक चुप रहे ॥ ४६ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

### षडुत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

एव मुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत् ।

ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् ॥ १ ॥

उवाच भरतश्चित्रं<sup>१</sup> धार्मिको धार्मिकं वचः ।

को हि स्यादीदृशो लोके यादृशस्त्वमरिन्दम ॥ २ ॥

प्रजावत्सल श्रीराम, मन्दाकिनी के तट पर जब इस प्रकार के सार्थक वचन कह कर मौन हो रहे, तब धर्मात्मा भरत जी श्रीराम जी से, अनेक प्रकार की युक्तियों से युक्त एवं धर्मयुक्त वचन बोले । भरत जी ने कहा—हे शत्रुनाशन ! आपके तुल्य इस लोक में दूसरा कौन होगा ॥ १ ॥ २ ॥

न त्वां प्रव्यथयेद्दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत् ।

सम्मतश्चासि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान् ॥ ३ ॥

न तो आपको दुःख दुःखी कर सकता है और न हर्ष हर्षित कर सकता है । सब बड़े बूढ़े आपको मानते हैं, तथापि धर्म के विषय में सन्देह होने पर आप उन लोगों से पूँछा करते हैं ॥ ३ ॥

१ चित्रं—अनेक विषययुक्तिविशिष्ट वचः । ( शि० )

यथा मृतस्तथा जीवन्मथाऽसति तथा सति ।

यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥

जिसके लेखे जैसा मरा हुआ आदमी वैसा हो जाता हुआ आदमी हो या जो यह समझ रहा हो कि, यह पदार्थ मेरे पास रहा तो क्या और न रहा तो क्या, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य को भजा क्यों किसी वस्तु के लिये सन्नाप होने लगा ? ॥ ४ ॥

१परावरज्ञो यश्च स्यात्तथा त्वं मनुजाधिप ।

स एवं व्यसनं प्राप्य न त्रिपीदितुमर्हति ॥ ५ ॥

हे नराधिप ! आप करीवा त्रिकालज्ञ अथवा जीवात्मा परमात्मा का रूप जानने वाले पुरुष, दुःख पड़ने पर भी विषाद को प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥

अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसङ्गरः ।

सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्चासि राघव ॥ ६ ॥

हे राघव ! आप देवताओं की तरह सतोगुणी, महाधैर्यवान् होने के कारण सत्यप्रतिज्ञ हो, आप सब जानने वाले, सब कुछ देखने वाले और बुद्धिमान् हो ॥ ६ ॥

न त्वामेवं गुणैर्युक्तं १प्रभवाभवकोविदम् ।

अविपह्यतमं २ दुःखमासादयितुमर्हति ॥ ७ ॥

१ परावरज्ञः—त्रिकालज्ञः परमात्मजीवात्मस्वरूपज्ञोवा । ( गो० )

२ प्रभवाभवकोविदम्—प्रवृत्तिनिवृत्तिकारणतत्त्वज्ञाननिपुणम् । ( शि० ) ३ अविपह्यतमं—अन्यैरसह्यमपि । ( शि० )

ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण आप जीवों, की प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारणों को भली भाँति जानने वाले हैं। अतः आपको वे दुःख भी, जो अन्य लोगों को असह्य हैं, नहीं सता सकते ॥ ७ ॥

[ एवमुक्त्वा तु भरतो रामं पुनरथाब्रवीत् । ]

प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा सत्कारणात्कृतम् ॥ ८ ॥

क्षुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम ।

धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम् ॥ ९ ॥

यह कह कर भरत जी ने श्रीरामचन्द्र जी से फिर यह कहा कि मेरे विदेश में रहते समय मेरी इस नीच माता ने जो पाप मेरे लिये किया है, वह मेरे लिये अनिष्टकारक है, अथवा मुझे इष्ट नहीं है, अतः मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। क्या करूँ मैं धर्मबन्धन से बंधा हूँ नहीं तो मैं इस माता को, ॥ ८ ॥ ९ ॥

हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डार्हां पापकारिणीम् ।

कथं दशरथाज्जातः शुद्धाभिजनकर्मणः ॥१०॥

जानन्धर्ममधर्मिष्ठं कुर्यां कर्म जुगुप्सितम् ।

गुरुः क्रियावान्वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च ॥११॥

जो पाप करने वाली होने के कारण दण्ड पाने योग्य है कठोर दण्ड दे मार डालता। मैं ऐसे कुलीन एवं धर्मनिष्ठ महाराज दशरथ के औरस से उत्पन्न हूँ। क्या धर्म है और क्या अधर्म, यह जान कर मुझसे यह निन्दित कर्म करते नहीं बन पड़ता। सब यज्ञों की क्रियाओं के करने वाले, पूज्य और वृद्ध महाराज पिता जी परलोकवासी हुए ॥ १० ॥ ११ ॥

तातं न परिगर्हेयं देवतं चेति संसदि ।

को हि धर्मार्थयोर्हीनमीदृशं कर्म किल्विपम् ॥ १२ ॥

अतः सब के सामने सभा में उनकी निन्दा करना उचित नहीं, किन्तु कौन ऐसा पुरुष होगा जो धर्म और अर्थ से रहित ऐसा पाप कर्म, ॥ १२ ॥

स्त्रियाः प्रियं चिकीर्षुः सन्कुर्याद्धर्मज्ञ धर्मवित् ।

२अन्तकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति३ पुराश्रुतिः ॥१३॥

धर्मज्ञों के धर्म का जान कर भी, लो को प्रीति को कामना से करेगा । हे धर्मज्ञ ! यह एक पुरानो कहावत है कि, मरने वाले की बुद्धि विगड़ जाती है ॥ १३ ॥

राज्ञैव कुर्वता लोके प्रत्यक्षं सा श्रुतिः कृता ।

४साध्वर्थमभिसन्धाय क्रोधान्मोहाच्च साहसात् ॥१४॥

५तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्६ ।

पितुर्हि\* समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते ॥ १५ ॥

सो महाराज ने यह कर्म कर यह कहावत चरितार्थ करके लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दी । महाराज ने भले ही कैकेयो के कुपित हो कर विष खाकर मर जाने के भय से, अथवा अपने चित्त के विक्षेप से, अथवा लोगों से बिना पूँछे ही, यह कर्म किया

१ अन्तकाले—विनाशकाले । ( गो० ) २ मुह्यन्ति— विपरीत बुद्धि प्राप्तवन्ति । ( गो० ) ३ साध्वर्थमभिसन्धायः—सर्वाचीनार्थस्मृत्वा । ( गो० )

४ तातस्य यदितिक्रान्तं यदतिक्रमणं । ( गो० ) ५ तद्भवान् प्रत्याहरतु—निवर्तयतु । ( गो० ) \* पाठान्तरे—“यदतिक्रान्तं” ।



हो, परन्तु अब आप उनके इस कर्म को ठीक समझ, अन्यथा विचार न कीजिये । क्योंकि जो पुत्र पिता की भूलचूक को भी ठीक मान लेता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ।

तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः ॥ १६ ॥

लोक में वही पुत्र, पुत्र माना जाता है । इसके विपरीत करने वाला पुत्र, पुत्र नहीं माना जाता । आप उनके पुत्र हो अतः उनकी भूलचूक पर ध्यान न दें ॥ १६ ॥

अभिपत्ता कृतं कर्म लोके धीरविगर्हितम् ।

कैकेयीं मां च तातं च सुहृदो वान्धवांश्च नः ॥ १७ ॥

और उनके उस लोकनिन्दित कर्म को छिपाइये । कैकेयी को, मुझको, पिता को, सुहृदों को तथा हमारे भाईवंदों को ॥ १७ ॥

पौरजानपदान्सर्वास्त्रातु सर्वमिदं भवान् ।

क चारण्यं क च क्षात्रं क जटाः क च पालनम् ॥ १८ ॥

तथा पुरजन आदि सब को आप इस अपवाद से बचा लीजिये । हे भाई ! कहीं तो क्षात्रधर्म और कहीं यह जनशून्य वनवास । कहीं जटाधारण और कहीं प्रजापालन ! ॥ १८ ॥

ईदृशं १व्याहृतं कर्म न भवन्कर्तुमर्हति ।

एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम् ॥ १९ ॥

अतः आप इन परस्परविरोधी कार्यों को न कीजिये । क्योंकि क्षत्रिय का सर्वप्रथम कर्त्तव्य कर्म यही है कि, वह अपना अभिषेक करावे ॥ १९ ॥

[ क्षत्रिय के लिये वानप्रस्थधर्मपालन का निषेध नहीं, तब भरत जी ने वनवास का निषेध क्यों किया ? इसका समाधान भरत जी ने स्वयं ही यह कह कर किया है कि, वानप्रस्थ होने के पूर्व क्षत्रिय को प्रजापालन करना चाहिये । आश्रमधर्मपालन में वर्गधर्म की अवहेला नहीं होनी चाहिये । ]

येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम् ।

कथं प्रत्यक्षमुत्सृज्य संशयस्यमलक्षणम्<sup>१</sup> ॥ २० ॥

जिससे वह प्रजा का पालन कर सके । भन्ना बतलाइये तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष फल देने वाले धर्म को छोड़, अप्रत्यक्ष और सुखों से रहित ॥ २० ॥

१ आयतिस्थं चरेद्धर्मं क्षत्रवन्धुरनिश्चितम् ।

अथ क्लेशजमेव त्वं धर्मं चरितुमिच्छसि ॥ २१ ॥

एवं कालान्तर में फल देने वाले, अनिश्चित धर्मकर्म का करना कौन क्षत्रिय स्वीकार करेगा ? अथवा यदि आप इस प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाला धर्माचरण करना चाहते हैं ॥ २१ ॥

धर्मेण चतुरो वर्णान्पालयन्क्लेशमाप्नुहि ।

चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमाश्रमम् ॥ २२ ॥

प्राहुर्यमज्ञं धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमर्हसि ।

श्रुतेन बालः स्थानेन<sup>५</sup> जन्मना भवतो ह्यहम् ॥२३॥

तो धर्मानुसार ब्राह्मणादि चारों वर्णों के पालन करने का कष्ट आप स्वीकार कौजिये । क्योंकि हे धर्मज्ञ ! चारों आश्रमों में ( ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त—ये चार आश्रम हैं )

१ संशयस्थं—भ्रमस्थं । ( गो० ) २ अलक्षणं—लक्षणरहितं । ( गो० )

३ आयतिस्थं—कालान्तर-नाविफलं । ( गो० ) अनिश्चितं । ( शि० ) ४ श्रुतेन—विद्यया । ( गो० ) ५ स्थानेन—पदेन । ( गो० )

गृहस्थ आश्रम ही को, धर्मज्ञ लोग सर्वोत्तम बतलाते हैं। तब इस आश्रम को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिये, क्या विद्या में, क्या पद में और क्या वय में, मैं आपके सामने बालक हूँ ॥ २२ ॥ २३ ॥

स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति ।

हीनबुद्धिगुणोऽवालो हीनः स्थानेन चाप्यहम् ॥२४॥

सा मैं, आपके रहते, किस तरह पृथिवी का पालन कर सकता हूँ? मैं बुद्धिहीन और सद्गुण हीन हूँ और आपसे मैं पद में भी नीचा हूँ और बालक हूँ ॥ २४ ॥

भवता च विनाभूतो न वर्तयितुमुत्सहेः ।

इदं निखिलमन्यग्रं राज्यं पित्र्यमकण्ठकम् ॥ २५ ॥

अतः मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता फिर राज्य करने की बात तो जाने ही दिजिये अथवा मैं आपके बिना जी भी नहीं सकता, राज्यपालन करना तो दूर है। अतः पिता के इस सम्पूर्ण, उत्तम एवं निष्कण्ठक राज्य का ॥ २५ ॥

अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः ।

इहैव त्वाभिपिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह ॥ २६ ॥

ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः ।

अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने ब्रज ॥ २७ ॥

हे धर्मज्ञ! आप ही बंधु बान्धवों सहित धर्म से पालन कीजिये। यहाँ पर, हे मंत्र के जानने वाले! प्रजाजन, वशिष्ठ और

१ हीनबुद्धिगुणः—सद्गुणबुद्धिरहितः । ( गो० ) २ वर्तयितुं—स्थातुं । ( गो० )

संनिगण साहित वैदिक मंत्रों के ज्ञाता ऋत्विक् आपका अभिषेक कर दें और आप अभिषिक्त हो कर, हम लोगों के साथ अयोध्या में राज्य करने को चले ॥ २६ ॥ २७ ॥

विजित्य तरसा लोकान्मरुद्भिरिव वासवः ।

ऋणानि त्रीण्यपाकुर्वन्दुर्हदः<sup>१</sup> साधु निर्दहम् ॥ २८ ॥

सुहृदस्तपयन्कामैस्त्वमेवात्रानुशाधि माम् ।

अद्यार्य मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेचने ॥ २९ ॥

जिस प्रकार अपने शत्रुओं को जीत, इन्द्र ने मरुद्गणों के सहित स्वर्ग में प्रवेश किया था, उसी प्रकार आप भी हम लोगों के साथ अयोध्या में प्रवेश करें । देवऋण ऋषिऋण और पितृऋण—इन तीनों ऋणों से उन्मूढ हो, शत्रुओं को भस्म कर सुहृदों की मनोकामना पूर्ण करते हुए, मुझे अपना सेवक बना, आज्ञा दिया कोजिये । हे आर्य ! आज आपके अभिषेक से सुहृद लोग हर्षित हों ॥ २८ ॥ २९ ॥

अद्य भीताः पलायन्तां दुर्हृदस्ते दिशो दश ।

२ आक्रोशं भम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषर्षभ ॥ ३० ॥

और दुष्ट लोग भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग जायँ । हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपको वनवास दिलाने का जो कलङ्क मेरी माता को लगा है उसको आप धो दीजिये ॥ ३० ॥

अद्य तन्न भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात् ।

शिरसा त्वाऽभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि ।

वान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१ ॥

१ दुर्हृदः—शत्रून् । ( गो० ) २ आक्रोशं—निन्दां । ( रा० )

और पूज्य पिता जी को भी पाप से बचाइये । देखिये ! मैं अपना मस्तक नवा आपसे यह याचना कर रहा हूँ, जिस प्रकार महेश्वर\*—विष्णु सब प्राणियों पर दया करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे और सब भाई वंदों के ऊपर दया कीजिये ॥ ३१ ॥

[ नोट—यद्देवादौस्वरः प्रोक्तोवेदान्तेच प्रतिष्ठितः ।

तस्यप्रकृतिकीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥

भूषणटोकाकार ने "महेश्वर" का अर्थ श्रुति-हित्वात् प्रमाणों से विष्णु प्रतिपादित किया है—इतर टोकाकारों ने महेश्वर का अर्थ वृषभध्वज शिव या महादेव किया है ।]

अथैतत्पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः ।

गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम् ॥ ३२ ॥

यदि मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर, यहाँ से आप दूसरे वन को चले जायेंगे तो मैं भी आपकी साथ ही साथ चजूँगा ॥ ३२ ॥

तथा हि रामो भरतेन ताम्यता

प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः ।

न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्

मतिं पितुस्तद्वचने व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥

यद्यपि भरत जो इस प्रकार गिड़गिड़ा और चरणों पर अपना सिर रख कर श्रीरामचन्द्र जी को मना रहे थे, तथापि श्रीरामचन्द्र जी पिता के वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि, वे ज़रा भी उससे विचलित न हुए अथवा किसी प्रकार भी अयोध्या जौट जाना उन्होंने स्वीकार न किया ॥ ३३ ॥

तदद्भुतं स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे  
समं जना हर्षमवाप दुःखितः ।

न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत्  
स्थिरप्रतिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः ॥ ३४ ॥

जो लोग वहाँ उस समय उपस्थित थे वे श्रीरामचन्द्र जी के विचार की दृढ़ता को देख, हर्ष विगद में एक साथ मग्न हो गये। वे दुःखित तो इस लिये थे कि श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या जाना स्वीकार नहीं करते थे, साथ ही हर्ष उनको इस बात का था कि, श्रीरामचन्द्र जी दृढ़बुद्धि वाले हैं ॥ ३४ ॥

तमृत्विजो नैगमयूथवल्लभाः

तथा विसंज्ञाश्रुकलाश्च मातरः ।

तथा\* ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः

प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ ३५ ॥

इति षडुत्तरशततमः सर्गः ॥

व्यापारियों के मुखिया, वेदपाठी ब्राह्मण, अथवा ऋत्विज लोग भ्रूङ्कित हो गये तथा रुदन करती हुई माताएँ भरत जी की प्रशंसा करने लगीं और हाथ जोड़ कर भरत जी की ओर से श्रीरामचन्द्र जी की प्रार्थना करने लगीं ॥ ३५ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ छठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:~:—

## सप्तोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

पुनरेवं व्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः ।

प्रत्युवाच ततः श्रीमान्ज्ञातिमध्येऽभिसत्कृतः<sup>१</sup> ॥ १ ॥

जब भरत जी ने फिर कुढ़ कहना चाहा, तब भरत जी से स्तुति द्वारा भली भाँति सत्कार किये गये श्रीरामचन्द्र जी, अपनी जाति के लोगों के सामने कहने लगे ॥ १ ॥

उपपन्नमिदं वाक्यं यत्त्वमेवमभापथाः ।

जातः पुत्रो दशरथात्कैकेय्यां राजसत्तमात् ॥ २ ॥

हे भरत ! तुम नृपोत्तम महाराज दशरथ जी से, कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः जो तुम कहते हो सो सब ठीक है ॥ २ ॥

पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन् ।

मातामहे समाश्रौपीद्राज्यशुल्कमनुत्तमम् ॥ ३ ॥

पूर्वकाल में जब हमारे पिता दशरथ जी तुम्हारी माता कैकेयी से विवाह करने गये थे, तब तुम्हारे नाना से उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि, तुम्हारी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे राज्यसिंहासन पर बैठेगा ॥ ३ ॥

[नोट—महाराज दशरथ का ऐसी प्रतिज्ञा करना अनुचित न था । क्योंकि कैकेयी के साथ उनका विवाह हठनी उमर में हुआ था । अन्य राजियों के साथ बहुत दिनों रह कर, वे पुत्रोत्पन्न होने से निराश हो चुके थे । कैकेयी के

---

१ अभिसत्कृतः—भरतेनसौत्रादिना सन्यगमभिपूजितः । ( गो० )

साव विवाह पुत्र की कामना ही से किया था । अतः उनका पुरी प्रतिज्ञा करना ठीक ही था ।

यदि यहाँ यह कोई कहे कि, जब महाराज कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न सन्तान ही को राज्य देने के लिये प्रतिज्ञायुद्ध हो चुके थे तब श्रीरामचन्द्र को युवराजपद देने की तैयारियाँ उन्होंने क्यों कीं, तो इसका सनाधान स्मृतिकारों के इस वचन से होता है—

“ वद्वाहकाले रतिसंभवांगं प्राणालये सर्वधनापदारैः ।

विप्रस्य चार्थेऽप्यनृतं वदेयुः पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ”

इसके अतिरिक्त महाराज अपने कुल की परम्परागत प्रथा के अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार को राजसिंहासन देने के लिये भी वाञ्छ थे । यदि वे इस प्रथा के विरुद्ध कार्य करते, तो प्रजा उनके इस अनुचित कार्य का घोर विरोध करती और उनकी निन्दा करती जैसा कि प्रजा ने श्रीराम के वनवास के समय किया भी था । ]

देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः ।

सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः ॥ ४ ॥

इसके अतिरिक्त देवासुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से सन्तुष्ट हो, पिता जी ने उन्हें दो वरदान देने कहे थे ॥ ४ ॥

ततः सा सम्प्रतिश्रान्य तव माता यशस्विनी ।

अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौवरौ वरवर्णिनी ॥ ५ ॥

अतः हे नरश्रेष्ठ ! यशस्विनी एवं सुन्दर वचन बोलने वाली तुम्हारी माता ने, पिता जी को वचनबद्ध कर उनसे दोनों वर मागे ॥ ५ ॥

तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा ।

तौ च राजा तदा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरौ ॥ ६ ॥



हे पुरुषसिंह ! एक वर से तुम्हारे लिये राज्य और दूसरे से मेरे लिये वनवास । महाराज ने भी माँगने पर इन दोनों वरों को दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ॥ ६ ॥

तेन पित्राऽहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ ।

चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानिकम् ॥ ७ ॥

हे नरवर ! उसी वरदान के कारण पिता को ग्राह्या से मैंने चौदह वर्ष वन में वास करना स्वोकार किया ॥ ७ ॥

सोऽहं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः ।

सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८ ॥

और पिता जी के वचन को सत्य करने के लिये सीता और लक्ष्मण को साथ ले और सर्दी गर्मी दुःख सुख की कुछ भी परवाह न कर मैं इस निर्जन वन में चला आया हूँ ॥ ८ ॥

भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम् ।

कर्तुमर्हति राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिपेचनात् ॥ ९ ॥

हे राजेन्द्र ! तुम भी अपना शीघ्र राज्याभिषेक करवा कर मेरी तरह पिता जी को सत्यवादी बनाओ ॥ ९ ॥

ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम् ।

पितरं चापि धर्मज्ञं मातरं चाभिनन्दय ॥ १० ॥

हे भरत ! मेरी प्रसन्नता के लिये तुम महाराज को इस ऋण से उन्मूढ करो और उनकी रक्षा करो । माता कैकेयी को भी, स्वयं राज्यासन पर बैठ कर, प्रसन्न करो ॥ १० ॥

श्रूयते हि पुरा तात श्रुतिर्गीता यशस्विना ।

गयेन यजमानेन गयेष्यैव पितृन्प्रति ॥ ११ ॥

हे तात ! सुना है कि, पूर्वकाल में गय नाम के एक यशस्वी राजा गया प्रदेश में यज्ञ करते थे । उन्होंने पितरों से यह वाक्य कहा था कि, ॥ ११ ॥

पुत्रान्मो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्पत्पाति वा सुतः ॥ १२ ॥

पुत्र पिता को पुत्र्याम नरक से उद्धार करता है और पितरों के उद्देश्य से इष्ट पूर्त कार्यों को कर पितरों को स्वर्ग में भेज सब प्रकार से पितरों की रक्षा करता रहता है । इसीसे उसको पुत्र कहते हैं ॥ १२ ॥

[ नोट—इष्टापूर्त का विवरण लृत्तियों में यह लिखा है—

पूर्त—वायीकूपतडागादिदेवतायतनानि च ।

अन्नप्रदाननारामाः पूर्तनव्यां प्रचक्षते ॥

इष्ट—एकान्नि कर्न इवनं त्रेतायां यच्च हूयते ।

अन्तर्वेषां च यद्दाननिष्ठं तदनिर्धायते ॥—V. S. Apte.]

एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः ।

तेषां वै समवेतानामपि कथिद्गयां व्रजेत् ॥ १३ ॥

इसीसे लोग विद्वान् और गुणवान् बहुत से पुत्रों की चाहना करते हैं कि, उनमें से कोई पुत्र तो गया जा कर श्राद्धादि द्वारा पितरों का उद्धार करेगा ॥ १३ ॥

१ पितृन् पाति—उद्देशकृतेष्टापूर्तादिना स्वर्गं किं प्राप्यरक्षतीत्यर्थः ।  
( गो० )

एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता राजनन्दन ।

तस्मान्नाहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्प्रभो ॥ १४ ॥

हे राजनन्दन ! सब राजर्षियों का इस बात पर विश्वास है ।  
अतः हे नरश्रेष्ठ ! तुम पिता जी का नरक से उद्धार करो ॥ १४ ॥

अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरनुरञ्जय ।

शत्रुघ्नसहितो वीर सह सर्वैर्द्विजातिभिः ॥ १५ ॥

हे भरत ! तुम शत्रुघ्न को तथा सब ब्राह्मणादि प्रजा को साथ  
ले कर, अयोध्या में जा कर प्रजाओं को आनन्दित करो ॥ १५ ॥

प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन् ।

आभ्यां तु सहितो राजन्वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥१६॥

हे राजन् ! मैं भी सीता और लक्ष्मण को साथ ले शीघ्र  
दण्डकारण्य में प्रवेश करूँगा ॥ १६ ॥

त्वं राजा भरते भव स्वयं नाराणां

वन्यानामहमपि राजराष्मृगाणाम् ।

गच्छ त्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्टः

संहृष्टस्त्वहमपि दण्डकान्प्रवेक्ष्ये ॥ १७ ॥

हे भरत ! तुम मनुष्यों के राजा हो और मैं वनसृगों के  
राजाओं का राजा हूँगा । तुम प्रसन्न हो अब श्रेष्ठ नगरी अयोध्या  
को गमन करो और मैं भी आनन्दपूर्वक दण्डकवन में प्रवेश  
करूँ ॥ १७ ॥

छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं  
 वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम् ।  
 एतेषामहमपि काननद्रुमाणां  
 छायां तामतिशयिनीं सुखी श्रयिष्ये ॥१८॥

सूर्य के आतप को रोकने वाले राजकुत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करें और मैं जङ्गल के इन पेड़ों की सघन छाया का आश्रय ग्रहण करूँ ॥ १८ ॥

शत्रुघ्नः कुशलमतिस्तु ते सहायः  
 सौमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रम् ।  
 चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं

सत्यस्थं भरत चराम मा विषादम् ॥१९॥

इति सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥

हे भरत ! यह अमितबुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारे सहायक रहेंगे और सर्वलोकों में प्रसिद्ध यह लक्ष्मण मेरी सहायता करेंगे । इस प्रकार नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के हम चारों पुत्र महाराज दशरथ को सत्यवादी करें । अतः अब तुम विषादयुक्त मत हो ॥ १९ ॥

[ नोट—इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने भरत जी को निरुत्तरित कर दिया, तब भरत जी को चुप देख, हितपरता के कारण, जावालि जी ने चार्वाक मत का सहारा ले श्रीरामचन्द्र जी को जो उत्तर दिया था वह १०८ वें अध्याय में लिखा गया है । ]

अयोध्याकाण्ड का एक सौ सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

## अष्टोत्तरशततमः सर्गः

—: #:—

आश्यासयन्तं भरतं जावालिर्ब्राह्मणोत्तमः ।

उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं<sup>१</sup> वचः ॥ १ ॥

इस प्रकार भरत जी को समझाते हुए श्रीरामचन्द्र जी से जावालि नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये धर्मविरुद्ध वचन कहे ॥१॥

साधु राघव मा भूते बुद्धिरेवं निरर्थिका<sup>२</sup> ।

माकृतस्य नरस्येव ह्यार्यबुद्धेर्मनस्विनः ॥ २ ॥

वाह महाराज वाह ! आपका तो पामरजनों जैसी निरर्थक बुद्धि न होनी चाहिये । क्योंकि आप केवल श्रेष्ठ बुद्धिवाले ही नहीं, किन्तु मनस्वी भी हैं ॥ २ ॥

कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित् ।

यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३ ॥

भला ज़रा सोचिये तो, कौन किसका बन्धु है और कौन किसका बना विगाड़ सकता है । यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और फिर अकेला ही नष्ट भी होता है ॥ ३ ॥

तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः ।

उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित् ॥४॥

अतः यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है—ऐसा सम्बन्ध मान कर जो पुरुष इन सम्बन्धों में आसक्त होता है, उसे पागल की

---

१ धर्मापितं—धर्ममार्गविरुद्धं । ( रा० ) २ निरर्थिका—परमार्थ रहिता । ( शि० )

तरह समझना चाहिये । क्योंकि विचारपूर्वक देखा जाय तो सच-  
मुच कोई भी किसी का नहीं है ॥ ४ ॥

यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चित्कचिद्वसेत् ।

उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५ ॥

जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने गाँव से दूसरे गाँव को जाता  
हुआ, कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को  
छोड़ चल देता है ॥ ५ ॥

एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु ।

आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः ॥ ६ ॥

इसी प्रकार पिता माता, घर और धनादि सम्पत्ति के साथ  
भी मनुष्य का थोड़ी देर का टिकाऊ सम्बन्ध है । अतएव सज्जन  
लोग इनमें आसक्त नहीं होते ॥ ६ ॥

पित्र्यं राज्यं परित्यज्य स नार्हसि नरोत्तम ।

अस्थातुं कापथं दुःखं विपमं बहुकण्टकम् ॥ ७ ॥

अतएव हे नरोत्तम ! आप पिता के राज्य को छोड़, इस कुमार्ग  
पर, जो दुःख देने वाला, युवावस्था के अयोग्य और बहुकण्टकों  
से परिपूर्ण है, आरूढ़ होने योग्य नहीं हैं ॥ ७ ॥

समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय ।

२एकवेणीधरा हि त्वां नगरीं सम्प्रतीक्षते ॥ ८ ॥

१ विपमं—यौवनानुचितं । ( गो० ) २ एकवेणीधरा—त्रतपरायणेत्यर्थः  
( गो० ) ३ नगरी—तदधिदेवता । ( गो० )

आप तो चल कर अब धन धान्ययुक्त अयोध्या में अपना अभिषेक करवाइये । क्योंकि अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी पति-व्रतधारण कर आपके आगमन की वाट जोह रही है ॥ ८ ॥

राजभोगाननुभवन्महार्हान्पार्थिवात्मज ।

विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे ॥ ९ ॥

हे राजकुमार ! आप बढ़िया बढ़िया राजाओं के भोगने योग्य भोगों का उपभोग करें और अयोध्या में उसी प्रकार विहार करें जिस प्रकार इन्द्र अमरावती में विहार करते हैं ॥ ९ ॥

न ते कश्चिद्दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन ।

अन्यो राजा त्वमन्यः स तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥१०॥

न तो अब दशरथ आपके कोई हैं और न आप दशरथ के कोई हैं । राजा कोई और है और आप कोई और हैं । इसलिये मैं जो कहता हूँ उसे आप कीजिये ॥ १० ॥

वीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं रुधिरमेव च ।

संयुक्तमृतमन्मात्रा पुरुपस्येह जन्म तत् ॥ ११ ॥

प्राणी के जन्म में पिता तो वीर्य का एक कारण मात्र है । क्योंकि अमृतमती माता के गर्भ में एकत्र हो मिला हुआ वीर्य और रज ही जीव के जन्म का हेतु है ॥ ११ ॥

गतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै ।

प्रवृत्तिरेषा मर्त्यानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥

१ प्रवृत्तिः—स्वभाव इत्यर्थः । ( गो० ) २ मर्त्यानां—मरणशीलानां । ( गो० ) ३ त्वं तु मिथ्याविहन्यसे—मिथ्याभूतेन संबन्धेन पीड्यसे । ( गो० )

वे महाराज तां जहाँ उनको जाना या वहाँ गये । क्योंकि मरण-शील प्राणियों का स्वभाव ही यह है । तुम वृथा ही इस झूठे सम्बन्ध को ले, पीड़ित होते हो ॥ १२ ॥

२अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान् ।

ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य भेजिरे ॥ १३ ॥

जो लोग प्रत्यक्ष मिलते हुए सुख को त्याग कर आगे सुख मिलने की आशा से कष्ट भोग कर धर्मोपार्जन करते हैं, और ऐसा करते करते नष्ट हो जाते हैं, मुझे उन्हीं लोगों के लिये दुःख है औरों के लिये नहीं, अथवा मुझे उन लोगों के लिये शोक है जो प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ को त्याग, अप्रत्यक्ष धर्म सम्पादन में तत्पर रह कर, इसलोक में तो दुःख भोगते ही हैं किन्तु वे नष्ट होने पर भी दुःख भोगते हैं । औरों के लिये नहीं ॥ १३ ॥

अष्टका पितृदैवत्यवित्ययं प्रसृतो जनः ।

अन्नस्योपद्रवं<sup>१</sup> पश्य मृतो हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥

देखिये, लोग जो अष्टकादि श्राद्धकर्म पितरों के उद्देश्य से, प्रतिवर्ष किया करते हैं, उससे लोग अन्न का कैसा नाश करते हैं । भला कहीं कोई मरा हुआ भी कभी भोजन करता है ? ॥ १४ ॥

यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति ।

दद्यात्प्रवसतः श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत् ॥ १५ ॥

यदि एक का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में पहुँच जाता तो बटोही को रास्ते में भोजन करने के लिये, भोज्य पदार्थ अपने

१ अर्थधर्मपराः—प्रत्यक्षसौख्यं विहाय केवलार्थसम्पादनपराः । ( गो० )

२ उपद्रवं—क्षयं । ( गो० )



साथ लेने की ज़रूरत ही क्या है ? क्योंकि उसके सम्बन्धी उसके नाम पर घर पर ही श्राद्ध कर दिया करते और वही उस वटोही के लिये, मार्ग को भोजन का काम देता और वटोही वाक्य देने से बच जाता ॥ १५ ॥

१ दानसंवन्ना ह्येते ग्रन्था मेधाविभिः<sup>२</sup> कृताः ।

यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥ १६ ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! अन्य उपायों से धनोपार्जन में क्लेश देख, दूसरों का धन हरने में चतुर लोगों ने दान द्वारा लोगों को बश में करने के लिये, धर्मग्रन्थों में लिख रखा है कि, यज्ञ करो, दान दो, दीक्षा लो, तप करो, संन्यास लो अर्थात् लोगों को धोखा दे कर उनका धन हरण करना ही इन धर्मग्रन्थों की रचना का मुख्य उद्देश्य है ॥ १६ ॥

स नास्ति परमित्येव कुरु बुद्धिं महामते ।

प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु ॥ १७ ॥

हे महामते ! वास्तव में इस लोक के अतिरिक्त परलोक आदि कुछ भी नहीं है । इसे आप भली भाँति समझ लीजिये । अतः जो सामने है, उसे ग्रहण कीजिये और जो परोक्ष, अर्थात् प्रत्यक्ष नहीं है उसे पीठ पीछे कीजिये । अर्थात् प्रत्यक्ष में सुखदायक राज्य को ग्रहण कीजिये और परोक्ष की बात ( कि पिता को सत्यप्रतिज्ञ करने से बड़ा पुण्य होगा, ) को भुला दीजिये ॥ १७ ॥

१ दानसंवन्नाः—दानायवतोऽरुणोपायाः । ( गो० ) २ मेधा-  
विभिः—परद्वयग्रहणकुशलबुद्धिभिः । ( गो० ) \*

सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकनिदर्शिनीम्<sup>१</sup> ।

राज्यं त्वं प्रतिगृहीष्व भरतेन प्रसादितः ॥ १८ ॥

इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥

देखिये भरत जी आपसे प्रार्थना करते हैं, अतः सर्व जनानु-  
मोदित सज्जनों के मत को स्वीकार कर, राज्य ग्रहण कीजिये ॥१८॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ आठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

नवोत्तरशततमः<sup>१</sup> सर्गः

—:०:—

जावालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः<sup>२</sup> सत्यात्मनां वरः ।

उवाच परया भक्त्या स्वबुद्ध्या चाविपन्नया<sup>३</sup> ॥ १ ॥

जावालि की बातें सुन, सत्यभाव वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र  
जी अपनी अविचल बुद्धि से निचारे हुए, वैदिक धर्म में श्रद्धा  
उत्पन्न करने वाले वचन बोले ॥ १ ॥

भवान्मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान् ।

आकार्यं कार्यसङ्काशमपथ्यं पथ्यसम्मितम् ॥ २ ॥

आपने मुझे प्रसन्न करने के लिये जो बातें कहीं, वे कार्य रूप  
में परिणत करने के लिये अनुपयुक्त और न्यायमार्ग के विरुद्ध

१ सर्वलोकनिदर्शिनीम्—सर्वजनसंमतामित्यर्थः । ( गो० ) २ सत्यात्मनां-  
वरः—सत्यस्वभावानां श्रेष्ठः । ( रा० ) सत्यात्मनां भक्त्या—वैदिकधर्म-  
श्रद्धया । ( गो० ) ३ अविपन्नयाः—अचलितया । ( गो० )

होने पर भी, साधारण दृष्टि से देखने पर, न्यायानुमोदित और करने योग्य जान पड़ती हैं अर्थात् आपकी सब बातें बनावटी हैं ॥ २ ॥

निर्मर्यादस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः ।

मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ॥ ३ ॥

मर्यादा रहित, पापाचरण से युक्त, चरित्रहीन और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण वाले पुरुष का सज्जनों के समाज में आदर नहीं होता ॥ ३ ॥

कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम् ।

चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाऽशुचिम् ॥४॥

चरित्र ही अकुलीन को कुलीन, भीरु को वीर और अपावन को पावन प्रसिद्ध करता है ॥ ४ ॥

अनार्यस्त्वार्यसङ्काशः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः ।

लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥

अधर्मं धर्मवेपेण यदीमं लोकसङ्करम् ।

अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियाविधिविचर्जितम् ॥६॥

कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः ।

बहुमंस्यति मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम् ॥ ७ ॥

१ लोकसंकरम्—लोकसङ्करकारकम् । ( गो० ) २ शुभं—शुभसाधनं वैदिकधर्मम् । ( गो० ) ३ क्रियाविधिविचर्जितम्—वैदिकक्रिययावेदविधिना चर्जितं इमंत्वदुक्तमधर्मं । ( गो० ) ४ चेतयानः—ज्ञानवान् । ( गो० )

यदि मैं श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा में रह कर, अनार्यों की तरह ; पवित्र हो कर, शौचहीन की तरह और शीलवान हो कर, दुःशील की तरह धर्म के वेप से वैदिक धर्म को छोड़, लोगों में सङ्करता बढ़ाने वाले, वैदिक विधि और वैदिक क्रिया से रहित आपके बतलाये हुए धर्म को ग्रहण करूँ, तो कार्य अकार्य को जानने वाला कौन ज्ञानवान पुरुष, मुझ दुराचारी और लोकनिन्दित का सम्मान करेगा ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

कस्य धास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् ।

अनया वर्तमानो हि वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८ ॥

यदि आपके उपदेशानुसार मैं इस सत्य-प्रतिज्ञ-पालन-हीन वृत्ति को अवलंबन कर लूँ तो, मैं किस कर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करूँगा ॥ ८ ॥

कामवृत्तस्त्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते ।

यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥९॥

जब मैं (ही) यथेच्छाचारी हो गया, तब (अन्य) सब लोग अपना मनमाना काम करने लगेंगे। क्योंकि राजा का जैसा आचरण होता है, वैसा ही आचरण प्रजा का भी हो जाता है। (यथा राजा तथा प्रजा प्रसिद्ध ही है) ॥ ९ ॥

सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम् ।

तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥१०॥

भूतानुकम्पा प्रधान और सनातन राजधर्म सत्यरूप है, अतः राज्य सत्यरूप है और सत्य ही से यह लोक टिका हुआ है ॥ १० ॥

१ अनृशंसं—भूतानुकम्पाप्रधानं सनातनं च राजवृत्तं सत्यरूपमेव । (गो०.)

[ नोट—अर्थात् राजा का धर्म है कि वह प्राणि मात्र पर दयायुक्त व्यवहार करे और अपने व्यवहार में असत्य को स्थान न दे। राजधर्म में झूठ धोखना निषिद्ध है। भूतानुकम्पाप्रधान एवं सत्यरूप राजधर्म अनादिसिद्ध है। सत्यव्यवहार यदि लोप हो जाय तो इस लोके में एक क्षण भी रहना कठिन हो जाय। ]

ऋपयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे<sup>१</sup> ।

सत्यवादी हि लोकैऽस्मिन्परमं गच्छति क्षयम् ॥११॥

देखो ऋषि लोग और देवता लोग सत्य को उत्कृष्ट मानते हैं; क्योंकि सत्यवादी पुरुष को अक्षय्य ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

उद्विजन्ते<sup>२</sup> यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः ।

धर्मः सत्यं परो लोके मूलं स्वर्गस्य चोच्यते ॥ १२ ॥

मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे साँप से। सत्य से युक्त धर्म केवल समस्त लौकिक व्यवहारों ही का मूल नहीं है, किन्तु स्वर्गप्राप्ति का भी मूल साधक है ॥ १२ ॥

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पद्मा श्रिता सदा ।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्<sup>३</sup> ॥१३॥

सत्य ही से ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य ही से लक्ष्मी-धन धान्य मिलता है। सत्य ही सब सुखों का मूल है, सत्य से बढ़ कर और कोई वस्तु नहीं है जिसका आश्रय लिया जाय ॥ १३ ॥

दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च ।

वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत् ॥ १४ ॥

१ मेनिरे—उत्कृष्टमिति शेषः । ( गो० ) २ परमं क्षयम्—परमधाम । (गो०) ३ उद्विजन्ते—जनाह्वति शेषः । (गो०) ४ पदम्—आश्रयं । (शि०)

दान, यज्ञ, तप और वेद—ये सब सत्य हैं, अतएव सब को सदा सत्य पालन के लिये तैयार रहना चाहिये ॥ १३ ॥

एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम् ।

मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गं महीयते ॥ १५ ॥

कोई तो अपने कर्मों के फल से अपने कुल का और कोई लोक भर का पालन करता है । कोई नरक में डूबता है और कोई स्वर्ग में पृजित होता है ॥ १५ ॥

साऽहं पितुर्नियोगं तु किमर्थं नानुपालये ।

सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतः ॥ १६ ॥

अतएव मैं ( कर्मफल को जानता हुआ और ) सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा करके, सत्यप्रतिज्ञ और सदाचारी पिता की सत्य रूप उस आज्ञा का, जिसकी प्रतिज्ञा सत्यतापूर्वक की गयी है, पालन क्यों न करूँ ॥ १६ ॥

नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्यज्ञानात्तमोन्वितः ।

सेतुं<sup>१</sup>सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः<sup>२</sup> सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७ ॥

अतएव मैं न तो राज्य पाने के लोभ से, न लोगों के भुलावे में था और न अज्ञान से क्रोध के वशवर्ती हो, पिता की सत्यरूपी मर्यादा को तोड़ूँगा, क्योंकि मैं स्वयं सत्यप्रतिज्ञा हूँ ॥ १७ ॥

असत्यसन्धस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः ।

नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम् ॥ १८ ॥

१ सेतुं—मर्यादा । ( गो० ) २ गुरोः—पितुः । ( शि० )

मैंने सुना है कि, जो सत्यप्रतिज्ञा को भङ्ग करने वाला, चञ्चल स्वभाव और अस्थिर चित्त है, उसका दिया हुआ हव्य और कव्य देवता और पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १८ ॥

प्रत्यगात्ममिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं स्वयम् ।

भारः १सत्पुरुषाचीर्णस्तदर्थमभिमन्यते२ ॥ १९ ॥

मेरी समझ में प्रत्येक जीवधारी के लिये सत्यपालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है । जिस सत्यपालन रूपी धर्म-भार या वनवास रूपी धर्मभार को पूर्वकाल के सत्पुरुष उठा चुके हैं, उस भार को, आदर देना मैं पसंद करता हूँ ॥ १९ ॥

क्षत्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये १ह्यधर्मं धर्मसंहितम्० ।

क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः ॥ २० ॥

आपके वतलाप हुए क्षत्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाममात्र का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है मैं त्याज्य समझता हूँ ; क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो—नीच, निष्ठुर, लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं ॥ २० ॥

कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य च ।

अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्म पातकम् ॥ २१ ॥

आपके वतलाये क्षत्रधर्म का पालन करने में, तीनों प्रकार के पापों की प्रवृत्ति होती है । वे तीन प्रकार के पाप हैं कायिक, मानसिक और वाचिक । ( कायिक वे जो शरीर से किये जाय,

१ सत्पुरुषाचीर्णः—सत्पुरुषैर्गचरितः । ( गो० ) २ अभिमन्यते—  
अभिमतो भवति । ( गो० ) ३ अधर्मं—अधर्मप्रचुरं । ( गो० ) ४ धर्म-  
संहितम्—धर्मलेशसहितं । ( गो० )

मानसिक वे जो मन में सोचे जाय और वाचिक वे जो जिह्वा द्वारा किये जाय, अर्थात् झूठ बोलना, कोप करना, परनिन्दा करना, अपशब्द कहना आदि ।) इन तीनों प्रकार के पापों का परस्पर सम्बन्ध है । पहले तो पाप का मन में सङ्कल्प उदय होता है, फिर वाणी द्वारा वह प्रकट किया जाता है और फिर वह शरीर ने क्रिया जाता है ॥ २१ ॥

भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि ।

स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सत्यमेव भजेत तत् ॥ २२ ॥

जो लोग सत्यव्रतधारी हैं, उन्हें केवल राज्य, कीर्ति, यश और धन ही नहीं मिलता, किन्तु मरने पर उन्हें स्वर्ग भी प्राप्त होता है । इसीसे लोगों को सत्य बोलना और सत्य व्यवहार करना उचित है ॥ २२ ॥

श्रेष्ठं ह्यनार्यमेव स्याद्यद्रुवानवधार्य माम् ।

आह युक्तिकरैर्वाक्यैरिदं<sup>१</sup> भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३ ॥

आपने अपने मन में निश्चय कर जिसे उचित समझ रखा है, और जिसको करने के लिये आप मुझसे युक्तियुक्त वचन कह कर अनुरोध करते हैं, वह कार्य सर्वथा अनुचित है ॥ २३ ॥

कथं ह्ययं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरौ ।

भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः ॥ २४ ॥

भला वतलाइये तो, मैं जः पिता से वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तब अब कौंकर मैं उस प्रतिज्ञा को भङ्ग कर, भरत का कहना मानूँ ॥ २४ ॥

१ श्रेष्ठं नित्यवधार्यं निश्चितम् । ( गो० ) . २ इदं भद्रं कुरुष्वेति भवान्युक्ति करैर्वाक्यैः यदाह तदनायमेवस्यात् । ( गो० )



स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ ।

प्रहृष्यमाणा सा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥ २५ ॥

जब कि मैंने पिता के सामने यह बृद्ध प्रतिज्ञा की थी, तब देवी कैकेयी अत्यन्त प्रसन्न हुई थीं । ( सो अब मैं अपनी उस बृद्ध प्रतिज्ञा को तोड़ कैकेयी को क्यों कर दुःखी करूँ ) ॥ २५ ॥

वनवासं वसन्नेव शुचिर्नियतभोजनः ।

मूलैः पुष्पैः फलैः पुष्पैः पितृन्देवांश्च तर्पयन् ॥ २६ ॥

अतएव मैं पवित्र मूल फल फूलों से देवता और पितरों को तृप्त कर और बचे हुएों को स्वयं भोजन कर, शुद्ध हृदय और सन्तुष्ट हो कर वन में वास करूँगा ॥ २६ ॥

[ नोट—जो पदार्थ देवता पितरों को अर्पण कर खाये जाते हैं उनके खाने से हृदय शुद्ध होता है—जो ऐसा नहीं करते वे पाप करते हैं—गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है “ भुञ्जते ते त्वघं पापं ये पचन्त्यात्मकारणात् ” अर्थात् जो अपने खाने के लिये रमेाई बनाते हैं, वे अन्न नहीं प्रत्युत पाप खाते हैं । ]

१ सन्तुष्टपञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवर्तये ।

२ अकुहः श्रद्धानः सन्कार्याकार्यविचक्षणः ॥ २७ ॥

मैं कुल छिद्र त्याग कर, कर्त्तव्याकर्तव्य का विचार कर, वैदिक क्रियाकलाप में अकृत्रिम श्रद्धा रख कर, तथा पाँचों इन्द्रियों को सन्तुष्ट रख कर, पिता की वचनपालन रूपी लोकयात्रा का निर्वाह करूँगा ॥ २७ ॥

१ सन्तुष्टपञ्चवर्गः—परितुष्टपञ्चेन्द्रियवर्गः । ( गो० ) २ लोकयात्रां—पितृवचनपरिपालनरूपलोकावर्तनं । ( गो० ) अकुहः—अकृत्रिमः । ( गो० )

कर्मभूमिभिर्मां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम् ।

अग्निर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥ २८ ॥

इस कर्मभूमि में आ कर शुभकर्मानुष्ठान करना उचित है । क्योंकि कर्मों के फल के भागो अग्नि, वायु और चन्द्रमा हैं । अर्थात् मनुष्यों को क्रमानुसार अग्निलोक, वायुलोक और चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । अथवा शुभकर्मों द्वारा ही जोव अग्नि वायु और चन्द्रमा होते हैं ॥ २८ ॥

शतं क्रतूनामाहृत्य देवराट् त्रिदिवं गतः ।

तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं याता महर्षयः ॥ २९ ॥

( शुभकर्मानुष्ठान का प्रभाव दिखा कर श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं कि ) सौ यज्ञ करने से इन्द्र देवराज हो कर स्वर्ग में गये और महर्षि लोग भी तप करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं ॥ २९ ॥

अमृष्यमाणः पुनस्त्यतेजा

निशम्य नन्नास्तिकहेतुवाक्यम् ।

अथात्रवीचं नृपतेस्तनूजो

विगर्हमाणो वचनानि तस्य ॥ ३० ॥

उग्र तेज वाले नृपनन्दन श्रीरामचन्द्र जावालि के नास्तिकता से भरे वचन सुन, उनके सहन न कर सके और उन वचनों की निन्दा करते हुए उनसे फिर बोले ॥ ३० ॥

सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च

भूतानुकम्पां प्रियवादितां च ।

द्विजातिदेवातिथिपूजनं च

पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ ३१ ॥

हे जावालि ! सत्य बोलना, अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना, समय पर पराक्रम दिखाना, भूतदया, प्रियवचन बोलना, ब्राह्मण, देवता और अतिथियों का पूजन करना—इन कर्मों के करने से, साधुजन स्वर्ग की प्राप्ति बतलाते हैं ॥ ३१ ॥

तेनैवमाज्ञाय यथावदर्थ-

१मेकोदयं संप्रतिपद्यविभाः ।

धर्मं चरन्तः सकलं यथावत्

काङ्क्षन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२ ॥

इसी लिये ब्राह्मण लोग, इसका यथावत् अर्थ समझ, सावधान हो कर, वर्णाश्रमोचित समस्त धर्मों का पालन करते हुए, प्रल्लोकादि की आकांक्षा करते हैं ॥ ३२ ॥

२निन्दाम्यहं कर्म पितुः कृतं त-

द्यस्त्वामगृह्णाद्विप<sup>१</sup>मस्यबुद्धिम् ।

बुद्ध्यानयैवविधया चरन्तं

सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम् ॥ ३३ ॥

हे जावालि ! मैं अपने पिता के इस कार्य की निन्दा करता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वेदमार्ग से अष्ट बुद्धि वाले धर्मच्युत

१ एकोदयं संप्रतिपद्य—एककण्ठ्यं प्राप्य । (गो०) २ निन्दाम्यहं—  
दिकर्मभ्योवहिकरोमि । (गो०) ३ विपमस्यबुद्धिं—अवैदिकमार्ग  
पणातबुद्धिं । (गो०)

नास्तिक को अपने यहाँ रखा। क्योंकि चार्वाकादि नास्तिक मत का जो दूसरों को उपदेश देते हुए घूमा फिरा करते हैं, वे केवल घोर नास्तिक ही नहीं, प्रत्युत धर्ममार्ग से च्युत भी हैं ॥ ३३ ॥

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्ध-

स्तथागतं नास्तिकमत्र त्रिद्धि ।

तस्माद्धि यः शङ्क्यतमः प्रजानां

न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात् ॥ ३४ ॥

राजा को चाहिये कि प्रजा को भलाई के लिये ऐसे मनुष्य को चही दण्ड दे जो चोर को दिया जाता है। और जो इनको दण्ड देने में असमर्थ हो, उन समझदारों या विद्वानों को ऐसे नास्तिकों से बात चीत भी न करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

\*तत्तो जनाः पूर्वतरेवराश्वां

शुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः ।

जित्वा सदेमं च परं च लोकं

तस्माद्द्विजाः स्वस्ति हुतं कृतं च ॥३५॥

हे जावालि ! तुमसे पहले के ज्ञान में श्रेष्ठ जनों ने अनेक शुभ कर्म किये और उन शुभ कर्मों के प्रभाव से उन लोगों ने इहि लोक और परलोक जीते। इसीसे ब्राह्मणों ने अहिंसा सत्यादि, तपोदान परोपकारादि तथा यज्ञादि कर्मों को किया ॥ ३५ ॥

१ त्वत्तः—पूर्वतरेपुरातनाश्च, वराश्च ज्ञानतः श्रेष्ठाश्चजनाः । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ त्वत्तो जनाः, ” “ त्वत्तोवरः ” । † पाठान्तरे—  
“ जनाश्च ”, “ दिजाश्च ” ।

धर्मै रताः सत्पुरुषैः समेताः

तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः ।

अहिंसका व्रीतमलाश्च लोके

भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ ३६ ॥

जो धर्मानुष्ठान में सदा तत्पर रहते हैं, तेजस्वी हैं, जो दान देने में प्रधान हैं, जो हिंसा नहीं करते, जो सत्सङ्गी हैं ऐसे वशिष्ठादि प्रधान प्रधान मुनि ही संसार में पापरहित हो और तेज धारण कर सब के पूज्य हाते हैं ( न कि आप जैसे नास्तिक लोग ) ॥ ३६ ॥

इति ब्रुवन्तं वचनं सरोपं

रामं महात्मानमदीनसत्त्वम्<sup>१</sup> ।

उवाच तथ्यं पुनरास्तिकं च

सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ॥ ३७ ॥

जब दीनताशून्य श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर जावालि से ऐसे वचन कहे, तब जावालि जी विनय युक्त हो यथार्थ, सत्य सममत और आस्तिक वचन बोले ॥ ३७ ॥

न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं

न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किञ्चन ।

समीक्ष्य कालं पुनरास्तिकोऽथवं

भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! मैं नास्तिकों जैसी बातें नहीं कहता और न मैं स्वयं नास्तिक हूँ । मेरे कहने का न यह अभिप्राय ही है कि पर-

१ अदीनसत्त्वम्—दैन्यसंसर्गशून्यम् । ( शि० )

लोकादि कुछ भी नहीं हैं। परन्तु समय के प्रभाव में पड़ अथवा समय की आवश्यकतानुसार मैं नास्तिक अथवा नास्तिक हो जाता हूँ ॥ ३८ ॥

स चापि कालोऽयमुपागतः शनैः

यथा मया नास्तिकवागुदीरिता ।

निवर्तनार्थं तव राम कारणात्

प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम् ॥ ३९ ॥

इति नवोत्तरशततमः सर्गः ॥

हे राम ! यह समय ऐसा ही था कि, मुझे नास्तिकों जैसे वचन कहने पड़े। मैंने यह वचन आपको प्रसन्न करने तथा आपको वन से लौटाने के लिये ही कहे थे ॥ ३९ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ नवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

दशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

[ नोट—११०वें सर्ग में श्रीराम जी को जावालि पर क्रुद्ध देख वशिष्ठ जी जावालि के कथन का सहृदय समझाने के लिये यह युक्ति देते हैं कि रघुवंश में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही को राजसिंहासन मिलता आया है। इस युक्ति की पुष्टि में वशिष्ठ जी इन्द्राकुवंश की संक्षिप्त वंशावली का निरूपण कर, श्रीराम का ध्यान बँटा कर उनका क्षोध शान्त करते हैं। ]

क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह ।

जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य॑ गतामतिम्❀ ॥१॥

१ लोकस्य—जनस्य । ( गो० ) ❀ पाठान्तरे—“ गतागतं ” ।

वशिष्ट जो ने जब देखा कि श्रीरामचन्द्र जो जावालि की बातों से क्रुद्ध हो गये हैं, तब वे श्रीराम जी से यह बोले—जावालि जी प्राणियों के आवागमन को मानते हैं ॥ १ ॥

निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद्वाक्यमब्रवीत्\* ।

इमां लोकसमुत्पत्तिं लोकनाथ निबोध मे ॥ २ ॥

तुमको लौटाने के जिये ही उन्होंने, ऐसी बातें तुमसे कही थीं । हे लोकनाथ ! इस लोक की उत्पत्ति का वर्णन तुम मुझसे सुनो ॥ २ ॥

सर्वं सलिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता ।

ततः समभवद्ब्रह्मा स्वयंभूदैवतैः सह ॥ ३ ॥

आरम्भ में जल ही जल था । उसी जल के भीतर पृथिवी बनी । तदनन्तर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥

स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम् ।

असृजच्च जगत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ४ ॥

तदनन्तर उन्होंने वराह रूप धारण कर जल से पृथिवी निकाली और अपने पुत्रों सहित इस सम्पूर्ण जगत को बनाया ॥४॥

आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ।

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचिः काश्यपः सुतः ॥ ५ ॥

सनातन, नित्य और अक्षय्य ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए और उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप हुए ॥ ५ ॥

विष्वान्काश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवस्वतः सुतः ।

स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६ ॥

\* पाठान्तरे—“ उक्त्वान् ” ।

कश्यप जी से विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य से मनु ने जन्म लिया । वैवस्वत मनु हो प्रजापतियों में प्रथम प्रजापति हुए और इन्हींके पुत्र इक्ष्वाकु थे ॥ ६ ॥

यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही ।

तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् ॥ ७ ॥

इन इक्ष्वाकु को महाराज मनु ने समृद्ध पृथिवी दी थी । इन्हीं इक्ष्वाकु को है राम ! तुम अयोध्या का प्रथम राजा जानो ॥ ७ ॥

इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येव\* विश्रुतः ।

कुक्षेरयात्मजो वीरो विकुक्षिरुदपद्यत ॥ ८ ॥

हे वीर ! इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान् कुक्षि नाम से प्रसिद्ध हुए और कुक्षि से विकुक्षि को उत्पत्ति हुई ॥ ८ ॥

विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान् ।

वाणस्य तु महाबाहुरनरण्यो महायशाः ॥ ९ ॥

विकुक्षि के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी वाण हुए । वाण के पुत्र महाबाहु और महायशस्वी अनरण्य हुए ॥ ९ ॥

नानावृष्टिर्वभूवास्मिन्न दुर्भिक्षं सतां वरे ।

अनरण्ये महाराजे तस्क्रुरो नापि करचन ॥ १० ॥

सज्जनों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्यत्व काल में न तो कभी सूखा पड़ा और न कभी अकाल । उनके राज्य में कोई चोर भी न था ॥ १० ॥

अनरण्यान्महाबाहुः पृथू राजा बभूव ह ।

तस्मात्पृथोर्महाराजस्त्रिशङ्करुदपद्यत ॥ ११ ॥



हे महाबाहो ! अनरण्य से पृथु जी ने जन्म लिया । पृथु जी से परम तेजस्वी त्रिशङ्कु उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥

स सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवं गतः ।

त्रिशङ्कोरभवत्सुनुर्धुन्धुमारो महायशाः ॥ १२ ॥

हे वीर ! यह त्रिशङ्कु ऐसे सत्यवादी थे कि, सशरीर स्वर्ग में गये थे । त्रिशङ्कु के पुत्र परम यशस्वी धुन्धुमार हुए ॥ १२ ॥

धुन्धुमारोन्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत ।

युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता समपद्यत ॥ १३ ॥

धुन्धुमार से महातेजस्वी युवनाश्व हुए । युवनाश्व के पुत्र श्रीमान् मान्धाता हुए ॥ १३ ॥

मान्धातुस्तु महातेजाः सुसन्धिरुदपद्यत ।

सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् ॥ १४ ॥

मान्धाता से परमतेजस्वी सुसन्धि जन्मे । सुसन्धि से ध्रुवसन्धि और प्रसेनजित् नाम के दो पुत्र हुए ॥ १४ ॥

यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो रिपुसूदनः ।

भरतात्तु महाबाहोरसितो नामतोऽभवत्\* ॥ १५ ॥

ध्रुवसन्धि के पुत्र रिपुसूदन और यशस्वी भरत हुए । महाबाहु भरत से असित का जन्म हुआ ॥ १५ ॥

यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ।

हैहयास्तालजङ्गाश्च शूराश्च शशिविन्दवः ॥ १६ ॥

हैहय, तालजंघ, शशिविन्द और शूर ने असित से शत्रुता की ॥ १६ ॥

\* पाठान्तरे—“ नाम जायत ” ।

तांस्तु सर्वान्प्रतिव्यूह युद्धे राजा प्रवासितः ।

स च शैलवरे रम्ये वभूवाभिरतो मुनिः ॥ १७ ॥

युद्ध के समय असित ने इन सब के विरुद्ध सैन्यव्यूह बना कर इनको घेरा, किन्तु इनको पराजित करना कठिन ज्ञाना और अपना राज्य छोड़ वै तप करने के लिये परम रमणीक हिमालय पर्वत पर चले गये ॥ १७ ॥

द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ वभूवतुरिति श्रुतिः ।

एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै सगरं ददौ ॥ १८ ॥

सुना जाता है कि, उनकी दो रानियाँ उस समय गर्भवती थीं । उनमें से एक ने अपनी सौत का गर्भ नाश करने के लिये उसे जहर दिया ॥ १८ ॥

भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः ।

तमृषिं समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत् ॥ १९ ॥

भृगुनन्दन च्यवन जी उस समय हिमालय पर्वत पर रहते थे । कालिन्दी नाम की रानी ने उन ऋषि के पास जा कर उनको प्रणाम किया ॥ १९ ॥

स तामभ्यवदद्विप्रो वरेप्सुं पुत्रजन्मनि ।

पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्रुतः ॥ २० ॥

महर्षि च्यवन ने जाना कि, इसे पुत्रप्राप्ति की इच्छा है, अतः प्रसन्न हो कर उस पुत्र की कामना रखने वाली रानी से कहा कि, हे देवि ! तुम्हारे गर्भ से बड़ा महारमा, लोकविख्यात पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २० ॥

धार्मिकश्च सुशीलश्च वंशकर्तारिसूदनः ।

कृत्वा प्रदक्षिणं\* सा तु मुनिं तमनुमान्य च ॥ २१ ॥

यह धर्मात्मा, सुशील, वंश बढ़ाने वाला और शत्रुओं को संहार करेगा । यह बात सुन रानी ने बड़े आदर भाव से मुनि की प्रदक्षिणा की ॥ २१ ॥

पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभम् ।

ततः सा गृहमागम्य देवी पुत्रं व्यजायत ॥ २२ ॥

और अपने घर लौट उस रानी ने कमलनयन और कमलगर्भ सदृश कान्तियुक्त पुत्र जना ॥ २२ ॥

सपत्नया तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया ।

गरेण सह तेनैव जातः स सगरोऽभवत् ॥ २३ ॥

इस पुत्र के उत्पन्न होने के पूर्व सौतिया डाह से कालिन्दी को उसकी सौत ने जो विष दिया था, उसी गर अर्थात् जहर के साथ पुत्र का जन्म होने से उस बालक का नाम सगर हुआ ॥ २३ ॥

स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत् ।

इष्ट्वा पर्वणि वेगेन त्रासयन्तमिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

उसने पर्व के समय यज्ञदीक्षा ले और खोदने से इस प्रजा को अस्त कर समुद्र खुदवाया ॥ २४ ॥

असमञ्जस्तु पुत्रोऽभूत्सगरस्येति नः श्रुतम् ।

जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत् ॥ २५ ॥

\* पाठान्तरे—“इष्ट्वा मुनिं तमनुमान्य च” ।

सुना जाता है कि, इन सगर के असमञ्जस नाम का एक वीर्य-  
वान पुत्र हुआ । वह प्रजा को सताता था अतः उसके पापकर्मों  
को देख पिता ने उसे निकाल दिया था ॥ २५ ॥

\*अंशुमानिति पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान् ।

दिलीपोंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २६ ॥

असमञ्जस के पुत्र वीर्यवान अंशुमान हुए । अंशुमान के पुत्र  
दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए ॥ २६ ॥

भगीरथात्ककुत्स्थस्तु काकुत्स्था येन विश्रुताः ।

ककुत्स्थस्य च पुत्रोऽभूद्रघुर्येन तु राघवाः ॥ २७ ॥

भगीरथ जी के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए । इन्हीं  
ककुत्स्थ जी और रघु जी से काकुत्स्थ और राघव नाम की वंश  
परम्पराएँ चलीं ॥ २७ ॥

रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः ।

कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि ॥ २८ ॥

रघु के एक तेजस्वी पुत्र हुआ जो प्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माष-  
पाद और सौदास के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ ॥ २८ ॥

कल्माषपादपुत्रोऽभूच्छङ्खणस्त्विति विश्रुतः ।

यस्तु तद्वीर्यमासाद्या सहसेनो व्यनीनशत् ॥ २९ ॥

कल्माषपाद से शङ्खण उत्पन्न हुआ । यह लोकप्रसिद्ध वीर्य  
को प्राप्त कर सेना सहित मेरे शाप से नाश को प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥

शङ्खणस्य च पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान्सुदर्शनः ।

सुदर्शनस्याग्निवर्णं अग्निवर्णस्य शीघ्रगः ॥ ३० ॥

शङ्ख से शूरवीर श्रीमान् सुदर्शन हुए । सुदर्शन से अश्विनवर्ण  
और अश्विनवर्ण से शीघ्रग हुए ॥ ३० ॥

शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुकः ।

प्रशुश्रुकस्य पुत्रोऽभूदम्बरीषो महाद्युतिः ॥ ३१ ॥

शीघ्रग के पुत्र मरु और मरु के पुत्र प्रशुश्रुक हुए । प्रशुश्रुक के  
पुत्र महाद्युतिमान् अम्बरीष हुए ॥ ३१ ॥

अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः ।

नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ३२ ॥

अम्बरीष के पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष हुए । नहुष के पुत्र  
नाभाग जी बड़े धर्मात्मा थे ॥ ३२ ॥

अजश्च सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ ।

अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः ॥ ३३ ॥

नाभाग के अज और सुव्रत नाम के दो पुत्र हुए । इनमें से अज  
के पुत्र धर्मात्मा महाराज दशरथ हुए ॥ ३३ ॥

[ यो जित्वा वसुधां कृत्स्नां दिवं शासति स प्रभुः । ]

तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो<sup>१</sup> राम इत्यभिविश्रुतः ॥३४॥

जिन महाराज दशरथ ने सम्पूर्ण पृथिवी जीत कर, स्वर्ग तक  
का शासन किया—उन्हीं महाराज दशरथ के विश्वविख्यात ज्येष्ठ  
पुत्र तुम हो । ( अतएव हे राजन् ! तुम अपने पिता का राज्य ग्रहण  
कर संसार का पालन-करो ) ॥ ३४ ॥

१ दायादः—सुतः । ( गी० )

तद्गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जनं नृप ।

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः ।

पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राज्येऽधिपिच्यते ॥ ३५ ॥

इक्ष्वाकु के वंश में ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा होता चला आया है । ज्येष्ठ राजकुमार के विद्यमान रहते छोटे को राजगद्दी नहीं मिल सकती ॥ ३५ ॥

स राघवाणां कुलधर्ममात्मनः

सनातनं नाद्य विहन्तुमर्हसि ।

प्रभूतरत्नामनुशाधि मेदिनीं

प्रभूतराष्ट्रां पितृवन्महायशः ॥ ३६ ॥

इति दशोत्तरशततमः सर्गः ॥

अतः तुम रघुवंशियों के इस सनातन कुलधर्म को लोप मत करो और अपने पिता की तरह यशस्वी हो कर, इस बहुरत्नों से पूर्ण और अनेक राज्यों से युक्त पृथिवी का शासन करो ॥ ३६ ॥

अयोध्याकाण्डे का एक सौ दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

एकादशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

वसिष्ठस्तु तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः ।

अब्रवीद्धर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १ ॥

राजपुरोहित वशिष्ठ जी श्रीराम जी से यह कह, फिर धर्म-सम्पत्ति वचन और भी बोले ॥ १ ॥

पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरुवस्त्रयः ।

आचार्यश्चैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ २ ॥

हे काकुत्स्थ ! हे राम ! पुरुष जब जन्मता है, तब उसके तीन गुरु होते हैं । पिता, माता और आचार्य ॥ २ ॥

पिता ह्येनं जनयति पुरुषं पुरुषर्षभ ।

मज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ ! पिता माता तो केवल शरीर को जन्म देते हैं, और आचार्य बुद्धि देता है । अतः वह गुरु कहलाता है ॥ ३ ॥

सोऽहं ते पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप ।

मम त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ४ ॥

हे परन्तप ! मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ । अतः मैं जो कहता हूँ उसे तुम मानो और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन मत करो ॥ ४ ॥

इमा हि तेः परिषदः<sup>१</sup> श्रेणयश्च<sup>२</sup> द्विजास्तथा<sup>४</sup> ।

एषु तात चरन्धर्म नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ५ ॥

हे तात ! देखो, ये सब तुम्हारे सम्बन्धी हैं, ये ब्राह्मण समूह हैं, ये पुरवासी हैं और ये सब क्षत्रिय वैश्य हैं । इनके प्रति निज कर्त्तव्य का पालन करो और सज्जनों की बाँधी मर्यादा का उल्लंघन मत करो ॥ ५ ॥

<sup>१</sup> ते—त्वत्सम्बन्धिनः । ( गो० ) <sup>२</sup> परिषदः—ब्राह्मणसमूहाः । ( गो० )

<sup>३</sup> श्रेणयः—पौरजनाः । ( गो० ) <sup>४</sup> द्विजाः—क्षत्रियाः वैश्याश्च । ( गो० )

वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्यवर्तितुम् ।

अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ६ ॥

देखो, यह बेचारी बूढ़ी और धर्मशीला तुम्हारी माता जो कहती है, उसका उल्लंघन करना तुमको उचित नहीं—क्योंकि जो पुरुष माता का कहना मानता है, वह सन्मार्गी कहलाता है ॥ ६ ॥

भरतस्य वचः कुर्वन्त्याचमानस्य राघव ।

आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ ॥

हे सत्यधर्म पराक्रमी राघव ! देखो, यह भरत आपसे याचना कर रहे हैं, सो इनकी बात मानने से भी तुम सद्गति से भ्रष्ट न होंगे ॥ ७ ॥

एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम् ।

प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः ॥ ८ ॥

जब गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार मधुरवाणी से कह कर आसन पर बैठे हुए थे, तब वशिष्ठ जी को पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने उत्तर दिया ॥ ८ ॥

यन्मातापितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा ।

न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम् ॥ ९ ॥

माता पिता, अपने पुत्र की जो सेवा या उपकार करते हैं, उसके बदले में प्रत्युपकार करना सहज नहीं है ॥ ९ ॥

यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छादनेन च ।

नित्यं च प्रियव्रादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १० ॥



क्योंकि वे अपनी सामर्थ्य से अधिक पुत्र को उत्तम उत्तम भोजन वस्त्रादि देते हैं, शिशु अवस्था में सुलाते हैं, और तेल आदि से उवटन करते हैं, मधुर से मधुर वचन कह कर जाड़ प्यार करते और पुत्र की वृद्धि व जीवित रहने के लिये अनेक उपाय करते हैं ॥ १० ॥

स हि राजा जनयिता पिता दशरथो मम ।

आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ११ ॥

सो वे महाराज दशरथ जो मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता थे । उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी ॥ ११ ॥

एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् ।

उवाच परमोदारः सूतं परमदुर्मनाः ॥ १२ ॥

श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन सुन, परम उदार भरत जी, समीप बैठे हुए सुमंत्र से उदास हो बोले ॥ १२ ॥

इह मे स्यण्डिले शीघ्रं कुशानास्तर सारथे ।

आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे न प्रसीदति ॥ १३ ॥

हे सारथे ! इन चक्रुतरे पर तुम शीघ्र कुशों को बिछा दो, जब तक मेरे उषेष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तब तक मैं इन्हीं कुशों पर धना दे कर बैठा रहूँगा ॥ १३ ॥

अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः ।

शेष्ये पुरस्ताच्छालाया यावन्न प्रतियास्यति ॥ १४ ॥

१ प्रत्यनन्तर—समीपस्थं । ( गो० ) २ प्रत्युपवेक्ष्यामि—प्रत्युपवेशन कर्म करिष्ये इत्यर्थः । ( १० ) ३ निरालोको—भवकुण्ठिताननः । ( गो० ) ४ धनहीनः—वृद्धयर्थमृणप्रदानास्त्रिधनः । ( गो० )

जब तक श्रीरामचन्द्र जी लौट कर श्रयोच्या न चलेंगे, तब तक मैं एक धनहीन ब्राह्मण की तरह, भोजन त्याग, मुँह ढक इसी कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा ॥ १४ ॥

[नोट—“धनहीन” ब्राह्मण से आदिकाव्यकार का अभिप्राय उस ब्राह्मण से है, जिसने अपने पास की पूँजी किसी धनिये नशाजन के पास अमानत. व्याज के नाम से जमा करा दी है और वह धनिया-महाजन धैर्य-मानी कर उसकी पूँजी को हड़प कर जाय। तब उस धनहीन ब्राह्मण के डिये सिवाय धरना देने के और कोई उपाय नहीं रह जाता।]

स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः ।

कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्स्वयम् ॥ १५ ॥

यह सुन सुमंत्र श्रीराम के मुख को श्राव ( उनकी अनुमति के लिये ) देखने लगे । तब भरत जी उदास हो, स्वयं ही कुश बिछा कर श्रीराम के सामने धरना दे कर बैठ गये ॥ १५ ॥

तमुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः ।

किं मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसि ॥ १६ ॥

भरत जी को इस प्रकार धरना दिये हुए बैठे देख, राजर्षियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी से बोले । हे भरत भैया ! मैंने क्या अपकार किया है जो तुम मेरे ऊपर धरना देते हो ? ॥ १६ ॥

ब्राह्मणो ब्रूकपार्श्वेन नरान्रोडुमिहार्हति ।

न तु सूर्धाभिपिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७ ॥

यह काम तो ब्राह्मण का है, जो एक करवट पड़ा हुआ धरना दे कर, अपने दुःखदाता का रोय करता है । किन्तु तिलकधारी क्षत्रिय के लिये यह धरना देना उचित नहीं ॥ १७ ॥

उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतदारुणं व्रतम् ।

पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ १८ ॥

हे नरव्याघ्र ! तुम इस कठोर व्रत को त्याग कर उठ खड़े हो  
और शीघ्र ही यहाँ से श्रेष्ठ पुरी अयोध्या को गमन करो ॥ १८ ॥

आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम् ।

उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्य नानुशासथ ॥ १९ ॥

तब भरत जी उसी प्रकार धरना दिये बैठे रहे और चारों ओर  
बैठे हुए पुरवासी और जनपदवासियों की ओर देख कर बोले  
तुम सब लोग श्रीरामचन्द्र जी से क्यों कुछ नहीं कहते ? ॥ १९ ॥

ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः ।

काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग्बदति राघवः ॥ २० ॥

तब वे पुरवासी और जनपदवासी श्रीरामचन्द्र जी से कहने  
लगे—हे महात्मा ! हम लोग जानते हैं कि, भरत जी का कहना  
बहुत ठीक है ॥ २० ॥

एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति ।

अतएव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा<sup>१</sup> ॥२१॥

फिर वे भरत जी से बोले—परन्तु श्रीरामचन्द्र जी से हम लोग  
आग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि महाभाग श्रीरामचन्द्र, पिता की  
आज्ञा पालन करने का बूढ़ सङ्कल्प किये हुए हैं । अतः हम लोगों  
में यह सामर्थ्य नहीं कि, इनको तुरन्त लौट चलने की कहें ॥ २१ ॥

तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमब्रवीत् ।

एवं निवोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षुषाम्<sup>१</sup> ॥ २२ ॥

उन सब लोगों के इन वचनों को सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी बोले हे भरत ! इन धर्मदर्शी अपने सुहृदों के वचन सुनो, और विचारो, वे क्या कह रहे हैं ॥ २२ ॥

एतच्चैवोभयं श्रुत्वा सम्यक्सम्पश्य राघव ।

उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां<sup>२</sup> च स्पृश तथोदकम्<sup>३</sup> ॥२३॥

हे रघुनन्दन ! इन दोनों बातों को सुन कर इन पर भली भाँति विचार कर उठ बैठो और क्षत्रिय के अयोग्य धन्ना देने के कार्य का प्रायश्चित्त करने के लिये आचमन कर मुझे स्पर्श करो ॥ २३ ॥

अथेत्याय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् ।

शृण्वन्तु मे परिपदो मन्त्रिणः श्रेणयस्तथा ॥२४॥

यह बात सुन भरत जो उठ बैठे और आचमन कर यह वचन बोले, हे ब्राह्मणों ! हे पुरजनों ! हे क्षत्रिय वैश्यों ! मेरी बात सुनो ॥ २४ ॥

न याचे<sup>४</sup> पितरं राज्यं नानुशासामि<sup>५</sup> मातरम् ।

आर्यं परमधर्मज्ञं नानुजानामि<sup>६</sup> राघवम् ॥ २५ ॥

१ धर्मचक्षुषाम्—धर्मदर्शिनः । ( रा० ) २ मां च स्पृश—क्षत्रिया विहित प्रत्युपवेशन प्रायश्चित्तार्थमित्यर्थः । ( गो० ) ३ उदकं स्पृश—उदकं स्पर्श आचमनार्थः । ( रा० ) ४ न याचे—नयाचित्तवान् । ( गो० ) ५ नानुशासामि—नानुशास्मि एवंकुर्वितिनानुशिष्टवानस्मीत्यर्थः । ( गो० ) ६ नानुजानामि—वनवासायनानुज्ञातवान् । ( गो० )

न तो मैंने पिता से राज्य मांगा और न मैंने अपनी माता को कुछ सिखाया पढ़ाया और न मुझे श्रीरामचन्द्र जी के वनवास ही का कुछ हाल मालूम था ॥ २५ ॥

यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः ।

अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश समा वने ॥ २६ ॥

यदि पिता के आज्ञानुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि वन १४ वर्ष वन में वास करूँगा । ( और श्रीरामचन्द्र मेरे प्रतिनिधि वन अयोध्या में जा राज्य करें ) ॥ २६ ॥

धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः ।

उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम् ॥ २७ ॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी भरत जी के इन सत्य वचनों से विस्मित हो पुत्रजन और जनपदवासियों की ओर देख कर बोले ॥ २७ ॥

विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम ।

न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ ॥

हमारे पिता महाराज दशरथ ने अपने जीते जी यदि कोई वस्तु बेच डाली, या मोल ली या किसी के यहाँ कोई वस्तु धरोहर धर दी, तो यह बात मेरे और भरत के अधिकार से बाहिर है कि, इनके किये को मँट दें । अर्थात् बेची हुई चीज़ फेर ले या खरीदी हुई चीज़ लौटा दे या धरोहरी चीज़ वापिस ले ले ॥ २८ ॥

उपधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः ।

युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम् ॥ २९ ॥

अतः मैं सज्जन जनों से निन्दा कथाने के लिये यह दुष्कर्म न करूँगा कि, अपना प्रतिनिधि बना भरत को वन भेजूँ । कैकेयी ने महाराज से जो कुछ कहा या माँगा सो ठीक ही कहा या माँगा और पिता जी ने जो कुछ किया या दिया सो भी उन्होंने अच्छा ही किया ॥ २६ ॥

जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम् ।

सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ ३० ॥

मैं यह जानता हूँ कि, भरत बड़े क्षमाशील और पूज्य बड़ों की मान मर्यादा रखने वाले हैं । इन सत्यसन्ध महात्मा में सब बातें भली ही भली हैं । ( अतएव इनके द्वारा राज्यशासन होने से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती ) ॥ ३० ॥

अनेन धर्मशीलेन वनात्प्रत्यागतः पुनः ।

आत्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥३१॥

मैं यह भी कहता हूँ कि, जब मैं वन से लौट कर आऊँगा, तब मैं अपने इन धर्मशील भाई भरत के साथ राज्य का शासनभार ग्रहण करूँगा ॥ ३१ ॥

वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् ।

अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम् ॥ ३२ ॥

इति एकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥

हे भरत ! महाराज से माता कैकेयी ने जो वर माँगा था, मैंने उस वर के अनुसार कार्य किया और महाराज पिता जी को मिथ्या भाषण से मुक्त किया, तुम भी कैकेयी को दिये हुए दूसरे वर के

अनुसार, राज्य ग्रहण कर महाराज को मिथ्याभाषण के दोष से मुक्त करो ॥ ३२ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ ग्यारहवां सर्ग पूरा हुआ ।

—:❖:—

### द्वादशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम् ।

विस्मिताः सङ्गमं प्रेक्ष्य समवेता महर्षयः ॥ १ ॥

उस समय वहाँ जो ऋषि आये हुए थे, वे अतुल तेजस्वी दोनों भ्राताओं का यह रोमहर्षणकारी समागम देख, विस्मित हुए ॥ १ ॥

१ अन्तर्हितास्तृपिगणाः २ सिद्धाश्च परमर्षयः ३ ।

तौ भ्रातरौ महात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशंससिरे ॥ २ ॥

पहले जो राजर्षिगण, सिद्धगण और देवर्षिगण अन्तर्धान थे, वे इन दोनों भाइयों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥ २ ॥

स धन्यो यस्य पुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ ४ ।

श्रुत्वा वयं हि संभाषामुभयोः स्पृहयामहे ५ ॥ ३ ॥

ये दोनों धर्मज्ञ और धर्मवीर राजकुमार जिन महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वे धन्य हैं । इन दोनों की बातचीत सुन, हम लोगों को

१ अन्तर्हिताः—पूर्वमेवान्तर्धानं प्राप्तः । ( गो० ) २ ऋषिगणाः—  
राजर्षिगणाः । ( गो० ) ३ परमर्षयः—देवर्षयः । ( गो० ) ४ धर्मविक्रमौ—  
धर्मशूरौ । ५ स्पृहयामहे—पुनः पुनः श्रोतुं वाञ्छामः । ( वि० )

यह इच्छा हो रही है कि, इन दोनों की वार्तालाप हम बार बार सुना करें ॥ ३ ॥

ततस्तृपिगणाः क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः ।

भरतं राजशार्दूलमित्यूचुः सङ्गताः वचः ॥ ४ ॥

तदनन्तर वे ऋषिगण, जो रावण का वध शीघ्र करवाना चाहते थे, पुनर्वर्तिह भरत के पास गये और एक स्वर से यह बोले ॥ ४ ॥

कुलेजात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः ।

ग्राह्यं रामस्य वाक्यं तेऽपितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥

हे श्रद्धालु प्रतिज्ञा वाले ! हे शुभ चरित्रयुक्त महायशस्वी भरत ! तुमने कुलीनकुल में जन्म लिया है। यदि तुम अपने पिता को सुखी करना चाहते हो, तो तुम्हें वही करना उचित है, जो श्रीरामचन्द्र जी तुमसे कहते हैं ॥ ५ ॥

सदानृणामिमं रामं वयमिच्छामहे पितुः ।

अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः ॥ ६ ॥

हम सब यही चाहते हैं कि, श्री रामचन्द्र जी अपने पिता के ऋण से उन्मृण हों। ( क्योंकि ) कैकेयी के ऋण से उन्मृण होने से महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं ॥ ६ ॥

एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समर्षयः ।

राजर्षयश्चैव तदा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः ॥ ७ ॥

१ संगताः—एककण्ठ्यंप्राप्ताः । ( गो० ) २ पितरं यद्यवेक्षसे—  
पितुः सुखं यदीच्छसि । ( रा० )



यह कह कर गन्धर्व, रात्रिर्षि तथा देवर्षि सब अपने अपने स्थानों को चले गये ॥ ७ ॥

छादिस्तेन वाक्येन शुभेन शुभदर्शनः ।

रामः संहृष्टवदनस्तानृपीनभ्यपूजयत् ॥ ८ ॥

शुभदर्शन श्रीरामचन्द्र जी ने उन ऋषियों के इस कथन से हर्षित हो, उनसे कहा कि, आपने भलो भाँति मेरा धर्म बताया ॥ ८ ॥

त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया ।

कृताञ्जलिर्दिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत् ॥ ९ ॥

उस समय भरत जी डर कर गद्गदवाणी से हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी से फिर बोले ॥ ९ ॥

राजधर्ममनुमेक्ष्य कुलधर्मानुसन्ततिम् ।

कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम् ॥ १० ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! राज्यपरिपालन धर्म और ज्येष्ठ ही को अधिकार प्राप्त होता आया है—इस कुलप्रथा पर भलो भाँति विचार कर, आपको मेरी माता कौशल्या की प्रार्थना पूरी करनी चाहिये ॥ १० ॥

रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नेत्सहे ।

पौरजानपदांश्चापि रक्तान् रक्षयितुं तथा ॥ ११ ॥

इस बड़े राज्य की अफ़ेजे रक्षा करने का और आपमें अनु-राग रखने वाले इन पुरवासियों तथा जनपदवासियों का मनोरञ्जन करने का मुझे साहस नहीं होता ॥ ११ ॥

१ अभ्यपूजयत्—सभ्यहर्षमाधर्मतोरक्षितवन्त । ( रा० ) २ मममातुः—कौशल्याया । ( रा० ) ३ रक्तान्—त्यद्विषयकानुरामविशिष्टान् । ( सि० )

ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः ।

त्वामेव प्रतिकाङ्क्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥ १२ ॥

जाति विरादरी वाले, सैनिक, इष्ट मित्र—सब के सब, जल वरसाने वाले मेघ को आशा करने वाले उल्लुभू किसान की तरह, एकमात्र आप ही के राज्यशासन को प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १२ ॥

इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय । प्रतिपद्य हि ।

शक्तिमानसि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३ ॥

अतएव हे बुद्धिमान् ! आप इस राज्य को ग्रहण कीजिये और जिसको चाहिये उसे राजसिंहासन पर बिठा दीजिये । क्योंकि राज्यशासन करने को, हे काकुत्स्थ ! आप ही समर्थ हैं ॥ १३ ॥

इत्युक्त्वा न्यपतद्भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा ।

भृशं सम्प्रार्थयामास राममेव प्रियंवदः ॥ १४ ॥

यह कह कर भरत जो अपने भाई श्रीरामचन्द्र के चरणों में गिर पड़े और हे राम ! हे राम !—इस प्रकार सम्बोधित कर बार बार प्रार्थना करने लगे ॥ १४ ॥

तमङ्गे भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत् ।

श्यामं नलिनपत्राक्षं भक्तहंसस्वरं स्वयम् ॥ १५ ॥

भरत को चरणों में पड़ा देख, श्रीरामचन्द्र जो ने मतवाले हंस की तरह मनोहर कण्ठ वाले, कमलदल समान नेत्रवाले और श्यामवर्ण भरत को उठा कर अपनी गोद में बिठाया और उनसे बोले ॥ १५ ॥

आगता त्वामियं<sup>१</sup> बुद्धिः स्वजा<sup>२</sup> वैनयिकी च या ।

भृशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६ ॥

मेरे वनवास के विरुद्ध और राज्यशासन स्वीकार कर किसी को राजसिंहासन पर विठा देने की बात जो तुमने कही, वह स्वाभाविक और गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होने का फल स्वरूप है । अतः ( इससे स्पष्ट है कि ) तुम भती भाति राज्यशासन कर सकते हो । ( अर्थात् तुम्हारी ऐसी सुन्दर बुद्धि का होना ही तुममें सुशासन की योग्यता के होने का प्रमाण है ) ॥ १६ ॥

अमात्यैश्च<sup>३</sup> सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मन्त्रिभिः<sup>४</sup> ।

सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य सुमहान्त्यपि कारय ॥ १७ ॥

अब तुम प्रधान सचिव, सुहृद, बुद्धिमानों और उपमंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों के सम्बन्ध में परामर्श ले राज्य को सुव्यवस्था करो ॥ १७ ॥

लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत् ।

अतीयात्सागरो वेलं न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ ॥

चन्द्रमा की शोभा चन्द्रमा को भले ही छोड़ दे, हिमालय भले ही हिम को छोड़ दे । भले ही समुद्र अपनी सीमा को नाँघ जाय, किन्तु मैं पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता ॥ १८ ॥

कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम् ।

न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् ॥ १९ ॥

१ इयंबुद्धिः—मदनवासविरोधिनी स्त्रीयत्वेनांगीकृत्यस्थापनविषया ।

( १० ) २ स्वजा—स्वाभाविकी । ( १० ) ३ अमात्यैः—प्रधानसचिवैः ।

( १० ) ४ मन्त्रिभिः—उपमन्त्रिभिः । ( १० )

है तात ! तुम्हारी माता ने भले ही तुम्हारे स्नेह अथवा तुमको राज्य दिलाने के लोभ के बशवर्ती है, यह काम किया हो, परन्तु तुम इन बातों को अपने मन में न रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना ॥ १९ ॥

एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत् ।

तेजसाऽऽदित्यसङ्काशं प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम् ॥ २० ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा. तब तेज में सूर्य के समान अथवा प्रतिपदा के चन्द्रमा की तरह प्रियदर्शन, कौशल्यानन्दन से भरत जी कहने लगे ॥ २० ॥

अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते ।

एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ २१ ॥

हे आर्य ! इन सुवर्णभूषित पादुकाओं पर आप अपने चरण रखिये, क्योंकि ये ही देशों खड़ाऊँ सब के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी ॥ २१ ॥

[ नोट—अप्राप्त-बलु की प्राप्ति योग और प्राप्त-बलु की रक्षा क्षेम । ]

सौऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके ह्यवल्ह्य च ।

प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ ॥

भरत के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र ने ये खड़ाऊँ अपने पैरों में पहिन लीं और फिर उनको उतार कर महात्मा भरत को दे दीं ॥ २२ ॥

स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत् ।

चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरवरो ब्रह्म ॥ २३ ॥

फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन ।

तवागमनमाकाङ्क्षन्वसन्वै नगराद्बहिः ॥ २४ ॥

तब भरत जी ने भक्ति सहित उन दोनों खड़ाउओं को प्रणाम कर, श्रीरामचन्द्र जी से कहा कि, आज से ले कर चौदह वर्ष तक जटा चीर धारण कर और कंदमूल फल खा कर, तुम्हारे आगमन की वाट जोहता हुआ, हे रघुनन्दन ! मैं नगर के बाहिर रहूँगा ॥ २३ ॥ २४ ॥

तव पादुकयोर्न्यस्य\* राज्यतन्त्रां परन्तप ।

चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षेऽह्नि रघूत्तम ॥ २५ ॥

न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ।

तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम् ॥ २६ ॥

हे परन्तप ! सब राजकार्य आपकी खड़ाउओं को अर्पण कर, ( मैं राज्य का प्रबन्ध करता रहूँगा परन्तु ) जिस दिन चौदहवाँ वर्ष पूरा होगा उस दिन भी यदि आपको मैंने अयोध्या में न देखा तो मैं अग्नि में गिर कर भस्म हो जाऊँगा । भरत की इस बात को सुन श्रीरामचन्द्र जी ने “ तथास्तु ” ( ऐसा ही होगा ) कह कर ( चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही लौट कर आ जाने की ) प्रतिज्ञा की और भरत को आदर पूर्वक हृदय से लगाया ॥ २५ ॥ २६ ॥

शत्रुघ्नं च परिष्वज्य भरतं चेदमब्रवीत् ।

मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २७ ॥

फिर भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगा कर श्रीराम जी ने भरत जी से यह कहा कि, देखो माता कैकेयी की रक्षा करना । खबरदार उस पर क्रोध मत करना ॥ २७ ॥

\* पाठान्तरे—“ न्यस्त ” । † पाठान्तरे—“ राजतन्त्रः ” ।

मया च सीतया चैव शप्नोऽसि रघुसत्तम ।

इत्युक्त्वाऽश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्ज ह ॥ २८ ॥

इसके लिये तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है । यह कह नेत्रों में आँसू भर श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों भाइयों को विदा किया ॥२८॥

स पादुके ते भरतः प्रतापवान्

स्वलंकृते सम्परिपूज्य धर्मवित् ।

प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं

चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि ॥ २९ ॥

तव धर्मात्मा भरत जी ने उन अलंकृत और अति उज्ज्वल खड़ाउओं का भली भाँति पूजन किया । तदनन्तर श्रीराम जी की परिक्रमा कर उन खड़ाउओं को ( उस ) उत्तम हाथी के मस्तक पर रखा, ( जिस पर महाराज दशरथ सवार हुआ करते थे ) ॥ २९ ॥

अथानुपूर्व्यात्प्रतिनन्द्य तं जनं

गुरुंश्च मन्त्रिप्रकृतीस्तथाऽनुजौ ।

व्यसर्जयद्राघववंशवर्धनः

स्थिरः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः ॥ ३० ॥

तदनन्तर हिमालय की तरह अपने धर्मपालन में अटल अचल, रघुवंश के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने यथाक्रम गुरु, मंत्री, प्रजा और दोनों छोटे भाइयों का सत्कार कर, उन सब को विदा किया ॥ ३० ॥

तं मातरो वाष्पगृहीतकण्ठ्यो

दुःखेन नामन्त्रयि तुंहि शेकुः ।

स त्वेव मातरभिवाद्य सर्वा

रुदन्कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१ ॥

इति द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥

गद्गदकराठ और शोक से विकल होने के कारण माताओं में से किसी भी माता के मुख से श्रीरामचन्द्र जी के प्रति एक बात भी न निकल सकी । श्रीरामचन्द्र जी भी सब मताओं को प्रणाम कर, राते विलपते कुटी के भीतर चले गये ॥ ३१ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ बारहवां सर्ग समाप्त हुआ ।

—:❀:—

त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा ।

आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ १ ॥

तदनन्तर भरत जी ने हाथों के मस्तक से छड़ाऊ उतार अपने मस्तक पर रखीं और हर्षित होते हुए और शत्रुघ्न को अपने साथ ले, रथ पर सवार हुए ॥ १ ॥

वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च द्रुवमतः ।

अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २ ॥

वशिष्ठ, वामदेव, द्रुवमत जावालि तथा विचारचतुर अन्य सब मंत्री आगे आगे चले ॥ २ ॥

मन्दाकिनीं नदीं\* पुण्यां प्राङ्मुखास्ते ययुस्तदा ।  
प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्चित्रकूटं महागिरिम् ॥ ३ ॥

सग लोग महागिरि चित्रकूट की परिक्रमा कर रमणीय मन्दा-  
किनी के सामने पूर्व की ओर जाने लगे ॥ ३ ॥

पश्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च ।  
प्रययौ तस्य पार्श्वेन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥

भरत जी अपनी सेना के साथ नाना प्रकार की मनोहर धातुओं  
को देखते देखते चित्रकूट के उत्तर चले जाते थे ॥ ४ ॥

अदूराच्चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा ।  
आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः ॥ ५ ॥

भरत जी ने चित्रकूट से थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम देखा,  
जिसमें ऋषियों सहित भरद्वाज मुनि रहते थे ॥ ५ ॥

स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य बुद्धिमान् ।  
अवतीर्य रथात्पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ ॥

बुद्धिमान् भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँच, भरत जी रथ से  
उतर पड़े और मुनि जी को प्रणाम किया ॥ ६ ॥

ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत् ।  
अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम् ॥ ७ ॥

तब भरद्वाज जी ने प्रसन्न हो, भरत से कहा—हे तात ! क्या  
तुम्हारी श्रीरामचन्द्र से भेंट हुई ? क्या तुम्हारा मनोरथ सिद्ध  
हुआ ? ॥ ७ ॥

\* पाठान्तरे—“ रम्या ” । † पाठान्तरे—“ भरतस्तदा । ”



एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता ।

प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो भ्रातृवत्सलः ॥ ८ ॥

जय बुद्धिमान् भरद्वाज जो ने इस प्रकार पूँछा, तब भ्रातृवत्सल भरत जो ने भरद्वाज जां को उत्तर देते हुए कहा ॥ ८ ॥

स याच्यमानो गुरुणां मया च दृढविक्रमः ।

राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमब्रवीत् ॥ ९ ॥

हे भगवन् ! मैंने और गुरु वशिष्ठ जो ने जब श्रीरामचन्द्र जी से लौटने के लिये प्रार्थना की, तब श्रीरामचन्द्र जी ने परम प्रसन्न हो वशिष्ठ जी से कहा ॥ ९ ॥

पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः ।

चतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ १० ॥

पिता जो ने मुझे चौदह वर्ष वन में रखने की जो प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी इस प्रतिज्ञा का यथावत् पालन करूँगा ॥ १० ॥

एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाच ह ।

वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत् ॥ ११ ॥

इस प्रकार कहे जाने पर, वचन बोलने वालों में चतुर और बड़े विद्वान वशिष्ठ जी ने उन वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र से यह महत्व की बात कही ॥ ११ ॥

एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते ।

अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरे तव ॥ १२ ॥

हे महाप्राज्ञ ! तब इस समय तुम हर्षित हो प्रतिनिधि के समान अपनी इन सुवर्णभूषित खड़ाऊओं को दे दे और अयोध्या के योग क्षेम में तत्पर बने रहो ॥ १२ ॥

एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः ।

पादुके अधिरुह्यैते मम राज्याय वै ददौ ॥ १३ ॥

हे भरद्वाज जी ! वशिष्ठ जी के ये वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी ने पूर्व की ओर मुख कर, इन खड़ाऊओं को पहिना और राज्य के पालन को सामर्थ्य रखने वाली ये खड़ाऊ मुझे दे दी ॥ १३ ॥

निवृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना ।

अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे ॥ १४ ॥

उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी को आज्ञा से उनको लौटा जाने के उद्देश्य से निवृत्त हो कर, मैं इन शुभ खड़ाऊओं को ले अयोध्या को लौटा जा रहा हूँ ॥ १४ ॥

एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः ।

भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वाक्यमुवाच तम् ॥ १५ ॥

महात्मा भरत जी के ये शुभ वचन सुन, महर्षि भरद्वाज जी उनसे शुभतर वचन बोले ॥ १५ ॥

नैतच्चित्रं नरव्याघ्र शीलवृत्तवतां वर ।

यदार्यं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्ने<sup>१</sup> सृष्टमिवोदकम् ॥ १६ ॥

हे सुशील और चरित्रवान् पुरुषसिंह ! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि, तुममें ऐसी सुजनता है। क्योंकि पानी बह कर तो तालाब या गढ़े ही में जमा होता है ॥ १६ ॥

१ निम्ने—तटाकादी । ( गो० ) २ सृष्टं—सृष्टं । ( गो० )

अमृतः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव ।

यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मज्ञो धर्मवत्सलः ॥ १७ ॥

जिनके तुम जैसे धर्मात्मा और धर्मवत्सल पुत्र हैं वे महाबाहु  
महाराज दशरथ अजर अमर हैं ॥ १७ ॥

तमृषिं तु महात्मानमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः ।

आमन्त्रयितुमारंभे चरणानुपगृह्य च ॥ १८ ॥

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः ।

भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥

इस प्रकार मुनि का वचन सुन, भरत हाथ जोड़ और उनके  
चरण छू और बार बार परिक्रमा कर, उनसे विदा हो, मंत्रियों  
सहित अयोध्या को पध्यानित हुए ॥ १८ ॥ १९ ॥

यानैश्च सकटैश्चैव हयैर्नागैश्च सा चमूः ।

पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २० ॥

भरत जी के साथ जो सेना थी वह भी उनके पीछे हो ली ।  
इस सेना के लोगों में से कोई रथों कोई झुंड़ों कोई हाथियों और  
कोई घोड़ों पर सवार थे ॥ २० ॥

ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्त्वाभिर्मालिनीम् ।

ददृशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शुभजलां नदीम् ॥ २१ ॥

तदनन्तर वे सब लोग, लहरों से लहराती यमुना को पार कर  
फिर पवित्रतोया गङ्गा के तट पर पहुँचे ॥ २१ ॥

तां\* पुण्यजलसम्पूर्णां सन्तीर्य सहबान्धवः ।

शृङ्गिवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥ २२ ॥

भरत जी सेना तथा भाई वंशों के साथ पवित्र जल से पूर्ण गङ्गा को पार कर शृङ्गवेरपुर में पहुँचे ॥ २२ ॥

शृङ्गवेरपुराद्भूयस्त्वयोध्यां सन्ददर्श ह ।

अयोध्यां च ततो दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम् ॥२३॥

शृङ्गवेरपुर से, चल कर भरत उस अयोध्यापुरी में पहुँचे, जो कि, उनके पिता महाराज दशरथ से और भाई श्रीरामचन्द्र से हीन थी ॥ २३ ॥

भरतो दुःखसन्तप्तः सारथिं चेदमब्रवीत् ।

सारथे पश्य विध्वस्ता साज्योध्या न प्रकाशते ।

निराकारा<sup>१</sup> निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वरा ॥ २४ ॥

इति अयोदशोत्तरशततमः सर्गः ॥

ऐसी उदास अयोध्यापुरी को देख भरत जी दुःख से सन्तप्त हो सारथी से बोले कि, हे सारथे ! देखो, यह अयोध्या कैसी ध्वस्त हो रही है । यह अब पहले जैसी शोभायुक्त अयोध्या नहीं रही । क्योंकि इसमें न तो कहीं सजावट है, और न कहीं आनन्दोत्सव ही देख पड़ते हैं । यह बड़ी दीन दिखलाई पड़ती है । देखो, नगर भर में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है ॥ २४ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

## चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्प्रभुः ।

अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः ॥ १ ॥

इस प्रकार महाशरणां भरत जी ने, चलते समय गंभीर ध्वनि करने वाले रथ में बंठ, शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया ॥ १ ॥

विडालोलूकचरितामालीननरवारणाम् ।

तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥

नगरी में जा कर भरत जी ने देखा कि, अयोध्या में जिधर देखो उधर ही भिल्लियां और उलूक दिखलाई पड़ते हैं। घरों के द्वार बंद हैं। चारों ओर वैसे ही अंधकार छा रहा है जैसे कृष्णपक्ष की रात में अंधकार ही अंधकार देख पड़ता है ॥ २ ॥

राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभाम् ।

ग्रहेणाभ्युत्थितेनैकां रोहिणीमिव पीडिताम् ॥ ३ ॥

अथवा जिस प्रकार चन्द्रमा क राहु द्वारा ग्रसे जाने पर रोहिणी की शोभा नष्ट सी देख पड़ती है, उसी प्रकार अयोध्या की दशा हो रही है ॥ ३ ॥

\*अल्पोष्णत्क्षुब्धसलिलां घर्मोत्तप्तविहङ्गमाम् ।

लीनमीनभ्रपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥

अथवा गरमी के मौसम में जिस समय पहाड़ी नदियों का जल सूर्य की गर्मी से गरम और मैला हो जाता है और वहाँ के जल-पक्षी गर्मी के कारण वहाँ से उड़ कर, अन्यत्र चले जाते हैं और

\* पाठान्तरे—“अनिलोत्क्षुब्ध” ।

मन्त्रालियां मर जाती हैं, तथा अन्य जन्तु भी वहाँ नहीं रहते, एवं उस नदी की जो शोच्य दशा होती है वही शोच्य दशा अयोध्या की है ॥ ४ ॥

विधूमामिव हेमाभामध्वराग्नेः समुत्थिताम् ।

हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां प्रविलयं गताम् ॥ ५ ॥

अथवा, जिस प्रकार धो को आहुति से अग्नि की शिखा पहले तो सोने के समान उज्ज्वल ज्योति का प्रकाश करती है, पीछे उसमें किसी गीली वस्तु के गिरने से वह सहसा मन्द पड़ जाती है और अग्नी नहीं लगती, उसी प्रकार धीरामचन्द्र जी के विरह में अयोध्या देख पड़ती है ॥ ५ ॥

विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम् ।

हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे ॥ ६ ॥

अथवा वह अयोध्या ऐसी जान पड़ती है, जैसी वह सेना जिसके (वीरों के) कवच, हाथी, घोड़े रथ और ध्वजा किसी महायुद्ध में क्षिप्त भिन्न हो जाने तथा वीर योद्धाओं के मारे जाने के कारण, विपन्न दशा को प्राप्त हुई हो ॥ ६ ॥

\*सफेनां सखनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम् ।

प्रशान्तमारुतोद्धूतां अलोर्मिमिव निःखनाम् ॥ ७ ॥

अथवा, प्रवल वायु के वेग से समुद्र की लहरें जिस प्रकार भागों सहित गरजती हुई उठती हैं, और पीछे मंद पवन के चलने से शब्दरहित हो जाती हैं, उसी प्रकार अयोध्यापुरी हो रही है ॥ ७ ॥

त्यक्तां यज्ञायुधैः सर्वैरभिरूपैश्च याजकैः ।

सुत्याकाले विनिर्घृत्तेवेदिं गतरवामिव ॥ ८ ॥

१ सुत्याकाले—समाप्त । ( शि० ) \* पाठान्तरे—“सफेना सखना” ।

अथवा जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर योम्य याचकों से रहित हो, यज्ञशाला सुनसान हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान देख पड़ती है ॥ ८ ॥

गोष्ठमध्ये स्थितामार्तामचरन्तीं तृणं नवम् ।

गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीभिवोत्सुकाम् ॥ ९ ॥

अथवा जिस प्रकार साड़ के वियोग में तरुण गाय, उत्कण्ठित हो ताँजो हरी घास न खा कर, उदास हो गोशाला में खड़ी रहती है—उसी प्रकार अयोध्या भी उदास देख पड़ती है ॥ ९ ॥

प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः ।

वियुक्तां मणिभिर्जात्यैर्नवां मुक्तावलीमिव ॥ १० ॥

अथवा जैसे चमकीली और सुन्दर मणियों से हीन, मोतियों का नया हार शोभारहित हो जाता है, वैसे ही अयोध्या शोभाहीन हो रही है ॥ १० ॥

सहसा चलितां स्थानान्महीं पुण्यक्षयाद्गताम् ।

संहृतद्युतविस्तारां तारामिव दिवश्च्युताम् ॥ ११ ॥

अथवा, जिस प्रकार पुण्यक्षय होने पर, अपने स्थान से चलायमान हो आकाश से दिन में गिरने से, तारा प्रभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार अयोध्या भी प्रभाहीन हो रही है ॥ ११ ॥

पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरनादिताम् ।

द्वुत्तदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां, वनलतामिव ॥ १२ ॥

अथवा, वसन्तऋतु के अन्त में जैसे प्रतवाले मौसमों से गुज़ारित खिले हुए फूलों वाली वनजला, वन की आग से झुलस जाती है, वैसे ही अयोध्या भी झुलसी हुई सी देख पड़ती है ॥ १२ ॥

१समूहनिगमां स्तव्यां संक्षिप्तविषयापणाम् ।

प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां धामिवाम्बुधरैर्दृताम् ॥ १३ ॥

अयोध्या के राजमार्ग सुनसान पड़े हैं । बाज़ार नव बंद हैं न तो कोई दुकान ही खुली है और न कहीं कोई चीज़ ही विक रही है । जैसे वर्षाकाल में मेघों से आकाश व्याप्त होने के कारण, चन्द्रमा और नक्षत्रों से हीन रात डरावनी जान पड़ती है, वैसे ही अयोध्या भी डरावनी देख पड़ती है ॥ १३ ॥

क्षीणपानोत्तमैर्भिन्नैः शरावैरभिसंवृताम् ।

दृतशौण्डामिवाकाशे<sup>३</sup> पानभूमिमसंस्कृताम् ॥ १४ ॥

अथवा अयोध्यापुरी ऐसी जान पड़ती है, मानों मद पीने वालों के मारे जाने से मद से रहित, दूरे फूटे पात्रों से भरो, बिना झाड़ी बुहारी, मैदान में, मद्यपानशाला हो ॥ १४ ॥

३वृक्वणभूमितलां निम्नां वृक्वणपात्रैः समावृताम् ।

उपयुक्तोदकां<sup>४</sup> अक्षां प्रपां निपतितामिव<sup>५</sup> ॥ १५ ॥

अथवा अयोध्यापुरी उस पौशाला की तरह देख पड़ती है जिसको भूमि विदीर्ण होने के कारण घबस्त हो गयी हो और

१ समूहनिगमां—जनसञ्चाररहितमार्ग । ( गी० ) २ आकाशे—जलावृतदेशे । ( गी० ) ३ वृक्वणभूमितलां—विदीर्णभूमितलां । ( गी० ) ४ उपयुक्तोदकां—समाप्तसखिलां । ( शि० ) ५ निपतितां— विवासाय विपत्तिवर्ता । ( शि० )



जिसमें दूटे फूटे वरतन भरे पड़े हों, और जहाँ पानी चुक जाने के कारण प्यासे लोग पड़े हों ॥ १५ ॥

विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम्<sup>१</sup> ।

भूमौ वाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधात्<sup>२</sup> ॥१६॥

अथवा अयोध्या वैसी ही शोभाहीन देख पड़ती है, जैसी की किसी बड़े धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यञ्चा (डोरी) बलवान् वीरों के बाणों से कट कर धनुष से गिर पृथिवी पर पड़ी शोभाहीन होती है ॥ १६ ॥

सहसा युद्धशौण्डेन<sup>३</sup> हयारोहेण वाहिताम् ।

निक्षिप्तभाण्डामुत्सृष्टां<sup>४</sup> किशोरीमिव दुर्वलाम् ॥१७॥

अथवा जैसे युद्धचतुर मनुष्य से हठात् सवारी की गयी दुर्बल घोड़ी, जो शत्रुसैन्य से मार कर गिरा दी गयी हो, शोभाहीन देख पड़ती है ॥ १७ ॥

भरतस्तु रथस्थः सञ्ज्रीमान्दशरथात्मजः ।

वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् ॥ १८ ॥

रथ पर बैठे हुए श्रीमान् दशरथनन्दन भरत जी उन सुमंत्र से बोले, जो उस उत्तम रथ को हाँक रहे थे ॥ १८ ॥

किं नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्छितो न निशम्यते ।

यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्वनः ॥ १९ ॥

१ तरस्विनां—वीराणां । ( गो० ) २ आयुधात्—धनुषः । ( गो० )  
३ युद्धशौण्डेन—आहवसमर्थेन । ( गो० ) ४ निक्षिप्तभाण्डाम्—अवरोपित-  
अथमूषां । ( गो० ) ५ उत्सृष्टां—बाढनानहीं । ( गो० ) ६ किशोरी—  
वालवहर्वा । ( गो० ) ७ किंनुखलु—अद्वाक्यं जातमित्यर्थः । ( गो० )

हाय ! कैसे दुःख की बात है कि, इस पुरी में जैसे पहले गाना वजाना हुआ करता था, वैसा आज कहीं नहीं सुनाई पड़ता ॥ १९ ॥

वारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः ।

धूपितागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २० ॥

फूल मालाओं की मस्त करने वाली एवं चन्दन अगर की धूप की सुगन्धि पहले की तरह चारों ओर फैली हुई नहीं जान पड़ती । अथवा जैसा पहले पुष्प चन्दन और अगर का गन्ध चारों ओर फैला रहता था वैसा आज नहीं फैल रहा ॥ २० ॥

यानप्रवरघोषश्च स्निग्धश्च ह्यनिःस्वनः ।

प्रमत्तगजनादश्च महार्शश्च रथनिस्वनः ॥ २१ ॥

नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां राम विवासिते ।

चन्दनागरुगन्धांश्च महार्हाश्च नवस्रजः ॥ २२ ॥

गते हि रामे तरुणाः सन्तप्ता नोपभुञ्जते ।

वहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥ २३ ॥

हे सुमंत्र ! जैसा कि, पूर्वकाल में रथ आदि सवारियों के चलने का शब्द, घोड़ों के हिनहिनाने और हाथियों के चिंघाड़ने का शब्द सुन पड़ता था, वैसा आज इस पुरी में श्रीराम जी के वन में चले जाने के कारण नहीं सुन पड़ता । हाय ! चन्दन और बड़े मूल्यवान् ताजे पुष्पहारों को श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में सन्तप्त हो अयोध्यावासी तरुणों ने धारण करना त्याग दिया है । अब लोग चित्रविचित्र पुष्प मालाएँ धारण कर बाहिर नहीं निकलते ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

नेत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे ।

सह नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता ॥ २४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के शोक से सब नगरवासी ऐसे विकल हैं कि, उत्सव का नाम तक सुनाई नहीं पड़ता, मानों इस नगरी की शोभा मेरे भाई के साथ चली गयी ॥ २४ ॥

न हि राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी<sup>१</sup> क्षपाः ।

कदा नु खलु मे भ्राता महेत्सव इवागतः ।

जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥ २५ ॥

हा ! यह अयोध्या तो मूसलधार वर्षा से युक्त शुक्लपत्त की रात्रि की तरह प्रकाशहीन हो गयी है । ( अर्थात् शुक्लपत्त की रात बड़ी सुहावनी होती है, किन्तु बदली जा जाने के कारण उसका सुहावनापन नष्ट हो जाता है । ) सो कब मेरे भाई श्रीरामचन्द्र उत्सव की तरह यहाँ आ कर, ग्रीष्मकालीन मेघ की तरह अयोध्या में आनन्द की वर्षा करेंगे ॥ २५ ॥

तरुणैश्चारुवेषैश्च नरैरुन्नतगामिभिः<sup>४</sup> ।

सम्पद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः ॥ २६ ॥

जैसे पहिले सुन्दर वेष धारण कर और अकड़ कर चलने वाले जवानों से राजमार्ग की शोभा होती थी, वैसी शोभा अयोध्या के राजमार्गों की अब नहीं देख पड़ती ॥ २६ ॥

एवं बहुविधं जल्पन्विवेश वसतिं पितुः ।

तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव ॥ २७ ॥

१ सासारा—वेगवद्वृष्टि सहिता । ( गो० ) २ भर्जुनी—शुक्लपत्त सम्बन्धनी । ( गो० ) ३ क्षपा—रात्रि । ( रा० ) ४ उन्नतगामिभिः—सगर्व-गमनैः । ( गो० )

इस प्रकार शोक सन्ताप करते हुए भरत जी ने, अपने पिता के निवासस्थान में, जो महाराज के विना सिंहरहित गुफा की तरह जान पड़ता था, प्रवेश किया ॥ २७ ॥

तदा तदन्तःपुरमुज्जितप्रथं

सुरैरिवोत्सृष्टमभास्करं दिनम् ।

निरीक्ष्य सर्वं तु विविक्तमात्मवान्

मुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥ २८ ॥


इति चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः ॥

उस समय जोभाहानं निर्जन रनवास को देख, भरत रोने लगे और उसी प्रकार अत्यन्त दुःखी हुए, जिस प्रकार देवासुर संग्राम में सूर्यरहित दिन को देख, देवता लोग दुःखी हुए थे ॥ २८ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ चौदहवां सर्ग समाप्त हुआ ।



पञ्चदशोत्तरशततमः सर्गः



ततो निक्षिप्य<sup>१</sup> मातुः स अयोध्यायां दृढव्रतः ।

भरतः शोकसन्तप्तो गुरुनिदमयाव्रवीत् ॥ १ ॥

दृढव्रतधारी भरत जी ने माताओं को अयोध्या में पहुँचा दिया । तदनन्तर वे शोक से पीड़ित हो, वशिष्ठादि गुरुजनों से बोले ॥ १ ॥

नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽद्य वः ।

तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना ॥ २ ॥

१ निक्षिप्य—संस्थाप्य । ( शि० )

मैं नन्दिग्राम जाऊँगा, इसके लिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ रह कर जैसे होगा वैसे श्रीरामचन्द्र जी के वियोग के समस्त दुःख सहूँगा ॥ २ ॥

गतश्च हि दिवं राजा वनस्थश्च गुरुर्मम ।

रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥

महाराज तो स्वर्ग पधारे, और बड़े भाई वन में जा बैठे। अतः मैं राज्यशासन के लिये श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीक्षा करूँगा। क्योंकि महायशस्वी श्रीरामचन्द्र ही अयोध्या के राजा हैं ॥ ३ ॥

एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः ।

अब्रुवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४ ॥

महात्मा भरत जो के ऐसे शुभ वचन सुन, समस्त मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी उनसे बोले ॥ ४ ॥

सुभृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया ।

वचनं भ्रातृवात्सल्यादनुरूपं तवैव तत् ॥ ५ ॥

हे भरत ! तुमने भ्राता के स्नेहवश जो कुछ कहा, वह अत्यन्त श्लाघनीय है। जो न हो, ये वचन तुम्हारे ही मुख से निकलने योग्य हैं ॥ ५ ॥

नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसैहृदे ।

आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान् ॥ ६ ॥

जब तुम अपने भाई में प्रोत्तिवान हो और उनका सौहार्द्र सम्पादन कर अत्यन्त श्रेष्ठ मार्ग में पहुँचे हुए हो, तब भला कौन पुरुष तुम्हारी बात न मानेगा ॥ ६ ॥

मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाऽभिलषितं प्रियम् ।

अन्नवीत्सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७ ॥

अपनी अभिलाषा के अनुसार मंत्रियों के मुख से प्रिय वचन सुन भरत जी ने सुमंत्र से कहा कि, मेरा रथ तैयार करो ॥ ७ ॥

प्रहृष्टवदनः सर्वा मातुः समभिवाद्य सः ।

आरुरोह रथं श्रीमाञ्छत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ ८ ॥

जब रथ आ गया, तब भरत जी प्रसन्न हो कर सब माताओं से अच्छी तरह वार्तालाप कर और उनसे आज्ञा ले, शत्रुघ्न जी सहित रथ पर सवार हुए ॥ ८ ॥

आरुह्य च रथं शीघ्रं शत्रुघ्नभरतावुभौ ।

ययतुः परमप्रीतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९ ॥

उस रथ पर शीघ्र सवार हो, मंत्रियों और पुरोहितों के साथ ले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न परम प्रसन्न होते हुए वहाँ से चले ॥ ९ ॥

अग्रतो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः ।

प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत् ॥१०॥

वशिष्ठादि पूज्य ब्राह्मण भरत के रथ के आगे पूर्व को मुख कर सब को साथ लिये हुए नन्दिग्राम की ओर चले ॥ १० ॥

वलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कुलम् ।

प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११ ॥

भरत जी के वहाँ से खाने होते ही उनकी सेना भी हाथी घोड़ों रथों के सहित विना बुलाये ही उनके पीछे होनी तथा सब पुरवासी भी उनके साथ हो लिये ॥ ११ ॥

रथस्थः स हि धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः ।

नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्याधाय पादुके ॥ १२ ॥

धर्मात्मा एवं भ्रातृवत्सल भरत अपने माथे पर भाई की खड़ाऊँओं को रखे हुए, रथ पर सवार हो बहुत शीघ्र नन्दिग्राम में पहुँचे ॥ १२ ॥

ततस्तु भरतः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः ।

अवतीर्य रथात्तूर्णं मुखनिदमुवाच ह ॥ १३ ॥

तदनन्तर भरत जी तुरन्त ही नन्दिग्राम में प्रवेश कर और तुरन्त रथ से उतर गुरुओं से यह बोले ॥ १३ ॥

एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत्स्वयम् ।

योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूपिते ॥ १४ ॥

भाई श्रीरामचन्द्र ने यह धेष्टराज्य मुझे धरोहर की तरह सौंपा है, सो उनकी ये सुवर्ण भूपित पादुका हो इसके योग क्षेम का निर्वाह करेंगे ॥ १४ ॥

भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासं<sup>१</sup> पादुके ततः ।

अन्नवीदुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलम्<sup>२</sup> ॥ १५ ॥

अनन्तर श्रीराम की दी हुई प्रतिनिधि रूपी उन पादुकाओं को अपने सीस पर लगा, दुःख सन्तप्त हो भरत जी सब प्रजाजनों से बोले ॥ १५ ॥

छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविधौ मतौ ।

आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥१६॥

१ सन्न्यासं पादुके—स्वप्रतिनिधित्वेनन्यस्तेपादुके । ( गो० ) २ प्रकृति-मण्डलम्—प्रजासमूहं । ( शि० )

इन पादुकाओं को लाजात् श्रीरामचन्द्र जी के चरण समस्त, इनके ऊपर शोभ्र रुद्र तानों, चँवर डुलाओं, क्योंकि ये मेरे परम गुरु की पादुकाएँ हैं और इनसे राज्य में मानों धर्म स्थापित हुआ है ॥ १३ ॥

[ नोट—“पादुकाओं से राज्य में धर्म का स्थापित होना” अर्थात् वंदे के रहते छोटे का राजसिंहासन पर बैठना अधर्म था। अतः ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिनिधि रूप पादुकाओं के अब राजसिंहासन पर स्थापित होने से, अधर्म दूर हुआ है और धर्म स्थापित हुआ है। ]

भ्रात्रा हि मयि सन्न्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्\* ।

तमिमं १पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने प्रेमपूर्वक जो यह बरोहर मुझे सौंपी है, सो इसकी मैं उनके लौट कर आने तक रक्षा करूँगा ॥ १७ ॥

क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम् ।

चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ १८ ॥

फिर जब कि, वे अयोध्या जो मैं आ जायेंगे, तब मैं अपने हाथों उनके चरणों में ये पादुका पहिना, पादुका सहित उनके चरणों के दर्शन करूँगा ॥ १८ ॥

ततो निक्षिप्तभारोज्ज्ञं राघवेण समागतः ।

निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवृत्तिताम् १ ॥ १९ ॥

१ पालयिष्यामि—रक्षिष्यामि । ( गो० ) २ गुरुवृत्तिताम् मन्त्रिये—  
पितृवशुभ्रं चरिष्यामि । ( गो० ) \* राजान्तरं—“वाहदादौम् ।”



तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी से मिल और उनका राज्य उनको सौंप पिता की जैसी सेवा पुत्र को करनी चाहिये, वैसी मैं उनकी सेवा करूँगा ॥ १९ ॥

राघवाय च सन्न्यासं दत्त्वेमे वरपादुके ।

राज्यं चेदमयोध्यां च धृतपापोऽ भवामि च ॥ २० ॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र को इन धरोहर रूपी पादुकाओं को, इस राज्य को और इस राजधानी अयोध्या को सौंप, अपनी माता के कारण अपने ऊपर लगे हुए अपयश को मैं छोड़ डालूँगा ॥ २० ॥

अभिपिक्ते तु काकुत्स्थे महृष्टमुदिते जने ।

प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेद्राज्याच्चतुर्गुणम् ॥ २१ ॥

श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होने पर प्रजाजन, हर्षित और आनन्दित होंगे । उस समय इस राज्य को श्रीरामचन्द्र जी के अर्पण करने से लोगों की मेरे प्रति चागुनी प्रीति ही नहीं होगी, बल्कि मुझे यश भी मिलेगा । ( अर्थात् अब जो अपयश मिला है वह दूर हो कर मुझे यश की प्राप्ति होगी ) ॥ २१ ॥

एवं तु विलपन्दीना भरतः स महायशाः ।

नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ २२ ॥

महायशस्वी वीर भरत इस प्रकार विलाप कर और दीन दुःखी हो, मंत्रियों की सहायता से नन्दिग्राम में रह, राज्य करने लगे ॥ २२ ॥

स वल्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः ।

नन्दिग्रामेऽवसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥

१ धृतपाप—इत्यत्रपापशब्देनकैकयीनिमित्तमयशउच्यते । ( गो० )

वीर भरत चीर वसन और जटाजूट धारण कर, मुनियों का वेध बना नमस्त सेना सहित नन्दिग्राम में रहने लगे ॥ २३ ॥

रामागमनमाकाङ्क्षन्भरतो भ्रातृवत्सलः ।

भ्रातृवचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तथा ॥ २४ ॥

पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामेऽवसत्तदा ।

सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम् ॥

भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां न्यवेदयत् ॥ २५ ॥

भ्रातृवत्सल, श्रीरामचन्द्र जी के आने की आकांक्षा रखने वाले, श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञाकारी और अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले भरत जी राजसिंहासन पर श्रीरामचन्द्र जी की पादुकाओं को अभिषिक्त कर नन्दिग्राम में रहने लगे । उन्होंने स्वयं उन पादुकाओं पर छत्र तान और चँवर डुला, समस्त राज्य का शासन उन पादुकाओं को निवेदन किया ॥ २४ ॥ २५ ॥

ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिचार्यपादुके ।

तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥ २६ ॥

तब श्रीमान् भरत जो इस प्रकार पादुकाओं का राज्याभिषेक कर उनके अधीन हो, राज्यशासन करने लगे ॥ २६ ॥

तदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चि-

दुपायनं चोपहृतं महार्हम् ।

स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य

चकार पश्चाद्भरतो यथावत् ॥ २७ ॥

इति पञ्चदशोत्तरशततमः सर्गः ॥

उस समय राज्यशासन सम्बन्धी जो कुछ करना होता, वह पादुकाओं को जना कर किया जाता अथवा कोई बड़ी मूल्यवान भेंट आती तो वह पहिले पादुकाओं के सामने रखी जाती थी पीछे उसका यथाविधि व्यवहार किया जाता था ॥ २७ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—:१:—

### षोडशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

प्रतिप्रयाते भरते वसन्त्रांमस्तपोवने ।

लक्षयामास १ सोद्वेगमथौत्सुक्यं २ तपस्विनाम् ॥ १ ॥

भरत जी जब अयोध्या में लौट आये तब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, चित्रकूट पर्वतवासी तपस्विगण डरे हुए हैं और वे स्थानान्तर में जाने को उत्सुक हो रहे हैं ॥ १ ॥

ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे ।

राममाश्रित्य ३ निरतास्तानलक्षयदुत्सुकान् ॥ २ ॥

जो तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप तापसाश्रम में श्रीराम के सहारे रहा करते थे, उन्हें भी उस स्थान को छोड़ अन्यत्र जाने के लिये, श्रीरामचन्द्र जी ने उत्सुक देखा ॥ २ ॥

नयनैर्भ्रुकुटीभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः ।

अन्योन्यमुपजल्पन्तः ४ शनैश्चक्रुर्मिथः ५ कथाः ॥ ३ ॥

१ सोद्वेगं—समयं । ( गो० ) २ भौत्सुक्यं—भाश्रमान्तरगमनाभिलाषं ।  
( गो० ) ३ निरतास्तान्—उत्सुकानगमनोत्सुकान् । अलक्षयतरामः  
इत्युपपन्नः । ( गो० ) ४ मिथः—रहस्ये । ( गो० )

क्योंकि वे नेत्रों और भृकुटियों के सङ्केतों से, श्रीराम को दिखा दिखा, सम्बन्ध युक्त हो, आपम में बातचीत और धीरे धीरे कुछ गुप्त परामर्श किया करते थे ॥ ३ ॥

तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि<sup>१</sup> शङ्कितः ।

कृताञ्जलिखाचेदमृषिं कुलपतिं ततः ॥ ४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उनको उत्सुक देख और अपने विषय में उनको सशङ्कित देख, उनके अव्यक्त ऋषि से हाथ जोड़ कर कहा ॥ ४ ॥

न कच्चिद्भगवन्किञ्चित्पूर्ववृत्तमिदं मयि ।

दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५ ॥

हे भगवन् ! क्या पूर्वकालीन मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को देख पड़ी, जिससे तपस्वि लोगों के मन में विकार पैदा हो गया है ॥ ५ ॥

प्रमादाच्चरितं किञ्चित्किञ्चिन्नावरजस्य<sup>२</sup> मे ।

लक्ष्मणस्यर्षिभिर्दृष्टं नानुरूपमिवात्मनः ॥ ६ ॥

अथवा क्या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई, महानुभाव लक्ष्मण जी को अनवधानतावश कोई अन्यायाचरण करते देखा है ॥ ६ ॥

कच्चिद्भ्रूषमाणा वः शुश्रूषणपरा मयि ।

प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीता युक्तं न वर्तते ॥ ७ ॥

१ आत्मनि शङ्कितः—स्वस्मिन् संज्ञातशङ्कः । २ अवरजस्य—लक्ष्मणस्य । ( गो० ) ३ नानुरूपं—अनुचितं । ( रा० )

या आप लोगों की सेवा करती हुई और मेरी सुश्रूषा में निरत सीता जी ने तो अनवधानतावश कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जो स्त्रियों के लिये अनुचित हो ॥ ७ ॥

अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः ।

वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम् ॥ ८ ॥

श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन सुन, एक बूढ़े महर्षि, जिनका शरीर बहुत दिनों तक तप करने करते जीर्ण हो गया था, कांपते हुए, सब प्राणियों पर दया करने वाले श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥८॥

कुतः कल्याणसत्त्वायाः<sup>१</sup> कल्याणाभिरतेस्तथा ।

चलनं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥ ९ ॥

हे तात ! कल्याण स्वभाव वाली और प्राणियों का कल्याण करने में तपस्वी सीता जी क्या कभी किसी के साथ—सो भी विशेष कर ऋषियों के साथ, किसी प्रकार का युक्तिविरुद्ध व्यवहार कर सकती है ? ॥ ९ ॥

त्वन्निमित्तमिदं तावत्तापसान्प्रति वर्तते ।

रक्षोभ्यस्तेन संविद्याः कथयन्ति मिथः<sup>२</sup> कथाः ॥१०॥

यथार्थ बात तो यह है कि, आपके कारण, ऋषियों के ऊपर राजसों ने अत्याचार करना आरम्भ कर दिया है। इसी लिये ऋषिगण भयभीत हो आपस में अपने वचाव के लिये गुप्त परामर्श किया करते हैं ॥ १० ॥

<sup>१</sup> कल्याणसत्त्वायाः—कल्याणस्वभावायाः । ( गी० ) <sup>२</sup> मिथः—  
रहसि । ( गी० )

रावणावरजः कश्चित्खरो नामेह राक्षसः ।

१उत्पाद्य तापसान्सर्वाञ्जनस्थाननिकेतनान् ॥ ११ ॥

रावण का झोटा भाई खर नाम का राक्षस है, जो जनस्थान-  
वासी सब तपस्वियों को उनके जनस्थान के आश्रमों से निकाल  
बाहर कर रहा है ॥ ११ ॥

धृष्टश्च जितकाशी<sup>२</sup> च नृशंसः पुरुषादकः ।

अवलिसृश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते ॥ १२ ॥

हे तात ! वह बड़ा ढोठ और जयी है तथा ऐसा निष्ठुर है कि,  
मनुष्यों को मार मार कर खाया करता है । अतः वह महापातकी है  
और आपका यहाँ रहना उसको सहा नहीं है ॥ १२ ॥

त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे ।

तदाप्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् ॥ १३ ॥

हे तात ! जब से तुम इस आश्रम में आ कर रहने लगे हो,  
तब से राक्षस लोग और भी अधिक तपस्वियों को सताने लगे  
हैं ॥ १३ ॥

दर्शयन्ति हि वीभत्सैः<sup>३</sup> ऋरैर्भीषणकैरपि ।

५नानारूपैर्विरूपैश्च<sup>६</sup> रूपैर्विकृतदर्शनैः<sup>७</sup> ॥ १४ ॥

वे लोग अनेक प्रकार के जुगुप्सित, भयङ्कर, भोषण, और  
विलक्षण चिकट शर्कों बना तपस्वियों को डराया करते हैं ॥ १४ ॥

१ उत्पाद्य—निष्कास्यति । ( गो० ) २ जितकाशी—जिताहवः । ( गो० )

३ वीभत्सैः—जुगुप्सितैः । ( गो० ) ४ ऋरैः—भयङ्करैः । ( गो० ) ५ नानारूपैः

—अनेक प्रकारैः । ( गो० ) ६ विरूपैः—लोकविकक्षण संस्थानैः । ( गो० )

७ रूपैः—शरीरैः । ( गो० ) ८ विकृत दर्शनैः—विकृतदृष्टिभिः । ( गो० )

१ अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयोज्य च तापसान् ।

प्रतिघ्नन्त्यपरान्क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थिताः ॥ १५ ॥

वे अशुभ और अपवित्र वस्तुएँ तपस्वियों के आश्रमों में डाल  
दिये जाते हैं । अधिकतर तो वे सीधे सादे तपस्वियों  
को देखते ही मार डालते हैं ॥ १५ ॥

तेषु तेष्वश्रमस्थानेष्वबुद्धभवलीय च ।

रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः ३ ॥ १६ ॥

वे बुद्ध बुद्धि वाले राक्षस छिप छिप कर सर्वत्र घूमा करते हैं,  
और जहाँ कहीं किसी तपस्वी को अचेत पाते हैं, तो तत्क्षण ही  
मार डालते हैं ॥ १६ ॥

अपक्षिपन्ति स्रग्भाण्डानग्नीन्सञ्चन्ति वारिणा ।

कलशांश्च प्रमृद्गन्ति हवने समुपस्थिते ॥ १७ ॥

जब तपस्वि लोग हवन करने बैठते हैं, तब राक्षस आ कर,  
शुबों और यज्ञपात्रों को फेंक कर, अग्नि के ऊपर पानी डाल बुझा  
देते हैं और कलसों को फोड़ डालते हैं ॥ १७ ॥

तैर्दुरात्मधिरामृष्टानाश्रमान्प्रजिहासवः ।

गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्युपयोऽद्य माम् ॥ १८ ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! उन दुष्टों के उपद्रवों से तंग आ कर तपस्वि  
इन आश्रमों को त्याग कर दूसरे आश्रमों में चलने के लिये मुझे  
प्रेरणा कर रहे हैं ॥ १८ ॥

१ अप्रशस्तैः—अशुभैः । ( गो० ) २ अबुद्ध—अविदित । ( गो० )

३ अल्पचेतसः—अबुद्धयः । ( गो० )

तत्पुरा राम 'शारीरामुपहिंसां तपस्विषु ।

दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम् ॥ १९ ॥

हे श्रीराम ! वे दुष्ट राक्षस इस वन के तपस्वियों को मार डालने की धमकियाँ दिया करते हैं, अतः हम लोग इस आश्रम को त्यागे देते हैं ॥ १९ ॥

बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम् ।

पुराणाश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २० ॥

यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, महर्षि अश्व का, बहुत से कन्दमूल फलों से युक्त विचित्र तपोवन है। हम सब मुनियों को साथ ले, वहीं जा बसेंगे ॥ २० ॥

खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा तात प्रवर्तते ।

सदास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते ॥ २१ ॥

हे तात ! अगर तुमको ठीक जान पड़े तो तुम भी हम लोगों के साथ वहीं चलो। क्योंकि वह खर राक्षस तुमको भी तंग करेगा ॥ २१ ॥

सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं यत्तस्य राघव ।

समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्य ते ॥ २२ ॥

हे राघव ! यद्यपि तुम उससे अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, तथापि स्त्री को साथ ले कर यहाँ रहना सदा खटके से खाली न होने के कारण, तुम्हारे लिये क्लेशदायी होगा ॥ २२ ॥

इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनम् ।

न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवरोद्धुं समुत्सुकम्\* ॥ २३ ॥

\* शरीरसबन्धिनाम्—हिंसां तपस्विषुदर्शयन्ति । ( शि० ) = पाठान्तरे "समसुकम् ।"



कुलपति का ऐसा वचन सुन और जाने के लिये उनको अत्यन्त उत्सुक देख, राजकुमार श्रीरामचन्द्र किसी प्रकार भी समझा बुझा कर, वह स्थान त्यागने से उन्हें न रोक सके ॥ २३ ॥

अभिनन्द्य समापृच्छथ समाधाय च राघवम् ।

स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह ॥२४॥

तदनन्तर कुलपति, श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा कर, उनको समझा बुझा और उनसे विदा हो तथा सब तपस्त्रियों को साथ ले, उस आश्रम को त्याग कर, चल दिये ॥ २४ ॥

रामः १संसाध्य तृषिगणमनुगमनाद्

देशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम् ।

सम्यक्प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः

पुण्यं वासाय खनिलयमभिसंपेदे ॥ २५ ॥

इस प्रकार जब उन लोगों की प्रस्थान करने की तैयारी हुई, तब श्रीरामचन्द्र जी भी कुछ दूर तक उनको पहुँचाने गये । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी कुलपति की अनुमति ले और उनको प्रणाम कर, अपनी पवित्र पर्णशाला में लौट आये । जब श्रीरामचन्द्र जी लौटने लगे, तब ऋषियों ने प्रीतिपूर्वक योग्य कर्त्तव्यकर्म का भली भाँति उनको उपदेश दे, उनको विदा किया ॥ २५ ॥

आश्रमं तृषिविरहितं प्रभुः

क्षणमपि न विजहौ स राघवः ।

राघवं हि सततमनुगता-

स्तापसाश्चर्षिचरितधृतगुणाः ॥ २६ ॥

इति षोडशोत्तरशततमः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी उस ऋषिहीन आश्रम को क्षण भर के लिये भी सूना नहीं छोड़ते थे । उनमें से कुछ ऋषि ऐसे थे जो श्रीरामचन्द्र जी का तपस्वियों जैसा आचरण देख, उनको अपना मन समर्पित कर चुके थे । अतः वे ऋषि श्रीरामचन्द्र जी को अपने मन में सदा स्मरण किया करते थे ॥ २६ ॥

[ श्लोक २५, २६ का वृत्त भूषणकार ने चिन्त्य बतलाया है । ]

अयोध्याकाण्ड का एक सौ सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः

—:o:—

राघवस्त्वथ यातेषु तपस्विषु विचिन्तयन् ।

न तत्रारोचयद्वासं कारणैर्वहुभिस्तदा ॥ १ ॥

ऋषियों के उस आश्रम को त्याग कर चले जाने पर, श्रीरामचन्द्र जी ने अनेक बातों को सोच विचार कर, वहाँ रहना ठीक न समझा ॥ १ ॥

इह मे भरतो दृष्टो यातरश्च सनागराः ।

सा च मे स्मृतिरन्वेति तां नित्यमनुशोचतः ॥ २ ॥

१ ऋषिचरितैरामेधृतगुणाः—समर्पित मनसः तापसाः राघवं सततमनुगताः मनसा प्राप्ताः । ( शि० )

श्रीरामचन्द्र ने विचारा कि, इस स्थान पर नगरवासियों से, भाई भरत से और माताओं से मेरी भेंट हुई थी, सो यहाँ रहने से मेरी वित्तवृत्ति सदा उर्हींकी ओर लगी रहती है, और वह मुझे शोकाकुल किया करती है ॥ २ ॥

स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः ।

हयहस्तिकरीपैश्च उपमर्दः कृतो भृशम् ॥ ३ ॥

विशेष कर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से, हाथो घोड़ों ने (जो लीद और मूष त्याग किया था अथवा) जो रोदा था, इससे यहाँ की भूमि अत्यन्त गन्दी हो गयी है ॥ ३ ॥

तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्त्य राघवः ।

प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च सङ्गतः ॥ ४ ॥

अतः इस आश्रम की त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है । इस प्रकार सोच विचार कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने साथ सीता जी और लक्ष्मण को ले, वहाँ से चल दिये ॥ ४ ॥

सोऽत्रेरांश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः ।

तं चापि भगवानत्रिः पुत्रयत्प्रत्यपद्यत ॥ ५ ॥

महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ से प्रस्थान कर, अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच, मुनि को प्रणाम किया । अत्रि मुनि ने भी उनको पुत्रभाव से देखा ॥ ५ ॥

स्वयमातिथ्य<sup>१</sup>मादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम् ।

सौमित्रिं च महाभागां सीतां च समसान्त्वयत्<sup>२</sup> ॥ ६ ॥

१ प्रातिष्ठत—प्रस्थितः । (गो०) २ आतिथ्यमादिश्य—आतिथ्यं कृत्वा । (गो०) ३ समसान्त्वयत्—प्रतियुक्तेन चक्षुषापश्यत् । (रा०)

अत्रि ऋषि ने स्वयं श्रीरामचन्द्र जी का यथाविधि अतिथि सत्कार कर, महामाग लक्ष्मण और सीता जी को स्नेह की दृष्टि से देखा ॥ ६ ॥

पत्नीं च समनुपासां वृद्धामामन्त्र्य सत्कृताम् ।

सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ ॥

सब प्राणियों के हित में रत, धर्मज्ञ अत्रि मुनि ने वहाँ पर उपस्थित, अपनी वृद्धा तपस्विनी पत्नी अनुसूया जी को बुला कर, उनको आदरपूर्वक बिठा कर सम्भाषाया ॥ ७ ॥

अनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् ।

प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीमत्रदीदृषिसत्तमः ॥ ८ ॥

तदनन्तर ऋषिश्रेष्ठ अत्रि जी ने उन महामाष्यवती, तपस्विनी और धर्म में निरत अनुसूया जी से कहा कि, जानकी जी हमारे आश्रम में आयी हैं, सो इनको अपने साथ ले जा कर, इनका आदर सत्कार करो ॥ ८ ॥

रामाय चाचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम् ।

दश वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम् ॥ ९ ॥

यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता ।

उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता ॥ १० ॥

दश वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः ।

अनसूयाव्रतैः स्नात्वा प्रत्यूहाश्च निवर्तिताः ॥ ११ ॥

तदनन्तर अत्रि जी ने श्रीरामचन्द्र जी से तपस्विनी एवं धर्म-चारिणी अनुसूया को वह सब वृत्तान्त कहा कि, दस वर्ष तक

बराबर जल की वृष्टि न होने से जब संसार भस्म होने लगा था, तब अनुसूया जी ने किस प्रकार अपनी उग्र तपस्या से ऋषियों के लिये फजमून उत्पन्न किये और स्नान करने को गङ्गा नदी वहाँ बहायी और किस प्रकार हजार वर्ष तक उग्र तपस्या कर और तपस्या के प्रभाव में, सब ऋषियों के तप के निघ्न नष्ट किये ॥ १० ॥ ११ ॥

देवकार्यनिमित्तं च यया सन्त्वरमाणया ।

दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२ ॥

अग्नि जी ने श्रीराम जी से कहा—हे अनघ ! यह वही अनुसूया हैं, जिन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिये, तुरन्त ही दस रात की एक रात कर दी थी ॥ १२ ॥

तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां यशस्विनीम् ।

अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३ ॥

अतः इन्हीं सब कारणों से यह यशस्विनी सब प्राणियों से नमस्कार किये जाने योग्य अर्थात् सब की पूज्या हैं। इन बूढ़ी बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मनवाली अनुसूया जी के साथ जानकी जी जाँय ॥ १३ ॥

अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता ।

तां शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम् ॥१४॥

जो अपने उत्कृष्ट कर्मों के कारण लोकों में अनुसूया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन तपस्विनी, एवं साथ जाने के योग्य अनुसूया के पास जानकी जी शीघ्र जाँय ॥ १४ ॥

एवं ब्रुवाणं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः ।

सीतामुवाच धर्मज्ञामिदं वचनमुत्तमम् ॥ १५ ॥

अत्रि जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा "तथास्तु"—(बहुत अच्छा सीता अनुसूया जी के साथ जायँगीः) तदनन्तर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से यह वचन कहा ॥ १५ ॥

राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितम् ।

श्रेयार्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम् ॥ १६ ॥

हे राजपुत्रि ! मुनि जी ने जो कहा सो तो तुमने सुन ही लिया! अतः अब तुम अपने कल्याण के लिये शीघ्र इन तपस्विनी जी के साथ गमन करो ॥ १६ ॥

सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य हितैषिणः ।

तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मैथिली ॥ १७ ॥

हितैषी श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, सीता जी, पति-व्रत धर्म की जानने वाली अत्रिपत्नी—अनुसूया के साथ गयी ॥ १७ ॥

शिथिलां वलितां वृद्धां जरापाण्डुरमूर्धजाम् ।

सततं वेपमानार्द्धीं प्रवाते क्रदली यथा ॥ १८ ॥

अनुसूया जी का शरीर, बुढ़ापे के कारण शिथिल हो गया था, सब शरीर की त्वाल सिकुड़ गयी थी और सिर के बाल सफेद हो गये थे । हवा के वेग से कांपते हुए केले के पेड़ की तरह, उनका शरीर सदा काँपा करता था ॥ १८ ॥

तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम् ।

अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत् ॥ १९ ॥

उन महाभाग्यवती और पतिव्रता अनुसूया जी को, सीता जी ने अपना नाम ले कर प्रणाम किया ॥ १९ ॥

[ नोट—धर्मशास्त्र में जहाँ प्रणाम करने की विधि लिखी है, वहाँ प्रणाम करने वालों के नामोच्चारण पूर्वक प्रणाम करने की विधि निर्दिष्ट है । यथा—“अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक शर्माऽहं अभिवादयामि ।” ]

अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तामनिन्दिताम् ।

वद्वाञ्छलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम् ॥ २० ॥

उन अनिन्दिता तपस्विनी जी को वैदेही ने प्रणाम करके, तदुपरान्त हाथ जोड़ और प्रसन्न हो उनसे कुशल प्रश्न किया ॥२०॥

ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् ।

सान्त्वयन्त्यब्रवीद्दृष्ट्वा दिष्ट्या<sup>१</sup> धर्ममवेक्षसे<sup>२</sup> ॥ २१ ॥

धर्मचारिणी और महाभाग्यवती सीता जी को प्रणाम करते और कुशलप्रश्न पूँछते देख, अनुसूया जी ने धीरज बँधाने के लिये सीता जी से कहा—हे सीते ! यह बड़े सौभाग्य की बात है कि, तुम पतिव्रतधर्म की और भली भाँति ध्यान देती हो ॥ २१ ॥

त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमृद्धिं च मानिनि\* ।

अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या<sup>६</sup> त्वमनुगच्छसि ॥ २२ ॥

१ समुदाहरत्—प्रणाम विधिविनाञ्जारयामास । ( शि० ) २ दिष्ट्या—भाग्येन । ( गो० ) ३ धर्ममवेक्षसे—पातिव्रत्य धर्ममवधानेन समीक्षसे । ( गो० ) ४ मानं—अहंकारं । ( गो० ) ५ अवरुद्धं—नियुक्तं । ( शि० ) ६ दिष्ट्या—भाग्यमेतत् । ( शि० ) \* पाठान्तरे—“भामिनि” ।

हे मानिनो ! तुम्हारे लिये यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि, तुम अपनी जाति वालों की, राजकुमारी होने के अहङ्कार को और धन सम्पत्ति को त्याग कर, वनवासी श्रीराम की अनुगामिनी हुई हो ॥ २२ ॥

नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वा शुभः ।

यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदयाः ॥२३॥

पति वन में रहे अथवा नगर में रहे, पति पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो ; जो स्त्री अपने पति से प्रीति रखती है, वह उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त होती है ॥ २३ ॥

दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः ।

स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ २४ ॥

भले ही पति क्रूर स्वभाव का हो, कामी हो, धनहीन हो, किन्तु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिये उनका पति देवता के तुल्य है अथवा पति ही बनका परम देवता है ॥ २४ ॥

नातो विशिष्टं पर्यामि बान्धवं विमृशन्त्यहम् ।

सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतमिवाव्ययम् ॥ २५ ॥

हे वैदेही ! मैंने भली भाँति विचार कर देखा, परन्तु पति से अधिक स्त्रियों का बन्धु कोई नहीं पाया । क्योंकि पति सब अवस्थाओं में, अक्षय तप को तरह, पत्नी की रक्षा करने में समर्थ है ॥ २५ ॥

न स्वेवमवगच्छन्ति गुणदोषमसत्स्त्रियः ।

कामवक्तव्यहृदया भर्तृनाथाश्चरन्ति याः ॥ २६ ॥

१ सर्वत्रयोग्यं—सर्वावस्थानुरक्षणसमर्थ । ( गो० )



हे वैदेही ! कामासक, पतियों की स्वामिनो दुष्टा स्त्रियां, भलाई  
बुराई का विचार नहीं करतीं ॥ २३ ॥

प्राप्नुवन्त्ययशश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिलि ।

अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः ॥२७॥

हे मैथिली ! ऐसी स्त्रियां निश्चय ही अनकरने कामों में फँस,  
अपनी निन्दा करवाती और धर्मभ्रष्ट भी होती हैं ॥ २७ ॥

त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः ।

स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा धर्मकृतस्तथा ॥ २८ ॥

किन्तु तुम्हारी तरह जिन गुणवती स्त्रियों ने संसार के  
अच्छे बुरे कर्मों को जान लिया है, वे, पुण्यकर्मा पुरुषों की तरह  
स्वर्गप्राप्त करती हैं ॥ २८ ॥

तदेवमेनं त्वमनुव्रता सती

पतिव्रतानां समयानुवर्तिनी ।

भव स्वभर्तुः सह धर्मचारिणी

यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥

इति सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ॥

हे सती ! इसी प्रकार तुम पति के कहने में चल और पति-  
व्रतार्थों के आचरण करती हुई, अपने पति की सहधर्मिणी हो ।  
ऐसा करने से तुम्हें यश और पुण्य दोनों मिलेंगे ॥ २९ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ सप्तहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

## अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः

—:०:—

सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया ।

प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १ ॥

जब निन्दारहित अनुसूया ने इस प्रकार कहा, तब सीता जी उनके कथन का अनुमोदन कर धीरे से बोलीं ॥ १ ॥

नैतदाश्चर्यमार्याया यन्मां त्वमनुभापसे ।

विदितं तु मयाप्येतद्यथा नार्याः पतिर्गुरुः ॥ २ ॥

हे आर्ये ! आपका मुझे इस प्रकार का उपदेश देना—कोई आश्चर्य की बात नहीं है । परन्तु मैं भी यह जानती हूँ कि, नारी का पति ही गुरु होता है ॥ २ ॥

यद्यप्येष भवेद्गर्ता ममार्ये वृत्तवर्जितः ।

१अद्वैधमुपचर्तन्यस्तथाप्येष मया भवेत् ॥ ३ ॥

यद्यपि पति अच्छी वृत्ति से हीन और दरिद्र ही क्यों न हो, तथापि मुझ जैसी स्त्रियों को उसके प्रति द्वैधी भाव न रखना चाहिये अर्थात् पति के साथ प्रीतिपूर्वक वर्ताव करना चाहिये ॥३॥

किं पुनर्यो गुणशलाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ।

स्थिरानुरागो धर्मात्मा २मातृवत्पितृवत्प्रियः ॥ ४ ॥

---

१ अद्वैधं—द्वैधीभावरहितं । (गो०) २ मातृवत्पितृवत्प्रियः—अत्यन्तहित परत्वेन । ( गो० )

फिर जो पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, दयावान्, जितेन्द्रिय, स्थिरानुरागी, धर्मज्ञ और माता पिता को तरह अत्यन्त हित तत्पर है, उसका तो कहना ही क्या है ॥ ४ ॥

यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः ।

तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते ॥ ५ ॥

देखिये, श्रीरामचन्द्र जी को जो भावना अपनी जननी कौशल्या में है, उनकी वही भावना महाराज को अन्य सब रानियों में भी है; अर्थात् उनको भी श्रीराम निज मातृवत् समझ उनके साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं ॥ ५ ॥

सकृद्दृष्टास्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः ।

मातृवद्वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवित् ॥ ६ ॥

इतना ही नहीं—किन्तु, महाराज दशरथ ने जिन स्त्रियों की ओर एक बार भी आँख उठा कर देख लिया अर्थात् अपनी स्त्री मान कर देखा, उन स्त्रियों को भी महाराज के प्यारे वीरवर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र मातृवत् सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ॥ ६ ॥

आगच्छन्त्याश्च विजर्न वनमेवं भयावहम् ।

समाहितं वे श्वश्र्वा च हृदये तद्भूतं महत् ॥ ७ ॥

मैं जब इस भयानक निर्जन वन को आने लगी, तब सासू कौशल्या जी ने आपकी तरह मुझे जो उपदेश दिया था, वह मेरे हृदय में है अर्थात् मेरे हृदयपटल पर अङ्कित है ॥ ७ ॥

पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसन्निधौ ।

अनुशिष्टा जनन्यास्मि वाक्यं तदपि मे धृतम् ॥ ८ ॥

विवाह के समय अग्नि-के नामने मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था, वह भी मुझे याद है ॥ = ॥

नवीकृतं च तत्सर्वं वाक्यैस्ते धर्मचारिणि ।

पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते ॥ ९ ॥

हे धर्मचारिणी ! पतिसेवा को छोड़ स्त्री के लिये दूसरी तपस्या नहीं है—इत्यादि उपदेश जो मेरे बन्धुबान्धवों ने मुझे दिये थे, उनको आपने पुनः (आज) मेरी स्मृति में ताज़े (नवीन) कर दिये ॥ ९ ॥

सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गं महीयते ।

तथावृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम् ॥ १० ॥

देखिये, सावित्री अपने पति की सेवा कर के ही, स्वर्ग में, आदर प्राप्त कर निवास करती हैं। इसी प्रकार आप भी पतिसेवा द्वारा स्वर्ग पावेंगी ॥ १० ॥

वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता ।

रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तमपि दृश्यते ॥ ११ ॥

सब स्त्रियों में श्रेष्ठ और स्वर्ग की देवी रोहिणी भी, चन्द्रमा के बिना एक क्षण भी नहीं देख पड़ती ॥ ११ ॥

एवंविधाश्च प्रवराः त्रियो भतुद्वव्रताः ।

देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥ १२ ॥

इसों प्रकार की और भी अनेक उत्तम स्त्रियाँ, जो दृढव्रत धर्म धारण करने वाली हैं, वे अपने पुण्यकर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में जाती हैं ॥ १२ ॥

ततोऽनुसूया सहृष्टा श्रुत्वाक्त्वं सीतया वचः ।

शिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत ॥ १३ ॥

सीता जो की ये बातें सुन, अनुसूया जो हर्षित हुई और सीता  
जो का मस्तक सूँघ उनको हर्षित कर, कहने लगीं ॥ १३ ॥

नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे ।

तत्संश्रित्य बलं सीतेच्छन्दये त्वां शुचिस्मिते ॥ १४ ॥

हे सीते ! मैंने अनेक प्रकार के व्रतनियम आदि का पालन कर,  
जो तपःफल सञ्चित किया है, वड़ थोड़ा नहीं बहुत अधिक है ।  
अतः हे शुचिस्मिते ! उस तपःफल के बल मैं तुझे वर देना चाहती  
हूँ सो तू वर माँग ॥ १४ ॥

उपपन्नं मनोज्ञं च वचनं तव मैथिलि ।

प्रीता चास्म्युचितं किं ते करवाणि ब्रवीहि मे ॥ १५ ॥

क्योंकि हे मैथिली ! तूने जो उचित एवं मनोहर वचन कहे  
हैं, उनसे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ । अब तू बतला कि, मैं तेरा  
क्या प्रियकार्य करूँ ॥ १५ ॥

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया ।

कृतमित्यब्रवीत्सीता तपोबलसमन्विताम् ॥ १६ ॥

पतिव्रतधर्म की जानने वाली तपोबल से युक्त अनुसूया जो  
के यह वचन सुन, सीता जो ने विस्मित हो तथा मुसक्या कर,  
कहा कि, आपके अनुग्रह ही से मेरी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी ॥ १६ ॥

सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तथा प्रीतराऽभवत् ।

सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम् ॥ १७ ॥

पतिव्रतधर्म की जानने वाली अनुसूया जी सीता जी के यह वचन सुन, उन पर और भी अधिक प्रसन्न हुई और बोली—हे सीते ! तुझे देख कर मुझे जो हर्ष हुआ है, उसके अनुरूप उसे मैं अवश्य सफल करूँगी ॥ १७ ॥

इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च ।

अङ्गरागं च वैदेहि महार्हं चानुलेपनम् ॥ १८ ॥

यह उत्तम दिव्य माला, वस्त्र, भूषण, अङ्गराग तथा मूल्यवान् उवटन, जो मैं देती हूँ, इनसे तेरे अंग सुशोभित होंगे ॥ १८ ॥

मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् ।

१ अनुरूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥

अङ्गरागेण दिव्येन लिप्ताङ्गी जनकात्मजे ।

शोभयिष्यति भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम् ॥ २० ॥

हे जनकनन्दिनी ! इन वस्तुओं का नित्य व्यवहार करने से भी ये कभी मैली नहीं होंगी और तेरे शरीर के लिये ठीक होंगी और तेरे अंगों को शोभा बढ़ावेंगी । मेरे दिये हुए इस दिव्य अङ्गराग को अपने अंगों में लगाने से तुम अपने पति को उसी प्रकार शोभित करोगी जैसे लक्ष्मीदेवी नाशरहित भगवान् श्रीविष्णु को शोभित करती हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

सा वस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि स्रजस्तथा ।

मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम् ॥ २१ ॥

जानकी जी ने अनुसूया जी के दिये हुए उत्तम प्रेमोपहार वस्त्र, अङ्गराग, आभूषण और मालाआदि को ग्रहण किया ॥ २१ ॥

१ अनुरूपं—तद्गान्त्रानुरूपं । ( गो० ) २ असंक्लिष्टं—अवाधिवशोम-मित्यर्थः । ( गो० )

प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्विनी ।

शिल्लिष्टाञ्जलिपुटा तत्र समुपास्त तपोधनाम् ॥ २२ ॥

यशस्विनी सीता ने अनुसूया जी के दिये हुए, उस प्रेमोपहार को ग्रहण किया और हाथ जोड़ कर तपस्विनी अनुसूया के पास बैठी ॥ २२ ॥

तथा सीतामुपासीनामनसूया दृढव्रता ।

वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिदनुप्रियाम्\* ॥ २३ ॥

जानकी जी को पास बैठी देख, दृढव्रत धारण करने वाली अनुसूया जी सीता जी से कोई मनोरञ्जन बात सुनने की इच्छा से पूँछने लगीं ॥ २३ ॥

स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना ।

राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ॥ २४ ॥

हे जानकी ! इन यशस्वी श्रीरामचन्द्र ने तुमको स्वयंवर में पाया यह कथा मैं संक्षेप से तो सुन चुकी हूँ ॥ २४ ॥

तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि ।

यथाऽनुभूतं कात्स्नर्येन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥ २५ ॥

किन्तु हे मैथिली ! इस वृत्तान्त को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ । सो जो कुछ हुआ वह समस्त मुझे सुनाओ ॥ २५ ॥

एवमुक्त्वा तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम् ।

श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम् ॥ २६ ॥

सीता जी ने, अनुसूया जी के ये वचन सुन, धर्मचारिणी तपस्विनी अनुसूया जी से यह कहा कि, सुनिये वह वृत्तान्त सुनाती हूँ ॥ २६ ॥

मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मयित् ।

क्षत्रधर्मे ह्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम् ॥ २७ ॥

सीता जी वाला—मिथिला के अधिपति, वीर और धर्मद्वारा महाराज जनक, चात्रकर्त्तव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं, और न्यायपूर्वक राज्य का शासन करते हैं ॥ २७ ॥

तस्य लाङ्गलहस्तस्य कर्षतः क्षेत्रमण्डलम् ।

अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता ॥२८॥

यज्ञ के लिये यज्ञभूमि का संस्कार करने को जब हल हाथ में ले के क्षेत्र जोतने लगे, तब मैं पृथिवी को भेद कर, उनकी पुत्री के रूप में निकल आयी ॥ २८ ॥

स मां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिर्विक्षेपतत्परः ।

पांसुकुष्ठितसर्वाङ्गीं जनको विस्मितोऽभवत् ॥ २९ ॥

उस समय राजा जनक जो मंत्रपाठपूर्वक मुट्ठी में ले औपधि के बीज बोने में तत्पर थे, मेरे सारे शरीर में धूल लगी देख, विस्मित हुए ॥ २९ ॥

अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य च स्वयम् ।

ममेयं तनयेत्युक्त्वा\* स्नेहो मयि निपातितः ॥ ३० ॥

सन्तानहीन होने के कारण, उन्होंने स्नेह से स्वयं मुझे उठा अपनी गोदी में लिया और यह कहा कि, यह मेरी बेटी है—मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करने लगे ॥ ३० ॥

अन्तरिक्षे च वायुक्ताप्रतिमामानुषी किल ।

एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ ३१ ॥

१ अनपत्येन चतेन—स्नेहान्मामङ्कमारोप्य । ( गो० )

\* पाठान्तरे—“ तनयेत्युक्ता ” ।



उस समय आकाश से मनुष्य जैसी वाली में यह वचन सुन पड़े कि—हे राजन् ! निश्चय ही यह तुम्हारी धर्मपुत्री है ॥ ३१ ॥

ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः ।

१ अवाप्तो विपुलामृद्धिं मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२ ॥

तब तो मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलाधीश बहुत प्रसन्न हुए और मेरे मिलने से नरेन्द्र को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई ॥ ३२ ॥

दत्ता चास्मीष्टवहेव्यै<sup>२</sup> ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणा<sup>३</sup> ।

तया संभाविता<sup>४</sup> चास्मि स्निग्धया मातृसौहृदात् ॥३३॥

सदा यद्दानुष्ठान करने वाले महाराज जनक ने मुझे अपनी पटरानी को जो सन्तान की इच्छा रखती थीं, ईप्सित-वस्तु की तरह सौंप दिया । वे आदर और स्नेह से माता जैसे अनुराग से मेरा लाजल पालन करने लगीं ॥ ३३ ॥

५ पतिसंयोगसुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता ।

चिन्तामभ्यगमद्दीना वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३४ ॥

मुझे विवाह करने के योग्य उम्र में पहुँची देख, पिता जी उसी प्रकार चिन्ताग्रस्त और विकल हुए, जिस प्रकार धन के नाश से निर्धन मनुष्य विकल और चिन्ताग्रस्त होता है ॥ ३४ ॥

सदृशाञ्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात् ।

६ प्रधर्षणामवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥ ३५ ॥

१ मल्लभोतरं तस्य महती समृद्धिर्जातिति भावः । ( रा० ) २ इष्टवहेव्यै—  
—इच्छावत्यै देव्यै । ( गो० ) यद्दानुष्ठानेच्छावत्यै देव्यै । ( रा० ) ३ पुण्य-  
कर्मणा—अनवरतयज्ञादिकर्मयुक्तेनजनकेन । ( गो० ) ४ संभाविता—  
संवर्धितेत्यर्थः । ( गो० ) ५ पतिसंयोग सुलभं—पाणिप्रहणोचितं । ( रा० )  
६ प्रधर्षणा—तिरस्त्रिक्या । ( गो० )

क्योंकि, कन्या का पिता चाहे इन्द्र के समान ही क्यों न हो और नर के पक्ष के लोग बराबर या हीन दर्जे ही के क्यों न हों किन्तु कन्या के पिता को, नीचा ही देखना पड़ता है ॥ ३५ ॥

तां धर्षणामदूरस्थां दृष्ट्वा चात्मनि पार्थिवः ।

चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाप्लवो यथा ॥ ३६ ॥

अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुछ भी चिन्तन न देख, चिन्तासागर में निमग्न हो गये और नौकाहीन जन की तरह वे उस चिन्तासागर के पार न जा सके ॥ ३६ ॥

अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाव्यगच्छद्विचिन्तयन् ।

सदृशं चानुरूपं च महीपालः पतिं मम ॥ ३७ ॥

पिता जी, मुझे अयोनिजा जान मेरे सदृश और मेरे योग्य वर, बहुत हृदने पर भी न पा सके। अतः उनको इस बात का सदा चिन्ता बनी रहती थी ॥ ३७ ॥

तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततम् ।

स्वयंवरं तनूजायाः करिष्यामीति धीमतः ॥ ३८ ॥

निरन्तर सोचते सोचते मेरे बुद्धिमान् पिता ने यह विचार कि, इस पुत्री के विवाह के लिये स्वयंवर की योजना करना उचित है ॥ ३८ ॥

महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना ।

दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूणी चाक्षयसायकौ ॥ ३९ ॥

पूर्वकाल में किसी समय किसी महायज्ञ में मेरे पिता जी के किसी पूर्वज को, वरुण जी ने प्रीतिपूर्वक एक श्रेष्ठ धनुष, और अक्षय वाणों से पूर्ण दो तरकस दिये थे ॥ ३९ ॥

असंचाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् ।

तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ ४० ॥

यह धनुष इतना भारी था कि, अनेक मनुष्य मिल कर बड़ा प्रयत्न करने पर भी उसे सरका भी नहीं सकते थे, और राजा लोग स्वप्न में भी उसको नहीं लंचा सकते थे ॥ ४० ॥

तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना ।

समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान् ॥ ४१ ॥

मेरे सत्यवादी पिता महाराज जनक ने पुरुषानुक्रम से वह धनुष पाया था । सो उन्होंने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्र किया और फिर उन सब के सामने बोले ॥ ४१ ॥

इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः ।

तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः ॥४२॥

हे राजा लोगों ! आप लोगों में से जो जो पुरुष इस धनुष को उठा कर, इस पर रोदा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री उसीको व्याह्र दूँगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४२ ॥

तच्च दृष्ट्वा धनुःश्रेष्ठं गौरवाद्गिरिसन्निभम् ।

अभिवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ ॥

राजा लोग पहाड़ की तरह भारी उस धनुषश्रेष्ठ को देख, और उसे उठाने को अपने में शक्ति न पा कर, धनुष को प्रणाम कर के चले गये ॥ ४३ ॥

सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः ।

विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः ॥ ४४ ॥

स्वयंवर होने के बहुत दिनों बाद यह महाद्युतिमान् श्रीरामचन्द्र जी विश्वामित्र जी के साथ, पिता जी का यज्ञ देखने आये ॥ ४४ ॥

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः ।

विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४५ ॥

मेरे पिता जी ने भाई लक्ष्मण के साथ आये हुए सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी और धर्मात्मा विश्वामित्र जी का भली भाँति आदर सत्कार किया ॥ ४५ ॥

प्रोवाच पितरं तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

सुतौ दशरथस्येमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्षिणौ ॥ ४६ ॥

तदनन्तर विश्वामित्र जी ने मेरे पिता से कहा कि, ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण हैं और यह आपका धनुष देखना चाहते हैं ॥ ४६ ॥

धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम्<sup>१</sup> ।

इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत् ॥ ४७ ॥

अतः आप श्रीरामचन्द्र जी को वरुण का दिया हुआ वह धनुष दिखला दीजिये। विश्वामित्र जी के यह कहने पर, जनक जी ने वह धनुष मँगवा दिया ॥ ४७ ॥

निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलः ।

ज्यां समारोप्य भ्रुविति पूरयामास वीर्यवान् ॥ ४८ ॥

और पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने पलक मारते उस धनुष को नवा, उस पर भ्रुट रोदा चढ़ा दिया और उसे टँझारा ॥ ४८ ॥

तेन पूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धनुः ।

तस्य शब्दोऽभवद्भीमः पतितस्याशनेरिव ॥ ४९ ॥

टंकोर देने के लिये ज़ोर से डोरी खींचने के कारण बीच से उसके दो टुकड़े हो गये । उसके टूटने से ऐसा भयङ्कर शब्द हुआ मानों कहीं वज्र गिरा हो ॥ ४९ ॥

ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना ।

निश्चिता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम् ॥ ५० ॥

तदनन्तर मेरे सत्यसन्ध पिता ने मेरा दान करने के लिये उत्तम जलपात्र मँगवाया और श्रीरामचन्द्र को मुझे देने को वे उद्यत हुए ॥ ५० ॥

दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः ।

अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥

किन्तु देने के लिये उद्यत होने पर भी, अयोध्याधिपति अपने पिता का अभिप्राय जाने बिना, श्रीरामचन्द्र जी ने मुझे ग्रहण करना स्वीकार न किया ॥ ५१ ॥

ततः श्वशुरमामन्थ्य वृद्धं दशरथं नृपम् ।

मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२ ॥

तब मेरे पिता ने मेरे वृद्ध ससुर महाराज दशरथ जी को निमंत्रण भेज बुलवाया और उनकी अनुमति से जगत् में प्रसिद्ध ( अथवा आत्मवेत्ता ) श्रीरामचन्द्र जी को मुझे सौंप दिया अर्थात् उनके साथ मेरा विवाह कर दिया ॥ ५२ ॥

मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला प्रियदर्शना ।

भार्यायै लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम् ॥ ५३ ॥

मेरी छोटी, सीधी सादी और सुन्दर बहिन उर्मिला को, मेरे पिता ने स्वयं लक्ष्मण को भार्या रूप में दिया । अर्थात् लक्ष्मण के साथ उसका भी विवाह कर दिया ॥ ५३ ॥

एवं दत्तास्मि रामाय तदा तस्मिन्स्वयंवरे ।

अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम् ॥ ५४ ॥

इति अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः ॥

हे तपोधने ! मैं उस स्वयंवर में इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी को दी गयी । तब से मैं धर्मानुसार पराक्रमवालों में श्रेष्ठ अपने पति श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने में अनुरागिनी हूँ ॥ ५४ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ अठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

—\*—

एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः

—:—

अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम् ।

पर्यष्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिलीम् ॥ १ ॥

पतिव्रताधर्म को जानने वाली अनसूया जी ने सीता के विवाह का सचिस्तर वृत्तान्त सुन, जानकी जी का मस्तक सूँघा और दोनों हाथों से पकड़, उनको अपने हृदय से लगा कर, कहा ॥ १ ॥

व्यक्ताक्षरपदं चित्रं<sup>१</sup> भाषितं मधुरं<sup>२</sup> त्वया ।

यथा स्वयंवरं वृत्तं तत्सर्वं हि श्रुतं मया ॥ २ ॥

तू ने स्वयंवर का जो समस्त वृत्तान्त, साफ साफ, मनोहर और विचित्र रीति से कहा, सो मैंने सब सुना ॥ २ ॥

रमेऽहं कथया ते तु दृढं मधुरभाषिणि ।

रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शिवाम् ॥ ३ ॥

हे मधुरभाषिणी ! यद्यपि तेरी इस कथा के सुनने में मेरा मन बहुत लगता है, तथापि श्रवण सूर्य भगवान् अस्ताचलगामी हो चुके हैं और सुन्दर रात होना चाहती है ॥ ३ ॥

दिवसं प्रतिकीर्णानामाहारार्थं पत्रिणाम् ।

सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्रूयते ध्वनिः ॥ ४ ॥

देखो न ! दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते हुए पक्षी, सन्ध्या हुई देख बसेरा लेने के लिये अपने अपने घोंसलों में आ गये हैं । यह उर्ध्वाका शब्द सुन पड़ता है ॥ ४ ॥

एते चाप्यविषेकार्द्रा मुनयः कलशोद्यताः ।

सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः ॥ ५ ॥

ये मुनि लोग स्नान कर भोगे हुए बल्कल वस्त्र तथा जल के कलसे लिये हुए, साथ साथ आ रहे हैं ॥ ५ ॥

ऋषीणामग्निहोत्रेषु हुतेषु विधिपूर्वकम् ।

कपोताङ्गारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः ॥ ६ ॥

१ चित्रं—बहुविधव्यञ्जनाविशिष्टम् । (शि०) २ मधुरं—मनोहरं । (शि०)

ऋषियों के विधि विधान से किये हुए अग्निहोत्र का धुआ, जो कबूतर की गरदन के रंग के समान लाल (धुमैले लाल) वर्ण का है, वायु के वेग से आकाश की ओर उठता हुआ देख पड़ता है ॥ ६ ॥

अल्पपर्णा हि तरवो वनीभूताः समन्ततः ।

विप्रकृष्टेऽपि देशेऽस्मिन्न प्रकाशन्ति वै दिशः ॥ ७ ॥

ये सब अल्प पत्तों वाले पेड़, जो यहाँ से दूर होने के कारण साफ नहीं दिखलायी पड़ते, चारों ओर से अन्धकार के कारण सघन जान पड़ते हैं। दिशाएँ भी अन्धकार झा जाने से प्रकाश रहित हो गयी हैं। अथवा अंधेरा झा जाने के कारण चारों ओर दूर दूर खड़े हुए थोड़े पत्ते वाले पेड़ भी सघन जान पड़ते हैं। अब किसो दिशा में भी उजियाला नहीं देख पड़ता ॥ ७ ॥

ऋजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः ।

तपोवनमृगा ह्येते वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८ ॥

देखो निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं और तपोवन के मृग अग्निहोत्र की वेदो के पवित्र स्थानों में पड़े सो रहे हैं ॥ ८ ॥

संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता ।

ज्योत्स्नाप्रावरणश्चन्द्रो दृश्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे ॥ ९ ॥

हे सीते ! देखो रात भी तारागणों से भूषित हो आ पहुँची और चन्द्रमा भी चाँदनी फैलाता हुआ आकाश में उदय हो रहा है ॥ ९ ॥

गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव ।

कथयन्त्या हि मथुरं त्वयाऽहं परितोषिता ॥ १० ॥

१. रजनीचरसत्त्वा—निशाचराः । ( शि० ) २. वेदितीर्थेषु—पावन-वेदिषु । ( शि० )



अब मेरी अनुमति से तुम जा कर श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करो । तुम्हारी मनोहर कथावार्ता सुन मुझे बहुत ही सन्तोष हुआ ॥ १० ॥

अलंकुरु च तावत्वं प्रत्यक्षं मम मैथिलि ।

प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालङ्कारशोभिता ॥ ११ ॥

हे मैथिली ! तुम इन दिव्य अलंकारों को मेरे सामने ही धारण करो और इनसे भूषित हो, मेरी प्रसन्नता बढ़ाओ । अर्थात् मुझे प्रसन्न करो ॥ ११ ॥

सा तथा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा ।

प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं त्वभिमुख्य ययौ ॥ १२ ॥

तब देवकन्या के तुल्य सीता जी उन अलङ्कारों से अपने शरीर को सजा कर और अनुसूया जी के चरणों में अपना सीस रख, ( अर्थात् प्रणाम कर ) श्रीरामचन्द्र जी के पास गयी ॥ १२ ॥

तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतांवरः ।

राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च ॥ १३ ॥

वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी सीता जी को भूषित देख, अनुसूया जी के दिये हुए प्रेमोपहार से बहुत प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥

न्यवेदयत्ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली ।

प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजम् ॥ १४ ॥

तदनन्तर अनुसूया जी के दिये हुए प्रेमोपहार अर्थात् वस्त्र, आभूषण, माला आदि के मिलने का वृत्तान्त सीता जी ने श्रीराम-

चन्द्र जी से कहा अथवा प्रेमोपहार की वस्तुएँ सीता जी ने श्रीराम-  
चन्द्र जी को दिखलाई ॥ १४ ॥

प्रहृष्टस्त्वभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः ।

मैथिल्याः सत्क्रियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम् ॥ १५ ॥

मनुष्यों के लिये अलभ्य, अनुसूया जी के किये हुए जानकी जी के सत्कार को देख, श्रीरामचन्द्र और महारथी लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए । अथवा अनुसूया जी ने जानकी जी का जो सत्कार किया, वह मनुष्यों के लिये दुर्लभ है, अतः उसे देख श्रीरामचन्द्र और महाबलवान् लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए । अथवा मनुष्यों को दुर्लभ जो वस्त्राभूषण प्रेमोपहार में अनुसूया जी ने जानकी जी को दिये थे, उन्हें देख श्रीरामचन्द्र और महाबलवान् लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥

ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननः ।

अर्चितस्तापसैः सिद्धैरुवास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने तपस्त्रियों और सिद्धों से सत्कारित हो, और अनुसूया जी के दिये हुए वस्त्राभरणों से भूषित चन्द्रमुखी सीता जी को देख, वह रात वहीं रह कर वितार्ई ॥ १६ ॥

तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिपिच्य<sup>२</sup> हुताग्निकान् ।

आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनगोचरान् ॥ १७ ॥

जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब दोनों पुरुषसिंहों ने स्नान और मन्व्योपासन अग्निदेशादि कर्मों से निश्चिन्त

१ पुण्यां—अनुसूययापुण्ययालंकारां सीतां दृष्ट्वा । (रा०) २ अभिपिच्य हुताग्निकान्—स्नात्वाकृतहोमान् । (गो०)

हो, वनवासी तपस्वियों से आगे वन में जाने के लिये विदा मांगी ॥ १७ ॥

तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः ।

वनस्य तस्य सञ्चारं राक्षसैः समभिप्लुतम् ॥ १८ ॥

तब धर्मचारी और वनवासी तपस्वियों ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा—हे राघव ! इस वन में मनुष्यों को घूमना फिरना, राक्षसों के कारण बड़ा भयावह है । अथवा राक्षसों के उपद्रव से यह वन प्रदेश बड़ी जोखों का स्थान हो रहा है ॥ १८ ॥

रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव ।

वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥ १९ ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! इस वन में नाना रूपधारी एवं नरमांसभोजी राक्षस और रक्त पीने वाले हिंस्रपशु रहते हैं ॥ १९ ॥

उच्छिष्टं वा प्रमत्तं वातापसं धर्मचारिणम् ।

अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥ २० ॥

वे राक्षस और जंगली हिंस्रपशु इस वन में किसी धर्मचारी तपस्वी को कभी अपवित्र दशा में या असावधान पाते हैं तो मार कर खा जाते हैं । अतः हे राघव ! आप इन दुष्टों को मारें । ( राक्षस अपवित्र दशा में रहने वाले तपस्वियों को और वन्य जन्तु सिंह व्याघ्रादि असावधान तपस्वियों को ) ॥ २० ॥

एष पन्था महर्षीणां फलान्यहरता वने ।

अनेन तु वनं दुर्गं गन्तुं राघव ते क्षमम् ॥ २१ ॥

हे राघव ! इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते हैं, अतः इसी रास्ते से आपका भी इस दुर्गम वन में जाना ठीक है ॥ २१ ॥

इतीव तैः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभि-

द्विजैः कृतस्वस्त्ययनः परन्तपः

वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः

सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम् ॥ २२ ॥

इति एकोनविंशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥

जब तपस्वियों ने हाथ जोड़ मङ्गल आशीर्वाद दे कर इस प्रकार कहा, तब शत्रुओं के तपाने वाले श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता जी सहित, उस दुर्गम वन में, उसी प्रकार प्रवेश किया, जिस प्रकार सूर्यदेव मेघमण्डल में प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥

अयोध्याकाण्ड का एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

॥ अयोध्याकाण्ड समाप्त हुआ ॥

इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये

चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम्

अयोध्याकाण्डः समाप्तः ॥

—:❀:—

॥ श्रीः ॥

## श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः

श्रीवैष्णवसम्प्रदायः

—\*—

पवमेतत्पुरावृत्तमाख्यातं भद्रमस्तु वः ।  
प्रव्याहरत विद्वन्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् ॥ १ ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामवः ।  
येपामिन्दोवस्थामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सत्यशालिनी ।  
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥

कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः ।  
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीक्ष्व वर्धताम् ॥ ४ ॥

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां  
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।  
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं  
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५ ॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनोयगुणाब्धये ।  
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ६ ॥

वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामजमूर्तये ।  
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॥ ७ ॥

विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः ।  
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥

पितृभकाय सततं भ्रातृभिः सह सीतया ।  
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ ९ ॥

त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे ।  
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥ १० ॥

सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे ।  
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥ ११ ॥

दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे ।  
गृध्रराजाय भकाय मुक्तिदायस्तु मङ्गलम् ॥ १२ ॥

सादरं श्वरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे ।  
सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिकाय मङ्गलम् ॥ १३ ॥

हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ।  
वालिप्रमथानायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥ १४ ॥

श्रोमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे ।  
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥ १५ ॥

आसाद्य नगरों दिव्यामभिषिकाय सीतया ।  
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ १६ ॥

मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः ।  
सर्वेश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ १७ ॥

माध्वसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ।

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥

काले वर्धतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ।

येषामिन्द्रीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणान्धये ।

चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ४ ॥

कायेन वाचा मनमेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥

स्मार्तसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥

काले वर्धतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥

अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।

अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥ ३ ॥

चरितं रघुनाथस्य शतकौटिप्रविस्तरम् ।

एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥ ४ ॥

शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा ।

स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥

यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते ।

वृषनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ७ ॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने ।

चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥

यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा ।

अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ९ ॥

धर्मतोत्पादने दैत्यान्मतो वज्रधरस्य यत् ।

अदितिर्मङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ १० ॥

श्रीन्विक्रमाभ्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ।

यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ११ ॥

ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ।

मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२ ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३ ॥



